

श्री प्रकरण-सन्नाह

भाग १

जिनवचनामहोदधिजन्य

पुरंधर सुविहित महाराज पूर्वाचार्य वचन तरंग विंदुरूप
विविध विषयक महाराज ग्रंथोनो यत्किंचित् संग्रह करीने

श्री मुंबापुरीमध्ये

शा० नीमसिंह माणक नामाख्य श्रावके
स्वामित्व विरहित
ज्ञान वृद्धयर्थ


आ पुस्तक लपावी प्रसिद्ध कसुं ठे.

शके १७९८ संवत् १९३३

पौष शुद्ध ३ सोमवार ता० १८ दिजमवर सने १८७६

“निर्णयसागर” मुद्रायंत्रमां रा० रा० जावजी दादानीये छाप्पुं छे.

आ पुस्तकनो सर्वप्रकारे सरकारना धाराप्रमाणे हक मालके स्वाधीन राखुं छे.



सुररयिनशीरिनसभगरारण.

प्रस्तावना.

आ पंचमकाल समाप्तिना अवसरे ठेला दूप्पसहनामा आचार्य थरो, तेमना निर्वाणसुधी जिनधर्मरूप मानससरोवरना साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका ए चतुर्विध संघरूप चार आरा खुला रहेवा जोयेठे. एवुं परमेश्वरनु वचन ठे. कदाचित कालना प्रबल प्रभावथी कोई समये कोई आरा न्यूनता पास्या जेवुं आय तोपण बाकीना चालु रहेला बीजा आराने प्रभावे समय पास्याथी ते आरा पण सुधरी जाय ठे.

आ समयमां पूर्वना समयना करतां घणी न्यूनता थई गएली दीठामां आवेठे. चतुर्विधसंघमां साधु तथा साध्वी तो क्वचितज दीठामां आवेठे अने श्रावक तथा श्राविकाथो नुं पण अल्प अस्तित्व ठे. तेथोनी ऊपरज धर्मवृद्धि आधार राखे ठे. धर्म वृद्धि ज्ञाननी वृद्धिथी थायठे. माटे ज्ञान वृद्धि अवश्य करवी जोयेठे. ज्ञाननी वृद्धि ज्ञानना साधनोनी वृद्धि ऊपर आधार राखेठे. ज्ञानना साधनो पूर्वाचार्य कृत ग्रंथोनी जीर्णोद्धार तथा अवलोकन, विद्यान्यास, उत्सुकता, धर्मप्रीति, अनिरुचि, तथा उद्योग प्रमुख ठे.

पूर्वाचार्योक्त ग्रंथोनी जीर्णोद्धार कखाथी ते समयना पंढितोनुं पांढित्य जाण्यामां आवेठे; मनुष्योनी धर्मऊपर केवी रुचि हती ते जणायठे. नूत कालथी ते आ वर्तमान कालसुधी वचगालामां धर्म तथा विद्वत्ता प्रमुखनी केटली अधिक न्यूनता थई ठे ते दीठामां आवेठे. पूर्वाचार्यो अति श्रम वेठी विद्यान्यास करी मोटा मोटा ग्रंथोनी रचना करता हता तेनी हेतु मात्र धर्मवृद्धि अथवा ज्ञानवृद्धि विना बीजो कांई हतो के गुं ते वात स्पष्ट देखाई आवेठे. ग्रंथनी रचना कखामां केवल परोपकार विना बीजो कांई पण स्वार्थ होयठे के गुं? तें कलाय ठे. पूर्व कालना करतां हालना वखतमां विद्यान्यासनो उद्योग केटलो अधिक अथवा न्यून थयोठे? ते जणाई आवेठे. इत्यादिक बीजा पण घणा हेतुउं दीठामां आवेठे. माटे अवश्य प्राचीन ग्रंथोनी जीर्णोद्धार करवो जोयेठे. केमके, ए ज्ञानवृद्धितुं मुख्य साधन ठे. जो पुरातन ग्रंथोनी जीर्णोद्धार नही थाय, तो कालांतरे विभेद थई जवानो संभव ठे. अने तेवुं थएलुं हाल दीठामां आवेठे, जुवो के हरिजइस्वरिए चौद शो ने चुमालीश ग्रंथो कखा ठे, ते बधानो जीर्णोद्धार नही थयाथी तेउंमांना केटलाएक ग्रंथोनी हाल पत्तो पण मलतो नथी, एवा बीजा पण अनेक सुविहित आचार्योना करेला ग्रंथोनी शोध मली शकतो नथी तेनुं कारण पण एज ठे. ते केटलुं लखियें! यद्यपि मारुं एम कहेवुं नथी के आज दिवससुधी को ईए ग्रंथोनी जीर्णोद्धार कखोज नथी, मोटा राजाउं तथा सद्गुकारो वगैरे घणा ज्ञान

जंमारा करी गथाळे ते अद्यापि विद्यमान ठे; अने तेथीज हाल केटलाएक पुरातन ग्रंथोनुं आपणने दर्शन आयळे. तथापि मात्र दर्शन करवाथीज कांई वलवानुं नथी, पण योग्यरीते उपयोग कख्याथी कार्यसिद्धि अवानो संनवळे. जेम पूर्व धर्माजिमानी राजा वगैराउए ज्ञान जंमारा कख्याळे तेम पाठल थयुं नथी. ए मोटी दिलगीरीनी वात ठे. जो एवो चालज पडी गयो होत तो एके ग्रंथ विभेद गयो न होत अने आटली ज्ञाननी न्यूनता पण थई न होत. जुवोके, देरासरनो जीर्णो-धार करवानो चाल पडी गयोळे तो तेनी संतति विभेद गएली देखाती नथी. तेमज ग्रंथोविषे चाल पडवो जोयेळे. केमके ग्रंथोनो जीर्णो-धार तो ज्ञाननी वृद्धिनुं एक मुख्य कारण ठे.

हालना समयमां ग्रंथोनो जीर्णो-धार करवाना जेवां साधनो मली आवेळे तेवां आगल कोई वखते पण नहोतां. पहेलां प्रथम ग्रंथोनो जीर्णो-धार तालपत्र ऊपर थएलो देखायळे, ने त्यार पठी कागल ऊपर थयो ठे ते अद्यापि सिद्ध ठे. परंतु ते हस्तक्रिया विना यंत्रादिकनी सहायताथी थएलो नथी. ने हाल तो सुझायंत्रनी अति उत्कृष्ट सहायता मली आवेळे, तेनो उपयोग करवानुं मूकी दर्शने आलस करी बेशी रहेछुं तो ग्रंथो केम कायम रहेरो ? हाल विद्यान्यास करीने नवा नवा ग्रंथोनी रचना करवी तो एक कोरे रही, पण ठतीशक्तिये पुरातन ग्रंथोनी रक्षा करवानो यत्न नही करछुं तो आपणेज ज्ञानना विरोधी ठरछुं. केमके जे जेनी रक्षा करे नही ते तेनो विरोधी अथवा अहितकर होयळे. ए साधारण नियम आपणी ऊपर लागु पडरो:

श्रावक जाईयो, पुरातन ग्रंथोनो जीर्णो-धार कख्याथी ते ग्रंथोनुं अवलोकन थरो, प्रयाशविना केटलोएक विद्यान्यास थरो, रस उत्पन्न थईने ज्ञान संपादन करवानी अंतःकरणमां उत्कंठा थरो. शुद्ध धर्म ऊपर प्रीति वधरो, अजिरुचि एटले पुनःपुनः ज्ञान मेलववानी इच्छा थरो, अने उद्योग प्रमुख सर्व ज्ञाननां साधनोनो सहज प्राप्त थरो. उद्योग ए सर्व पदार्थ मेलववानुं अथवा वृद्धि करवानुं मुख्य साधन ठे; परंतु अमस्ता उद्यमथीज कांई थई शकतुं नथी. तेनी साथे इव्यनी पण सहायता जोयेळे. इव्य जे ठे ते सर्वोपयोगी पदार्थ ठे. माटे इव्यवान पुरुषोए अथवा इय ए काम ऊपर लहू देवो जोयेळे. केमके, तेउनी ए फरज ठे के, जेम बने तेम ज्ञाननी वृद्धि करवी जोयेळे. ते आप्रमाणे:- सारा सारा पंढितोनी मारफते प्राचीन ग्रंथो सुधारी लखावी अथवा उपावीने प्रसिद्ध करवा. तेनो जाविक लोकोने अन्यास कराववो. इत्यादिक शास्त्रोमां कह्या प्रमाणे सर्व प्रकारे ज्ञाननी वृद्धि करवी. एवा हेतुथीज में आ ग्रंथो उपाववानुं काम हाथमां लीधुं ठे, परंतु कोईनी सहायता विना स्वतंत्र मारी मरजी प्रमाणे हुं ग्रंथो उपावी शकुं एवी मारीपाशे इव्यनी शक्ति नही

होवाने लीधे आ 'प्रकरण रत्नाकर' नामनुं मोटुं पुस्तक कहामवानी आगमज मारा स्व धर्मी नाइयोनी मने मदत लेवी पडीले. सारा नाग्यजोगे योग्य रीते मदत पण मली आवी, तेथी आ पुस्तकनो प्रथम नाग समाप्त करी ते गया जेष्ट मासमां प्रसिद्ध कख्यो अने आ बीजो नाग पण हमणा पूर्ण थयो ले तेथी हुं मने कृतकृत्य समजुं हुं.

आ ग्रंथ प्रसिद्ध करवाने मुख्य मदत करनार शोठ. केशवजी नायकले.

हरेक पदार्थने सम योग्यतावान वा अधिक योग्यतावान रक्षण करी शकेले एवं बहुधा दीठामां आवेले. जेम ग्रीष्म ऋतुना तापथी तप्त थएला पर्वतने मेघज रक्षण करेले, तेम ज्ञाननुं रक्षण ते उत्तम योग्यतावान पुरुषधीज थई शकेले. यद्यपि सकल चतुर्विध संघने ज्ञाननी रक्षा करवानो अधिकार ले, तथापि सर्वने तेवुं सामर्थ्य होतुं नथी. माटे योग्यतावानज रक्षण करी शके ले. तेवी योग्यता कोई विरलानेज होय ले, केमके, बाह्य सर्व लक्ष्म्यादि समृद्धि ठतां अंतरनेविषे जिन वचन श्रद्धानरूप समृद्धि पण जोये ले. तेमांनी बाह्य समृद्धि तो घणाथोने होयले तेम ठतां जिनवचन श्रद्धान होतुं नथी तो तेनाथी कोई पण एवं शुभ कृत्य थई शकतुं नथी. तेथी बाह्य संपत्ति सहित प्रवचनश्रद्धान पण जोये ले. बाह्य उत्तम संपदा अने अंतर स्वधर्म निष्ठा ए उत्कृष्ट पुण्यानुबंधीपुण्यनुं फल ले. तेवुं कोईएकनेज होय ले. एनुं प्रत्यक्ष उदाहरण आ वर्तमान दिशतकरूप कालनेविषे श्रेष्ठ केशवजी नायक ले. केमके, एवी योग्यतावान बीजो कोई पुरुष हाल दीठामां आवतो नथी. एथो बाह्य लक्ष्म्यादि संपत्तियुक्त ठतां आंतर धर्म सम्यक्त्व श्रद्धानरूप अत्युत्तम संपत्तिए करीने पण युक्त ले. जेनेविषे पंच प्रकृतिरूप अंतराय कर्मनो ह्योपशम आधुनिक सर्व संघ जनोना कर्त्ताअधिक दीठामां आवेले; एमना जेवुं आतप नाम कर्म तो कोई नूपने पण क्वचित् उदय थयलुं दृष्टि गोचर थरो! तेमज आदेय नामकर्म, अंगोपांग नाम कर्म, यशः कीर्त्तिनाम कर्म, प्रमुख शुभ प्रकृतिथोनुं एमणे एवो तो उत्कृष्टबंध कखोले के, तेवो हाल दक्षिणचरत्ता र्दमां कोई बीजानेविषे क्वचित् दीठामां आवसे एवा पुरुषने शुं अशक्य होय? अने कीयुं कार्य करवाने समर्थ न थाय! अर्थात् सर्व कार्य करवाने शक्तिमान ले. पूर्वे थईगएला सं प्रति राजा तथा वस्तुपाल तेजपाल अने कुमारपाल प्रमुख महत् प्रजाविक पुरुषोनी पठे एमणे पण वर्तमान कालानुसार धर्म दीपनार्थ तथा स्वश्रद्धान दर्शनार्थ श्री अर्हद्देवा लयो तथा अंजन शलाका प्रमुख उत्तम धर्म कृत्यो कखां ले; ते बधाथोथी पण अ

त्युत्तम ज्ञानवृद्धिनी उत्कंठा पूर्वक तड्युक्त पुरुषोने अतिशय आश्रय दियेठे; माटे नि श्रये करी एमने पूर्वजुत धर्म श्रद्धावान कुमारपाल राजा प्रमुखनी पंक्तिमां शासकं न गणाय. किंतु तेमनी तुलना करे तेवाज ठे. आ लखाणमां कोईए अतिशयोक्ति स मऊवी नही, पण निर्पक्षपात बुद्धिची विचार करी जोबुं के, शेर केशवजी नायक ए सर्व उपमाने योग्य ठे के नही! जुवो के अमे अंकित करवाने आरंज करेला आ ए क लक्ष संख्याक महत् चतुर्जागात्मक पुस्तकना अंकनीय स्वर्चनेविषे एवी युक्तिथी आश्रय आप्योठे के जेधकी केटलाएक समयोद्धरित पूर्व गीतार्थोए करी रचित प्रकर णोतुं सुखरूप पुनः जीर्णोद्धार थई शकशे. माटे एमने जेटली उपमादैये तेटली थोडीठे.

राठबहादूर बाबुसाहेब लक्ष्मीपति सिंहजी ठत्रपति सिंहजी.

शेर केशवजी नायकविषे लखतां आ प्रसंगे श्रीमच्छुदावाद निवासी स्वप्रांत नूप समान, लक्ष्म्यादि बाह्य अमित समृद्धि युक्त, उत्तम यशःकीर्ति नाम कर्मोदयवान, ज्ञान वृद्धयुत्कंठावान अतिशय, प्रतापी स्वधर्म दीपक, पूर्वोक्त पंक्ति अनिराजनीय, सर्व संघ तिलक नूत तथा श्रावक गुण सहित्यादि अपूर्व कृत्यालंकार नूषित राठबहादुर नूपतिदत्त पदक धारक बाबुसाहेब लक्ष्मीपति सिंहजी ठत्रपति सिंहजी पोताना नाम प्रमाणेज योग्यतावान होवाथी अधुना अनुपमेयज ठे.

जस्टिस् आँव् धि पीसारख्य नूपतिदत्त पदक धारक शेर केशवजी नायक तथा राठबहादुराख्य नूपतिदत्त पदक धारक शेर लक्ष्मीपति सिंहजी ठत्रपति सिंहजी जेवा प्रजा विक धर्म दीपक पुरुषो श्रावक मंजलनेविषे हमेश उत्पन्नधता रहो; अने आवा ज्ञान वृद्धिरूप धर्मकृत्यो कर्ता रहो एवो अमारो अंतःकरण पूर्वक आशिर्वाद ठे.

आ ज्ञानवृद्धिक उत्तम कृत्यने सारो आश्रय आपनार प्रजाविक पुरुषोनी पंक्तिमां शोणित, अपेक्षा तथा उपेक्षा रहित, सारासार ग्राहक, परम रहस्यज्ञ, परोपकार म तिमान, करुणा, दया, कृपा तथा शीलादि गुणयुक्त, श्री वीतरागपद कमल सक रंद लालसाय त्रमरायमान्, महात्मा सदृश मुनी महिमा सागरजी तथा सुमति सागर जी; एमनो अत्यंत प्रार्थना पूर्वक अत्युपकार युक्त नाम स्मरण अत्र गुंथित करुं बुं.

श्री मुंबईना श्रावक मंजलमांना श्रेष्ठ हरजम नरसिंह; श्रेष्ठ घेला चाई पदमसी, श्रेष्ठ वर्द्धमान पुनसी, श्रेष्ठ जोजरज देसल, एमणे ज्ञान वृद्धि विषयक पोतानी सारी उदारता दर्शावी ठे माटे तेमना उपकार पूर्वक हुं नाम गुंथित करुं बुं.

श्रीमच्छुदाबाद निवासी परम ज्ञान प्रसारोद्युक्त मतिमान स्वज्येष्ठ भ्राता तुल्य लक्ष्मी तथा गुण युक्त नृप दत्तक रायबाहादूर पद धारक बाबुसाहेब धनपति सिंहजी ठत्रपति सिंहजी एमने पण पोतानी उत्कृष्ट ज्ञान वृद्धि कृत्यने सारी उदारता दर्शावी ठे तेथी तथा बीजो पण ज्ञान वृद्धिने अर्थे पुस्तक अंकित करवानो हमेश उद्योग चालुं राखेठे तेथी अति सत्कार पूर्वक तथा मान्यता युक्त नामस्मरण गुंथित करुंठुं.

श्री मुंबईना श्रावक मंडलमांना शेट परबत लधा, शेट मूलजी देवजी, शेट जादव जी परबत, सा. नोजराज नरपाल, तथा शेट कीकानाई फूलचंद तथा शा. ठाकरसी देवजी एथोए पण यथाश्रदान प्रमाणे आ ज्ञानवृद्धिना कृत्यने आश्रय आप्योठे तेथी तेथोनुं उपकार सहित नामस्मरण गुंथित करुं ठुं.

श्री अहमदाबादना श्रावक मंडल माहेला शेट दलपत नाई जगुंजाई, तथा शेट मयानाई प्रेमानाई, एउनी ज्ञाननी प्रशस्ति थवानेविषे अति उत्कंठा जोईने मोटा आजार सहित नामस्मरण गुंथित करुं ठुं ;

श्री साणदवाला शेट साकलचंद हुकमचंद तथा श्री नरूचवाला शेट अनूपचंद मलु कचंद, एथोए पोतानी धर्मप्रजावना अधिक दर्शाववाने अर्थे ज्ञाननी वृद्धि थवा सारु जे उत्सुकता बतावी ठे ते जोईने मोटा उपकार साथे नामस्मरण गुंथित करुं ठुं.

श्री कड्ड मुदराना रहेवाशी शेट कस्तुरचंद सिंघजी पारेख एमनी अद्भुत धर्म प्री ति, वैराग्यता तथा ज्ञानवृद्धिनी अतिशय चाहना जोईने मोटा आदर पूर्वक आ पुस्तकनी साथे नाम गुंथित करुं ठुं.

साधुमंडल मार्गमार्गित संवेगी साधु वर्ग, अति विवेकी, ज्ञान पीयूष बुद्धुत्सुक जिनप्रवचन श्रवण श्रद्धावान श्रावक जन मन कर्णने परमामृत रहस्य पान कराव नार; साधु गुण नूषणालंकृत; ज्ञानवृद्धि कर्ता पुरुषरूप वृद्धोने मेघवृष्टि समान अत्युत्कृष्ट साधन नूत, महाराज श्री मूलचंडजी तथा जवेर सागरजीना, नामस्मरण प्रेम पूर्वक गुंथित करुं ठुं.

साधु मंडलमां साधु गुण संपन्न, ज्ञानरूप सूर्यना प्रकाशने आवरण करनारा जे नाना प्रकारना संशयो, कुतर्को, द्वेष, मान, ईर्ष्या तथा कुसंग प्रमुख वादल समूहरूप घनघटानो सम्यक् प्रकारे विध्वंश करवाने बलवान पवन समान ; धर्म तथा धर्मांग ज्ञानादिकनी वृद्धि करवाने पूर्वना अत्युत्तम सुविहित शास्त्रपारंगू आचार्यादि आर्य जन तुल्य स्याद्वाद सैलीना जाण बहुधा पंजाबाख्य देश निवाशी संवेगी साधु श्री आत्माराम समान आत्मारामजी एमनुं अति जाबपूर्वक नामस्मरण गुंथित करुंठुं.

संवेगी साधु श्री नितीविजयजी महाराज एतनो ज्ञान वृद्धि अर्थे सारो उद्योग होवार्थी प्रथम जागनी पठे नामस्मरण गुंथित करुं बुं ;

संवेगी साधु साध्य वस्तु साधनोद्युक्त युक्त मतिमान; जिनवचन समुद्रमांथी जलद बत ग्रहीत धर्माकाशस्थित जलवृष्टि वत् ज्ञान वृद्धि कर्त्ता; संवेगी साधु शुद्ध सम्यक्त्व पदारथ, परम सुविहित सुसाधु मंमल माल प्रोहीत, ज्ञानादि शुद्ध जिनधर्मांगवृद्धि प्रयत्नवान्. श्री शांति सागरजी महाराजनुं नामस्मरण गुंथित करुं बुं;

जन वृंद वंद्य अचल गङ्गाचार्य जट्टारक श्रीविवेक सागर सूरि, एमनुं पूर्वजागनी पठे नाम स्मरण गुंथित करुं बुं ;

मनुष्य पुंज पूज्य तप गङ्गाधिपति जट्टारक श्री धरणेंद्रसूरि, एमनुं नाम स्मरण गुंथित करुं बुं ;

श्री दुकमचंडजी महाराजनुं में प्रथम जागमां नाम स्मरण गुंथन कखुं ठे तेमज अत्रे पण गुंथित करुं बुं.

प्रवचन रहस्य ज्ञाता, कोविद मतिमान, अद्भुत चपल वक्तृत्वशक्तियुक्त, स्वरूपसा गरवित् श्रीरूपसागरजीनुं नाम स्मरण गुंथित करुं बुं ;

शुद्ध वीतराग परुषित, जिनधर्म विनूति युक्त श्रीअहमदावाद नगर निवाशी सर्व श्रावक मंमल जन नूप समान अत्यंत लक्ष्मि संपत्तितवान् पूर्वज परंपरा श्रेणि आगत श्रीमान उत्तम श्रद्धान सहवर्त्तमान तथा धर्मदीपक श्रेष्ठ मयाजाई प्रे मानाईनुं नामस्मरण पुनः गुंथित करुं बुं.

बीजा पण जे जे सहृद्धिमान पुरुषोए धर्म प्रजावना दर्शाववा निमित्ते स्वसामर्थ्या नुसार ज्ञानवृद्धि हेतुथी जे उदारता दर्शावी ठे तेथोनां नामस्मरणार्थे पुस्तकना अंत नेविषे गुंथित थजे.

ह्ममापना.

प्रथम जाग मध्ये मतिदोषथी तत्वानुबोध नामनो ग्रंथ जे पृष्ठ ७३१ थी ७५६ सुधीमां नाखवामां आव्युं ठे ते स्थानकवासी रतनचंदनो करेलो ठतां लखेली प्रतमां तेबुं न जणायाथी नूलथी ठपाई गयो ठे. एटला माटे हुं सर्व सुबुद्धिवान वाचको पाशे थी ह्ममा मांगुं बुं के अंकित ग्रंथना मुख पृष्ठमां. सुविहित गीतार्थे रचित ग्रंथो ज नाखवानी मे प्रतिज्ञा करेली ठे तेने कोई दूषण आपशो नही. केम के, हरेक

काम जूलथी थाय. ते क्कमा करवा योग्य ठे हुंढिया यद्यपि जिनधर्मी नामधरावना रा तो ठे पण जाते मूर्खज होय ठे तेथी तेउ जिनोक्त मार्गनी विपरीत परुपणा करता दरता नथी एवात सर्व सुद्ध जनोने सम्मत ठे माटे ते मूर्ख होवाथी गीतार्थ कहेवा य नही तेथी ए ग्रंथ अग्र्य जैन सैलीथी विपरीतजठे एवुं जाणी त्याग करवा योग्य ठे; कोईए सुविहित गीतार्थकृत जाणीने वांचवो जणवो नही ए वात हुं श्री ना वनगरमां साधु श्री आत्मरामजी महाराजने मलावा गयो हतो त्यारे तेमणे मारी पाशे कही ए रतनचंद आनकवासी साथे आत्मरामजी महाराजनो मलाप थयलो हतो इत्यादिक बहुवातो मे एमना मुखथी सांजलीने तेथी में घणो पश्चात्ताप कखो पण पढी थाय शुं? माटे मूलथी मारी प्रतिज्ञामां में जूल कीधी तेनी मुनि श्री आत्मराम जी महाराजना उपकार सहित सर्व सज्जनो पाशेथी क्कमापना मायुं हुं.

शा. जीमसिंह माणक.

विनती.

समस्त जैन धर्म रागी, नाना ग्रंथ विचार बुद्धत्सुक, जिनवचन पीयूषपान कर्ता, शरत् चित्तवाला जनोने अति प्रार्थना पूर्वक विनति करुं हुं के, जेम जननी अथवा जनक स्वपुत्रना दोषविषे रंचमात्र विचार न करतां मात्र गुणनुंज ग्रहण करेठे. तेम आ अंकित पुस्तकनेविषे कोईने कांई दोष दृष्टिगोचर थाय तो मऊ ऊपर रंचमात्र रोष करवो नही. केमके, सर्व प्रकारे निर्दोषता एक केवलीविना बीजा कोईनेविषे पण संजवे नही. एटला माटेज पूर्वे थई गयला महत् आचार्य प्रमुख श्रुतज्ञान पारग अत्युत्कृष्ट पंडितो पण स्वरचित ग्रंथोमां बुद्धि दोषनेविषे क्कमा मागी गयला दीठामां आवेठे; त्यारे आधुनिक साधारण जननी वात शुं कहेवी? आ पुस्तकनुं शोधन करतां मति दोष अथवा दृष्टिदोष अग्र्य दीठामां आवशे; ते जोईने रोष न करतां क्कमा करवी. केमके, वांचता अथवा लखतां जूल थायज ठे एवो नियम ठे. एविषे जे गर्व करे ते मूर्ख कहेवाय. माटे ए विषे हुं सर्व सत्पुरुषोना विनय करुंहुं के, आपनी हंसना चंचू जेवी मतिथी सारासार विचार पूर्वक जलरूप दोषनुं निवारण करीने पयरूप गुणनुं ग्रहण करवुं. अने असत् पुरुषोना पण अधिक विनय करुं हुं के, आपनी काकना चंचू जेवी मतिवडे गुण तर्जाने दोषनुं ग्रहण करीने ते सुखेथी प्रसिद्ध करवो; तेथी हुं

मोटो उपकार मानीश ? केमके, जो दोष दर्शावनार नही मजे तो दोष दीठामां केम आवे? गुणग्राहकनी कृमारूप अमृत धाराथी यद्यपि गुणनी पुष्टी थायठे, तथापि दोष ग्राहकनी कुमतिरूप कुठार धाराथी बुद्धि ठिन्न जिन्न यइने तेने अदोषता करवाविषे घणा प्रयत्नमां प्रवृत्ति थायठे, तेथी तेनो पण उपकार मानवा योग्य ठे. माटे सर्व सज्जन तथा दुष्ट पुरुषोनी विनति करुं ठुं के, यथा स्वमति अनुसार गुणदोष विचार करीने कृमादिक करवुं.

शा० नीमसिंह माणक.

प्रार्थना.



आ पुस्तक वांचनारा अने जणनारा प्रमुख सर्व ज्ञानना रागी अने विवेकी सुज्ञ जनोने अति नम्रतापूर्वक हुं याचना करुं ठुं के, आ प्रकरण रत्नाकरमांना कोई प्रकरणमां अंतरवृत्तिजन्य दोषथी, बाह्यदृष्टि दोषथी अथवा अज्ञान प्रक्रियाने लीधे कांई जैननी सैलीथी विपरीतता अथवा सांशयिक दीठामां आवे तो तेविषे कोप न करतां सर्व लखी लईने ते मने मोकलावी देवुं, के जेथी तं सुधारीने कोई प्रसंगे विरोधनो परिहार करवामां आवे. जेम के, प्रथम जागमां नाखेला उपमितिजवप्रपंचनी कथा मां अनुसुंदरने अवधिज्ञान उत्पन्न थया पढी अनंत काल निगोदमां रही आब्यो ठ तां ते सर्व वात स्मरणमां आवी ठे. ए सांशयिक उक्ति ठे; इत्यादिकनी पठे ज्यां ज्यां दीठामां आवे त्यां त्यांथी लखी लईने जो बने तो तेना विवेचनसुद्धां अथवा एमज मने सूचना करवी एवी हुं तेमनी प्रार्थना करुं ठुं, अने एम कखाथी मोटो उपकार मान्यामां आवडो.

शा० नीमसिंह माणक.



॥ श्री ॥

प्रकरणरत्नाकर नामाख्य पुस्तकना बीजाज्ञाग माहेला ग्रंथोनी

स्थूल विषयानुक्रमणिका प्रारंभः

ग्रंथोनुं नाम.	पृष्ठ.
१ श्री रत्नशेखरसूरिकृत श्रीकृष्ण स्तुति गर्जित महिम्नस्तोत्र.	१
२ श्री कृष्णकल्याणजीकृत विविधकाव्यचातुर्य युक्त चतुर्विंशतिजिनस्तुति	४
३ श्रीमुनिसुंदरसूरिकृत अध्यात्मकल्पद्रुमनामाग्रंथनी अनुक्रमणिका.	ए

अधिकार.	पद्य	पृष्ठ.
१ साम्योपदेशाख्यः प्रथमोधिकार.	३४—	११
२ स्त्रीममत्वमोचनोनाम द्वितीयोधिकार.	८—	१९
३ पुत्रममत्वमोचनारख्यस्तृतीयोधिकार	४—	२१
४ धनममत्व मोचनोनामचतुर्थोधिकार	७—	२३
५ देहममत्वमोचनारख्यः पंचमोधिकार	८—	२५
६ विषयावशतोपदेश नामाख्यः षष्ठोधिकार	ए—	२७
७ विषयकषायद्यवशतारख्यः सप्तमोधिकार	२१—	३०
८ शास्त्रागुणाधिकारोऽष्टम तदंतरगत चतुर्गत्याश्रितोधिकार . .	१६—	३६
९ चित्तदमनानिधानो नामनवमोधिकार	१७—	४१
१० वैराग्योपदेशाख्यो दशमोधिकार	२६—	४६
११ धर्मशुद्धि उपदेशाख्य एकादशोधिकार	१४—	५६
१२ देवगुरुधर्मशुद्धिनामाख्यो द्वादशोधिकार	१७—	६०
१३ यतिशिक्षानिधानोनाम त्रयोदशोधिकार	५९—	६६
१४ मिथ्यात्वादिसंवरोपदेशाख्यश्चतुर्दशोधिकार	२२—	८२
१५ शुनप्रवृत्तिशिक्षोपदेशाख्यः पंचदशोधिकार	१०—	८९
१६ साम्यसर्वस्वनामा षोडशोधिकार	८—	९३

- ४ श्री शीतलनाथाष्टक डुतविलंबिताख्य वृत्त चतुर्पादावृत्ति युक्त
मल्लूकचंद्र रचित ८— ९६

श्री जिनस्तोत्र संग्रह, श्री कल्याणसागर सूरिकृत.

- ५ श्री माणिक्य स्वामि स्तोत्र विविध पद्यरचनात्मक १८— ९७
- ६ सूर्यपुरीय श्रीसंजव जिनस्तोत्र वसंत तिलकाख्य वृत्त गुंथित च
तुर्थी विनक्तयंत पद ब६ ११— ९८
- ७ श्री सुविधि जिनस्तवन डुतविलंबित वृत्तब६ प्रत्येक पद सुविधि
नाम युक्त ६— ९८
- ८ श्री शांतिनाथ स्तोत्र डुतविलंबितवृत्तब६ द्वितीया विनक्तयंत पद युक्त १३— ९९
- ९ श्री शांतिजिनस्तोत्र विविध पद्यब६ संबोधन पर्यंत अष्टविनक्ति
दर्शक १९— ९९
- १० श्री अंतरिक्ष पार्श्वस्तोत्र इंडवज्जा वृत्त ब६ चतुर्थ पादावृत्ति युक्त. ९— १०१
- ११ श्री गौडिक पार्श्वीष्टक शार्दूलविक्रीडित वृत्त ब६ चतुर्थ पादा
वृत्ति युक्त ११— १०१
- १२ श्री गौडि पार्श्वनाथस्तोत्र नानाख्यवृत्त ब६ अद्भुत चमत्कृतियुक्त. १२— १०२
- १३ श्री दादा पार्श्वनाथ स्तोत्र इंडवज्जावृत्त ब६ चतुर्थ पादावृत्ति युक्त ९— १०३
- १४ श्री कलिकुंभ पार्श्वीष्टक वृत्त ब६ चतुर्थ पादा वृत्ति युक्त .. ९— १०४
- १५ श्री रावण पार्श्वीष्टक इंडवज्जावृत्त ब६ चतुर्थ पादावृत्ति युक्त. ९— १०४
- १६ श्री गोडिपुर पार्श्व जिनस्तोत्र गायत्र पद्य ब६ रमणीय राग युक्त. १७— १०५
- १७ श्री पार्श्व जिन स्तोत्र तोटक वृत्तब६ द्वितीया विनक्तयंत पदयुक्त १०— १०५
- १८ श्री महुर पार्श्वस्तोत्र डुतविलंबित वृत्तब६ चतुर्थ पादावृत्ति युक्त. १०— १०६
- १९ श्री सत्यपुरीय महावीर स्तोत्र डुतविलंबित वृत्त ब६ युष्मह्ब
प्रथमैक वचन द्वितीय पुरुष अस् धातु वर्तमान काल दर्शक. २५— १०६
- २० " " " " वृत्तब६ युष्मह्ब शब्द चतुर्थ
क वचन द्वितीय पुरुष नम् धातु एक वचन वर्तमान काल दर्शक ९— १०८
- २१ श्री जोडण पार्श्वनाथ स्तोत्र अनुष्टुप्वृत्त ब६ द्वितीय विनक्तिदर्शक. १३— १०८
- २२ श्री सेरीश पार्श्वनाथ स्तोत्र उपजाति वृत्तब६ चतुर्थ पादावृत्ति युक्त. ९— १०९

१३	श्री संजवनाय स्तोत्र उपजाति वृत्त बद्ध चतुर्थ पादावृत्ति युक्तः	ए—१०९
१४	श्री सूक्त मुक्तावली केशरविमलकृत मालिनी प्रकृति वृत्त बद्ध १ धर्म पदार्थ वर्ग.	७७—११०
	२ अर्थ पदार्थ वर्ग	३५—११६
	३ काम पदार्थ वर्ग	१३—११९
	४ मोक्ष पदार्थ वर्ग	४३—१२१
१५	श्री शांतसुधारस ग्रंथ श्रीविनय विजय उपाध्यायजीकृत विविध गायनीयराग रचित पद्य बद्ध अनित्यादि षादश जावना तथा मैत्रादिचार जावना मली शोल जावना विषय काव्यचमत्कृति युक्तः.	१३७—१२४
१६	चतुर्विंशति जिनस्तोत्र जिनप्रज्ञसूरिकृत वृत्तबद्ध काव्य चमत्कृति युक्त	१९—१७५
१७	आस्तिक तथा नास्तिक मति संवाद कर्ता नाम लुप्त विविध प्र श्रोत्तर युक्त गुर्जर जाषा गद्यबद्ध.	०—१७७
१८	सम्यक्त्वना सडसर बोलनी सक्षाय श्रीयशो विजयजी उपाध्या यकृत गुर्जर जाषा गायनीय विविध ढालरूप पद्यबद्ध.	६९—११२
१९	शृंगार वैराग्य तरंगिणी, सोमप्रज्ञाचार्य विरचित नूतन काव्य च मत्कृति उपजात्यादि अनेक विध वृत्तारव्य पद्यबद्ध स्त्री शृंगार वर्णन मिश्रो वैराग्य दर्शक.	४५—११७

विविधविषयिकस्तोत्र, जिनप्रज्ञाचार्यकृत.

२०	श्री वीरजिनस्तोत्र आर्यावृत्तबद्ध पंच वर्ग परिहारक काव्य चातुर्ययुक्त	१६—१४२
२१	श्री गौतम स्तोत्र उपजात्यादि वृत्तबद्ध पांडित्य युक्त	११—१४३
२२	श्री नेमिजिनस्तोत्र आर्या प्रकृति विविध जातीय वृत्तबद्ध अमि त चातुर्य क्रियालुप्त	१०—१४४
२३	श्रीवर्द्धमान जिनस्तोत्र इंडवज्जा प्रमुख विविध वृत्त नाम श्लेषा र्थ गर्नित काव्य पांडित्य सूचक	१५—१४५
२४	श्री चतुर्विंशति जिनस्तोत्र हुतविलंबित वृत्त चतुर्थ पादांतरगत सदृश वर्णावृत्तिरूप यमक नामक शब्दालंकार श्लेषादि गर्नित	१९—१४७

- ३५ श्री पंचकल्याणिकमय महावीरजिनस्तोत्र वृत्त बद्ध लाटानुप्रासा
द्यनेक काव्य कलायुक्त ३६—३४ए
- ३६ श्रीमंत्र स्तोत्र अनुष्टुप् वृत्त बद्ध परम रहस्यार्थं गर्भित मंत्ररूप ५—३५१
- ३७ श्रीवर्द्धमानजिनस्तोत्र उपजातिवृत्तबद्ध विविधालंकरण शब्द लालित्ययुक्त ए—३५१
- ३८ श्री पार्श्वजिनस्तोत्र उपजाति वृत्त बद्ध प्रतिपद पंचाक्षर पुनरा
वृत्ति रूप सिंहावलोकन युक्त ए—३५१
- ३९ श्री पार्श्वजिनस्तोत्र उपजाति वृत्त बद्ध पादांत समचतुरक्षर पुन
रावृत्तिरूप यमकालंकार युक्त ८—३५२
- ४० श्री नंदीश्वर कल्प अनुष्टुप् वृत्त बद्ध काव्यसरलत्व अर्थ गौरवयुक्त ४८—३५२
- ४१ श्री शारदास्तोत्र उपजातिवृत्त बद्ध क्वचित् समपाद पुनरावृत्ति
क्वचित् विषमपाद पुनरावृत्तिरूप एक चतुर्पादरूप यम
कालंकारयुक्त १३—३५४
- ४२ श्री जिनसिंहसूरिस्तोत्र उपजाति वृत्त बद्ध क्वचित् समपाद
पुनरावृत्ति क्वचित् विषम पाद पुनरावृत्ति एक चतुर्पादरूप
यमकालंकार युक्त... .. १३—३५५
- ४३ श्री पंच नमस्कृति स्तोत्र अनुष्टुप् वृत्त बद्ध अद्भुत आशय युक्त ३३—३५६
- ४४ श्री वीरस्तोत्र अनुष्टुप् वृत्त बद्ध प्रत्येक पद्ये सम समपाद पुनरावृत्ति
रूप यमकालंकार युक्त १३—३५७
- ४५ श्री आदि जिनादि स्तोत्र अनुष्टुप् वृत्त बद्ध प्रत्येक पद्ये सम स
मपाद पुनरावृत्तिरूप यमकालंकार युक्त २८—३५८
- ४६ श्री पार्श्वप्रातिहार्य स्तोत्र स्वागता वृत्त बद्ध प्रत्येक पद्ये समसम
पाद पुनरावृत्तिरूप यमकालंकार युक्त १०—३५९
- ४७ श्री कल्याण पंचक स्तोत्र वंशस्थ वृत्त बद्ध साधारण काव्य रचना युक्त ८—३६०
- ४८ श्रीवीर जिनस्तोत्र लक्षण प्रयोगमय उपजाति वृत्त बद्ध व्याकर
णना प्रयोगना मिश्रे जगवंतना लक्षण उक्ति युक्त १७—३६०
- ४९ श्री वीतराग स्तोत्र उपजाति वृत्त बद्ध क्वचित् पादांतगत क्वचित्
पादांतस्थले षयादि अक्षरावृत्तिरूप यमकालंकार युक्त १६—३६१
- ५० श्रीचंद्रप्रनस्वामि स्तोत्र अनुष्टुप् वृत्त बद्ध सम समपाद पुनरावृ
त्तिरूप यमकालंकार युक्त ४—३६२
- ५१ श्रीरुषनदेव स्तोत्र आर्यादि वृत्त बद्ध विविध जाषा रचना चम

	त्कृति युक्त तथा संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची, शौरसेनी, समसंस्कृत ने अपभ्रंश निन्न निन्न अने मिश्र कविनाम गर्न चक्र युक्त	४०—४६३
५२	श्री महावीरस्तोत्र विविध वृत्तबद्ध अत्युत्तम चित्रादि काव्य चमत्कृति युक्त यथा प्रतिलोमानुलोमपाद, अनुलोम प्रतिलोम, अर्द्ध प्रतिलोमानु लोम, अर्द्धत्रम, मुरजबंध, गोमूत्रिका, सर्व तो नड, रथपद, षड्हरपाद, एकाहरपाद, एकाहरश्लोक, असंयोग, षान्यां खड्ग संदानितकं, मुसल, त्रिशूल, हल, धनुष्य, शर, शक्ति, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, स्तुत्यनामगर्न बीजपूर. हर, कविकाव्य नामक चक्र, तथा चामरबंध.	२६—२६५
५३	श्री जीरापल्लिपार्श्वस्तोत्र स्वागतावृत्तबद्ध विषम पदांत समपदाद्यत्र्यहर पुनरावृत्तिरूप सिंहावलोक काव्ययुक्त	१५—२६०
५४	श्री फलवर्द्धि जिनस्तोत्र आर्यावृत्तबद्ध प्रत्येक पद्यार्द्धे चतुरहरात्मक त्रयावृत्तिरूप यमकालंकारयुक्त	१२—२६९
५५	श्री चंडप्रज्ञ स्वामिस्तोत्र मौक्तिक दामादिवृत्तबद्ध षट्नापा रचना चमत्कृति युक्त यथा संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाचिक, चूलिका पेशाचिक, अपभ्रंश	१३—२६९
५६	श्री वर्द्धमान निर्वाण कल्याणक स्तोत्र स्वागतावृत्तबद्ध सर्वोत्कृष्ट वर्णन युक्त	१९—२७१
५७	श्री अरनाथस्तोत्र पंचदश केवलाहर पद्यबद्ध अद्भुत रचना युक्त	१४—२७२
५८	आध्यात्म मतपरिद्धानाम ग्रंथनी स्थूलविषयानुक्रमणिका.	२७३

आध्यात्मना चार प्रकार देखाडीने तेमां मात्र नाम अध्यात्मिजे दिगम्बर लोकठे तेमना मतनुं निवारण करतां जावाध्यात्मनुं स्वरूप दर्शावतां तथा साधुने वस्त्र पात्र उपधिप्रमुख ते सिद्ध ताना हेतुठे एवुं अनेक दृष्टांतो सहीत प्रश्नोत्तररूपे सिद्धांतसै लिये प्रतिपाद्युंते तेने प्रसंगे ध्याननुं स्वरूप स्थविरकल्प जिनकल्प तथा अपवाद उत्सर्ग इत्यादि

उत्कृष्ट अध्यात्मनी प्राप्ति अथानां कारणो निश्चय व्यवहार न यना वाद सहित मध्यस्थपणे प्रमाण वादीनुं मत लावी उत्कृष्ट अध्यात्मनी प्राप्ति दर्शावीढे	२९०
केवली कवलाहार अवश्य करे एवी स्थापना युक्तिपूर्वक सि द्धान्त सैलियें बतावी ढे	३०२
केवली कवलाहार करता ठता रुतकृत्यज ढे	३२१
षट्कारकनुं स्वरूप	३३२
सिद्धना पन्नर नेद	३३२
स्त्रीलिंगें सिद्धता दिग्म्बरीठ नथी मानता तेने दूषण ..	३३३
ग्रंथनुं परम रहस्य	३३९

५९ श्री समयसार नाटक नामाख्य ग्रंथनी स्थूल विषयानुक्रमणिका. ३४५

श्री पार्श्वनाथ, सिद्ध जगवान, साधु, अने सम्यक्दृष्टीनी स्तुति, मिथ्यादृष्टि वर्णन, मंगलाचरण, आत्मद्वय वर्णन, ग्रंथगो रवता, कवीनुं साम्यर्थ, ग्रंथ महिमा, अनुभव लक्षण, तथा महिमा, षड्द्वय नव तत्व वर्णन, नाम माला, आ ग्रंथमां क हेवा लायक षादश द्वारनां नाम; ग्रंथारंजनो मंगलाचरणरूप नमस्कार, आत्म वर्णन, जगवाननी वाणीने नमस्कार ..	३४५
१ जीवद्वार वर्णन	८६—३६३
२ अजीव द्वार अधिकार	१४—३७९
३ करता क्रिया कर्मनो द्वार	३५—३८४
४ पुन्य पाप एकत्वी कथन चतुर्थद्वार	१६—४००
५ अध्यात्मना अधिकार सहित आश्रवद्वार	१६—४०७
६ संवर द्वार	११—४१२
७ निर्जरा द्वार	६१—४१६
८ बंध तत्वना द्वारना प्रबंधनो अधिकार	६८—४३८
९ मोक्षद्वार	५३—४६२
१० सर्व विशुद्धिद्वार	२८—४७९
११ स्याद्वादनामा द्वारनी अंतर्गत ग्रंथमहिमा तथा नवरस	


वर्णन अने चतुर्दश नय इत्यादिक अनेक विषययुक्त	४१—५१३
१२ साध्य वस्तु अने साधक वस्तुना स्वरूपनो ढार	५२—५३८
कवी अमृतचंद्र आचार्यनी आलोचना तथा बनारसी दासें जिन प्रतिमानी स्तुति करी तथा वणारसीदासनी पोतानी कथनी.	९—५४४
चउद गुणस्थानक स्वरूप तेमां चोथा गुणस्थानकमां ह्या यिकादि सम्यक्त्वनो स्वरूप तथा पांचमा गुणस्थानकमां श्रावकनी एकादश प्रतिमानुं लक्षण	८—५४६
६० सम्यक्त्वस्वरूप स्तवग्रंथनी स्थूलविषयानुक्रमणिका.	५७७

१ सूत्रकारनी गाथा तथा सम्यक्त्वप्राप्तिनी अगाउ जेवी जी वनी अक्वस्था होय तेनो विवरो	५७७
२ सम्यक्त्व प्राप्तिनो उपाय	५८५
३ ग्रंथि जेदवानी रीत	५८८
४ अनिवृत्ति करणे गयो थको जीव जे कर्त्तव्य करे ते कर्त्तव्य	५९०
५ सम्यक्त्वना जेदनो विवरो	५९३
६ कारकादि सम्यक्त्वनां लक्षण	५९६
७ कर्म ग्रंथनी सैलिये उपशम सम्यक्त्व प्राप्तिनो उपाय	६०१
८ पांच सम्यक्त्वनो काल	६०९
९ दश प्रकारनी रुचिरूप सम्यक्त्व	६१२
१० सम्यक्त्वना सडसठ जेद विद्युद्ध व्यवहारथी	६१८
६१ षष्ठीशतक नामक ग्रंथ नेमीचंड जंझारीकृत ए ग्रंथ शुद्ध मार्गानु सारीअोने जणवा वांचवा तथा सांजलवा लायक विचित्र उ पदेशे करी युक्त ठे.	६२६
६२ संयमश्रेणीनुं स्तवन पंडित उत्तम विजयजीकृत	६९९
६३ लोकनाल ढात्रिंशिका	७२०
६४ सम्यक्त्व विचारगर्जित महावीरजिन स्तवन.	


उपशमादिक सम्यक्त्वना जेद सविस्तरपणे तथा सम्यक्त्व पामवा नो उपाय अने यथा प्रवृत्त्यादिक त्रण करणनुं स्वरूप इत्यादि.

पांचसम्यक्त्वना स्थितिकालमानादिक तथा गुणगणा	७५४
उपशम श्रेणी तथा रूपकश्रेणीनुं स्वरूप.....	७५७
आठ जेदे पुजल परावर्त	७७४
काय स्थितिविचार.. .. .	७७७
सप्तजंगीनुं स्वरूप	७८३

६५ षड्द्रव्य विचार नामाग्रंथ चर्चकरूपे.	७९०
---	-----



सिद्धना पन्नर जेद तेमां दिगम्बरीओना मत खंमन पूर्वक स्त्री लिंगनी सिद्धता बतावीळे	७९०
अजीव ड्व्य विचार तेमां दिगम्बरोनी चर्चा पूर्वक पुजल ड्व्यनो विचार सिद्ध कस्युंळे	७९६
चार प्रकारना अजाव	८०७
नय निहेप स्वरूप	८१०
मोह प्राप्तिनुं क्रम	८११
आत्म प्राप्ति विधि	८१३
सम्यक्त्वीना आठगुण	८१४
सम्यक्त्वी सोहं बीजध्यावे तेनो अर्थ	८१५



॥ अथ श्री महिम्नस्तोत्रप्रारंभः ॥

महिम्नः पारं ते परमलजमाना अपि विज्ञो जवन्ति स्तोतारः समवसृतिचूमो समु
दिताः ॥ यद्विंशत्यास्त्वां तज्जिनवृषजजतया स्तवयतो ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरप
वादः परिकरः ॥ १ ॥ स्वरूपं चिद्रूपं किमपि तदरूपं जगवत् श्वतूरूपा ब्राह्मी
यदि गदितुमीष्टे न जवतः ॥ ततः कस्य स्तुत्यं किमुपममिदं कस्य विषयः पदे
त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥ यद्वा ॥ पदं शैवं केचित्परमम
नपेहाह्वयसुखं स्तुवंति त्वां राज्यादिकपदकृते मंदमतयः ॥ जवेद्वा तत्वार्थे रतिर
तितरां नैव जवतः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ ३ ॥ गुणाना
मानंत्यादविषयतया वाङ्मनसयो न शक्या तत्वज्ञै रपि तव विधातुं स्तुतिरियम् ॥
जवन्नामोच्चारत्पुनरपि ममैतां निजगिरं पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यव
सिता ॥ ४ ॥ यद्वा ॥ जटालंकारालंकृतमथ वृषांकं च जगवन् पुनानं विश्वं त्वां
प्रथमजिन मत्वा किमु ततः ॥ जटां धृत्वा श्रित्वा वृषमहमपि क्षातलमिदं पु
नामीत्यर्थेऽस्मिन्पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता ॥ ५ ॥ न कोपस्याटोपः स्वरिपुषु न च स्वे
ष्वपि तथा प्रशांतिर्नो कांतादिकपरिकरः कश्चिदिति ते ॥ त्रिलोक्यामालोक्याप्यह
ह परमां प्रारज्जरमां विदंतुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ६ ॥ ध्रुवं कश्चि
त्कर्त्ता निखिलजुवनस्यापि स पुन विज्ञेर्नित्यश्चैकः सतनुरतनुर्वा स्ववशतः ॥ स्वयं
सिधेन्यस्मिंस्तव मतमनाप्तान् हतधियः कुतर्कोयं कश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः
॥ ७ ॥ विगुप्तैरागाद्यैरपि जवति किं सर्वविदहो विना वा सर्वज्ञं ननु जिन किमाप्तो
पि स च किम् ॥ त्वदन्योपि कापि त्रिजगति बताप्तस्वविषये यतोमंदास्त्वां प्रत्यमर
वर संशेरत इमे ॥ ८ ॥ त्वमेवार्हन् बुद्धो जगति परमेष्ठी च पुरुषो तमोलह्म्या जा
स्वान्विबुधगुरुरादीश्वर इति ॥ विज्ञो नानाहानिः समविषममार्गेषु चरतां नृणामे
कोगम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ९ ॥ प्रसादात्ते पुत्रा विषयसुखसाम्राज्यमजजन्
न के वा सेवातस्तव नवनवामृद्धिमगमन् ॥ तृणे खैणे स्वर्णे वृषदि च सदृहः पु
नरहो न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णां च्रमयति ॥ १० ॥ जवन्तत्तादृक्तातिशय
महिमेहावशसमुद्भवद्वक्तिव्यक्त्या रणरणकितांतःकरणतः ॥ अधीरप्युद्युक्तोखिलजग
दशक्यं स्तवमपि स्तुवन् जिह्मेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ११ ॥ न श
स्यौ कस्यास्तां नमिविनमिपत्ती जिनपते त्वदेकस्वामित्वाक्रमकमलसेवासु रसिकौ ॥
प्रसादात्ते विद्याधरपतितति र्यत्सविनयं स्वयं तस्थे तान्यां तव किमनुवृत्तिर्न फल
ति ॥ १२ ॥ तदा विद्याः प्राप्य ध्रुवमखिलविद्याधरमहा स्वयं प्राडुर्जाव्य प्रथमम

थ वैताढ्यविच्युताम् ॥ यदेतो दुस्साध्यौ सुरनरवराणामजजतां स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रि
 पुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ १३ ॥ अथावाप्तैश्वर्यं मदनमदविध्वंसि च महाव्रतित्वं
 सर्वज्ञत्वमसमविच्युतिश्च परितः ॥ शिवासंगश्रंगः सततमिति नो कस्य कृतिनः स्थि
 रायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ १४ ॥ विवाहादौ नेतुर्मुद्गुरुपकृतो विप्र
 तिचवं त्वया पारंपर्यागतपरिचयान्मोहचरटः ॥ तथा दूरं नष्टः क्वचिदपि यथाकेव
 लकजाप्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ १५ ॥ निजर्था स्पृहालुर्नरत
 विच्युरासीन्मधवता यदाऽपत्तस्यार्हासनमथ सुखं केवलरमाम् ॥ तदेतस्मिन्सर्वं तव
 पदविनत्रे समुचितं न कस्याप्युन्नत्यै नवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ १६ ॥ निनंसा
 यां पूर्वं ह्यणमजगणत्वां नरतराद् समं चक्रेणाहो तदिह विषयाणां विषमता ॥ यदे
 तस्यार्चात्र प्रमितफलदैवाशिवसुखं न कस्याप्युन्नत्यै नवति शिरसस्त्वय्यवनतिः
 ॥ १७ ॥ प्रजो त्वत्पुत्रस्यातुलबलवतो बाहुबलिनस्तपस्तीव्रं तादृक् शरदवधिमानाद
 पि कृतं ॥ निदानं ज्ञानस्य ध्रुवमनवदाश्रयमथवा विकारोपि श्लाघ्यो चुवननयजंग
 व्यसनिनः ॥ १८ ॥ न सुत्रामा यत्र प्रनवति विधातापि न विद्युः स वैकुण्ठः कुण्ठः
 किमपि न नवश्चानवदलम् ॥ जिगीषुः स त्वामप्यपरसुरमहुर्मतिरनूत् स्मरः स्म
 र्त्तव्यात्मा न हि वशिष्ठु पथ्यः परिचवः ॥ १९ ॥ प्रयुंजानः स्वामिन्स्वयमखिलशि
 ल्यान्यसुमतां कलाः पुंसां स्त्रीणामपि च सकलाः क्षापतिरपि ॥ कुलाजादींस्तांस्ता
 न् ह्यणमपि नयन् शिह्यणविधौ जगद्द्वयै त्वं नटसि ननु वामैव विच्युता ॥ २० ॥
 प्रजो तैस्तैः सारैरण्निरखिलैश्चाम्रवरैः कृतं रूपं सर्वोत्तमसुखगमंगुष्ठकमितम् ॥
 त्वदंगुष्ठस्याग्रे शुनति किल नांगारकश्चेत्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः
 ॥ २१ ॥ प्रजाः प्राज्यं राज्यं स्थविरजननी स्वस्य तनुजांस्तपस्यन्नासत्तावपि च विहरन्वा
 हुबलिनः ॥ उपेक्षिष्ठा आत्तव्रतनृपसहस्राश्च चतुरो विधेयैः क्रीडंत्यो न खलु परतंत्राः
 प्रचुधियः ॥ २२ ॥ यदा नो रत्नानां त्रयमखिलदौर्गत्यहरणं निदानं संपत्तेस्त्रिचुवनज
 नानामनुदिनम् ॥ नवान् योगहेमावपि विरचयन्मन्मथजये त्रयाणां रक्षायै त्रिपुर
 हर जागर्त्ति जगताम् ॥ २३ ॥ यथा पूर्वं मुग्धास्तवसङ्गपदेशाद्युगलिनः सदा स्वामि
 न्नीशाजनिषित सदाचारचतुराः ॥ तथा कस्कः संप्रत्यपि न विशदेषु त्वदुदितश्रुतौ श्र
 द्हां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २४ ॥ तपस्तीव्रं ब्रह्मव्रतनियमनिष्ठा बहुवि
 धाः क्रियाकष्टास्पृष्टा अपि जिनप इष्टाशयतया ॥ त्वदाज्ञावज्ञायां नियतमहितायै
 व नविनां ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमनिचाराय हि मखाः ॥ २५ ॥ ह्यमानृन्मुख्याः के
 नियतमधिमात्रानपि सदा स्वयंस्थान् शास्त्रीघान्नदधतितरां यस्य हतये ॥ अविभ्रं तं

निघ्नन्नसमसमयस्तामसमृगं त्रसंतं ते ऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरजसः ॥ १६ ॥
परिचाम्य क्लेशार्जितमपि सहस्रेण शरदा मदाश्विजाजत्वं सपदि मरुदेव्ये तदपि चेत् ॥
प्रनो निस्नेहं सा व्रतसमयसर्वावगणनादवैति त्वाम-क्षा बत वरद मुग्धा युवतयः
॥ १७ ॥ महानंदे यद्यप्यसि जिन दवीयस्यपि पदे न रुष्टस्तुष्टश्च त्रिभुवनजनेषु क
चिदपि ॥ जवन्नाम स्वामिन्स्वमनसि महामंत्रमनिशं तथापि स्मर्तृणां वरद परमं
मंगलमसि ॥ १८ ॥ प्रनो प्राणायामान्यसनरसिकत्वान्निजमनः समाधावाधाया
खिलविषयतोक्ताणि युगपत् ॥ दुर्तं प्रत्याहृत्य स्थिरनिहितनासाग्रनयना दधत्यंत
स्तत्वं किमपि यमिनस्तत्किल जवान् ॥ १९ ॥ सुरदुः स्वः कुंनस्त्रिदशसुरजिस्त्वं सुरम
णिः पिता माता चाता विचुरपि सुहृत्त्वं च सुगुरुः ॥ परात्मा ब्रह्मापि त्वमसि पर
मं दैवतमतो न विद्मस्तत्त्वं ह्यमिहहि यत्त्वं न जवसि ॥ २० ॥ अकाराद्यैर्वर्णै
स्त्वयि परिणतान् पंच परमेष्ठिनः स्पष्टं पंचाक्षररचनया नामिनिगदन् ॥ कलाना
दव्यक्तं किमपि परमब्रह्मविषयं समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ २१ ॥
न रागाद्यैर्भ्रस्तो न पुनरनुकंप्यो मदपरः कृपालु स्वत्तोन्न्यो न जगति न तेन्यः पुनरलम् ॥
स्वयं तैरत्यार्त्तैः किमितरसुरैश्चेति विमृशन् प्रियायास्मैधात्रे प्रविहृतनमस्योस्मि
जवते ॥ २२ ॥ नमो नासक्ताय क्वचिदपि विरक्ताय च नमो नमः संबु-क्षाय प्रशमद
मरु-क्षाय च नमः ॥ नमः सर्वज्ञाय स्मरणपरतद्भाय च नमोनमः सर्वस्मै ते तदि
दमिति शर्वाय च नमः ॥ २३ ॥ दलितरजसे शश्वद्विश्वार्चिताय नमोनमः प्रहृततम
से श्रीसर्वज्ञाधिपाय नमोनमः ॥ जनहितकृते तुन्यं सत्त्वाधिकाय नमोनमः प्रमहसि
पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमोनमः ॥ २४ ॥ कुसुमवटुरिवाहं तद्भुतो किंचनार्हं कृतिजि
रुरसि कंठे वा गुणत्वादधार्यम् ॥ जिनवर जिनहर्षोत्कर्षतोकार्षमेवं वरद चरणयोस्ते
वाक्यपुष्पोपहारं ॥ २५ ॥ प्राञ्छुश्रीसोमवंशोऽजनिषत मुनयोमौक्तिकानीव शु-क्षास्ते
ष्वप्येकावली च प्रगुणगुणवती श्रीमदाचार्यपंक्तिः ॥ जीयाज्ञायं यदूनामिव गुरुज
यचंज्ञाव्हयश्रीमुनोऽस्तस्यामप्येष चिंतामणिरुचिररुचिर्नायकः कृष्णदेवः ॥ २६ ॥
निहितचरमपादं श्रीमहिम्नः सत्वस्य त्रिभुवनमहितस्य श्रीयुगादीश्वरस्य ॥ अमरश्च
सदा तत्पादपद्मोपजीवी रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेत द्यधत् ॥ २७ ॥ एवं शारदसो
मसुंदरयशःस्तोमं युगादीश्वरं चेतो नूजयचंऽमौलिजिरजिष्ठुत्यान्वहं योगिजिः ॥ ज्ञानं
प्राप्य विशालराजसदृशब्हादं समाश्रीयते मुक्त्यै मूर्धनि रत्नशेखररमा ब्रह्मैकतेजो
मयी ॥ २८ ॥ इति श्रीयुगादिदेवमहिम्नः स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ अथ क्लृप्ताण्यजित चतुर्विंशतिजिनस्तुतिप्रारंभः ॥

शार्दूल विक्रीडितबंदः ॥ अथ कृष्णस्तुति प्रारंभः ॥ सङ्गत्या नतमौलिनिर्जरवरत्राजि
 क्षुमौलिप्रज्ञा संमिश्राणदीप्तिशोचिचरणान्जो ज द्वयःसर्वदा ॥ सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः सुच
 रितो धर्मार्थिनां प्राणिनां नूयाद्भूरिविचूतये मुनिपतिः श्रीनाजिसूनुर्जिनः ॥ १ ॥ सद्बो
 धोपचिताः सदैव दधताप्रौढप्रतापश्रियो येनाज्ञानतमोवितानमखिलं विद्विषमंतः
 कृणं ॥ श्रीशत्रुंजयपूर्वशैलशिखरं नास्वानिवोद्गासयन् नव्यांजो जहितः स एष जयतु
 श्रीमारुदेवप्रभुः ॥ २ ॥ योविज्ञानमयो जगत्रयगुरुर्य सर्वलोकाश्रिताः सिद्धिर्येन वृता स
 मस्तजनता यस्मै नतितन्वते ॥ यस्मान्मोहमतिर्गता मतिनृतांस्यैव सेव्यं वचो यस्मि
 न्विश्वगुणास्तमेव सुतरां वंदे युगादीश्वरं ॥ ३ ॥ अथ अजितस्तुतिः प्रारंभः ॥ मालिनीबंदः ॥
 सकलसुखसमृद्धिर्यस्य पादारविंदे विलसति गुणरक्ता नक्तराजीव नित्यं ॥ त्रिचुवनज
 नमान्यः शांतमुद्गानिरम्यः स जयति जिनराजस्तुंगतारंगतीर्थे ॥ १ ॥ प्रभवति किल नव्यो
 यस्यनिर्वर्णनेन व्यपगतदुरितौघः प्राप्तमोदप्रपंचः ॥ निजबलजितरागदेषविदेषिवर्ग
 तमजितवरगोत्रं तीर्थनाथं नमामि ॥ २ ॥ नरपतिजितशत्रोर्वेशरत्नाकरेंडुः सुरपतिय
 त्तिसु ख्यैर्नक्तिदहैः समर्च्यः ॥ दिनपतिरिव लोकेऽपास्तमोहांधकारो जिनपतिरजितेशः
 पातुमां पुण्यमूर्तिः ॥ ३ ॥ अथ संजवस्तुतिः ॥ स्रग्धराबंदः ॥ यङ्गत्या सक्तचित्ताः प्रचु
 रतरनवत्रांतिमुक्ता मनुष्याः संजाताः साधुजावोल्लसितनिजगुणान्वेषिणः सद्यएव ॥ स
 श्रीमान्संजवेशः प्रशमरसमयोविश्व विश्वोपकर्ता सद्गर्ता दिव्यदीप्तिः परमपदकृते से
 व्यतां नव्यलोकाः ॥ १ ॥ शुक्लध्यानोदकेनोज्वलमतिशयितस्वहृत्नावाद्भुतेन स्वस्मादा
 दृत्य वृत्तं शिवपदनिगमं कर्मपंकप्रपंचं ॥ नीरंध्रं दूरयित्वा प्रकृतिमुपगतोनिर्विकल्पस्वरू
 पः सेव्यस्ताह्वर्ध्वजोसो जगति जिनपतिर्वीतरागः सदैव ॥ २ ॥ वाक्वीं विद्योतिरत्नप्रकर
 इव परित्राजते सर्वकाले यस्मिन्निःशेषदोषव्यपगमविशदे श्रीजितारेस्तनूजे ॥ दुःप्रा
 पो दुष्टसत्त्वैः स्फुटगुणनिकरः शुद्धबुद्धिक्लृप्तादिः कल्याणश्रीनिवासः स नवतिवद
 ताऽन्यर्चनीयो न केषां ॥ ३ ॥ अथ अनिनंदनस्तुतिप्रारंभः ॥ दुतविलंबितबंदः ॥ विश
 दशारदसोमसमाननः कमलकोमलचारुविलोचनः ॥ शुचिगुणः सुतरामनिनंदन ज
 य सुनिर्मलतांचितनूधन ॥ १ ॥ जगति कांतहरीश्वरलांबितक्रमसरोरुह कामरूपा
 निधे ॥ मम समोहितसिद्धिविधायकं त्वदपरं किमपीह न तर्कये ॥ २ ॥ प्रवरसंवर सं
 वरनूपतेस्तनय नीतिविचक्षण ते पदं ॥ शरणमस्तु जिनेश निरंतरं रुचिरनक्तिसुयुक्तिनृ
 तो मम ॥ ३ ॥ अथ सुमतिस्तुति प्रारंभः ॥ उपेंडवज्राबंदः ॥ सुवर्णवर्णो हरिणासव

णीं मनोवनं मे सुमतिर्बलीयान् ॥ गतस्ततो डष्टकुट्टिपिरागदिपेंड नैव स्थितिरत्र कार्या
 ॥ १ ॥ जिनेश्वरो मेघनरेंडसूनुर्घनोपमो गर्जति मानसे मे ॥ अहो गुरुदेषदुताशन त्वा म
 सो शमं नेष्यति सद्यएव ॥ २ ॥ इतः सुदूरं व्रज डष्टबुद्धे समं डुरात्मीयपरिह्वदेन ॥ सु
 बुद्धिजर्ता सुमतिर्जिनेशो मनोरमः स्वांतमितो मदीयं ॥ ३ ॥ अथ पद्मस्तुतिप्रारंजः
 शुजंगप्रयातठंदः ॥ उदारप्रनामंडलैर्जासमानः कृतात्यंतडुर्दांतदोषापमानः ॥ सुसी
 मांगजश्रीपतिर्देवदेव स्सदा मे सुदान्यर्चनीयस्त्वमेव ॥ १ ॥ यदीयं मनःपंकजं नित्य
 मेव त्वयालंकृतं ध्येयरूपेण देव ॥ प्रधानस्वरूपं तमेवातिपुण्यं जगन्नाथ जानामि लो
 के सुधन्यं ॥ २ ॥ अतो धीशपद्मप्रनानंदधाम स्मरामि प्रकामं तवैवांग नाम ॥ मनो
 वांछितार्थप्रदं योगिगम्यं यथा चक्रवाको रवेर्दाम रम्यं ॥ ३ ॥ अथ सुपार्श्वजिनस्तुतिप्रा
 रंजः तोटकठंदः ॥ जयवंतमनंतगुणैर्निर्जृतं पृथिवीसुतमद्भुतरूपनृतं ॥ निजवीर्यं
 विनिर्जितकर्मबलं सुरकोटिसमाश्रितपत्कमलं ॥ १ ॥ निरुपाधिकनिर्मलसौख्यनि
 धिं परिवर्जितविश्वडुरंतविधिं नववारिनिधेः परपारमिमं परमोज्वलचेतनयोन्मिलितं
 ॥ कलधौतसुवर्णशरीरधरं शुभपाश्वसुपार्श्वजिनप्रवरम् ॥ विनयावनतः प्रणमामि
 सदा हृदयोद्भवजूरितरप्रमुदा ॥ ३ ॥ अथ चंडप्रनाजिनस्तुतिप्रारंजः ॥ वंशस्थठंदः ॥
 अतंतकातिप्रकरेण चारुणा कलाधिपेनाश्रितमात्मसाम्यतः ॥ जिनेड चंडप्रज देवमुत्त
 मं नवंतमेवात्महितं विजावथे ॥ १ ॥ उदारचारित्रनिधे जगत्प्रजो तवाननांजो जविलोक
 नेन मे ॥ व्यथा समस्तास्तमितोदितं सुखं यथा तमिस्रादिवमर्कतेजसा ॥ २ ॥ सदैव संसे
 वनतत्परे जने नवंति सर्वेपि सुराः सुदृष्टयः ॥ समग्रलोके समचित्तवृत्तिना त्वयैव संजा
 तमनोनमोस्तु ते ॥ ३ ॥ अथ सुविधिजिनस्तुतिप्रारंजः ॥ वसंततिलकाठंदः ॥ विश्वाजिवं
 द्यमकरांकितपादपद्म सुग्रीवजात जिनपुंगव शांतिसद्म ॥ नव्यात्मतारणपरोत्तमपानपा
 त्र मां तारयस्व नववाटिनिधेर्विरूपात् ॥ १ ॥ निःशेषदोषविगमोद्भवमोहमार्गं न
 व्याः श्रयंति नवदाश्रयतो मुनीं ॥ संसेवितः सुरमणिर्बहुधा जनानां किं नाम नो नव
 ति कामितसिद्धिकारी ॥ २ ॥ विद्धं कृपारसनिधिं सुविधे स्वयं नूर्मेत्वा नवंतमिति विद्धप
 यामि तावत् ॥ देवाधिदेव तव दर्शनवद्व्रजोहं शश्वद्भवामि शुवनेश तथा विधेहि ॥ ३ ॥
 अथ शीतलजिनस्तुतिप्रारंजः ॥ शार्दूलविक्रीडितठंदः ॥ कल्याणांकुरवर्द्धने जलधरं सर्वां
 गिसंपत्करं विश्वव्यापियशः कलापकलितं कैवल्यलीलाश्रितं ॥ नंदाकुहिसमुद्भवं दृ
 ष्ठयश्चोष्णीपतेर्नंदनं श्रीमत्सूरतबिंदरे जिनवरं वंदे प्रभुं शीतलं ॥ १ ॥ विश्वाज्ञानविद्यु
 ष्टसिद्धिपदवीहेतुप्रबोधं दधद्भव्यानां वरजक्तिरक्तमनसां चेतः सुमुह्यासयन् नित्यानं
 दमयप्रसिद्धसमयः सद्भूतसौख्याश्रयो डुष्टानिष्टतमः प्रणाशतरणिर्जीयाङ्गिनः शीत

लः ॥ ३ ॥ सद्भक्त्या त्रिदशेश्वरैः कृतनुतिर्जास्वजुणालंकृतिः सत्कल्याणसमद्युतिः शुभ
 मतिः कल्याणकृत्संगतिः ॥ श्रीवत्सांकसमन्वितस्त्रिभुवनत्राणे गृहीतव्रतो नूयाद्भक्ति
 नृतां सदेष्टवरदः श्रीशीतलस्तीर्थकृत् ॥ ३ ॥ अथ श्रेयांसजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ हरिणी
 ठंडः ॥ चिरपरिचितागाढव्यासा सुबुद्धिपराङ्मुखी निजबलपरिस्फूर्त्योदग्रा समग्रतया
 मम ॥ व्यपगतवती दूरं दुष्टा स्वनिष्ठकुट्टिष्टिता अपचितसहा सद्योजूत्वा यदीयसुदृष्टितः १
 निरुपमसुखश्रेणीहेतुर्निराकृतदुर्दशा शुचितरगुणग्रामावासो निसर्गमहोज्वला ॥ हृदय
 कमले प्राङ्मुता सुतत्वरुचिर्मम विदलितनवत्रांतिर्यस्याप्यजस्रमनुस्मृतेः ॥ १ ॥ उपक
 तिमतिर्दाने दहो निरस्तजगद्वयथः समुचितकृतिर्विज्ञानांशुप्रकाशितसत्पथः ॥ नृपगण
 गुरोर्विशोर्वेशे प्रनाकरसन्निभः स जवतु मम श्रेयांसेनः प्रबोधसमृद्धये ॥ ३ ॥ अथ वासुपू
 ज्यस्तुतिप्रारंभः ॥ रथोदताठंडः ॥ पूर्णचंद्रकमनीयदीधिति त्राजमानसुखमद्भुतश्रि
 यां ॥ शांतदृष्टिमजिरामचेष्टितं शिष्टजंतुपरिवेष्टितं परं ॥ १ ॥ नष्टदुष्टमतिनिर्यमीश्वरं संस्मर
 द्विरिह नूरिर्निर्नृजिः ॥ ह्रीणमोहसमयादनंतरा प्रापि सत्यपरमात्मरूपता ॥ २ ॥ पार्थिवे
 शवसुपूज्यवेशमनि प्राप्तपुण्यजनुषं जगत्प्रभुं ॥ वासुपूज्यपरमेष्ठिनं विशः के स्मरंति नहि
 तं विपश्चितः ॥ ३ ॥ अथ विमलजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ मंदाक्रांताठंडः ॥ संसारेस्मिन्महतिम
 हिमामेयमानंदिरूपं त्वां सर्वज्ञं सकलसुकृतिश्रेणिसंसेव्यमानं ॥ दृष्ट्वा सम्यग्विमलसद
 सज्ज्ञानधाम प्रधानं संप्राप्तोहं प्रशमसुखदां संनृतानंदवीचिं ॥ १ ॥ येतु स्वामिन् कुमति
 पिहितस्फारसद्वोधमूढाः सौम्याकारां प्रतिकृतिमपि प्रह्वयते विश्वपूज्यां ॥ ६ षोडशूतैः कलु
 षितमनोवृत्तयः स्युः प्रकामं मन्ये तेषां गतशुभदृशां का गतिर्जाविनीति ॥ ३ ॥ श्यामा
 सूनो प्रतिदिनमनुस्मृत्य विज्ञानिवाक्यं हित्वानार्थं कुमतिवचनं ये शुवि प्राणजाजः ॥ पू
 णानंदोद्धसितहृदयास्त्वां समाराधयंति श्लाघ्याचाराः प्रकृतिसुजगाः संति धन्या स्तए
 व ॥ ३ ॥ अथ अनंतस्तुतिप्रारंभः ॥ स्रग्विणीठंडः ॥ यस्य नव्यात्मनो दिव्यचेतो गृहे सर्वदा
 ऽनंतचित्तमणिर्द्योतते ॥ यांति दूरे स्वतस्तस्य दुष्टापदो विश्वविज्ञानवित्तं न वेद ह्वयं ॥ १
 यस्तु सर्वज्ञरूपं स्वरूपस्थितं वीक्ष्य सद्भावतः सिंहसेनात्मजं ॥ अद्भुतामोदसंदोहसंपूरि
 तो मन्यते धन्यमात्मीयनेत्र द्वयं ॥ २ ॥ सोपवर्गानुगामिस्वजावोज्ज्वलां व्यूढमिष्यात्ववि
 डावणो तत्परां बंधुरात्मा ऽनुनूतिप्रकाशोद्यतां शुद्धसम्यक्त्वसंपत्तिमालंबते ॥ ३ ॥ यु
 ग्मं ॥ अथ धर्मस्तुतिप्रारंभः ॥ कामक्रीडाठंडः ॥ नास्वज्ञानं शुद्धात्मानं धर्मेशानं स
 ऽद्यानं शक्त्यायुक्तं दोषोन्मुक्तं तत्त्वासक्तं सद्भक्तं ॥ शश्वज्जांतं कीर्त्या कांतं ध्वस्तध्वान्तं वि
 श्रामं क्षिप्तावेशं सत्यादेशं श्रीधर्मेशं वंदध्वं ॥ १ ॥ निःशेषार्थप्राङ्कृत्ता सिद्धेर्नर्ता संसर्ता
 दुर्जावानां दूरेहर्ता दीनोदता संस्मर्ता ॥ सद्भक्तेन्योमुक्तेर्दाता विश्वत्राता निर्वाता स्तुत्यो

नक्तया वाचोयुक्त्या चेतोवृत्त्या ध्येयात्मा ॥ १ ॥ सम्यग्दृग्निः साहात्दृष्टोमो हास्पृष्टो ना
 कृष्टः स्रोतोग्रामैः संपञ्ज्येष्टः साधुश्रेष्टः सत्प्रेष्टः ॥ श्रद्धायुक्तस्वातैर्जुष्टो नित्यंतुष्टो निर्दुष्ट
 स्त्याज्यो नैवश्रीवज्रांको नष्टातंको निःशंकः ॥ ३ ॥ युग्मं ॥ अथ शांतिजिनस्तुतिप्रारंभः ॥
 दुतविलंबितबंदः ॥ विपुलनिर्मलकीर्तिनरान्वितोजयति निर्जरनाथनमस्कृतः ॥ लघु
 विनिर्जितमोहधराधिपो जगति यः प्रचुशांतिजिनाधिपः ॥ १ ॥ विहितशांतसुधारसमङ्ग
 नं निखिलदुर्जयदोषविवर्जितं ॥ परमपुण्यवतां नजनीयतां गतमनंतगुणैः सहितं सतां
 ॥ २ ॥ तमचिरात्मजमीशमनीश्वरं नविकपद्मविबोधदिनेश्वरं ॥ महिमधाम नजामि जग
 त्रये वरमनुत्तरसिद्धिसमृद्धये ॥ ३ ॥ त्रिनिर्विशेषकं ॥ अथ कुंभुजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ गी
 तपदतिमाह ॥ जयजय कुंभुजिनोत्तमसत्तम तत्त्वनिधान धर्मजनोज्वलमानसमानस
 हंससमान ॥ ज्ञानाज्ञादकमुख्यमहोदतकर्मविमुक्त विषमविषयपरिजोगविरक्त शुभाश
 ययुक्त ॥ १ ॥ जयजय विश्वजनीन मुनिव्रजमान्य विद्युद् चेतन चारुचरित्रपवित्रितलोक
 विबुद् निरुपममेरुमहीधरधीर निरंतरमेव गर्वविवर्जितसर्वसुपर्वविनिर्भितसेव ॥ २ ॥
 जयजय सूरनरेश्वर नंदनचंदनकल्प वासक विश्वविज्ञावविनाशक वीतविकल्प ॥ नि
 र्मलकेवलबोधविलोकितलोकालोक प्राङ्मुत्तमहोदयनिर्वृतिनित्यविशोक ॥ ३ ॥ अ
 थारजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ रामगिरिरागेण गीयते ॥ दिव्यगुणधारकं नव्यजनतारकं
 डुरितमतिवारकं सुकृतिकांतं ॥ जिनविषमसायकं सर्वसुखदायकं जगति जिननायकं
 परमशांतं दि० ॥ १ ॥ स्वगुणपर्यायसंमीलितं व्याहृतं विगतपरंजावपरिणतिमखंडं ॥ सर्व
 संयोगविस्तारपारंगतं प्राप्तपरमात्मरूपं प्रचंडं ॥ २ ॥ दि० ॥ साधुदर्शनवृत्तं नाविकै
 प्रस्तुतं ॥ प्रातिहार्याष्टकोद्भासमानं ॥ सततमुक्तिप्रदं सर्वदा पूजितं ॥ शिवमपरसार्वभौ
 मप्रधानं ॥ ३ ॥ अथ मद्धिस्तुतिप्रारंभः ॥ कुंभसमुद्भव संमदाकर सगुणवरहेमद्धिजि
 नोत्तम देव जयजय विश्वपते १ कृत्याकृत्यविवेकिता जिनसमुचिता हे त्वयि जागर्ति जि
 नेश ज० ॥ १ ॥ नित्यानंदप्रकाशिका त्रमनाशिका हे तव शुभदृष्टिरनीश ज० ॥ ३ ॥ शुद्धिनि
 बंधनसन्निधे सज्जुणनिधे हे वर्जितसर्वविकार ज० ॥ ४ ॥ निजनिरुपाधिकसंपदा शो
 जित सदा हे निर्मलधर्मधुरीण ॥ ५ ॥ १ ॥ अथ मुनिसुव्रतस्तुति प्रारंभः ॥ अध्यान्या
 गेयपदतिः ॥ उत्तमचेतनधर्मसमृद्धजगत्पते ॥ नित्यानित्यपदार्थनिचयविलसन्मते ॥ नि
 जविक्रमजितमोहमहोद्भटनूपते ॥ श्रीपद्मातनुजात सुजातहरिद्युते ॥ १ ॥ श्रीमुनिसु
 त सुव्रतदेशक सङ्गनाः कृतसज्जुरुजवाक्यसुधारसमङ्गनाः हे प्रणमंति नवंतमनंतसु
 खाश्रितं ॥ केवलमुज्वलजावमखंडमनिंदितं ॥ २ ॥ तेनिःसंशयमेव जगन्नयवंदिताः ॥
 सङ्गावेन नवंति सुदृष्टयानंदिताः ॥ कृत्यं स्वोचितमेव यतः किल कारणां जनयति नात्म

विरुद्धमिहासाधारणं ॥ ३ ॥ अथ नमिजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ पंचचामरठंडः ॥ नमीश
 निर्मलात्मनूप सत्यरूप शाश्वतं पराद्धसिद्धिसोधमूर्ध्वसत्स्वजावतः स्थितं ॥ विधा
 य मानसाब्जकोशदेशमथ्यवर्त्तिनं स्मरामि सर्वदा जवंतमेव सर्वदर्शिनं ॥ १ ॥ प्रफुल्लकौव
 लांठन प्रनूततेजसो य ते दिवाकरस्य वा महेश्वरानिदर्शनेन मे ॥ प्रमादवर्द्धिनी सुडुर्म
 तिर्निशेव दुर्नगा गता प्रणाशमाद्यु हृत्कजे विनिहिता जवत् ॥ २ ॥ निरस्तदोषडुष्ट
 कष्टकार्यमर्थसंस्तवो जवे जवे जवत्पदांबुजैकसेवकः प्रजो ॥ जवेयमीदृशं नृशं म
 दीयचित्तचितितं तव प्रसादतो जवत्वबंध्यमेव सत्वरं ॥ ३ ॥ अथ नेमिजिनस्तुतिप्रारंभः ॥
 उपजातिठंडः ॥ विशुद्धविज्ञाननृतां वरेण शिवात्मजेन प्रशमाकरेण ॥ येन प्रयासे
 न विनैव कामं विजित्य विक्रांतवरं प्रकामं ॥ १ ॥ विहाय राज्यं चपलस्वजावं राजीम
 तिं राजकुमारिकां च ॥ गत्वा सलीलं गिरिनारशैलं जेजे व्रतं केवलमुक्तियुक्तं ॥ २ ॥ निः
 शेषयोगीश्वरमौलिरत्नं जिनेन्द्रियत्वं विहितप्रयत्नं ॥ तमुत्तमानंदनिधानमेकं नमामि ने
 मिं विलसदिवेकं ॥ ३ ॥ अथ पार्श्वजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ पंचचामरठंडः ॥ श्रयाम तं जि
 नं सदा मुदा प्रमादवर्जितं स्वकीयवाग्विलासतोजितोरुमेधगर्जितम् ॥ जगत्प्रकामका
 मितप्रदानदहूमकृतं पदं दधानमुच्चकैरकैतवोपलक्षितं ॥ १ ॥ सतामवद्यजेदकं प्र
 नूतसंपदां पदं बलरूपहृदहृजापतीक्षणहृणप्रदं ॥ सदैव यस्य दर्शनं विशांविर्मेदि
 तैतसां ॥ निहंत्यशातजातमात्मनक्तिरक्तचेतसां ॥ २ ॥ युग्मं ॥ अवाप्य यत्प्रसादमादितः
 पुरुश्रियो नरा जवंति मुक्तिगामिनस्ततः प्रजाप्रजास्वराः ॥ जजेयमाश्वसेनिदेवदेवमेवस
 त्पदं तमुच्चमानसेन शुद्धबोधवृद्धिलानदं ॥ ३ ॥ अथ वीरजिनस्तुतिप्रारंभः ॥ पृथ्वी
 ठंडः ॥ वरेण्यगुणवारिधिः परमनिर्वृतः सर्वदा समस्तकमलानिधिः सुरनरैश्च
 कोटिश्रितः ॥ तथापि गुणवर्जितो विगतनावसौख्यो धनः सुमुक्तजनसंगमस्त्वम
 सि वर्द्धमान प्रजो ॥ १ ॥ जिनेन्द्र जवतोन्नतं मुखमुदारबिंबस्थितं विकारपरिव
 र्जितं परमशांतमुद्रांकितं ॥ निरीक्ष्य मुदितेक्षणः क्षणमितोस्मि यद्भावनां सदैव जग
 दीश्वरोद्भवत सैव मे सर्वदा ॥ २ ॥ विवेकिजिनवल्लभं समदुरात्मनां दुर्लभं दुरंतदुरि
 तव्यथाचरनिवारणो तत्परं ॥ तवांग पदपद्मयोर्युगमनिंद्यवीरप्रजो प्रनूतसुखसिद्धये
 मम चिराय संपद्यतां ॥ ३ ॥ इत्थं चतुर्विंशतिसंख्ययैव प्रसिद्धिजाजां वरतीर्थराजां ॥ श्री
 जैनवाक्यानुसृतप्रबंधा वृत्तैरहीना प्रणुतिर्नवीना ॥ ७५ ॥ गणाधिपश्रीजिनलानसूरिप्रभु
 प्रसादेनविनिर्मितेयं ॥ जिनप्रणीतामृतधर्मसेविहृमादिकव्याणबुधात्मबुधैः ॥ ७६ ॥ यु
 ग्मं ॥ यस्याः प्रसादात्परिपूर्णजावं नूतः सुनिर्विघ्नतया स्तवोर्यं ॥ जगत्रयीजंतुहितैकनिष्ठा
 वाग्देवता सा जयतादजस्रं ॥ ७७ ॥ इति श्रीमच्चतुर्विंशतिजिनस्तुतिः समाप्ता ॥

॥ श्रीसर्वज्ञायनमोनमः ॥

अथश्री मुनिसुंदरसूरिकृत अध्यात्मकल्पद्रुमो
बालावबोधसहितः प्रारभ्यते

॥ प्रथम अर्थकर्तानुं मंगलाचरण ॥

श्रीशंखेश्वरपार्श्वेशं प्रणताजीष्टदायकं ॥
प्रणमामि परमप्रेम्णा सर्वाजीप्सितसिद्धये ॥ १ ॥
सर्वज्ञं सर्वज्ञापात्रिः सर्वसंसत्प्रबोधकं ॥
सर्वसत्त्वहितं वंदे वर्द्धमानजिनेश्वरं ॥ २ ॥

अध्यात्मकल्पद्रुमसंज्ञकस्य शास्त्रस्य संविज्ञाहितावहस्य ॥
वार्त्तात्रिरप्रौढमतिप्रतुष्ट्यै बालावबोधां विदधे विवृत्तिं ॥ ३ ॥

हवेग्रंथनेआदि ग्रंथकार प्रथमस्थापनानुं सूत्रकहेते

अथायंश्रीमान् शांतनामा रसाधिराजः सकलागमादि
सुशास्त्रार्णवोपनिषद्भूतसुधारसायमान ऐहिकामुष्मिका
नंतानंदसंदोहसाधनतया पारमार्थिकोपदेश्यतया सर्वरस
सारचूतत्वाच्च शांतरसज्ञावनात्माध्यात्मकल्पद्रुमात्रिधा
नग्रंथांतरग्रंथननिपुणेन पद्यसंदर्जेण जाव्यते ॥

अर्थ ॥ पूर्वश्री मुनिसुंदरसूरियें त्रिदशतरंगिणी गुर्वावली प्रमुख ग्रंथकीधा ते
वारपठी आग्रंथकीधो तेजणीइहां अथशब्दआप्यो तेमाटे अथकहेतां एटलायकी
अनंतर जेजेनशासननेविषे प्रत्यहू शांतनामाजे रसाधिराज रसजे १ शृंगार २ हा
स्य ३ करुणा ४ रौड ५ वीर ६ जयानक ७ बीजत्स ८ अद्भुत ९ शांत एनवमथ्येअ
धिराजके० शिरोमणी तेहुं मुनिसुंदरसूरि पदके० काव्यतेहनो संदर्जेरचना तेषोकरि
ने जाव्यतेके० विचारुंहुं एटलेपूर्वमनमाधखोळे तेकाव्यबंधे प्रगटकरिकहुंहुं के
हेवोळेते रसाधिराज श्रीके० मोहूरूपिणीजक्षी तेळे फलजेहनुं एहवो वलीकेहेवोळे

आगमजे श्रीजिनेश्वरप्रणीत सिद्धांत तेआर्देदेइने सकलजे सुशास्त्रकहेतां धर्मशा
स्त्र तेरूपीउ अर्णवजे समुद्र तेहनं उपनिषद्भूतके० सारचूत एहवो सुधारसायमा
नके० अमृतरसतुल्यठे हवेअन्यशृंगारादिक रसतजीने केवलशांतरसनेज शावास्तेजा
ववुं तेहनोहेतुकहेठे एकतोऐहिकामुष्मिकके० इहलोकसंबंधी अने आमुष्मिकके०
परलोकसंबंधी जेअनंतआनंदनो संदोहके० समूह तेनुंसाधनठे तेहेतुयेंकरीने वली
बीजोहेतुकहेठे परमार्थिकजे मोहार्थ तेहनाजेजाणनार तेहनेउपदेशदेवायोग्यठेए
टलेमोहार्थनाउपदेशकजे तीर्थकर गणधरादिक तेआशांतरसनोज उपदेशकरे तेएक
रीने. वलीत्रीजोहेतुकहेठे जेआशांतरसते सर्वरसनेविषे सारचूतठे तेहेतुथकी. हवे
पद्यसंदर्नकहेवुंठे तेकेहेठे शांतरसजावनास्वरूप अध्यात्मकल्पद्रुम एहवेनामेजेअंध
विशेष तेहनं अंधनजेरचना तेहेनेविषे निपुणठे मनश्चित अध्यात्मज्ञान आपवा
ने कल्पवृह्नीपेठेसमर्थ तेमाटेआग्रंथनुंनाम अध्यात्मकल्पद्रुम जाणवुं.

जयश्रीरांतरारीणां लेजे येन प्रशांतितः ॥

तं श्रीवीरजिनं नत्वा रसः शांतो विजाव्यते ॥१॥

अर्थ ॥ हवेअंधनेआर्दे अंधकर्ता मंगलाचरणकहेठे जेणेप्रशांतितके० उत्कृष्टशां
तरसथी क्रोध मान माया लोच राग द्वेष ए ठए अंतरंगशत्रुठे तेआनेजीतीने जय
लक्ष्मीपामीठे एहवाते श्रीवीरजिनप्रते दुंमुनिसुंदरसूरि नमस्कारकरीने शांतनामाजे
रस तेने जावुंठुं एटले समुचितेष्टदेवताने नमस्कारलक्षण अंधारंजेमंगलिककहुं ॥१॥

सर्वमंगलनिधौ हृदि यस्मिन् संगते निरुपमं सुखमेति ॥

मुक्तिशर्म च वशीभवति ज्ञाक् तं बुधा नजत शांतरसैंडं ॥२॥

अर्थ ॥ हवेशांतरसनुं महात्म्यकहेठे बुधाके० हेविवेकीजनो तमें आ सर्वमांग
व्यनुं निधान एहवोजे शांतनामारसाधिराज तेप्रतेजजो केमके एशांतरस जेनारुद
यमांआव्यो तेप्राणी अनुपम सर्वार्थसिध्यादिकनाजेसुख तेप्रतेपामें वलीजे रुदयमां
आवेथके जेमोहसुखतेपण ज्ञाक्के० तत्काल थोडाकालमांज वशथाय ॥ २ ॥

समतैकलीनचित्तो ललनापत्यस्वदेहममतामुक् ॥ विष

यकषायाद्यवशः शास्त्रगुणैर्दयितचेतस्कः ॥ ३ ॥ वैरा

ग्यशुद्धर्मा देवादिसतत्वविद्विरतिधारी ॥ संवरवान्

शुचवृत्तिः साम्यरहस्यं नज शिवार्थिन् ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवे साम्योपदेशयोग पुरुषनाविशेषण द्वारेंकरीने ग्रंथकर्ता ग्रंथमध्येक हेवाना सोल द्वारकहेठे हेमोहार्थिपुरुषतुं साम्यरहस्यजे समतानुंसार तेप्रतेनज तेकहेवोथइनेनज जे एकतो समतासार्थे लीनचित्तकरीने एटलेएपहेलुं द्वारपण कहुं वली बीजुं ललनाजे स्त्रीनीममतामोचन द्वार त्रीजुं अपत्यजे पुत्रादिकसंततिनी ममतामोचन द्वार चोथुं स्वके० धननीममतामोचन द्वार पांचमुं देह तेहनीममतायेंर हितयको एटलेपांचमुं देहममतामोचन द्वार ठतुं विषयजे शब्दादिकनोनिग्रहकरवो सातमुं कषायजे क्रोधादिक तेनोनिग्रहकरवो इहां आदिशब्दथी राग द्वेष प्रमादादि क तेहुने अवश्यके० आधीननही एहवोथकोरहे तथा शास्त्रजे जैनागम तेहना गुणजे हेयोपादेयादिक तेणेकरीने दम्युंठेचित्तजेणे एटलेशास्त्रगुणते आठमुं द्वार अनेचित्तदमननामे नवमुं द्वार वली वैरागेंकरीने शुद्धनिर्दोषठे धर्मजेहनुं एमांदस मुं वैराग्य द्वार अने इग्यारमुं शुद्धधर्मनामा द्वार तथा देवजेथीअरिहंत गुरुजेसु साधु अनेकेवलप्रणीतधर्म एत्रण तत्वनो जाणथयीने एटले ए देवादिकस्वरूपनाज्ञा ननुं बारमुं द्वार तथा विरतिजे पंचाश्रवणुं विरमण तेहनुं धारकयको एतेरमुं विरति धारी नामा द्वार वली संवरजेसत्तावनजेदे आश्रवनिरोधरूप तेणेकरीसहित तेचउद मुं संवर द्वार अने शुजउत्तम वृत्तिके० आचरणाठेजेहनी एहवोथको तुं साम्यरहस्य नेनज एटलेइहां शुजवृत्तिनामापन्नरमुं द्वारथयुं अनेसोलमुं साम्यरहस्यनामा द्वार एग्रंथमांकहेवानासोल द्वारना नामबेश्लोकेंकरीकह्या ॥ ३।४ ॥

इति षोडशाधिकारे शास्त्रोपदेशपदसंग्रहो यथा

चित्तबालक मात्याह्नी रजस्रं जावनौषधीः ॥

यत्वां दुर्ध्यानचूता न बलयंति बलान्विषः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रथम समताना अधिकारआश्री उपदेशकहेठे हेचित्तरूपीयाबाल क तुं सदाय जावनाजे अनित्यादिकबार तथामैत्र्यादिकचार तेरूपणीआौषधीप्रतें ठां मीसनही केमकेएजावनाने नठांमवाथी शोगुणथायठे तेकहेठे जेथकीताहराठलना जोनाराजे आर्त्तरौडादिदुर्ध्यान तेरूपीया चूतपिशाचते तुजनेबलकरीशकरोनही ॥५

यदिंजियार्थैः सकलैः सुखं स्यान्नरेंजचक्रिन्निदशाधिपानां ॥

तद्विदवत्येव पुरोहि साम्यसुधांबुधेस्तेन तमाजियस्व ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेएशुजजावना ते समताविना नहोय तेकहेठे सघला इंजियार्थैजे शब्द रूप रस गंध अनेस्पर्श तेणेकरीने राजाचक्रवर्ती अनेत्रिदशाधिपकहेतां इंइ

तेहनेजेसुखहोय तेसर्वसुख समतारूपीयुंजे सुधांबुधिकहेतां अमृतसमुद्भे तेथ्या
गल बिंडुबराबरदेखाय एटलेसंसारिकसुख सधलुंमलीने बिंडुतुल्ये अनेसमतानुं
सुखेते समुद्भुतुल्ये तेमाटेमोक्षार्थिजीवते समतारूपीया सुधासमुद्भेआदरे॥६॥

अदृष्टवैचित्र्यवशाज्जगज्जने विचित्रकर्माशयवाग्विसंस्थुले ॥

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तयः सुखं नजंते यतयः कृतार्तयः॥७॥

अर्थ ॥ हवेसमताआदखानुं फलकहेढे जगतजे त्रिचुवनतेमां जनजे देवमनु
ष्यादि तेमध्येयतीजेनिग्रंथ तेजसुखीयाढे तेजगतजनकहेवाढे तेकहेढे अदृष्टजेपूर्वक
तकर्म तेहनुंविचित्रजे नानारूपपणुं तेहनावशथकी नानाविधकर्मना विपाकथी सं
सारीजीवना मननोअजिप्राय तथावचन अनेकायानीचेष्टापण नानाविधे तेणेकरी
व्याकुलढे. हवेयतीकहेवाढे उदासवृत्तिजे लाजालान सुखडुःख अने प्रियअप्रिय तेने
विषेसमानवृत्तिढे तथाजेनी चित्तवृत्ति स्थितरहीढे वलीजेनीसर्वचिंता क्यपामीढे ॥७॥

विश्वजंतुषु यदि क्लृणमेकं साम्यतो नजसि मानस मैत्रीं ॥

तत्सुखं परममत्र परत्राप्यश्रुषे न यदन्नूतव जातु ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ वलीसमतानुं विशेषफलकहेढे हेचित्त जोतुं समतार्येकरीने सर्वजीवने
विषे एकक्लृणमात्रपण मैत्रिता चिन्तवेतोतुं पूर्वेसंसारमांन्रमणकरतां कोड्वखतपा
म्योनथी एवा इहलोक अने परलोकमांपण परमउत्कृष्टसुखप्रतेपामे ॥ ८ ॥

न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रुर्निजः परो वापि न कश्चनास्ते ॥

न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः कषायमुक्तं परमः स योगी ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ हवेसमताने योग्यजीवकोणहोय तेकहेढे जेहनेकोडमित्रनथी तथा
कोडशत्रुपणनथी तेमजजेहने पोतानुं तथापारकुंकांनथी वलीजेहनुं चित्त कषाय
रहितथको इंद्रियार्थजे शब्दादिविषय तेनेविषे रमेनही तेप्राणीपरमयोगवंतहोय
एटले ते समतावंतजाणवो ॥ ९ ॥

नजस्व मैत्रीं जगदंगिराशिषु प्रमोदमात्मन् गुणिषु त्वशेषतः ॥

नवार्तिदीनेषु कृपारसं सदाऽप्युदासवृत्तिं खलु निर्गुणेष्वपि ॥१०॥

अर्थ ॥ हवेसमताआध्याना कारणउपदेशेढे हेजीव जगतना अंगीके०जेजीवते
हनीराशिकहेतां समूहनेविषे एटलेसामान्यथकीसर्वजीवनेविषे मैत्रिताप्रत्ये नजस्वके०
आदरीने वलीसमस्तप्रकारे जेकोड ज्ञानादिकगुणयुक्तहोय तेहनेविषे प्रमोदप्रत्ये नजि

अनुमोदनाकर तथाजवके ० संसारनी आर्त्तिजेपीडा तेणेकरीदीनके ० डुःखितप्राणिने विषेरुपारसप्रतेजज वली निश्चैर्निर्गुण प्राणीनेविषेपण उदासवृत्तिप्रतेजज ॥ १० ॥

मैत्री परस्मिन् हितधीः समग्रे जवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ॥

कृपा जवार्त्ते प्रतिकर्तुमीहोपेक्षा च माध्यस्थ्यमवार्यदोषे ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ हवेएमैत्र्यादि चारेजावनानुं स्वरूपकहेठे समस्तपोताथी व्यतिरिक्तजेबी जाजीव तेनेविषेजे हितचिंतववानीबुद्धि तेनेमैत्रीकहियें तथागुणीजे ज्ञानादिकगुण वंत तेहनोपक्षपातजे प्रशंसा तेहनेप्रमोदकहियें तथाजवार्थिजे जन्ममरणादिक सं सारनाडुःख प्रतिकारकरवानीवांछा कोऽअज्ञानीजीवने पापथकीनिवर्त्ताविवानेअर्थे प्र तिबोधदेवो तेनेकृपाकहियें जेमश्रीवीरस्वामीयें शूलपाणीयह् चंद्रकोशिकसर्पप्रते अपराधउपरपण कृपाकीधी. वलोजेप्राणीअवार्यदोषकहेतां वारताथकापण दोषनेन ठांमे तथावारवायोग्यपणनहोय एहवोदोषवंत जेपुरुष तेनेविषे मध्यमजावें रागदेष रहितपणो समजावेंरहेवुं तेउपेक्षाजावनाकहियें ॥ ११ ॥

तथाचोक्तं तुर्यषोडशके ॥ परहितचिंता मैत्री परडुःखनिवारिणी तथा

करुणा ॥ परसुखतुष्टिर्मुदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ तेमजवलीकह्युंठे श्रीहरिजडसूरियें चोथाषोडशकमध्ये जे परनेहितचिंत ववुंतेमैत्री तथापरनाडुःखने निवारणकरवानीजावना तेकरुणा अनेपरनुंसुखजे सम तादिरूप तेदेखीने संतोषपामवो ते मुदिताके ० प्रमोदजावना कहियें अने परनादोष देखी उवेखवुं उदास रहेवुं तेनेउपेक्षाजावना कहियें ॥ १२ ॥

तथाच योगशास्त्रे ॥ माकार्षीत्कोपि पापानि मा चाचूत्कोपि डुः

खितः ॥ मुच्यतां जगदप्येषां मतिर्मैत्री निगद्यते ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ वलीयोगशास्त्रमध्येपण श्रीहेमचंद्रसूरियेंकह्युंठे के कोऽपापमकरो कोऽ डुःखीयाओमां तथाजगतसर्व कर्मथीमुकाओ एवीजेमतितेने मैत्रीकहियें ॥ १३ ॥

अपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतत्वावलोकनां ॥ गुणे

षु पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ सकलदोषरहित तथा वस्तुतत्वजे स्वजाव अने परजाव तथा इव्य गुण पर्यायिनाजाण एवाजेगुणवंत तथाउपलक्षणथकी सामान्यपणोपण जेगुणवंतहोय तेहना गुणनेविषे जेपक्षपात तेनेप्रमोदजावनाकहियें ॥ १४ ॥

दीनेष्वार्त्तेषु नीतेषु याचमानेषु जीवितं ॥ प्रती
कारपरा बुद्धिः कारुण्यमन्निधीयते ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ वलीदीन असमर्थ अनेआर्त्तपीडावंत तथा नयेकरी आकुल अनेजी वितव्यनेयाचतां एवाप्राणिनेविषेजे प्रतिकारकहेतां दुःख निवारवानीबुद्धि राखवी तेने कारुण्यके० करुणाजावना कहियें ॥ १५ ॥

क्रूरकर्मसु निःशंकं देवतागुरुनिंदिषु ॥ आ
त्मशंसिषु योपेक्षा तन्माथ्यस्थ्यमुदीरितं ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ तथा शंकारहित क्रूरकर्मनाकरनार अने देवगुरुनानिंदक पोतानीप्रशं
सानाकरनार एवाअधमपुरुषनेविषेजे उपेक्षा तेमथ्यस्थजावनाकहियें ॥ १६ ॥

चेतनेतरगतेष्वखिलेषु स्पर्शरूपरसगंधरसेषु साम्यमे ॥
ति यदा तव चेतः पाणिगं शिवसुखं हि तदात्मन् ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेवली मूलसूत्रकार समताआदरवाथी मोहनी सुजनताकहेडे हेआ
त्मन् जेवारें ताहारुंचित्त अखिलके० समग्रचेतनजे अनुकर्में स्त्री देह स्त्रीकटाह
कोकिलनाद कस्तुरी पशुमांसप्रमुख तथाइतरजे अचेतनपदार्थ अनुकर्में शय्या
आनरणघरेणादिक कर्पूर वीणा शर्कराप्रमुख तेसंबंधी जेस्पर्श रूप रसके० श
ब्द गंध रस तेहनेविषेतुं साम्यताके० इष्टानिष्टनेविषे समवृत्तिप्रतेंपामज्ञे तेवारेंज नि
श्चंकरिने मुक्तिसुखते ताहरेहस्तगतथाज्ञे ॥ १७ ॥

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृत्या मदवान् यत् ॥
कैर्गता नरकनीः सुकृतैस्ते किं जितः पितृपतिर्यदचितः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ हवेआत्माजे स्तुतिनेवांढेडे तेनोमदनिवारवाने कहेडे हेअत्माऔदार्य धै
र्य गांजीर्य दान शील तप जावना उपशमादिक जेगुणढे तेमांहेलाताहरामां श्यागुण
ढे केजेहने माटेतुं स्तुतिकहेतां लोकनामुखें पोतानीप्रशंसा कराववावांढेडे तथावली
तेंशुंसाधुआश्रीने राज्यादिमहार्धिकनेप्रतिबोध अथवासर्वशास्त्रप्रवीणता उग्रतप
युगप्रधानपणुं इत्यादिक अथवाश्रावकआश्रीने जीर्णोद्धार बिंबप्रतिष्ठा संघपतिपणुं
अमारपडह इत्यादिक अद्भुतके० आश्चर्यकारी कार्यश्यांकीधा केजेनाथी तूं मद
वंतथायडे तथा कयासुकृतेंकरी ताहारीनरकनीबीकगइ अथवापितृपतिजे यम तेसुं

तंजित्यो जेमाटेतुंअचिंतकहेतां निश्चितथकोरहेठे. एटले स्तुतिनीवांठा मदकरवो
अने निश्चितरहेवुं ए तने युक्तनथी ॥ १७ ॥

गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषा माक्रोशनिंदादिजिरात्मनश्च ॥

मनः समं शीलति मोदतेवा खिद्येत च व्यत्ययतः स वेत्ता ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ हवेजेवेत्तापणुंते शांतरसनुंकारणठे एमकहेठे जेप्राणी परके० अन्यजेगुण
वंतपुरुषहोय तेनागुणस्तवजे गुणवर्णन अनेआत्मनःकहेतां पोतानाआक्रोशजे गा
लप्रमुख तथानिंदादिक सांजलीने पोतानुंमन समपरिणामेराखे पण अमर्षधरेनही
उजटो मोदतेकहेतां हर्षपामे अनेएमविचारेजे गुणवंतना गुणस्तववाजवटेठे तथा
हेआत्मातुं निर्गुणठो माटे निंदानेजयोग्यठो एमप्रमोदधरे तथाव्यत्ययकहेतां उ
परकह्यार्थीविपरीतजे बीजागुणवंतपुरुषना आक्रोशके० निंदासांजलीअनेपोतानी
प्रशंसादिकसांजलीने खेदपामे जेएवागुणवंतपुरुषनी निंदाकांकरेठे तथामाहारामां
तोगुणनथी तेमठतांएचुंकहेठे एमचिंतवे तेहनेवेत्ताके० ज्ञानीकहियें ॥ १९ ॥

न वेत्सि शत्रून् सुहृदश्च नैव हिताहिते स्वं न परं च जंतोः ॥ १९ ॥

खं क्षिपन् वांठसि शर्मचैत त्रिदानमूढः कथमाप्स्यसीष्टं ॥ २० ॥

अर्थ ॥ हवेयथार्थने नहीजाणनारजीवनुं मूढपणुंकहेठे हेजीव तुंशत्रूजेरागादिक
तथाभिन्नजेउपशमादिक तेहनेनथीजाणतो तथाहितजेसंवरादिक अने अहितजेआ
श्रवादिक तथावलीस्वजावजे ज्ञानदर्शनादिक अनेपरजावजे मिथ्यात्वरगादिक तेहने
नथीओलखतो वली दुःखजेपरिसहादिक तेहथीउजग्योठे अनेशर्मजे इहलोकतथा
परलोकादिकनुंसुख तेनेवांठेठे तेवारें तुं एसुखनुं निदानजे कारण तेहनुं तो मूढके०
अजाणठो तेमठतां शीरीतेंवांठित पदार्थप्रतेंपामीश एटलेसुखनुंमूल निदानते सं
यमठे तेविनाइष्टसुखनी प्राप्तिनथाय ॥ २० ॥

कृतीहि सर्वं परिणामरम्यं विचार्य गृह्णाति चिरस्थितीह ॥

नवांतरे ऽनंतसुखाप्तये तदात्मन्किमाचारमिमं जहासि ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ हवेजाणपणानुं फलदेखाडीने उपदेशेठे कृतीजेमाह्योपुरुषहोय तेतोस
र्ववस्तुमांजे वस्तुपरिणामेरम्य तथासुखदाइहोय अनेचिरस्थितिकहेतां घणोकालर
हे एवुंविचारकरीने तेवस्तुनेतेग्रहणकरे तोहेआत्मा नवांतरेअनंतसुख आपवाने
समर्थ एवाजेज्ञानादिक चारपदार्थ तेनेतुंकेमत्यजेठे एचारेंवस्तुपरिणामेरम्यठे अने
चिरस्थितिठे एटलेघणाकालसुधी रहेएवीठे माटेतेतुजनेत्यजवीघटेनही ॥ २१ ॥

निजः परो वेति कृतो विज्ञागो रागादिभिस्ते त्वरय स्तवात्मन् ॥
चतुर्गतिक्लेशविधानतस्तत्प्रमाणयन्नस्यरिनिर्मितः किं ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ हवेआत्मा रागादिकने वशथको पोतानुंअने पारकुंलेखेते तेआश्रीउपदे शेडे हेआत्मा निजकहेतां स्वजन कलत्र पुत्रादिक अथवा परजेशत्रुप्रमुख एवोवि नागजे जेदकरीजाएवो तेजेदसर्वरागादिकनुं करेलुंढे माटेताहरे जेप्राणीसार्थे राग ठे तेहनेतुं स्वजनकरीजाणेढे अनेजेनाथीदेषेढे तेनेशत्रुकरीजाणेढे पणतेरागादिक तो चारगतिनाक्लेश कष्टनाकरनार ताराशत्रुढे तोअरिनिर्मितके० तेशत्रुनुंजनीपजा थुं जेजेद तेने शुंप्रमाणकरेढे एटलेरागदेषनावशथी निजपराविज्ञागकरवुंतेजूठेढे.

अनादिरात्मा न निजः परो वा कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृदा ॥
स्थिरा न देहाकृतयोणवश्च तथापि साम्यं किमुपैषिं नेषु ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ हवेसर्ववस्तुनी अनित्यतादेखामी आत्मानेसमतानी प्रेरणाकरेढे हेआत्मा तुंआदिरहितठे अनेकोइनेकोइ पोतानुं तथापारकुंनथी वलोकोइनोकोइशत्रु अ नेमित्रपणनथी वलीहेआत्मन् देहजेपुरुष स्त्रीआदिकनुंशरीर तेआकारेपरिणाम्या एवाअणुकहेतां पुजल तेपणस्थिरनथी केमके कृणकृणप्रत्ये उपचयके० शुनअथु नादिक अवस्थापालटेढे तेमठतां हेआत्मा आवेहाकारजे पुजलतेनेविषे तुंकेम सा म्यताकहेतां रागदेषरहिततापणुं नथीपामतो हेआत्मा तुंतोअनादीढे अनेएदेहाकृती तो अस्थिरढे माटेसमतानेआदर ॥ १३ ॥

यथा विदां लेप्यमया न तत्रा त्सुखाय मातापितृपुत्रदाराः ॥
तथा परेपीह विशीर्णततदा कारमेतद्धि समं समग्रं ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ वलीएजअर्थ दृढकरेढे आसंसारमांजेम लेपमयकहेतां चित्रादिलिखित जे माता पिता पुत्र दारा कलत्रहोय ते तत्वथकी विचारीजोतां विवेकीपुरुषने सुखदाइ नहोय एटलेतेहने देखीविवेकीसुखमानेनही तेम अपरेके० बीजापणजे साहातदृश्य मान माता पिता पुत्र कलत्रादिक तेपणतत्वथकी विवेकीने सुखदाइनथाय केम के तेना तेतेआकारनांगाथकी ते लिप्यमय जेचित्रितपुतला तथाप्रत्यकृदृश्यमानजे मातापितादिक तेसर्वसरखाथाय माटेतेनेविषे ममत्वकरवुं तेमिथ्याढे ॥ १४ ॥

जानंति कामान्निखिलाः संसंज्ञा अर्थं नराः कर्म च केपि धर्मं ॥
जैनं च केचिद् गुरुदेवशुद्धं केचित् शिवं केपि च केपि साम्यं ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हवेसमताना धरनारप्राणियोडाहोय तेकहेढे संसारमां समग्रसंज्ञाधार क जीवमात्र तेकामकहेतां शब्दादिकविषयजाणेढे एटले कामनाअर्थी सर्वजीवढे तेसर्वमनुष्य अर्थकहेतां धनउपार्जन तथाकर्मकहेतांकाम एबेपदार्थजाणेढे केमके मनुष्यना कामनोगते धननेआधीनढे तेमांवलीकोइकमनुष्यते सामान्यथकी सिध्या दृष्ट्यादिक धर्मनेजाणेढे वलीतेमांपणकोइकज जैनधर्मनेजाणेढे वलीतेमांपण को इकविरलाज शुद्ध अष्टादशदोषरहितदेव तथागुरु सुविहितसुसाधु एवोजैनधर्मजा णेढे वलीतेमांपण शिवजेमोहार्थ तेहनेतोकोइकज जाणेढे वलीतेमांपणसमताना जाणतो कोइकविरलाजढे एटले ए सर्वथीअधिक तेसमताना जाणनेकह्यो ॥ १५॥

स्निह्यंति तावद्धि निजानिजेषु पश्यंति यावन्निजमर्थमेच्यः ॥

इमां जवेऽत्रापि समीक्ष्य रीतिं स्वार्थे न कः प्रेत्य हिते यतेत ॥१६॥

अर्थ ॥ हवेस्वजनना संबंधते केवलस्वार्थनिष्ठितढे तेदेखाडेढे निश्चयथी निजके ० पोतानास्त्रीपुत्रादिकतेसहु निजके ० पोताना पतितादिक स्वजननेविषेतिहां लगे स्नेह धरें जिहां लगे ते स्वजनथी पोतानुंअर्थ जे जरण पोपणादिक यतुंदेखे तिहांलगे स्नेह धरेढे एम प्रत्यह्अज्ञवनेविषेपण स्वजनादिकनी एरीतढे तेजोइने प्रेत्यके ० परलोक नेविषे हितकारी एवोस्वार्थजे अत्मार्थ संयमादिक तेहनेविषे कोणउद्यमनकरे ॥१६॥

स्वप्नेऽजालादिपुयद्दासै रोषश्च तोषश्च मुदा पदार्यैः ॥

तथा जवेऽस्मिन् विषयैः समस्तैरेवं विज्ञाव्यात्मलयेऽवधेहि ॥१७॥

अर्थ ॥ हवेजेरागद्वेषधरवो तेफोगटढे एमदेखाडेढे जेमस्वप्न तथाइंजालादिक विषे पाम्याजे अशुच तथा शुचपदार्थ तेणेकरीने रोषकहेतांद्वेष अने तोषकहेतां हर्षकरवो ते मुधाके ० निरर्थकढे एटले जेमस्वप्न इंजालादिकना पंदार्योथी अर्थसि दिकांइनथी तेमजवमांपण अशुचतथा शुचविषयेंकरीने रोषअनेतोषकरवो तेमुधाढे एमविचारीने हेअत्मातुं आत्मसमाधिनेविषे अवधेहिके ० सावधानरहे ॥ १७ ॥

एष मे जनयिता जननीयं बंधवः पुनरिमे स्वजनाश्च ॥

इव्यमेतदिति जातममत्वो नैव पश्यसि कृतांतवशत्वं ॥१८॥

नोधनैः परिजनैः स्वजनैर्वा दैवतैः परिचितैरपि मंत्रैः ॥

रक्ततेऽत्र खलु कापि कृतांतान्नो विज्ञावयसि मूढ किमेव ॥१९॥

अर्थ ॥ हवेबेकाव्यमां जीवने मृत्युनुं आधीनपणुं देखाडेढे हेअत्मा आमाह

रोपिता आमाहरीमाता आस्वजन आड्य्य एम ममत्वमां मग्नथयोथकोतुं स्वकहे तांपोतेज यमनेवशपड्युं नथीदेखतोढतो ॥ १८ ॥ तोहेमूढ एसंसारनेविषे निश्च येकरिने धनतथापरिजन सेवकादिक तथा स्वजन पुत्र कलत्रादिक बलिदेवता तथा परिचितकहेतां विधिशीतपाज्यां जेमंत्रतेणेसर्वेमलीनेपण कृतांतजेमृत्यु तेथी कोऽप्राणीरस्वायनही एवंहेमूर्खतुं केमविचारतो नथी ॥ १९ ॥

तैर्ज्वेपि यदहो सुखमिडं स्तस्य साधनतया प्रतिजातैः ॥ मुह्य सि प्रतिकलं विषयेषु प्रीतिमेषु न तु साम्यसतत्वे ॥ ३० ॥

अर्थ ॥ अहोआत्मा जेमाटेतुंसंसारमांपण तेपूर्वोक्तजेधनादिक तेणेकरिने सुखांततो ढतो समयसमयविषे विषयमां मोहपामेढे पणतेधनादिक कहेवाढे तेतुज नेसुख साधन तथाके० कारणपणे प्रतिजास्यांढे पणतेधनादिक तोसुखनाकार एनथी मात्रतने एमनास्यांढे जे ए सुखनासाधनढे तेथी तुं समताना सतत्वस्वरूपनेविषे प्रीतिनथीपामतुं ॥ ३० ॥

अर्थतोयुग्मं ॥ किं कषाय कलुषं कुरुषे स्वं केषु चिन्ननु मनोरिधि याऽत्मन् ॥ तेपि ते हि जनकादिकरूपैरिष्टतां दधुरनंतनवेषु ॥ ३१ ॥

अर्थ ॥ हवेस्वजनादिकतुं अनेकांतिकपणुं देखाढेढे निश्चयथकी हेआत्मा कोऽकप्राणीनेविषे अरिधियाकहेतां एमाहाराशत्रुढे एवीबुद्धेंकरी पोतातुंमन कषायेंकरीक लुपितशुंकरेढे केमके तेप्राणीपण ताहारा पिता मातादिकस्वरूपेंकरीने अनंता नवमां अनंतासगपणोने धरताहवा तेमाटेतेअने केवल शत्रुकरीजाणवुं तेमिथ्याढे ॥ ३१ ॥

यांश्च शोचसि गताः किमिममे स्नेहला इति धिया विधुरात्मा ॥

तैर्ज्वेषु निहतस्त्वमनंतेष्वेव तेपि निहता नवता च ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ हवे जे स्वजनढे तेजशत्रुढे एवंदेखाढेढे हेआत्मातुं एमाहारो स्नेहवंत स्वजन किहांगथो एवीबुद्धियें विधुरात्माके० दुःखेंव्याकुलथको सुवागयाजेस्वज नादिक तेप्रत्येंशोचेढे एमजेहनो शोककरेढे तेजस्वजनादिकें तुजनेअनंतानवनेवि षेहण्योढे वलीतेपण तेहनेअनंतानवनेविषे हण्योढे तेटलामाटे स्वजनबुद्धियेंजे स्नेहराखवुं तेपणमिथ्याढे. ॥ ३२ ॥

त्रातुं न शक्या नवदुःखतो ये त्वया न ये त्वामपि पातुमीशाः ॥

ममत्वमेतेषु दधत् मुधात्मन् पदेपदे किं शुचमेषि मूढ ॥ ३३ ॥

अर्थ ॥ हवेकोइकोइने राखवासमर्थनथी एवुंदेखाडेठे नवके० संसारनाडुःखथ की जेप्राणीने तुं राखीशक्योनही अनेतेपण नवडुःखथीतुजने राखीशक्यानही तो जेनवडुःखथी राखवानेसमर्थनथी तेवारेंहेमूर्खआत्मा स्वजनादिकनेविषे मुधाके० फो कटममत्वकरतोथको पगेपगेंशुंशोकपामेठे माटेशोकतजीने समतानेनज ॥ ३३ ॥

सचेतनाः पुञ्जलपिंडजीवा अर्थाः परे चाणुमया द्वयेपि ॥

दधत्यनंतान् परिणामजावान् तत्तेषु कस्त्वर्हति रागरोषौ ॥ ३४ ॥

अर्थ ॥ हवेजीवना पुञ्जलसाथें नानाविध परिणामठे तेकहेठे पुञ्जलपिंडके० पुञ्ज लनो समूहजेदेहजरूण तेहनेआश्रीनेरह्या एवाजे सचेतनके० चेतनाधारक सर्व जीव अथवा अणुमयाके० पुञ्जलमयजे बीजा अचेतन अर्थके० पदार्थ एटलेशरी रधारकजीव अने पुञ्जल एवेपण अनंतागमे परिणामजावके० पर्यायप्रत्येधरेठे तोते जीवअनेपुञ्जलनेविषे रागअनेरोषकरवाने कोणयोग्य थाय निपुणपुरुषें तेउपर राग रोषकरवो युक्तनथी ॥ ३४ ॥ इतिश्रीअध्यात्मकल्पडुमे साम्योपदेशारव्यः प्रथमोधिकारः

अथस्त्रियः ॥ मुह्यसि प्रणयचारुगिरासु प्रीतितः प्रणयिनीषु कृतिन् किं ॥ किं न वेत्सि पततां नववाधै तानृणां खलु शिलागलबद्धाः ॥ १ ॥

चर्मास्थिमज्जांत्रवसास्त्रमांसामेध्याद्यशुच्यस्थिरपुञ्जलानां ॥ स्त्री देहपिंडाकृतिसंस्थितेषु स्कंधेषु किं पश्यसि रम्यमात्मन् ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेबीजाअधिकारमां स्त्रीओनोममत्व लजवाआश्री उपदेशआपेठे हेकृ तिन् प्रणयचारुके० स्नेहेकरीमनोहरठे गिराके० वाणीजेहनी एहवी प्रणयिनीके० स्त्री ओनेविषें प्रेमेकरीने सुंमोहपामेठे पण एमकांनथीजाणतोजे नववाधैके० सं सारसमुड्मां पडतापुरुषनागलामां स्त्रीओते शिलाउंबांधेठे ॥ १ ॥ हवेएस्त्रीओना शरीरतुं अपवित्रपणुकहेठे हेआत्मन् चामडी हान चरबी आंत्रर्मा पांसली मेद रुधिर मांस विष्टा तथा आदिशब्दथी मूत्र कफ श्लेष्मादिक एहवाअपवित्र अने अस्थिरके० कृणविनाशिक जे पुञ्जल तेहना स्कंधके० समूहथी बन्यो जेस्त्रीनुंशरी र तेहनी पिंदाकृतिके० सांइ सुघटआकार तेरूपेंसंस्थितरह्याठे तेमां सुंतुंमनोहर पणुंदेखेठे एटलेएसर्व अपवित्र अस्थिरपुञ्जलनो पिंमठे तेमोकांसारनथी ॥ २ ॥

विलोक्य दूरस्थममेध्यमल्पं जुगुप्ससे मोटितनासिकस्त्वं ॥

चृतेषु तेनैव विमूढयोषावपुष्पु तत्किं कुरुषेऽजिलाषं ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे हेआत्मन् अल्पके० शोमुकपण अमेध्यके० विष्ठादि कदेखीने मोटितनासिकाके० नाकमचकोडीनेतुं जुगुप्ससेके० डुगंढाकरेठे तोहे मूर्ख विष्ठादिकेंजन्त्या एहवाजे स्त्रीओनाशरीर तेहनेविषे सुं अनिलाषकरेठे ॥ ३ ॥

अमेध्यमांसास्त्रवसात्मकानि नारीशरीराणि निषेवमाणाः ॥

इहाप्यपत्यजविणादिचिंतातापान् परत्रेप्रतिदुर्गतीश्र्वा ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेएस्त्रीओनाशरीरते इहलोकें अने परलोकेंपण दुःखदायीठे तेकहेठे अमेध्यजे विष्ठादिक ते मांस रुधिर मेद तेथीजबनेला तन्मय एहवाजे स्त्रीओनाशरीर तेहने सेवनाराजेपुरुष तेइहलोकेंपण अपत्यके० संतानपुत्रादिक तथा इविण के० धनइत्यादिकनी चिंतानासंतापप्रतें पामेठे अने परलोकेंपण दुर्गतिप्रतेंपामेठे ४

अंगेषु येषु परिमुह्यसि कामिनीनां चेतः प्रसीद विश
च क्लृणमंतरेपां ॥ सम्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिपिंडके
न्यस्तेन्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिडत् ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ वलीस्त्रीनादेहनी अपवित्रताकहेठे चित्तनीप्रसन्नतायेकरीनेजे स्त्रीओनाअंगनेविषे मोहपामेठे तेहनेकहियेंठेयेजे तुं तेमांएकक्लृणमात्र प्रवेशकरी एटलेसूक्ष्मदृष्टीयेकरी तेहनुंसम्यक्प्रकारें स्वरूपविचारीने पवित्र अने अपवित्र एबेवस्तुनाविचारने वांढतुंथको होयतो जेजे स्त्रीनाअंगठे तेतेसर्व अपवित्रतानाज पिंडके० ढग लांठे तेहथीतुं विरमके० रागत्यजीने अलगोरहे ॥ ५ ॥

विमुह्यसि स्मेरदृशः सुमुख्या मुखेक्लृणादीन्यन्निवीक्षमाणः ॥

समीक्षसे नो नरकेषु तेषु मोहोऽज्ञवा जाविकदर्थनास्ताः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेस्त्रीनाअंगनिरीक्षण तथाजोगनुंफलकहेठे हेआत्मातुं सुं मुखीके० चं इमुखी तथास्मेरके० विकसितठेनेत्रजेहुना एहवीस्त्रीओनामुख तथाईक्लृणजेनेत्र आदिशब्दथी स्तन जंघादिक तेहनाउपर सरागपणेजोतोथको मोहपामेठे पणजे महादुःखमयनरक तेहुनेविषे तथाविध मोहथकी उपनीओ एहवी जाविके० आगामिककदर्थनाजे महापीडाओ तेप्रतेंतुंकेमविचारतोनथी ॥ ६ ॥

अमेध्यन्नस्त्राबहुरंध्रनिर्यन्मलाविलोद्यत्कृमिजालकीर्णा ॥

चापल्यमायानृतवंचिका स्त्री संस्कारमोहान्नरकाथ जुक्ता ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे विष्ठादिकेंजरीथकी नस्त्राके० धमणीतरिखी तथाथ

णारंधजे बारेदार तेहथीनिकलता मलके० विष्टामूत्रश्लेष्मादिक तेणेकरी आवि
लके० मलिन तथा उद्यतके० उपजता कृमिजे योनीमाहेला सूक्ष्मजीव तेहना
जालके० समूह तेणेकरी कीर्णके० व्यास वली चपलपणुं तथा कपटाऽपणुं अने
अनृतके० असत्यवचन तेणेकरी वंचिकाके० पुरुषनेतगनारी एहवीजेस्त्री तेसंस्कार
जे जन्मांतरनोसंबंध तेहनावशयकी अथवा संस्कारजे स्नान तिलक आचरणादिक
तेहथी उपनोजेमोह तेहनावशंकरी जोगवीथकी नरकायके० नरकनीदेवावालीथाय०

निर्जमिर्विपकंदली गतदरी व्याघ्री निराव्हो महाव्या
धिर्मृत्युरकारणश्च ललनाऽनध्रा च वज्राशनिः ॥ बंधु
स्नेहविघातसाहसमृपावादादिसंतापनूः प्रत्यक्षापि च
राक्षसीति विरुदैः ख्याताऽऽगमे त्यज्यतां ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ वलीपणस्त्रीनुंज त्यजबुंकहेढे श्रीसिद्धांतमां स्त्रीनेएहवे बिरुदेंकरीवखा
णीढे तेमाटेस्त्रीनेत्यजवी तेकिहांकिहांबिरुदेंत्यजवी तेबिरुदोनानामकहेढे एस्त्रीतेनू
मिदिना विषनी कंदलीके० नवाअंकुरनीसीखाढे तथा कंदरीजेगुंफाथीरहितथकीपण
वाघणसरिखीढे वलीकोऽ नामविनापण महारोगरूपढे वली अकारणके० अपथ्य
सेवन अजीर्णादिक कारणोविनाज मृत्युके० मरणतुल्यढे वली अत्रवादजरहितते
वज्रसरिखी वीजलीढे अने बंधुके० स्वजननो स्नेह तेहनो विघातके० नाशकरनारी
ढे तथा साहसके० अविचारितकार्यनुंकरबुं असत्यबोलबुं वली आदिशब्दथी अदत्त
अब्रह्म परिग्रहादिक तेसंबंधी संतापनो नूके० उत्पत्तिनोस्थानकढे वली प्रत्यक्ष
साक्षात् राक्षसीपणजाणवी एरीतें एसर्वस्त्रीना एहवा अशुन बिरुदजाणीने विवेकी
पुरुषने स्त्रीसंबंधी ममत्वत्यजबुं ॥ ७ ॥ इतिश्रीअध्यात्मकल्पद्रुमे स्त्रीममत्वमोचनो
नाम षतीयोऽधिकारःसंपूर्णः ॥

अथापत्याधिकारः ॥ माचूरपत्यान्यवलोकमानो मुदाकुलो मोहनृपारि
णा यत् ॥ चिह्निप्सया नारकचारकेऽस्मिन् दृढं निबद्धो निगडैरमीजिः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेत्रीजाअधिकारें पुत्रादिकनुं ममत्वमुकवाअश्री उपदेशकहेढे तेमां
प्रथम संतानउपरें मोहकरबुंनही तेकहेढे हेआत्मानुं अपत्यजेपुत्रपुत्रीप्रमुख तेने
जोतोथको मुदाके० हर्षआकुलथाऽस केमके मोहराजारूप शत्रुयें नरकरूपजे चा
रकके० बंदीखानुं तिहां चिह्निप्साके० घालवानीऽज्ञायें अपत्यरूप निगडके० बिदियें
दृढकरीने तुजने बांध्योढे ॥ १ ॥

आजीवितं जीव जवांतरेपि वा शल्यान्यपत्यानि न वेत्सि किं हृदि ॥

चलाचलैर्यैर्विविधातिदानतोऽनिशं निहन्येत समाधिरात्मनः ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेउपमानंतरेंकरी संतानतुं डुखदाइपणुंदेखाडेढे हेआत्मा आनव
मां जावजीवजगें तथा जवांतरे परजवेंपण अपत्यजे संतानते शक्यके० शजरूप
ढे एमतुंताहराकृदयमां केमनथीजाणतो जेस्वल्पायुषवंत संतानादिक तेशोकरूप
पीडाआपेढे अने दीर्घायुषवंतजे अपत्यते लग्नादिकइव्यव्ययप्रमुख विविधप्रकारनी
पीडाआपेढे तथा जरणपोषणादिकनी चिंता रूपजेआर्त्ति तेहनेउपजावेकरीने अह
निशके०निरंतर हेआत्माताहरी समाधी सुस्थताने हन्येतके० हणीढे ॥ २ ॥

कुक्षौ युवत्याः कृमयो विचित्रा अप्यस्रशुक्रप्रजवा जवंति ॥

न तेषु तस्या न हि तल्पतेश्च रागस्ततोऽयं किमपत्यकेषु

॥ ३ ॥ त्राणाशक्तेरापदि संबंधानंत्यतोमिथोऽगवतां ॥

संदेहाच्चापकृतेर्माऽपत्येषु स्निहो जीव ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहीजकहेढे स्त्रीनीकुंखनेविषे अस्रजेस्त्रीनीयोनीनुरक्त अने शुक्रजे
पुरुषनुंवीर्य तेहनासंयोगथीउपना एहवाकृमीजे बेइंडियादिकजीव तेपणविचित्रप्र
कारनाथायढे यडुक्त इन्डीणजोणिमस्रै हवंतिबेंदियाउ जे जीवा ॥ इक्कोयदोवतिन्निव
जस्कपहुत्तं च उक्कोसा ॥ १ ॥ तथासंमूर्द्धिम अनेगर्जजपंचेंडीमनुष्यपणथायढे तो
तेस्त्री तथानत्तरि बेहुने किंनिश्चये स्युंके० तेकृमीजीवनेविषे केमरागस्नेहनथीहोतु अ
नेअपत्यजेपुत्रपुत्रादिक तेहनाउपर रागकेमउपजेढे केमके एकजस्थानकनाउपना
तेकृमी अनेअपत्य तेबेहुबराबरढे ॥ २ ॥ हवे अपत्यथकी कांइपणस्वार्थसिद्धिनी
आशाराखवी जूठीढेतेदेखाडेढे हेआत्मातुं अपत्यउपर स्नेहकरीसनही शाहेतुमाटेके
आपदाजे मरणरोगादिक आवेशके जेअपत्यते त्राणके० राखवानेसमर्थनथी तथाव
लीपरस्परेंप्राणीने संबंधनुं अनित्यढे कारणकेनानाप्रकारना संबंधढे माटे उपकारनो
पणसंदेहढे केमकेजोपुत्रादिकसार्थें वैरानुबंधी संबंधहोयतो तेथकी उपकारकेमथा
य श्रेणीकअने कोणीराजानीपरें तेमाटेस्नेहनुं धरवुंतेफोकटढे ॥ ४ ॥ इतिश्रीअध्या
त्मकल्पद्रुमे पुत्रममत्वमोचनाख्यस्तृतीयोऽधिकारसमाप्तः ॥

अथधनाधिकारः ॥ याः सुखोपकृतिकृत्वधिया त्वं मेलयन्नसि रमा

ममताजाक् ॥ पाप्मनोधिकरणत्वत एता हेतवो ददति संसृतिपातं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेचोथाअधिकारें धननीममत्वमूकवाआश्री उपदेशआपेठे तिहांपहेलुं धनथी सुखतथाउपकार नथाय तेकहेठे हेजीवतुं ममत्वने नजतोथको एममानेठे जे एलक्ष्मी ते मने तथामहाराकुटुंबने सुखकारीथासे तथा दिनादिकनो उपकारकरवा ने कामआवशे एहवीबुद्धियेंजे रमाके० लक्ष्मीनेमेलवेठे तेएलक्ष्मीतोकर्मादानादिक सावद्यव्यापारने करवेकरी अधिकरणपणाथकी पाप्मनःके० पापनीजहेतुठे तेमाटे संसृतिपातजे संसारमांज्रमणकरवुं तेप्रतेंजआपे एहवीठे तेजणी लक्ष्मीथकी सुख तथा उपकारनीवांठाते फोकटठे ॥ १ ॥

यानि द्विषामप्युपकारकाणि सप्पौंडुरादिष्वपि यैर्गतिश्च ॥

शक्या च नापन्मरणमयाद्या हंतुं धनेष्वेषु क एव मोहः॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेधनथकी अनर्थनीपरंपराथाय तेकहेठे जेधनते द्विषांके० शत्रुनेपण उपयोगीथाय एटलेधनना संचयकरनारने हणीनेज शत्रुबलवंतथाय अनेतेहना धननेज नोगवे वली जेधननेसंच्याथका उंदिरइत्यादिकनीगतिप्राप्तथाय केमके धन नोलोनीजीव धननीमूर्ह्यैमरीने तेधनउपरें सर्प तथा उंदिर इत्यादिकथयी अवत रे वलीजे धनेकरीमरण तथारोगइत्यादिक आपदाओतेपण सुखमचक्रवर्तिप्रमुखनी परें निवारीशकायनही तोएहवाधननेविषे मोहतेशीकरवी ॥ २ ॥

ममत्वमात्रेण मनःप्रसादः सुखं धनैरल्पकमल्पकालं ॥

आरंजपापैः सुचिरं तु दुःखं स्याद्दुर्गतौ दारुणमित्यवेहि ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ हवेधनथकीसुखथोहुंठे अने दुःखघणुंठे तेकहेठे केमके धनेकरी केव लममत्वना जन्मनोज प्रसादथाय कारणके महारापाजेंधनठे एमचिंतवीचिंतवी ने धननोलोनिप्राणी हर्षपामेठे पणतेधनेकरी सुखतो अल्पकाल लेशमात्र थोडा काललगेंजहोय पणतेहना अतिनिमित्तक आरंजनापापेकरीने दुर्गतिनेविषे दारु एके० कठिणदुःखहोयज एहवुं नवनंदराजाने दृष्टांतें अवेहिके० जाण ॥ ३ ॥

इव्यस्तवात्मा धनसाधनो न धर्मोपि सारंजतया तिशुद्धः ॥

निःसंगतात्मा त्वतिशुद्धियोगा न्मुक्तिश्रियं यत्नति तद्भवेपि ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेधनविना इव्यस्तरूपधर्मनथाय तेमाटेधनउपार्जवुं एहवुंविचारपण निश्चैथकी जोता अयुक्तठे तेदेखाडेठे धननेसाधियें एहवुंइव्यस्तवात्माके० इव्य सत्वरूप जिनचुवन बिंबप्रतिष्ठा दानशालादिक जेंधर्मकरणीठे तेपण सारंजके०

इव्यारंजसहितपणेकरीने अतिनिर्मलनथी पणमात्रस्वर्गादिकगतिनाहेतुळे माटेतेध
र्मनेपण मुक्तिनुंपरंपरा कारणजाणवुंनही अने निःसंगतारूपजे धर्मते अतिशुद्धके०
निर्मलता निरवद्यतानायोगथी तेहिजन्ममांपण मोहूरूप लक्ष्मीने आपे ॥ ४ ॥

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वैर्मेलितैः सनिधिनिस्तनुजाजां ॥

क्षेत्रपापनरकान्यधिकः स्यात् को गुणो यदि न धर्मनियोगः ॥५॥

अर्थ ॥ हवेघणुंपरिग्रहते पापनुंमूलजे तेकहेजे क्षेत्र क्यारडाप्रमुख तथावस्तुते
घरप्रमुख धनधान्य गायो अश्वइत्यादिक तथानिधिजे जंमारतेणेसहित एहवोपरि
ग्रहमेलवेथकेपण जो एक धर्मनियोगके० जिनबिंबादिक शातक्षेत्रमां ववरायन
ही तो तेवारें तेपरिग्रहथकी क्षेत्र पाप अने नरक एत्रणविना अन्यधिकके० व्यति
रेकबीजोशोगुणहोय एटले परिग्रहथकी अनुक्रमें कष्ट पाप अने नरक एत्रणवा
नाजथाय पणबीजोशुणकोइनथाय ॥ ५ ॥

आरंजैर्जरितो निमज्जति यतः प्राणी जवाजोनिधावीहंते कुनृपादय

श्च पुरुषा येन गलाद्बाधितुं ॥ चिंताव्याकुलताकृतेश्च हरते यो धर्म

कर्मस्मृतिं विज्ञा जूरि परिग्रहं त्यजत तं जोग्यं परैः प्रायशः ॥६॥

अर्थ ॥ हवेपरिग्रहथकी इहलोकें तथा परलोकें दुःखथायतेकहेजे जेपरिग्रहमे
लववाथकी प्राणी आरंजके० आरंजेनखुंथको संसारसमुद्रमांबुडेजे वलीतेपरिग्रहैकरी
डुष्टराजा तथाआदिशब्दथी मंत्रीप्रमुख अधिकारीथो अनेचोरादिक तेपुरुषने ठले
करी बाधितुंके० पीडवानेवांढेजे केमकेबहुधनवंत उपरखोटोपण गुनाहनो आरोप
करीनेदंमकरे वलीपरिग्रहनी चिंतायें व्याकुलताने करवेकरीने धर्मकर्मस्मृतिके०
धर्मकार्यनुं संजालवुं तेहनोहरणकरीलिये माटेहेविवेकीजनो एधनते प्रायेंबाहुर्ज
तायें परनाजजोगमांआवे एटले एकेंसंच्योहोय अनेबीजोजोगवे एहवोजेए जूरिके०
घणुंपरिग्रहतेहने त्यजो ठामो यडुक्तं कीटिकासंचितंथान्यं मत्तिकासंचितंमधु ॥ रूप
णैः संचितंचित्तं परैरैवोपचुज्यते ॥१॥ जेमयोगियें घणाकष्टेकरी सिद्धिनारसनो संग्रह
कथो अने वलनिपूरमां रांकाशेठनानोगमांआव्यो तेमकोइनुंसंच्युंधन कोइकजोगवे ६

क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्वमेतद्यातासि तत्परजवे किमिदं गृहीत्वा ॥

तस्यार्जनादिजनिताघचयार्जितात्ते ज्ञावी कथं नरकदुःखजराञ्च मोक्षः ७

अर्थ ॥ हवेअर्थीतरकहीने सातखेत्रें धनवावखानुं उपदेशकहेजे हेधनवंत जे
तुं ठतुंपोतानुंस्वके० धन तेहनेसातक्षेत्रनेविषे नथीवावरतुंतो एधननेतुंसुं परजवेंसा

येंलेइजनारठे एटलेहमणातोतुं लोचनावशथकी धननेसुमार्गे खरचतोनथी पणते धन परजवेताहरीसाथें नइजआवे वलीतेधनना उपार्जनकरवाथी उपतुंजे अघ के० पापनो चयके० समूह तेथी अर्जितके० उपजाव्यो एहवोजे नरकसंबंधीडुःख तेहनो नरके० नारतेहथी मोहके० बूटवुंतेकेमथाशे ॥ ७ ॥ इति श्रीअध्यात्मकल्प द्रुमे धनममत्वमोचनोनामचतुर्थाधिकारः समाप्तः ॥

अथ देहाधिकारः॥पुष्पासि यं देहमघान्यचिंतयं स्वोपकारं कमयं विधा स्यति॥ कर्माणि कुर्वन्नितिचिंतयायतिं जगंत्ययं वंचयते हि धूर्तराट् ॥१॥

अर्थ ॥ हवेपांचमैअधिकारें शरीरआश्रयी ममत्वमूकवो तेकहेठे तेमांप्रथम पा पकरीने देहनुंपोषणकरवुंनही तेकहेठे हेआत्मातुं अघके० पापने अणविचारतोथ कोदेहने पुष्पासिके० पोखेठे ते आ देह तुजने सुंउपकारकरशे वली आयतिके० आ वताकालनी चिंताचिंतवी हिंसादिककर्मकरतोथकोप्रवर्त्तनारो एहवोजेताहरोदेहते धूर्त्तोनोराजाठे सर्वजगतने वंचयतेके० उगेठे तोतुंपापकरीनेदेहने पुष्टकरेठेपण एदे हतेआखरतुजनेउगसे ठेहदेहीजाशे ॥ १ ॥

काराग्रहाद्बहुविधाशुचितादिदुःखा त्रिर्गंतुमिन्नति जडोपि हि तद्विचिद्य॥ क्लिप्तस्ततोधिकतरे वपुषि स्वकर्मव्रातेन तद्वदयितुं यतसे किमात्मनू॥२॥

अर्थ ॥ हवेएशरीरते काराग्रहथीपणचुंमोठे तेदेखाडेठे हेआत्माजेप्राणी जड के० मूर्खहोय तेपण काराग्रहजे बंदीखानुं जेमां बहुविध अशुचिता अपवित्रता आदि शब्दथी क्रुधा तृषा वध बंधनादिडुःखहोय एहवाकाराग्रहने चेदी खात्रादिकपाडी ने नीकलवावांठेठे तोतुजने स्वके० पोतानाकर्मने समूहें तेकाराग्रहथीअधिकुंएह वुंजे वपुके० शरीररूपबंदीखानुं तेमांघाव्योठे तोएहवाकाराग्रह सरिखोजे ताहारो देहतेहने दृढकरवानेज सुंउद्यमकरेठे केमके काराग्रहनुं बंधनतोथोहुंठे पणदेहनुं बंधनतो जावजीवसुधी तथापरलोकेंपणहोय तेमाटेदेहनुंबंधन अधिकजाणवुं ॥२॥

चेशांसीदमवितुं परलोकडुःखनीत्या ततो न कुरुषे किमु पुण्यमेवा॥शक्यं न रक्षितुमिदं हि न डुःखनीतिः पुण्यं विना ह्यमुपैति च वज्रिणोपि ॥३॥

अर्थ ॥ हवेपरजवनाडुःखथी बीहीतोथको घणुजीववानेअर्थेंजे देहनेपोषेठे तेने कहेठे हेआत्माजोतुं आशरीरने परलोकसंबंधीडुःखनाबीकेंकरी अवितुके०राखवावां ठेठे तोतुंपुण्यउपार्जन केमनथीकरतो केमकेपुण्येंकरी एशरीरडुःखनाजयथकी रखा यनही एमतोकाइनथी एटलेशरीरने डुःखनाजयथी राखवानेपण पुण्यजसमर्थेठे

अनेवलीपुण्यविनातु तो वज्जिजेइंइ तेहनुंशरीरपण नाशपामेठे तेमाटेजोपरलोकें
डुःखथीबीहेठेतो तुंपुण्यकर ॥ ३ ॥

देहे विमुह्य कुरुषे किमघं न वेत्सि देहस्य एव नजसे नवडुःखजालं ॥
लोहाश्रितोहि सहते घनघातमग्निर्बाधा न तेस्य च नजोवदनाश्रयत्वे ॥४

अर्थ ॥ हवेजेशरीरनुंजेतुंपोषणकरेठे तेशरीरमारह्योथकोज तुंडुःखपामेठे एहवुं
देखाडेठे किंनवेत्सिके ० हेआत्मातुं देहनेविषे मोहपामिने पापकरेठे अनेतेदेहमां
रह्योथकोज नवडुःखना समूहप्रतंपामेठे तेकेमनथीजाणतो एतोनिश्रंथकी लोह
नेआश्रित मद्युंजेअग्नि तेजेम घणा घणोना प्रहारोनेसहनकरेठे तेमतुजने तथा ए
शरीररूप अग्निनेपण नजवत्के ० आकाशनीपरें अनाश्रयत्वेके ० निरालंबपणुंकरेतो
बाधाके ० पीडानहोय एटलेलोहाश्रित अग्नीनीपरें तुंपणदेहाश्रितथको डुःखपामेठे

डुष्टः कर्मविपाकचूपतिवशः कायाव्हयः कर्मकृत् बध्या कर्मगुणैर्हृषी
कचषकैः पीतप्रमादासवं ॥ कृत्वा नारकचारकापडुचितं त्वां प्राप्य
चाशु बलं गंतिति स्वहिताय संयमजरं तं वाहयाल्पं ददत् ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेदेहकर्मकरनुं उपमानकहेठे हेआत्मा एडुष्ट निर्दय एहवोदेहनामे क
र्मकरके ० राजसेवक तेतुजने कर्मरूप घणाबंधनेबांधीने नरकरूप बंदिखाना संबं
धीआपदानो उचितयोगएहवोकरी पठेठलताकीने उतावलोजतोरहसे एकर्मकरक
हेवुंठेके कर्मविपाकनामाजेराजा तेहनोवशवर्तिठे एटलेकर्मविपाकराजायें एहनेप्रे
खोठे माटेहेजीव तें ऋषीकजे इंदियतेरूप चषकजे मद्यपाननापात्र त्रणेकरी पां
चविधप्रमादरूप आश्रवनामामद्य पीधुंठे एहवोजाणीनेतुं पोतानाहितनेअर्थें तेकर्म
करजे शरीरतेहने थोडुंपणअहार दोषरहितआपीने संयमरूपनारवहरावके जेथ
कीताहरा आत्मानी सिद्धिाय ॥ ५ ॥

यतः शुचीन्यप्यशुचीज्वन्ति कृम्याकुलात् काकशुनादिजह्यात् ॥

जाग्जाविनो नस्मतया ततोऽगात् मांसादिपिंडात्स्वहितं गृहाण ॥६॥

अर्थ ॥ हवेअशुचिदेहथी बीजापदार्थपण अपवित्रथाय तेकहेठे शुचिके ० प
वित्रजेवस्तु एहवाखीरखामप्रमुख तेपण एशरीरनासंगथी अपवित्रथाय तेमाटेएश
रीरकहेवुंठे तेकहेठेकमिजे उदरप्रमुखनाजीव तेणेकरीआकुलके ० व्याप्त तथा का
गडा कुतरा इत्यादिकजीवने नहवायोग्य अने प्राणगयापठि तत्काल नस्मथथी

राखथनारठे वली मांसादिकनुंपिंढठे एहवाए असारशरीरथकीतो जे स्वहितके०
आत्मानेहितकारकएहवा संयमादिकतेप्रतेजेइने आत्मसाधनकर ॥ ६ ॥

परोपकारोस्ति तपो जपो वा विनश्वराद्यस्य फलं न देहात् ॥

सजाटकादल्पदिनाप्तगेहमृत्पिंढमूढः फलमश्रुतेकिं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ वलीयुक्तिविशेषे देहनुं सफलकरबुंकहेठे जेपुरुषने एविनाशशील एहवुं
जेदेह तेथकी परोपकार तथा तप जप प्रमुखनथाय तोतेपुरुष नाडेंराखेनुं थोडा
दिवससुधिपाम्युं एहवुंजेघर तेसरिखो एमाटीनापिंढरूप देहउपरमूढठतो शोफ
लपामें जेमनाडानुंघरते वापरियेंतोजशारुं नहिकांजेनाडुंस्वरचियेंते व्यर्थजाय
अनेवली आखरपोतानुंपण तेघरथायनही तेमएदेहनेपण अहारादिकनाडुंआपीने
पोष्युंथको तपजपादिकेंकरी वावरीयें तोजसफलथाय नहिकांनिःफलजाणवुं ॥७॥

मृत्पिंढरूपेण विनश्वरेण जुगुप्सनीयेन गदालयेन ॥

देहेन चेदात्महितं सुसाधं धर्मान्नाकिं तद्यतसेऽत्रमूढ ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे जेमाटीनापिंढसरिखुं विनाशीआचारवंत तथाडुगंठा
करवायोग्य अनेरोगनुं आलयके० घर एहवोजेदेह तेणेकरीने धर्मकरवाथी आ
त्महितसाधवुं तुजनेसुलजठे तोहेमूर्ख अत्महितसाधवाने केमउद्यमकरतोनी
माटे असारनूतदेहथी सारनूतआत्मानो हितसाधवाने सर्वथाउद्यमकरवुं ॥ ८ ॥
इतिश्री अथ्यात्मकल्पदुमेदेह ममत्वमोचनानामें पांचमोअधिकारसंपूर्णथयो.

अत्यल्पकल्पितसुखाय किंमिंजियार्थै स्वं मुह्यसि प्रतिपदं प्रचुरप्रमादः॥

एते क्षिपंति गहने चवचीमकहे जंतून्न यत्र सुलजाशिवमार्गदृष्टिः ॥१॥

अर्थ॥पूर्वैकहुंजेदेहनिग्रहकरवुंतेकांइ विषयनीममतामूकवासीवाय थतुंनथी मा
टेहवेठठेअधिकारें विषयप्रमाद त्यजवा आश्रथी उपदेशेठे तिहां प्रथम इंद्रियार्थनुं मो
हत्यजवुं तेकहेठे हेआत्मातुं घणुजप्रमादवंतथको पण अतिशयेंकरी अल्पके०थो
मुंपणकल्पनामात्र जेसुखतेपण परमार्थथीतोडुःखजठे पणतेंसुखकरीमान्युं एहवुं
जेसुख तेहनाअर्थ प्रतिपदके० गामेगामें इंद्रियार्थजे शब्द रूप रस गंध स्पर्श तेणेक
री सुंमुंजायठे एइंद्रियार्थते जंतुके० प्राणीने गहनके० अपार एहवोसंसाररूपजे नी
मके० रौइ कहेके० अटवीतेमां क्षिपंतीके० घालेठे बलात्कारें तेमां प्रवेशकरावेठे
जिहां शिवके० मुक्तिमार्गनुं दृष्टिदर्शनतेजीवने सुलजनथी जेमकोइबीजोपण गह
नवनहोयतोतेंमांहे शिवके० निरूपडव्यमार्गनुं जेदर्शनते दुर्लजनहोय तेनीपरेंजा

एतुं ॥ १ ॥ इहांप्रमादना पांचप्रकार तथा आठप्रकारनी गाथाकहेते. मशं विषय कषाया निहाविकहाय पंचमीजणिया ॥ एए पंच पमाया जिवं पाडंति संसारे ॥ १ ॥ तथाआठप्रकार कहेते. पमाउयमुण्दिदीहीं नणित अठजेयउं ॥ अन्नाणं संसक चेव ॥ मिठानाणं तहेवय ॥ १ ॥ रागो दोसो मइसंसो धम्मंमिय अणायरो ॥ जोगाणं डुप्पणि हाण ॥ अठहावज्जियवउं ॥ २ ॥

आपातरम्ये परिणामडुःखे सुखे कथं वैषयिके रतोसि ॥ जप्पो
पि कार्यं रचयन् हितार्थी करोति विघ्नं यदुदकतर्कं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेसंसारिकसुखते प्रथमतोसुखदायीते पण परिणामेडुःखदायीते तेकहेते हेचतुरआत्मातुं आपातके० तत्कालमात्रतो रम्यमनोहरते पणपरिणाम के० विपाककालें महाडुःखदाइरूप एहवा विषयसंबंधी सुखमां सुराच्योढो केमके पोतानाहितने वांठनार एहवोजे जडके० मूर्खप्राणीहोय तेपण कोइकार्यकरेतो उदकके० जेआगामिककालनुंफल तेहनुं तर्कके० विचार करीने परिणामे अहितकारीहोयतेने त्यजेते तोतुंचतुरठता परिणामें डुःखदायी एहवाजे विषयादिक तेप्रतें केमआचरेते एआचरवा तुजने योग्यनथी ॥ २ ॥

यदिंजियार्थैरिह शर्मविंदवद्यदर्णवत्स्वःशिवगं परत्र च ॥ तयो
मिथोस्ति प्रतिपद्धता कृतिन् विशेषदृष्ट्यान्यतरजृहाण तत् ॥३॥

अर्थ ॥ हवेसंसारिकसुखनी अल्पतादेखाडेते हेचतुरआत्मा इहलोकनेविषे इं जियार्थजे शब्दादिक तेणोकरीने वेध्युंजे तुहसुख अनेवलीजे परलोकें अर्णवके०स मुइसरिखुं स्वःशिवगंके० देवलोक अनेमुक्तिसंबंधीजेसुख तेसुखने मिथःके० मा होमांहें प्रतिपद्धता एटलेशत्रुनावते केमके जिहांइंजियार्थनुंसुखते तिहांमुक्तिसुख नथी अनेजिहां मुक्तिसुखतेतिहां इंजियार्थसुखनथी तेमाटेविशेषदृष्टियेंकरी तेबेहुमां जेहनेतुंरुडोजाणे तेहने ग्रहणकर ॥ ३ ॥

नुंक्ते कथं नारकतिर्यगादि डुःखानिदेहीत्यवधेहि शास्त्रैः ॥

निवर्तते ते विषयेषु तृष्णा बिन्नेपि पापप्रचयान्न येन ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेतेहिजविशेषें देखाडेते हेआत्मा देहवंतप्राणी नरकतिर्यचगतीनाडुःख केवाप्रकारेंनोगवेते एटलुंतुं शास्त्रमांथी जोइने अवधेहिके० निश्चयकर तोतुजने निश्चयकी विषयनेविषे तृष्णानीनिवर्तियासे अनेपापना संचवायकीतुंबीहेतोरहिश.

गर्भवासनरकादिवेदना पश्यतो नवरतं श्रुतेक्षणैः ॥

नो कषायविषयेषु मानसं श्लिष्यते बुध विचिंतयेति ताः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहीजकहेठे हेपंमितप्राणी अनवरतके० निरंतर श्रुतजे शास्त्रतेरू पी ईहणके० नेत्रेकरिनेगर्जावास तथानरक आदिशब्दथी निगोद एकेंडियादिक तेसं बंधीवेदनाउप्रतेजोता थकां ताहरुं मानसके० चित्तते कषाय तथा विषयनेविषे नो श्लिष्यतेके० अशक्तनथाय एहेतुमाटे पूर्वोक्तवेदनाउने सम्यकरीतेविचारीसतो ता हरुंचित्त विषयकषायथकी किंचितमात्र उद्विग्रनथाय ॥ ५ ॥

वधस्य चोरस्य यथा पशोर्वा संप्राप्यमाणस्य पदं वधस्य ॥

शनैःशनैरेति मृतिः समीपं तथाखिलस्येति कथं प्रमादः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ वलीमृत्युनयदेखामी प्रमादत्यजवातुं प्रतिबोधकरेठे जेमवधकरवाने का ढ्या एहवाजे चोरतथा बोकडाप्रमुखजेपशु तेहनेवधनास्थानके लइजतां जेमजेमव धना स्थानकतरफ पगलानरे तेमतेमथोडेथोडे मृत्युपणनजीकआवे तेहनीपरें स र्वप्राणीअने थोडेथोडे घडी पहोर दिवस मास वर्षादिकने जावेकरी मृत्युढुकडो आवेठे तेकारणमाटे आत्मानाहितसाधननेविषे विजंबकेमकरियें अर्थात् प्रमादत्य जीने सर्वथाधर्मनेविषे तत्परथातुं ॥ ६ ॥

बिज्ञेषि जंतो यदिदुःखराशे स्तदिद्विज्यार्थेषु रतिं कृथा मा ॥

तदुद्भवं नश्यति शर्म यज्ञाक् नाशे च तस्य ध्रुवमेव दुःखं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हवेसुखनो शीघ्रके० तुरतनाशपणुंदेखाडीने जीवनेप्रतिबोधकरेठे हेजी वजोतु दुःखनासमूहथकी बीहेठे तो इंदियार्थजे शब्दादितेहनेविषे रतिके० रागकेमक रेठे केमकेइंदियार्थथीउपनुंजे शर्मके० सुखतेडागुके० उतावलोज नाशपामेठे अनेते हनानाशपठि दुःखतो ध्रुवके० निश्चल चिरकालजगें निश्चितठे जेमप्रकाशनेअंते अंध कार निश्चैथकीहोय तेमसुखनेअंते दुःखपणनिश्चैथकीजहोय ॥ ७ ॥

मृतः किमु प्रेतपतिर्हरामया गताः ह्यं किं नरकाश्च मुञ्जिताः ॥

ध्रुवाः किमायुर्धनदेहबंधवः सकौतुको यद्विषयैर्विमुह्यसि ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ वलीप्रकारांतरेजीवने सुखनाप्रतिबंधकदेखाडेठे हेआत्मा प्रेतपतिजे यममृत्युलक्षण तेसुंमुअो के जतोरह्यो तथाडुष्टकारी आमयके० रोग यडुकं रो गाणं कोडीउ हवंति पंचेव लस्कअडसठी ॥ नवनवइसहस्ताइं ठच्चसयाचेव पणयाली

१ ए६७ ए५ ए६४ ए खासे सासे जरे दाहे कुठिसूजे नगंदरे ॥ अरसा अजीर्ण दीहि
मुहसूजे अरोयए ॥ १ ॥ अठिवेयण कंठु अकणबाधाजलोयरे ॥ कुडे एमाइवा रो
गा पीलयंति सरीरिणं ॥ २ ॥ एसोलरोग महोटाकह्याडे तेदेहनेआश्रयीजरह्याडे ते
सुंहयपाम्या तथासातनरक तेहनाबारणातेसुं मुडिताके० हंकाणा बंधयया तथा
आयुष धन देह अनेस्वजनजे बंधुतेसुं ध्रुवके० निश्चलशाश्वताडे जेमाटेतुं सकौतु
कके० सहर्षवंतयको विषयनेविषे मोहपामेडे एटलेमृत्यु रोग अने नरक एत्रण
नयतो विद्यमानडे अने आयु धन देह स्वजन एतोअस्थिरडे तोतुंसहर्षपणुंते शा
कारणशीधरेडे तेकांसमजातुनथी ॥ ७ ॥

विमोह्यसे किं विषयप्रमादै ध्रमात्सुखस्यायतिडुःखराशोः ॥

तद्धर्ममुक्तस्य हि यत्सुखं ते गतोपमं चायतिमुक्तिदं तत् ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हवेविषयसुखते निदानडुःखरूपडे तेकही जीवनेप्रतिबोधेडे हेआत्मातुजने
विषयनेप्रमादैमिलीने निदान डुःखराशीके० डुःखनासमूह तेहने सुखनात्रमथकी वि
मोह्यसेके० मोहपमाडेडे एटलेडुःखनासमूहनेविषे सुखनीत्रांतिये जेतुंमोहपामेडे
तेमात्र विषयप्रमादना वशयकीजपामेडे एनावार्थेडे तेमाटे गर्दमुक्तके० तृष्णारहि
त एहवोथकोतुजने उपशमलरूप गतोपमके० अनुपमसुखते आयतिके० नि
दानमुक्तिनुंदातारडे तेमाटे तृष्णारहित निरिहतासुखनेआदर ए इतिश्रीअध्यात्मकल्प
द्रुमे विषयावशतोपदेशः षष्ठोधिकारः ॥ ८ ॥

अथ कषयाः ॥ रे जीव सेहिथ सहिष्यसि च व्यथास्ता स्वं
नारकादि पु पराजवचूः कषायैः ॥ मुग्धोदितैः कुवचनादि
निरप्य तः किं क्रोधान्निहंसि निजपुण्यधनं डुरापं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेसातमेंअधिकारें कषायादिक त्यजवाआश्री उपदेशकरेडे त्यांप्रथम
कषायनुंफलकहेडे हेजीवतुं कषायजे क्रोधादिकतेनाहेतुथी नरकादिकनेविषे पराजव
जेपीडा तेहनो नाजन थको तें माहा डुःसह वेदनाओ सहनकरी अनेवलीपण
सहीश तेमाटेमुग्धजे अजाणलोकनाकहेला जे कुवचन गालप्रमुख इत्यादिकतुठकार
णोनेवास्ते डुर्लजएवुंजेपोतानुं पुण्यरूपीयुंधन तेनेक्रोधथीछुंहणेडे एटलेअल्पकारण
माटे कषायकरीने डुर्लजजेपुण्यरूप धनतेनेहरेडे तेमाटेकषायनकरवुं ॥ १ ॥

पराञ्जिन्ता यदि मानमुक्ति स्ततस्तपोखंडमतः शिवं च ॥

मानादृतिर्द्वैवचनादिञ्चिश्च तपःकृत्यस्तन्नरकादिदुःखं ॥ १ ॥

वैरादियात्रेति विचार्य लाजालाजौ कृतिन्नाजवसंजविन्यां ॥

तपोऽथवा मानमवाञ्जिन्ताविहास्ति नूनं हि गतिर्द्विधैव ॥ ३ ॥ युग्मं ॥

अर्थ ॥ हवेमानमुकवानुं अनेराखवानुं फलकहेठे हेआत्मा परजेअन्यजनतेथी अञ्जितिके ० अपमान आक्रोशादिकउपजेथके मानजेअहंकार तेनेमुकीआप जेणे करीअखंमतपथी मोहप्राप्तियाय अनेडुरवचनादिकेंकरी जोमानआदरीशतो तपनो कृत्यथाय तेतपकृत्यथके नरकादिकदुःखथाशे तथाआलोकेपण वैर धनहानि मरणा दिकदुःखथासे माटेहेनिपुणआत्मा एमपूर्वोक्तप्रकारें मानमुक्याथीलाजठे अनेमान आदखाथीअलाजठे एबेवातोविचारीने आजवके ० एकजवसंबंधिनी अञ्जितिजेपरा जव तेउपजेठतेपण तपनेराख अथवामाननेराख केमकेएकार्यमां बेजउपायठे पण तेमांअञ्जितिनंतो एकजजवनु दुःखठे अनेमानकखाथीतो तपकृत्यथाशे तेवारें जवो नवेंदुःखठे तेमाटेमानत्यजोने तपनेराख एबेकाव्यनोअर्थेकतोठे ॥ १ ॥ ३ ॥

श्रुत्वा कोशान् यो मुदा पूरितः स्यात् लौष्टाद्यैर्यथाहतो लोमहर्षी ॥

यः प्राणांतेप्यन्यदोषं न पश्यत्येष श्रेयो जाग् लजेतेव योगी ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेकषायतज्याथी मुक्तिफलठे तेकहेठे जेयोगीसाधु आक्रोश गाल प्रमुख सांजलीने आनंदपामी विचारेंजे एगालिनुं अजिधेय मेंअनंतिवार अनुजच्युंठे एमचिंत वी वलीजेलोह पाषाणादिकें हणायोथकोपणजेनुं रोमांचित हर्षितथाय अनेएम चिंतवेजे आजमाहरे विशेषनिर्जराथइ एमजाणी वलीजेसाधुप्राणांतेपण अन्यना दोष तथाअवगुणनदेखे पणपोतानोजदोषदेखे एहवोजेयोगीश्वर मन वचन अने का याथीशुजयोगवंत तेउतावलोज श्रेयजेमोह तेनेपामे ॥ ४ ॥

को गुणस्तव कदा च कषायै निर्ममे नजसि नित्यमिमान् यत् ॥

किं न पश्यसि च दोषममीषां तापमत्र नरकं च परत्र ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेयुक्तियेंकरी कषायमां गुणनोअजाव देखाडेठे हेआत्मा कषायजेक्रोधा दिक तेणेतुजनेकोऽवारें कोऽपणगुणकखोठेके जेथकीतुंएकषायने नित्यप्रत्यंसेवेठे व लीआलोकेंसंताप अनेपरलोकें नरकनादुःखआपनार एवोजे कषायनोदोष तेनेतुंन थीदेखतोसुं जे तुंनिश्चितथको कषायनेसेवेठे ॥ ५ ॥

यत्कषायजनितं तव सौख्यं यत्कषायपरिहाणि न्वन्ति ॥
तद्विशेषमथवैतुदुर्कं संविज्ञाव्य नज धीर विशिष्टं ॥ ६ ॥

अर्थ॥बलीप्रकारांतरं कषायत्यजबुं उपदेशेठे हेअत्मा तुजनेकषायथी उपनुंजेसु
ख अनेकषायना परित्यागथी उपनुंजेसुख एबेनुविशेषजे अधिकपणुं तथा उदुर्कके०
निंदानो विपाकजेफल तेसम्यक प्रकारं विचारीने पठे हेधीरपंफित एमांजेतुजने विशि
ष्टउत्तमजाणवामांआवे तेनेतुंआदरअंगोकारकर ॥ ६ ॥

सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्ति र्यथातथा नैव तु मानमुक्तिः ॥
आद्या न दत्तेपि शिवं परा तु निदर्शनाद्बाहुबलबले प्रदत्ते॥७॥
सम्यग् विचार्येति विहाय मानं रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात्॥
मुदा मनीषी सहतेऽजिज्ञूतीः शूरः क्षमायामपिनीचजातिः॥८॥

अर्थ॥हवेतपकरवाथी मानत्यागनी दुष्करता देखाडेठे हेअत्मा जेम तपनीप्रवृ
त्तितेसुखेसाध्यठे तेममानमुक्तिजे माननुत्यजबुं तेसुखेसाध्यनथी तो आद्याके० पहेली
कहीजे तपप्रवृत्तितेमुक्तिआपवा समर्थनथी अने बीजोजेमानमुक्ति तेयद्यपिदुःसाध्यठे
तोपणते मुक्तिआपवाने समर्थठे बाहुबलनेदृष्टांतं जेमबाहुबलने मानमुक्तिविना मात्र
तपथकीज केवलज्ञान उपनुंनही अनेमानमुक्त्युं तेवारं तत्कालज्ञानउपनुं एवुंसम्यग्
विचारीने मानत्यजीनेयत्ने करीदुर्लभ एहवोजेतप तेनेराखतोयको क्षमानेविषे शूर
एवोजे मनीषीके० पंफित ते नीच जननो करेलो अजिज्ञूति जेपरानव तेनेपण मुदा
के० हर्षेकरीनेसहेठे ॥ ७ ॥ ८ ॥ एबेकाव्यनोअर्थेकठोठे.

पराजिज्ञूत्याल्लिपकयापि कुप्यस्यघैरपीमां प्रतिकर्तुमिच्छन् ॥
न वेत्सि तिर्यङ्नरकादिकेषु तास्तरनंतास्त्वतुला नवित्रीः ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ बलीएपरिसह सहेवाआश्रीज उपदेशेठे हेअत्मातुं थोडीपण परनीकरे
लीजे अजिज्ञूति पीडादिक तेणेकरी अजिज्ञूतिना करनारजे पुरुषतेउपर कोपेठे अने
बली पापकरीने तेहना प्रतिकारने वांठेठे एटले पूर्वजन्मांतरना पापविपाकथकी प
राजवपामेठे अनेबलीतेहनो प्रतिकारपण पापेकरीनेज वांठेठे परंतुतेपापेकरीने तुं
अजिज्ञूतिजेपीडाओ तेतिर्येचनरकादिक गतिनेविषे अनंततथाअतुल मोहोटी एवि
नवित्रीकहेतां पीडाथाओ एवुंकांनथीजाणतो ॥ ९ ॥

धत्से कृतिन् यद्यपकारकेषु क्रोधं ततो धेह्यरिषट्क एव ॥

अथोपकारिष्वपि तद्भर्तृकृतकर्महन्मित्रबर्हिर्घिषत्सु ॥ १० ॥

अर्थ ॥ हवेक्रोधकरवो तेवैरीनेज वियुक्तते तेकहेते हेपंमितआत्मा जोतुं अपकारक शत्रुनेविषे क्रोधधरेतेतो तेनेबदलेताहरा अंतरंगनाजे क्रोध मान माया लोच राग अनेदेष मलीठशत्रुते तेहनेविषेज क्रोधधर केमकेएठशत्रुथी बीजोकोइ तुफने वधारेडुःखदाइनथी अथवा उपकारक मित्रनेविषे जोतुंक्रोधधरतोनथी तेवारेंतुं सं सारमां अर्तिकारी एहवाज्ञानावर्णादिक कर्म तेनोहरणकरनाराजे उपसर्गादिकना करनार शत्रु तेनाउपसर्गनेकरवेकरी बाह्यदृष्टियेंतोते ताहराशत्रुते पणकर्मह्यकर वामां अनेपरलोकना अनंतसुखनीप्राप्तिकरवामां साह्यकारीयया माटे तत्वदृष्टियें जोतां अच्यंतरपणें तेमित्रजावेज परिणम्या तेथी उपसर्गकारकशत्रुने तत्वदृष्टियें मित्रतुल्य जोइने तेमित्रनेविषे क्रोधनधरवो एजावार्थते ॥ १० ॥

अधीत्यनुष्ठानतपःशमाद्यान् धर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ॥

न लप्स्यसे तत्फलमात्मदेहकेशाधिकं तांश्च जवांतरेषु ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ हवेमायात्यजवा आश्रीउपदेशेते हेअत्मातुं अधीतिके० नएवुं तथाअनुष्ठानजे क्रियाआवश्यकदिक तथातपउपशमादिक नानाविधधर्म ते मायाके० कपटसहित करतोथको मात्रतुं पोतानादेहने कष्टजआपेते पणतेथी व्यतिरिक्तके० बीजूंफलकांइ जवांतरनेविषे पामीसनही वली जवांतरनेविषे तेधर्मनेपणपामीसन ही केमकेमायावीने बोधीपामवीडुर्लजहोय ॥ ११ ॥

सुखाय धत्से यदि लोचमात्मनो ज्ञानादिरत्नत्रितये विधेहि तत् ॥

दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन् परिग्रहे तद्बहिरांतरेपि च ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ हवेलोचत्यजवाआश्री उपदेशकरेते हेअत्माजोतुं पोतानासुखनेअर्थें लोचकरेते तोज्ञानादिक जे ज्ञानदर्शनअनेचारित्र एत्रएरत्ननेविषे लोचकर बी जीधनधान्यादिक असारवस्तुथी कांहिसुखनथाय माटेहेचतुरआत्मा तुंआलोके दुःखनेअर्थें बाह्यधीधनधान्यादिक अने अंतरंगथी क्रोधमानादिक परिग्रहनेविषे लोच करिसनही ॥ १२ ॥

करोषि यत्प्रेत्य हिताय किंचित्कदाचिदल्पं सुकृतं कथंचित् ॥

मार्जीहरस्तन्मदमत्सराद्यैर्विना च तन्मां नरकातिथिर्नूः ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ हवेजीवने सुकृतराखवाआश्रयी उपदेशेते हेअत्मातुं कोइकाले कथंचित् घ

एकंष्टेकरीने काइएक अल्पके० थोहुंपणसुकृत जेदानादिक तथातपसंयमादिकते प्रेत्यके० परलोकना हितनेअर्थेकरेठे तेसुकृतनेमद मत्सर क्रोध लोनादिकें करीने हारिसनही अनेवली तेसुकृतविना सातनरकनो अतिथिके० परोणो अइशनही एटले तेसुकृत खोयाथी नरकगतिथरो तेमाटे मदमत्सरादिकने निवारीनेसुकृतराखजे ॥ १३ ॥

पुरापि पापैः पतितोसि संसृतौ दधासि रे किं गुणिमत्सरं पुनः ॥

न वेत्सि किं घोरजले निपात्यसे नियंत्र्यसे शृंखलया च सर्वतः ॥ १४ ॥

अर्थ॥वली मत्सरत्यजवाआश्री उपदेशेठे हेआत्मातुं पूर्वेपण पापेंकरीने संसारमां पडयोठे अनेवलीगुणवंतने विषे शुंमत्सरधरेठे एमकांनथीजाणतोजे एमत्सरतोमु जने घोरके० अगाधडुःखरूपियुं जेमां जलठे एहवा संसाररूपीया समुडमानांखेठे अनेवली ताहारा सर्वांगने निकांचित कर्मरूप सांकलेकरीबांधेठे ॥ १४ ॥

कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्ययं क्लयं कषायैर्युगपत्प्रयाति च ॥

अतिप्रपन्नार्जितमर्जुनं ततः किमज्ञ ही हारयसे नचस्वता ॥ १५ ॥

अर्थ॥हवेआत्माने कष्टेंउपार्जितधर्म राखवानो उपदेशकहेठे हेआत्मातुं धर्मनुं एकल वलेशमात्रपण कष्टेंकरीने संचयकर केजेथकीताहरो कषायेंकरीने युगपतके० समकाले घणाकालनो संचित करेलुंजेक्लेशते एकवारेंज क्लयपामे तेमाटेहेमुख घणाउद्यमे उपा र्ज्युंएहवुं अर्जुनजे सुवर्ण ते वायुएकरीने हाइतिखेदे शुंहारी जायठे एटलेसुवर्णरस वायुयें हास्यानीपरें कष्टेंउपाज्योजेधर्म तेनेकषायरूपवायुयें हरावेठेतेयुक्तनथी ॥ १५ ॥

शत्रून्जवंति सुहृदः कलुषीन्जवंति धर्मा यशांसि नि

चिता यशसीन्जवंति ॥ स्निह्यंति नैव पितरोपि च बांध

वाश्च लोकद्वयेपि विपदो नविनां कषायैः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥हवेकषायथी श्याश्याअवगुणथायठे तेकहेठे संसारीजीवने कषायेंकरी ने मित्रतेशत्रूथाय वलीधर्मजे तपदानादिक तेमेलाथाय वलीचिरकालनोसंचेलोयश तेपण अपयशसरखोथाय वलीमातापिता तथा बीजास्वजनादिक तेपणकोइ स्नेह नकरे तेमाटेप्राणीने कषायेंकरी आलोकें अनेपरलोकेंपण आपदाथाय. ॥ १६ ॥

रूपलाजकुलविक्रमविद्या श्रीतपोवितरणप्रचुताद्यैः ॥

किं मदं वहसि वेत्सि न मूढानंतशः स्वचृशलाघवडुःखं ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेजीवने मदनिवारवाआश्री उपदेशकहेठे हेआत्मातुं रूप लाज कु ल पराक्रम विद्या लक्ष्मी तप दान ऐश्वर्य तथाआदिशब्दथी जाति परिवार स्त्री मं

दिर इत्यादिकें करीने मद अहंकार गुंवहेठे? हेमूर्खअनंतिवार पोताना अतिशये लाघवपणानुजे दुःख तेकेमनशी विचारतो? तुंपोतेंज अनंतिवार कुरूप लाजरहित हीनकुल निर्बल मूर्ख दरिडी तपकरवाने अशक्त रूपण दास किंकर एहवो अवतद्यो हतो त्यांपणसर्ववातें हीनपणुं अनुजव्युं तोआजइहां गुंमदकरेठे ॥ १७ ॥

विना कषायान्नचवार्त्तिराशि नवेनवे देव च तेषु सत्सु ॥ मूलं

हि संसारतरोः कषायास्तत्तान् विहायैव सुखी नवात्मन् ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ वजीफरीने कषायनुंत्यजवुंज इठेठे. हेआत्मासंसारमां कषायविना संसार संबंधीनी आर्त्तिनोसमूह होयजनही अनेतेकषायेंकरी विद्यमानठते नवार्त्तिनीराशि होयज केमके संसाररूपीया वृद्धनुमूल तेकषायजठे. माटेतेकषायनेठांमीनेसुखीया. शांतिसुखनेपाम. ॥ १८ ॥

समीह्य तिर्यङ्गनरकादिवेदनाः श्रुतेक्षणेर्धर्मद्वारापतां तथा ॥

प्रमोदसे यद्विषयैः सकौतुकै स्ततस्तवात्मन् विफलैव चेतना ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ हवेजेविषयने त्यजीशक्तोनशी तेप्राणीने शास्त्रनण्यो तेपणअफलठे ते आश्रीकहेठे हेआत्मा श्रुतजेसिद्धांत तेनेजोवेकरीने तिर्यच नरक प्रमुखनी वेदनाने तथासर्वज्ञनापित धर्मनुंडुर्जनपणुंठे एमतेंसम्यक्प्रकारेंजाणीने पणजोतुं कौतुकस हितथको विषयमांराचेठे तेवारें ताहारो चेतनाजे ज्ञानदृष्टि तेनिस्फलठे केमके तुंन रकादिकनादुःखने जाणतोठतोपण दुर्जनधर्मपामिने धर्मकरतो नशी ॥ १९ ॥

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते दुष्टैः स्वमात्रेप्युपतप्यसे त्वं ॥ पुष्टैः

प्रमादैस्तनुजिश्च पुण्यधनं न किंवेत्स्यसि लुब्धमानं ॥ २० ॥

अर्थ ॥ हवेधर्मरूपधन तेजुटातुंनशी तेआश्रीजीवने उपदेशकहेठे हेआत्माचोर लोको तथा दुष्टकुजकृणकर्मकर जेदासादिकतेणे स्वमात्रके० मात्रबाह्यधनने अप ह्याठतां तुंपरितापकरेठे पणपोतानापोष्या एवाजेप्रमाद तथा तनुके० शरीर तेणेचो रनीपेठें लुठ्युं एहवुंजे ताहरुं पुण्यरूप धन तेसर्वजुंटाइजायठे माटेतेहनी रक्षाकर केजेथीतुं नवांतरेंसुखीयाय ॥ २० ॥

मृत्योः कोपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुत्रासितं रोगास्तेन नृपादि

जा न च जियोनिर्णाशिताः षोडश ॥ विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता

धर्मैस्त्रिलोकी सदा तत्कोनाम गुणोमदश्च विच्युता का ते स्तुतीहा च का २१

अर्थ ॥ वलीआत्माने गुणरहितपणुं देखाडी मदनांमवा उपदेशकरेढे हेआत्मा जोतें मृत्युनामुखथी कोऽप्राणीराख्योनथी तथा जमतजेविश्वतेनुं दारिडनाशपमां ड्युंनथी वलीसोलेरोगजे कासादिक तथाराजाअने चोरप्रमुखनाजय तेनाशपमाड्या नथी वलीसातजेनरक तेपणनिवाख्यानथी तथाधर्मकरिने त्रिचुवनने सदासुखीकीधुन थी इत्यादिकगुणमाहेलो एकगुणजोताहरामानथी तेवारेंताहारोगुणतेस्यो, अनेतेगु एविना मदतेश्यो, तथा विचुताके० मोहोटाइतेशी, तथास्तुति प्रशंसानीवांठा तेप एशी, एटलेपूर्वोक्त तथाविध कोऽगुणजोताहरामां होयतो मदकरवोपणघटेढे पण तेविना तोजेमदकरवोतेसर्वे निरर्थकढे तेमाटे मदमत्सरादिकल्यजवा ११ इतिश्री अध्यात्मकल्पद्रुमेविषयकषायाद्यवशताधिकारः सप्तमः संपूर्णम् ॥

अथशास्त्राण्यानित्योपदेशः॥ शिलातलाजे हृदि ते वहंति विशंति सिद्धांत रसा न चांतः॥ यदत्र नो जीवदयार्डता ते न ज्ञावनांकूरततिश्च लज्या॥ १॥

अर्थ ॥ हवेआठमेंअधिकारे शास्त्रगुणकेहेढे त्यांप्रथमउपमानेशिद्धांतरेचित्तनुक विणपणुं देखाडेढे हेआत्माशिलाना तलियासरखा ताहराहृदयमां सिद्धांतरूपिया रसवहेढे पणतेथीतारोअंतःकरण लिंगारेजेदातो नथी केमकेएहृदयमां जीवदया रूप एकीकोमलता तथाज्ञावनाजे अनित्यत्वादिक तेरूपीयाअंकूरनी श्रेणी देखाती न थी कोमलपृथ्वी जेम जलप्रवाहनेयोगें आर्डतापामे तथात्यां अनेकअंकुरादिप्रगटे तेमआसनसिद्धिकजीवने सिद्धांतनायोगथी हृदयमां कोमलताथाय तथाज्ञावनाप्र मुख शुनपरिणामपणउपजे अनेडुरसिद्धिकजीवने तोए शिलातलनुंदृष्टांतजाणवुं.

यस्यागमांजोदरसैर्न धौतः प्रमादपंकः स कथं शिवेचुः ॥

रसायनैर्यस्य गदाः कृता नो सुडुर्लजं जीवितमस्य नूनं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेउक्तिविशेषेकरी सिद्धांतनुं माहात्म्यकहेढे जेप्राणिने आगमजेसिद्धांत तेरूपीया मेघनेरसेंकरी प्रमादरूपीयो पंकजेकचरो तेधोवाणोनथी तेवाप्राणिमुक्ति शुंवांढेढे एटले जेने सिद्धांतजाणवाथीपण प्रमादमटचोनही तेप्राणिपढे श्याथीप्र मादरहितथइ मुक्तिपामशे केमके सिद्धांतथीअधिक बीजोकोइ प्रमाद परिहारनो उपायनथी तेउपरदृष्टांतकहेढे जेपुरुषने रसायनजेपारदादिक तेथीपण रोगहृयन पाम्यो तेनेजिवतव्य तेघणुजडुर्लजढे एमइहांपणजे सिद्धांतजाणीने प्रमादरहितन थाय तोतेनेमुक्तिपामवी घणीज डुर्लजढे ॥ १ ॥

अधीतिनोर्चादिकृते जिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेर्मुधा ॥

ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो गुणाय कस्मै शलजस्य चक्रुषी ॥३॥

अर्थ ॥ हवेजेपुरुषसिद्धांतजणनेपण प्रमादवंतठे तोतेहनुंनणवुं वृथाठेते कहे ठे जेपुरुषप्रमादवंत सर्वथा दुर्गतिनोपंडनार तेअर्चादिके० केवलपूजासत्कारादिक नेजअर्थे सिद्धांतजणे एवोहोयतेहनु जण्युं मुधाके० निष्फलजाणवुं तेउपर दृष्टां तकहेठे ज्योतिके० प्रकाशंकरिनेज मुंजाणोथकोदीवामांजइपडे एवोजे शलजके० पतंग तेहनांच हूजेनेत्र तेकेवागुणनाअर्थेहोय एतोउलटाअवगुणकारीजथाय तेमप्र मादिजीवरूपजे पतंगते अर्चासत्कारादिक ज्योतिमां मुंजाणोथको दुर्गतिरूप दीप ज्वालामांपडेठे त्यांसिद्धांतरूपचक्रुतेकांईकामनआवे सामोमोहकारीथाय ॥ ३ ॥

मोदंते बहुतर्कतर्कणचणाः केचिज्जयाघादिनां काव्यैः केचन कल्पि
तार्थघटनैस्तुष्टाः कविख्यातितः ॥ ज्योतिर्नाटकनीतिलक्षणधनुर्वे
दादिशास्त्रैः परे ब्रूमः प्रेत्य हिते तु कर्मणि जडान् कुक्षंजरीनेव तान् ॥४॥

अर्थ ॥ हवेतत्वज्ञानविना घणुंनण्योपण व्यर्थठे तेदेखाडेठे केटलाएकपुरुष घ णातर्कजेप्रमाण प्रमेयादिन्याय तेहनातर्कविचारनेविषे चणके० प्रतिष्ठित एवाढतां प रवादिने जीपवाथकी हर्षपामेठे तथावलीकेटलाक चिंतव्याअर्थनी रचनाएरच्यां एहवेकाव्यंकरिने कवीपणानीप्रसिद्धिथकी संतोषपामेठे वलीकेटलाएक ज्योतिष नाट कनीतिके० व्यवहार शास्त्र लक्षणके० सामुद्रिक तथाअश्व गजलक्षणादिक धनुर्वे दके० आयुध अन्यासनांशास्त्र आदिशब्दथी शकुन गारुडि इत्यादिक शास्त्रंकरिने सं तोषपामेठे पणपरलोकनेविषे हितकारीएवाजे संयमादिककर्मतेहनेविषेजो जडके० अज्ञानठेतोतेसर्वेने अथ्यात्मशास्त्रने अनुसारे अमपेटनरा कहियें ठैयें एटलेअथ्या त्मशास्त्रनेमूकीबीजासर्वजे पापश्रुतादिशास्त्र तेपेटनराइनाजठे ॥ ४ ॥

किं मोदसे पंडितनाममात्रात् शास्त्रेष्वधीती जनरंजकेषु ॥ तत्किं

चनाधीष्व कुरुष्व चाशु न ते जवेद्येन जवाब्धिपातः ॥५॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजदृढेठे हेपंमिततुं जनके० लोकनेरंजनना करनार एहवाजे शृंगार नाटककाव्यादिशास्त्र तेहनेविषेप्रवीणथको नाममात्रपंमितपणाथी शुंहर्षपा मेठे एलोकरंजकशास्त्रथी कांइआत्मार्थनीसिद्धिनथी पणतुंशास्त्रनेजाणने शीघ्रपणे कांइकएहवीकरणीकर केजेणेकरिने तुजनेसंसार समुद्रमां बुद्दवुंनथाय एटलेजिनाग मजणने तेहनेअनुसारे संयमआराध ॥ ५ ॥

धिगागमैर्माद्यसि रंजयन् जनान् नोद्यद्भसि प्रेत्य हिताय संयमे ॥

दधासि कुक्किंजरिमात्रतां मुने क्व ते क्वतत् क्वैष च ते जवांतरि ॥६॥

अर्थ ॥ हवेक्रियाविना केवल आगमनुंजणवुं तेपण अर्थसाधकनथी तेकहेठे हेमुनितनेधिःकारणे केमकेतुं आगमसिद्धांत तेणेकरीने लोकने रीजवेठे पणपरलो कना हितनेमाटे संयमनविषेउद्यमवंत नथीथातो तेमाटेतुंकेवल पेटनराइजकरेठे पणताहरेयादराखवुंके जवांतरनेविषे तेजिनागमकिहां अनेलोकनुंरीजववुंपणकिहां तथासंयमपणकिहां एटले जवांतरेएवीगतिपामिश केजिहांएमाहेलोएकेतुजनेनहोय.

धन्याः केप्यनधीतिनोपि सदनुष्ठानेषु बद्धादरा दुःसाध्येषु परोपदे

शलवतः श्रद्धानशुद्धाशयाः ॥ केचित्त्वागमपाठिनोपि दधतस्तत्पु

स्तकान् येऽलसा अत्रामुत्र हितेषु कर्मसु कथं ते जाविनः प्रेत्यहाः॥७॥

अर्थ ॥ हवेशोडोनणावाथीपण किहांक क्रियानो उत्कर्षदेखामेठे केटलाकप्रा णी अल्पश्रुतवंतठतांपण श्रद्धानजे सम्यक्ततेणेकरीने शुद्धाशयके० निर्मलपरिणा मवंतहोयतेनेधन्यठे केमकेतेपारकाउपदेशना लेशमात्रथीपण दुःखेंसाध्य एवांजे जलाअनुष्ठान तपसंयमादिक्रियाविशेष तेहनेविषे आदरवंतठे अनेहाइतिखेदेंकेट लाकतो आगमना जणनारठतां तथाआगमना पुस्तकधरतांठतांपण आलोक अने परलोकनेविषे हितकारीकर्म जेसंयमादिक तेहनेविषे निरादरकरेठे तेपुरुषनेपरजवने विषेशुंथाशे एटलेपरजवेतेनी शीगतीथाशे अर्थात् ते माहादुःखपामशे ॥ ७ ॥

धन्यः समुग्धमतिरप्युदितार्हदाज्ञारागेण यः सृजति

पुण्यमङ्गुलिकल्पःपाठेन किं व्यसनतोस्य तु कुविकल्पै

र्यां कुस्थितोत्र सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥८॥ इतिवापाठः ॥

अर्थ ॥ वलीअर्थीतरें एहिजडठेठे जेअल्पश्रुतवंतथको पणकदाग्रहरहितहोय ते हने मुग्धमतिकहियें तेपणजलुंजाणवुं केमकेजे उदितके० सिद्धांतोक्त एहवीजे अ रिहंतनी आज्ञातेना रागेकरीने रखेजिनाज्ञानोचंगथाय एवीबुद्धियें कुविकल्परहित थको पुण्यकरेठे अनेजेपठितथकोपण कदाग्रहेंग्रस्तहोयतो तेनेघणुजण्येपण शोणुण जेलोकनेविषे द्यूतादिव्यसनथी कुविकल्पेंकरी डुषितठे एटलेकांश्क पूजासत्कारादि कना लोनेंजण्युंथकुं पण व्यसनादिकें आसक्तपणेकरी कुविकल्पचिंतवे एटलेकेहेनेरी जवुं केहेनेमोहपमाहुं केमकरि परीग्रहमेजवुं एवीबुद्धियें रात्रदिवस दुःखितथको रहे

अनेनजाअनुष्ठान जेशुनक्रियातेनेविषे प्रमादवंतळे तोतेहनुंनष्टुपण निष्फलळे आ काव्यपेहेलाकाव्यनुं पाठांतरळे ॥ ७ ॥

अधीतिमात्रेण फलंति नागमाः समीहितैर्जीवसुखैर्नवांतरे ॥

स्वनुष्ठितैः किंनु तदीरितैः खरो न यत्सिताया वहनश्रमात्सुखी॥९॥

अर्थ ॥ वलीतेजदृढकरळे हेआत्मा केवलनष्टामात्रथकीज आगमसिद्धांतते नवांतरनेविषे वांढितसुखेकरी फलेनही इष्टफलदायकनहोय पणतेसिद्धांतनेविषे कर्ह्याजे स्वनुष्ठितके० नजाअनुष्ठान तपसंयमादिक तेनेआराध्येढते आगमफलदायक होय तेउपरदृष्टांतकहेळे जेमखरजेरासन तेसाकरनोजार उपाडवामात्रथी सुखीउ नहोय साकरनापरिजोगनुं सुखनपामे तेम आगमनष्टवामात्रथीज आंगमोक्त क्रिया जनित फलपामेनही॥९॥इतिश्रीअध्यात्मकल्पद्रुमे शास्त्रगुणाधिकारोऽष्टमःसंपूर्णः ॥

अथचतुर्गत्याश्रीतोपदेशः॥ दुर्गंधतो यदणुतोपि पुरस्य मृत्युरायूं

पिसागरमितान्यनुपक्रमाणि ॥ स्पर्शः खरः क्रकचतोतितमामित

श्च दुःखावनंतगुणितौ नृशशैत्यतापौ ॥१॥ तीव्रा व्यथाः सुरकृता

विविधाश्च यत्राक्रंदारवैः सततमभ्रनृतोप्यमुष्मात् ॥ किं नाविनो

न नरकान् कुमते विज्ञेयि यन्मोदसे क्लृणसुखैर्विषयैः कषायी॥९॥युग्मं

अर्थ॥हवे एपूर्वोक्तशास्त्रधारांतर्गत चतुर्गत्याश्रीत उपदेशकहेळे तेमांप्रथम शास्त्रोक्त नरकगतिनादुःखकहेळे निश्चंकरी नरकना एकपरमाणुमात्रना दुर्गंधथी पुरवासिस मस्तलोकनुं मृत्युथाय एहवामहादुर्गंधमय नरकनापुजलळे वलीजिहां निरुपक्रमके० अपवर्तनरहित निकांचित् अने सागरोपमेप्रमित एकसागरोपमथी मांमीने तेत्रीस सागरोपम पर्यंत एहवाआकषाळे केमके देवताअने नारकीनाआउषा सदाइ निरु पक्रमहोय वलीजिहां स्पर्शतेपण करवतनीधारथी कर्कशळे वलीइहांथकी अनंत गुणदुःखदायी महाशीत तथा महातापळे एमहूत्रवेदनाकहीने हवेपरमाधामीनी करेलीवेदनाकहेळे वलीजिहां देवताजे पन्नरजेदें परमाधामीतेहुनीकरेली अतितीव्र कठोरजे वेदना तेविविधप्रकारना वेदन विदारणादिकहोय एप्रकारें निरंतर आक्रंद रुदनने शब्देंकरी आकाशनेपुरतो एहवोजे नविष्यमाण नरक तेहथकी हेकुमतिवं तआत्मातुं केमनथीबिहितो जेमाटे कषायसहितथको क्लृणमात्रसुखनाकारक एह वाविषयजे शब्दादिक तेणेकरी हर्षनेपामेळे एबेकाव्यनो अर्थएकठोळे ॥ १ ॥ २ ॥

बंधोऽनिशं वाहनताडनानि क्लृप्तदुःखामातपशीतवाताः ॥

निजान्यजातीयजयापमृत्यु दुःखानि तिर्यद्विवति दुःसहानि ॥३॥

अर्थ ॥ हवेतिर्यचगतिआश्री दुःखदेखाडेढे अनिशके० नित्यबंधन तथा वाहन के० जारनुउपाडवुं तथापराणादिकना प्रहारैकरी ताडन वली क्लृप्ता तृषा डुरामके० दुष्टरोग आतप तडको तथाटाढ्य वायुइत्यादिक तथावलीखजातीनोजय जेम म हिषने महिषनोजय तथाहस्तिने हस्तिनोजय तथाअन्यजातीयजय ते जेम मृगादि कने व्याघ्रादिकनोजय तथाअपमृत्युजे कुमरण स्वर्गप्रहारथी तथाआहेडीप्रमुख थी तथाजल दावानल विषमादिकयोगथी क्लृप्तादिक गाढवेदना आक्रांतपणे अकालमृत्यु इत्यादिकप्रकारें तिर्यचगतिमां जयंकरकवीन दुःखहोयढे ॥ ३ ॥

सुधान्यदास्याजिजवान्यसूया जियोंतगर्जस्थितदुर्गतीनां ॥

एवं सुरेष्वप्यसुखानि नित्यं कितत्सुखैर्वा परिणामदुःखैः ॥४॥

अर्थ ॥ हवेदेवगतिआश्रीदुःखकहेढे नित्यप्रतें सुधाके० फोकट अन्यके० पारकी सेवा करवी केमकेमनुष्यतो धननालोने तथाआजीविकादिक कारणथी परनीसेवा करे अनेदेवतानेतो तेवोकोऽनिमित्तनथी तोपणसदाकालें इंद्रादिकनीसेवाकरवी तथाआजर्वेवजप्रहारादिकनी पीडा अने अनिसूयाके० परस्परें ईर्ष्या द्वेषादिकमां वलि अंतके० चवननुंजय केमके सरवार्थसिद्धिना देवतानेपण चवननुंजयढे तथागर्जा वासनुनय वलीदुर्गतिजे चांमालादिककुलें अथवातिर्यचनुंअवतारलेवुं तेसंबंधीजय इत्यादिक प्रकारें देवतानाजवमांपण घणाप्रकारें असुखढे तेमाटेपरिणामें दुःखकारी एहवाजे देवतासंबंधीसुख तो तेसुखेंसुंथाय माटेतेसुखनेपण असुखकरीजाणवा ॥४॥

सप्तजीत्यजिजवेष्टविप्लवानिष्टयोगगददुःसुतादिचिः ॥

स्याच्चिरं विरसता नृजन्मनः पुण्यतः सरसतां तदानय ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेमनुष्यगतिआश्री दुःखकहेढे धुंवके० निश्चेंकरीने सातजीतिजे १ इह लोक २ परलोक ३ आदान ४ आकस्मिक ५ आजीविका ६ मरण ७ अपयश एसातजय तथा अजिजवके० राजा चोर दुर्जनादिकथी पराजय तथा इष्टजे वद्व नजन स्त्री पुत्रादिकनोवियोग शत्रुप्रमुखतो योगके० संबंध तथा गदके० रोग वली दुःसुतके० कुपुत्र आदिशब्दथी कुनार्याप्रमुख इत्यादिकप्रकारेकरीने मनुष्यजन्मनु पण विरसपणुथाय तेकारणमाटे पुण्येकरीने मनुष्यजन्मनु सुरसपणुकरवुं ॥ ५ ॥

इति चतुर्गतिदुःखततीः कृतिन्नतिजयास्त्वमनंतमनेहसं ॥ हृदि

विजाव्य जिनोक्तकृतांततः कुरु तथा न यथास्युरिमास्त्वव ॥६॥

अर्थ ॥ हवेउपसंहारकहेठे हेपंमितआत्मा एप्रकारें अनंतकालसुधी अतिशय नयनीकरनार एहवीचारगतिसंबंधीजे दुःखनीश्रेणी तेप्रते जिनोक्त श्रीसर्वज्ञप्रणि त कृतांतजे सिद्धांत तेथकी त्ददयमां विचारीने जेम ए चारगतिना दुःखनीश्रेणीओ तुजने कोश्वारें प्राप्तनथाय तेवो उपाय कर ॥ ६ ॥

आत्मन् परस्त्वमसि साहसिकः श्रुताक्षैर्यद्भाविनं चिरचतुर्गतिदुःखराशिः॥
पश्यन्नपीह न बिजेषि ततो न तस्य विच्छिन्नतये च यतसे विपरीतकारी॥७॥

अर्थ ॥ हवेआत्मा चारगतीना दुःखजाणतोयकोपण धर्मनेविषे तत्परथातुं नथी तेवास्तेपरमअविचारीपणुं देखाडेठे हेआत्मातुं अविचारमांहेमुख्यठो केमके आसंसारमां चिरकाललगें जावीएहवोजे चारगतिनादुःखनोसमूहतेहने श्रुतसिद्धांत रूपनेत्रेंकरी देखतोठतोपण वीकपामतो नथी वलीतेदुःखना समूहनोविभेद करवा नेपण उजमालथातुंनथी माटेतुं उपराठांकर्मनुकरनारठो केमके दुःखहेद कर्मकर वानेबदले दुःखवृद्धिकारीकर्मकरेठे॥७॥इतिशास्त्रोपदेशांतरगतचतुर्गत्याधिकारसमाप्त

अथमनः ॥ कुकर्मजालैः कुविकल्पसूत्रजैर्निबद्ध्य गाढं नरकाग्निजिश्चिरं॥
विसारवत्पश्यति जीव हे मनः कैवत्तकस्त्वामिति मास्य विश्वसीः ॥१॥

अर्थ ॥ हवेचित्तदमन नामानवनमोक्षार कहेठे तेमांप्रथम आत्माने मनरूपशत्रु नु विश्वासकरवुंनिपेठेठे हेजीवतुजने मनरूपी धीवर तेकुविकल्परूप सूत्रेंगुण्या ए हवाजे कुकर्मरूपी जालो तेणेकरीगाढोबांधीने नरकरूप अग्नियेंकरी मत्सोनीपरें चिरकाललगें पचावसे जेमधीवरपण मत्सने सूत्रनीजाले गाढोबांधीनेपठे अग्नीमांप चावे तेमइहांपण एउपनयजाणवुं माटेतुंताहरामनरूप धीवरनोविश्वासकरीसनही जेम ते मनरूप धीवरनावनावेला कुकर्मरूपजालमांपडेनही एवीरीतेंवर्तजे ॥ १ ॥

चेतोऽर्थये मयि चिरत्नसख प्रसीद किं दुर्विकल्पनिकरैः क्षिपसे जवे मां॥
बद्धो जलिः कुरु कृपां जज सविकल्पान् मैत्रीं कृतार्थय यतो नरकाद्विजेमिः

अर्थ ॥ हवेआत्माबीहितोयको मनरूपमित्रने विनंतीकरेठे हेचिरकालनामित्रतुं चेतहैयामांहे हेघणाकालना सहचारीतुं महाराजपर प्रसादकरीने एमाठा विकल्पने समूहेकरीने मुजने आसंसारमां सुंनमावेठे तुजनेहुं हाथजोमीने कहुंहुं जेतुंमहारा

उपर कृपाकरीने शुनविकल्पजे धर्म ध्यानलक्षण तेहनी नजनाकरी आपणीमैत्री स
फलकर केमकेहुं हवे नरकना दुःखथी बीहुंहुं ॥ २ ॥

स्वर्गापवर्गौ नरकं तथांतर्मुहूर्त्तमात्रेण वशावशां यत् ॥

ददाति जंतोः सततं प्रयत्नाद्दशं तदंतःकरणं कुरुष्व ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ हवेआत्माने मनवशकरवाआश्री उपदेशआपेठे हेआत्माजे अंतःकरण
वशतथा अवशथको जीवने अंतरमुहूर्त्तमात्रमांज स्वर्गमोक्षादिकना सुखप्रतेआपे
अनेनरकनी प्राप्तिपणकरावे एटलेमनवशथको जीर्णशेठ तथाप्रश्नचंद्रराजर्षि इत्या
दिकनीपरें स्वर्गमोक्षादिकआपे अने मनअवशथको तंडुलमत्स्यादिकनीपरें अंतर
मुहूर्त्तमात्रमां नरकप्रतेआपे तेमाटेतुंताहरा अंतःकरणेज सर्वथाप्रकारेंवशकर ॥३॥

मुखाय दुःखाय च नैव देवा न चापि कालः सहदोरयो वा ॥

ज्वेत्परं मानसमेव जंतोः संसारचक्रभ्रमणैकहेतु ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेतेहिजकहेठे जीवने देवता तथा वर्षा शीत ग्रीष्मादिककाल तथा
मित्र शत्रुतेकोइपण सुखदायी तथादुःखदाइनहोय पणएकमन तेहिजजीवने सुख
दायी तथा दुःखदायीहोय हवे तेमनकहेवुंठे तेकहेठे संसारसमुद्रमां भ्रमणजे ज
न्ममरणादिक तेहनुंएकहेतुठे एवचन संझीपंचेंडी आश्रीजाणवुं अन्यथा असंझीने
मनना अज्ञावें पण संसारमां भ्रमण देखायठे ॥ ४ ॥

वशां मनो यस्य समाहितं स्यात् किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥

हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥५॥

अर्थ ॥ जेप्राणीनेपोतानुंमन समाधिवंतठतो वशवर्त्तिहोय तेहने नियमजे १
शौच २ संतोष ३ स्वाध्याय ४ तप ५ देवताप्रणिधानादिक लक्षण तथायमजे
प्राणातिपात विरमणादिक पांचमहाव्रत तेहनुंसुंकार्यठे केमकेतेतोसर्वे मनवशकर
वाना उपायठे अनेजेवारेंते मनवशथयुं तेवारेंतो ते सर्वगुण प्रथमजआव्या अनेजे
प्राणीनुं मन माठाविकल्पेंकरी हतप्रहतठे तोतेहने नियमयमें करीने पणसुंयवानुंठे
जेमठालीना गलाना स्तनधाव्याथी कांइ अर्थसिद्धि नथाय तेमज मनवश थयाविना
यम नियमादिक पण व्यर्थ जाणवा ॥ ५ ॥

दानं श्रुतध्यानतपोर्चनादि वृथा मनोनिग्रहमंतरेण ॥ कषाय

चिंताकुलतोषितस्य परो हि योगो मनसोवशत्वं ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जीवने एक मनवशयथाविना दानतथा श्रुतसिद्धांतुंजणवुं तथाथ्यान तथा अर्चनजे देवपूजा आदिशब्दथी प्रासाद देवप्रतिष्ठादिक क्रिया तेसर्ववृथाजा एवी पण तेमोक्षफलनी देनारनथाय केमके कषायजेक्रोधादिक तेसंबंधीनीचिंता थकी उपनीजे असाता तेणेकरीरहित एहवुंजेमन तेहनुंवशवर्तिपणुं तेहिजपरम योगे अने तेहिज अष्टांग योगनुं सर्वस्वठे ॥ ६ ॥

जपो न मुक्त्यै न तपोधिजेदं न संयमो नापि दमो न मौनं ॥

न साधनाद्यं पवनादिकस्य किं त्वेकमंतःकरणं सुदांतं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जीवने नवकारादिकनोजप तथा बाह्य अन्यंतर बेप्रकारनुंतप तथासंयम चारित्र तथा दमजे इन्द्रियदमन तथा मौनजे वचननुंसंवर तथा पवनादिकनुंसाधन आदिशब्दथी चोरासी योगासनप्रमुख तेकांइमुक्तिना देवावाजा थायनही तेवारे तुजने कितुके ० मुक्तिप्राप्तिनो शोउपायठे तेकहेठे जेणेरुडीरीते पोतानुंअंतःकरणजे मनतेहने वशकखुं तोतेहिज एकमुक्तिनुं दातार होय ॥ ७ ॥

लब्ध्वापि धर्मं सकलं जिनोदितं सुदुर्लभं पोतनिजं विहाय च ॥

मनःपिशाचग्रहिलीकृतः पतन् नवांबुधौ नायतिदृग्जगो जनः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ जडके ० हेअज्ञानीप्राणी अतिशयेंकरीपामवुंडुर्लभ प्रवहणसरिखो एह वोएसर्वज्ञप्रणीत संपूर्णधर्म तेप्रतेंपामिने वलीतेहनेगामिने मनरूपिअो पिशाचके ० नूततेणेषहेलोकखोथको संसारसमुड्मांपमता आयतिदृग्के ० उत्तरकालनो विचार करतोनथी एटलेएमनथी विचारतोजे प्रवहणरूप धर्मनेगामी संसारसमुड्मां जंपापा तखाउंठुं तेथी आगळें हवे महारी शीगति थासे ॥ ८ ॥

सुदुर्जयं ही रिपवत्यदोमनो रिपूकरोत्येव च वाक्तनू अपि ॥

त्रिजिह्वतस्तद्विपुञ्जिः करोतु किं पदीनवन्डुर्विपदा पदे पदे ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ हेआत्माअतिशय दुर्जयएहवुंजे ताहरुंमन तेपोतेंशत्रुपणुं आचरेठे अ नेवली वचनतथाकायानेपण शत्रुकरेठे मनडुष्टथके वचनतथा कायानाव्यापारपण डुष्टथाय तेकारणमाटे मन वचन तथाकाया एत्रणेशत्रुयें पराजव्यो एहवोतुंपगेंपगें डुष्ट विपदा जे नरकादिक तेहनुं जाजनथातोथको तुंसुंकेरे एटलेताहरोकांइचालतुं नथी ॥ ९ ॥ रे चित्त वैरि तव किं नु मया ऽपराधं यद्दुर्गतौ क्षिपसि मां कुविकल्पजालो ॥ जा नासि मामयमपास्य शिवेस्तिगंता तत्किं न संति तव वासपदं ह्यसंख्याः १०

अर्थ ॥ हेचित्तरूपवैरी में ताहरोशो अपराधकीधोळे केतुंमुजने विकल्परूपजालें बांधीने डुर्गतिमांनाखेळे जोतुंएमजाणतोहोयजे एजीवमुजनेपरिहरीने मुक्तिजनारळे तोपणताहरे वशकरवानास्थानक वलीमहाराशिवाय बीजाअसंख्याता संसारीजी वसुंनथी एटले एकहुंजतोरह्यो तोपण ताहरेबीजानीशीखोटळे ॥ १० ॥

पूतिश्रुतिःश्वेव रतोर्विदूरे कुष्ठीव संपत्सुदृशामनर्हः ॥

श्वपाकवत्सज्जतिमंदिरेषु नार्हेत्प्रवेशं कुमनोहतांगी ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ हवेमननाअवशपणाथकी बहुप्रकारना अवगुणथायळेतेदेखाडेळे डुष्ट मनेकरीसंतापपास्यो एहवोजेप्राणी तेकुंढ्याकाननां कुतरानीपरें रतिजेनिवृत्तितेहथी वेगेलोहोय जेम कीमेंखाधो एहवोजे कुतरते किहांपणकृणमात्र रतिपामेनहीतेम कुविकल्पचित्तनोधणी तेपणरतिरहितहोय वलीकोढीअानीपरें संपदारूपणीजे सुदृ शाअोरूप उत्तमकन्याओ तेहेनेवरवाअयोग्यहोय जेमकोढीअानेकोऽपण उत्तमक न्याघरवावांढेनही तेमदुष्टचित्तवंतप्राणीने सौजाग्यादिक कोऽपणसंपदाआश्रयेनही वलीसद्गतिरूपजेमंदिर तेहनेविषे श्वपाकके० चंडालनीपरें प्रवेशकरवानपामे॥ ११ ॥

तपोजपाद्याः स्वफलाय धर्मा न डुर्विकल्पैर्हतचेतसः स्युः ॥

तत्स्वाद्यपेयैः सुनृतेपि गेहे क्षुधातृषान्यां प्रियते स्वदोषात्॥ १२ ॥

अर्थ ॥ माटेविकल्पेकरी जेहनुंचित्तपीडाणुंढे एहवाप्राणीने तपजपप्रमुखजेधर्म तेपोतपोताना फलनुंदेवावाजोनथाय अने कुविकल्पचित्तनोधणी धर्मक्रियाकरतोथ कोपण मोक्षफलपामेनही तेउपरदृष्टांतकहेळे जेमकोऽ अपुण्यवंतप्राणी खानपाना दिकें जरेजाघरमांपण पोताना रूपणताद्यादिकदोषथी खुखतृष्णायेंपीडाय तेमइहां पण कुविकल्पचित्तवंतप्राणीते ढतेधर्मपण परजर्वेसीदाय ॥ १२ ॥

अकृत्रसाध्यं मनसो वशीकृतात् परं च पुण्यं न तु यस्य तद्वशं ॥

स वंचितः पुण्यचयैस्तडुन्नवैः फलैश्च हीही हतकः करोतु किं॥ १३ ॥

अर्थ ॥ एकमनना वशकरवाथी बीजुंसर्वपुण्यते सुखेंसाध्यळे अनेते मन जेहनेव शनथी तेप्राणी पुण्यनेसमूहें तथातेपुण्यजनितफलेंकरीने वांढितळे तेफोकटळे एट जेमनवशविना पुण्यनी तथापुण्यजन्यक फलनी फोकट आशाराखेळे तेमाटे हीही इतिखेदे एबापडो प्राणी सुंकरे पळे तेहने एके गतिनथी ॥ १३ ॥

अकारणं यस्य सुडुर्विकल्पैर्दहतं मनः शास्त्रविदोपि नित्यं ॥

घोरैरघैर्निश्चितनारकायुर्मृत्यो प्रयाता नरके स नूनं ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ यद्यपिसिद्धांतनोक्षणनारके तथापिजेहनुंमन अकारणके० उपसर्गादि ककारणविना पण नित्यं अतिशयैकुविकल्पैकरी पीहितते तेपुरुषमहारौडपापैकरीने दृढकीधुंते नरकायुजेणे एहवुंथकोते सर्वथा सुआपढी नरकमांजजज्ञे ॥ १४ ॥

योगस्य हेतुर्मनसः समाधिः परं निदानं तपसश्च योगः ॥

तपश्च मूलं शिवशर्मवल्या मनःसमाधिं नज तत् कथंचित् ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ मननीसमाधिजे एकाग्रता तेहिज योगवुंहेतुते अनेवलीयोगजे अष्टांग लक्षण तेतपनुंपरम उत्कृष्टकारणते अनेतेतपतो मोक्षसुखरूपणी वेलीनुंमूलते मा टेहेआत्मा जेतेउपाय करीने मननीसमाधिनेआदर केमके मननीसमाधिथी योग अने योगथी तप तथा तपथीमोक्षसुख एमपरंपरायें सर्वसिद्धिपामे ॥ १५ ॥

स्वाध्याययोगैश्वरणक्रियासु व्यापारणैर्द्वादशजावनाजिः ॥

सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्तिः फलोपयोगैश्च मनो निरुंध्यात् ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ हवेमनसमाधिना उपायकहेते स्वाध्यायजे जिनागमतेहनायोगनुं वहेवुं आंबिलादिक तपविशेष तेणेकरीने तथाचारित्रसंबंधीनी क्रियानेविषे प्रवर्तवेकरी वलीअनित्यादिक बारजावनायेंकरीने वली त्रियोगीजे मन वचन कायानायोग ते होनी सदसत्प्रवृत्तिके० नलोअने नूंडोव्यापार तेहना फलनुं उपयोगजे विचारणा एटलेत्रियोगना शुचव्यापारनो शो फलते एहवीविचारणा अने अशुचव्यापारनोशो फलते एहवाजे उपयोगदेवा इत्यादिक प्रकारेंकरी मननेवशकरवुं ॥ १६ ॥

जावनापरिणामेषु सिंहेष्विव मनोवने ॥

सदा जाग्रत्सु दुर्ध्यानसूकरा न विशंत्यपि ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेवली एसर्वप्रकारमां पण जावनापरिणामने विशेषदेखाडेते मनरूपी आवननेविषे सिंहसरिखाजे जावनाना परिणाम तेमांसर्वदासावधानरहेथके दुर्ध्या नजे आर्चरौडध्यान तेरूपजे सूअरोते प्रवेशपणकरीशकेनही तोतिहां तेसूअरो वासकरवानेतो सर्वथानजपामे ॥ १७ ॥ इति श्रीअध्यात्मकल्पदुमे चित्तदमनाजि धानो नाम नवमोअधिकार संपूर्ण थयो. ॥ ९ ॥

अथ सामान्यतो वैराग्यधर्मोपदेशः ॥ किं जीव माद्यसि हसस्य
यमीहसेऽर्थान् कामांश्च खेलसि तथा कुतुकैरशंकः ॥ चिद्धि
प्सु घोरनरकावटकोटरे त्वा मय्यापतल्लघु विजावय मृत्युरक्तः ॥१॥

अर्थ ॥ हवेसामान्यथी वैरागोपदेशनामा दसमोअधिकारकहेठे तेमांप्रथमजीव
ने मरणसंबंधीजयदेखाडेठे हेजीवतुं मदशानोकरेठे तथासुंहशेठे वली अर्थजेसुव
एरूपादिक तेहनेसुंवांठेठे तथावली निःशंकठतो कौतुकेकरीने कामजे शब्दादिक
विषय तेप्रतेसुंरमेठे तुजनेतो जयंकर नरकरूपजे खाइ तेमांनाखवावांठतो एवो मृ
त्युरूपजे राक्षस तेउतावलुं तारेसन्मुखआवतुं सांजलीने निःशंकरद्विशनही ॥१॥

आलंबनं तव लवादिकुठारघाताश्रिंढंति जीविततरुं न
हि यावदात्मन् ॥ तावद्यतस्व परिणामहिताय तस्मि
न् भिन्ने हि कः क्वच कथं जविता स्वतंत्रः ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेआठपुंविद्यमानठते जीवनेधर्मकरवुं उपदेशेठे हेआत्माताहरो आ
लंबनआधारचूत एहवोजे जीवितव्यरूपवृद्ध तेप्रते लवादिकजे लव लेश कृण घ
डी मुहूर्त्तप्रमुखकालमान तेरूपीया कुहामानाघाव जाहांलगेठेदेनही तेहथीपहेलां
ज परिणामहितजे निदानहितकारी तपसंयमादिक तेहनेअर्थेउद्यमकर जेथ
कीताहरो जीवितव्यरूप वृद्धेद्यापठि फरीतेहने नवपद्मवकरवाने किहांक कोइकप्र
कारें पण मंत्रउपायथासे जेणेकरीतुं जीवितव्यरूपतरुने नवपद्मवकरीस एटलेक
णेकृणे जीवितव्यरूप वृद्धेदातुंजायठे तेठेदाइगयापठि फरीसककरवानु कोइउपा
यनथी तेमाटे आत्महितनेविषे तत्परथावुं एहिजश्रेष्ठउपायठे ॥ २ ॥

त्वमेव मोग्धा मतिमान् त्वमात्मन्नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वं ॥

दाता च ज्ञोक्ता च तयोस्त्वमेव तच्चेष्टसे किं न यथाहितासि ॥३॥

अर्थ ॥ हवेसर्वकरणीते आत्मानेआधीनठे एहवुंकहिने विशेषेप्रेरेठे हेआत्मातुं
मोग्धाके० मूढतासहितठो अने मतिमान्के० ज्ञातापणतुंठो वजीसुखनुं वांठक अ
नेडुःखनुंअवांठकपणतुंठो तथासुखअनेडुःखनुंदाता अनेज्ञोक्तापणतुंजठो केमके सु
खदुःखते स्वरुतकर्मथीजथायठे यडुक्तं श्रीउत्तराध्ययने अप्पानईवेअरणि अप्पामे
कूमसामली अप्पाकामडुघाधेणुं अप्पामेनंदणं वणं अप्पाकत्ताविकत्ताय इत्यादिक
माटे जेरीतें ताहरीआत्माने हितनीपजे तेमजकांनथीकरतो ॥ ३ ॥

कस्ते निरंजन चिरं जनरंजनेन धीमन् गणोस्ति परमार्थदृशोति पश्य ॥
तं रंजयाशु चरितैर्विशादैर्नवाब्धौ यस्त्वां पतंतमबलं परिपातुमीष्टे ॥४॥

अर्थ ॥ हवे लोकनेरीजवतोथको आत्मापोतानुं हितकांइकरतो नथी तेआश्रयीउ पदेशोठे हेनिरंजन हेनिरलेपआत्मा हेबुद्धिवंत हेहिताहितविवेकनाजाण चिरकाल जावजीवलगे लोकनुंरीजवबुं एटलेमलीनवस्त्र धारणकरी बाह्यक्रिया देखामीने शू न्यचित्तं ठामेठामें उपदेशआपीने लोकनुंमनरीजवबुं तेशीतुजने शोशुणठे एटलुंत त्वदृष्टे विचारी परमार्थदृष्टीयेजोतां लोकरीजव्याथी आत्माने अर्थसिद्धिकांइनथी तेमाटे लोकरंजनखजीने उतावलोथयी विशदके० निर्मलजे चारित्र तपसंयमादिक आचरण तेणेकरीने श्रीवीतराग तथातेमनाजाणेलाधर्मनेरीजव जेथकीतुजने अ बलंके० परजवे संबलेंरहित संसारसमुद्रमांपडताथकां राखवानेसमर्थथाय केमके संसारमांपडता एकधर्मजआधार आपणे पणलोककोइ आधारआपणेनही ॥४॥

विघ्नानहं सकललब्धिरहं नृपोहं दाताहमद्भुतगुणोहमहं गरीयान् ॥

इत्याद्यहंकृतिवशात् परितोषमेषि नो वेत्सि किं परजवे लघुतां जवित्री ॥५॥

अर्थ ॥ हवेअहंकारनिवारवा उपदेशोठे हेआत्मा हुंपंमितबुं हुंसर्वलक्ष्मीये स हितबुं हुंराजाबुं हुंदातारबुं हुंअद्भुतगुणवंतबुं तथाहुंमहोदोबुं इत्यादिकजे पोता नामनकल्पित अहंकार तेहनावशयकी तुं परितोषके० हर्षपामेठे पणजन्मांतरें जाविनी एहवीतेपदार्थानी लघुताप्रते कांविचारतो नथी जेजेपदार्थनेतुं आजवमां हुंपदेकरेठे तेतेपदार्थनीतुं परजवेहीनतापामिस इतिजावः॥यडुक्तं योगशास्त्रे ॥जाति जाजकुलैश्वर्य बलरूपतपःश्रुतैः ॥ कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लज्यते जन इति ॥५॥

वेत्सि स्वरूपफलसाधनबाधनानि धर्मस्य तं प्रजवसि

स्ववशश्च कर्तुं ॥ तस्मिन् यतस्व मतिमन्नधुनेत्यमुत्र

किंचित्त्वया हि नहि सेत्स्यति नोत्स्यते वा ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेआत्माने इहजवेधर्मकरवानी प्रेरणाकरेठे हेबुद्धिवंतप्राणी तुंधर्मनुं स्वरूपजे क्हांत्यादिकदशविध लक्षण तथाधर्मनुंफलजे मोक्षादिक तथाधर्मनुंसाधन जे मनुष्यजन्म आर्यक्षेत्रादिक तथाधर्मना बाधकजे कुजन्म कुक्षेत्र प्रमाद मिथ्या त्व इत्यादिकसर्वप्रकारने वेत्सिके० जाणेठे अनेवली स्ववशके० पोतानेवर्षोथको ध र्मकरवाने समर्थपणठो पणतिर्यंच नारकीनीपरें परवश तथाधर्मकरवाने असमर्थ

नथी तेमाटे आजवमांज धर्मनेविषे उद्यमकर केमकेफरी परजवेते कांइ सीजेनही तथा तुजने तेवा धर्मेनुं फरीकांइ जाणपणुपण नहीयाजें माटे ॥ ६ ॥

धर्मस्यावसरोस्ति पुञ्जलपरावर्त्तरनंतैस्तथा यातः संप्रति जीव हे प्रस हतो दुःखान्यनंतान्ययम् ॥ स्वल्पाहः पुनरेष दुर्लभतमश्चास्मिन् य तस्वार्हतो धर्मं कर्तुमिमं विना हि नहि ते दुःखद्वयः कर्हिचित् ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हवेआत्माने धर्मनुंअवसरजणावेठे हेजीवअनंतादुःख सहित तुजने अनंते पुञ्जलपरावर्त्ते संसारमांजटकतां संप्रतिके० हमणा आजवमां धर्म करवानुंअव सरआव्योठे अनंतउत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी प्रमाण एकपुञ्जलपरावर्त्ते थाय ते हनुंस्वरूप ग्रंथांतरथीजाणवुं एधर्मनुंअवसरते थोडाजदिवसलगणठे फरीपामवुं घ णुंदुर्लभठे तेमाटेएअवसरें श्रीजिनोक्तधर्म करवाने उद्यमकर केमके एजिनोक्तधर्म विना ताहरे किवारेंपण जन्ममरणादिकना दुःखनो क्वयधवानुंनथी माटेजोदुःख नुं अंतकरवाने वांठतोहोयतो एअवसर पामिने धर्मकरवाने तत्परथा ॥ ७ ॥

गुणस्तुतिर्वागसि निर्गुणोपि सुखप्रतिष्ठादि विनापि पुण्यं ॥

अष्टांगयोगं च विनापि सिद्धिर्वातूलता कापि न वा तवात्मन् ॥८॥

अर्थ ॥ हवेअयुक्तवांठकपणाथी जीवनुंबाहुलापणुंदेखाडेठे हेआत्मातुंज्ञानदर्शन चारित्रादिकगुणेरहितअकोपण गुणस्तुतिजे पोतानीप्रशंसा लोकनामुखथी कीर्तिना वरणने वांठेठे तथापुण्यविनापण सुखने तथा प्रतिष्ठाके० गौरवपणानेवांठेठे व ली अष्टांगजेयोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एआठयोगविना पण सिद्धिअष्टकर्मद्वयलक्षण सिद्धनाआठगुण अथवा सिद्धिते अष्टमहासिद्धि लघिमा वशिता ईशिता प्राकाम्य महिमा अणिमा यत्नकामावसायि ता प्राप्ति तेप्रतेंतुंवांठेठे माटेहेआत्मा एताहरो बाहुलापणुंते कोइअपूर्वनवुंजदेखा यठे केमके कारणनी सामग्रीविनाज कार्य नीपजाववानी अनिलाषाकरेठे ॥ ८ ॥

पदे पदे जीव पराजिन्तुतीः पश्यन् किमीर्ष्यस्यधमः परेभ्यः ॥

अपुण्यमात्मानमवैषि किं न तनोषि किंवा न हि पुण्यमेव ॥९॥

अर्थ ॥ हवेबीजानाकरेला अपमानथी जीवईर्षाकरेठे तेआश्रीउपदेशकरेठे हे जीवतुं पुण्यरहितपणाथी अधमके० नीचअवस्थापाम्योथकोपण पगेंपगें बीजानी करेजी जे अजिन्तुतिके० अपमान आक्रोशादिकते देखीने परेभ्यःके० तेजोकउपरें तुं ईर्षाके० क्रोधकरेठे पणपोताना आत्मानेज पुण्यहीन केमजाणतोनथी जेपुण्यर

हितहोय तेहनेतो पगेंपगें परानवथाय तेमांसुं महोटीवातडे एमकांविचारतो नथी अ
थवानिश्चेंथी पुण्यजकेमकरतो नथी केजेथकी कोइपरानवनथाय ॥ ९ ॥

किमर्दयन्निर्दयमंगिनो लघून् विचेष्टसे कर्मसु हि प्रमोदतः ॥

यदेकशोप्यन्यकृतार्दनः सहत्यनंतशोप्यंग्ययमर्दनं नवे ॥ १० ॥

अर्थ ॥ हवेआत्माप्रतें परनेपीडानुं फलकहेडे हेआत्मातुं निर्दयपणेकरी ताहरा
यकी लघुके० निर्बल एहवाजे अंगीके० प्राणी तेहनेपीडतोथको तुं प्रमोदतःके०
हर्षेकरी पापकर्मविषें सुंप्रवर्तेडे केमके एकवारपण जेप्राणियें अन्यजीवने पीडाउ
पजावीहोय तेप्राणीअनंतिवार संसारमांपीडासहे यडुकं तिव्यरेउपउसे सयगुणि
उंसयसहस्तकोडिगुणा ॥ कोडाकोडिगुणोवाहुळ विवागो बहुतरो वा इति ॥१०॥

यथा सर्पमुखस्थोपि जेको जंतूनि न्हयेत् ॥

तथा मृत्युमुखस्थोपि किमात्मन्नार्दसेऽगिनः ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ हवेतेउपर दृष्टांतकहेडे जेम जेकजे मेडको तेसर्पनामुखमां रह्यो अर्दग्रसित
थको पण जंतुजेन्हाना कुड्जीवतेप्रतेंखाय तेम हेआत्मा तुंपणमृत्युना मुखमां र
ह्योथको पण अन्यप्राणीअने सुंपीडाआपेडे ॥ ११ ॥

आत्मानमल्पैरिह वंचयित्वा प्रकल्पितैर्वा तनुचित्तसौख्यैः ॥

नवाधमे किं जन सागराणि सोढासि ही नारकडुःखराशीन् ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ हवेइहनवें हिंसाजनित अल्पमात्रसुखथी परनवें अनंताडुःख सहेवा
पडशे तेकहेडे हेजन हेसंसारीप्राणी प्रकल्पितके० तेंताहरी कल्पनामात्रथी डुःख
नेज सुखकरीमान्या तेपणवली अल्प तुळ कृण स्थायी एहवाजे मनवचनकाया
संबंधीसुख तेणेकरी इहनवें तुंगयायेठतो हाहाइतिखेदे नवजे चारगतिरूपसंसार
तेमां अधमजे नरकतेहनेविषें घणाक सागरोपमसुधी नारकीनाजेडुःखसमूह तेसहे
वाने सुंतत्परथायडे ए विषय सुखते डुःखजडे पणकल्पनामात्रथी एनेजीवसुख
करीमानेडे ॥१२॥ यदाह नर्तृहरिः ॥ तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वाड सुरजि
कुधार्त. सन् शालीन् कवलयति मांसाज्यकवलान् ॥ प्रदीप्ते रागाग्नौ सुदृढतरमा
श्लिष्यति वधूं प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ १ ॥

नरभ्रकाकिण्डुद्विदुकात्र वणिक्रयशीशाकटजिह्मुकाद्यैः ॥

निदर्शनैर्हारितमर्त्यजन्मा डुःखी प्रमादैर्बहु शोचिताऽसि ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजअर्थ उत्तराध्ययनसूत्रना दृष्टांतेकरी षडकरेठे हेआत्मातुं प्र
मादजे मद्यादिकपांच तेनावशयकी मनुष्यअवतारहारीने पठेपरजवेडुःखीओथको
उरत्रजेबोकडो कागिणी उदकबिंडु आम्रवातकीराजा वणिकत्रयीजे त्रणव्यापारी
शाकटजे गामावाहक निरुक्कजेरांक इत्यादिकोनादृष्टांतेतुंपण घणुंशोचनाकरीस ॥१३

इहांसंहेपथी उरत्रादिकना दृष्टांतलिखेठे तेमांप्रथम उरत्रनुंदृष्टांतकहेठे जेम
कोइगाममां कोइकनाघरमध्ये एकबोकडोहतो तेकोइक प्राहुणोआवसें तेवारें ए
हनुंमांस काममांआवजे एमंचितवीने तेघरनामाणसो तेबोकडाने अन्नादिकेंपोषेठे
अनुक्रमेंते बोकडो घणुपुष्टशारीययो हवेतेहनेतेहवोदेखीने एकवाठडो मनमांखेद
पाम्योथको क्रोधधरीने दोहतांशेपरह्युंजे पोतानीमातानुंडुध तेहनेधावेनही तेवारें
मातायें क्रोधनुंकारणपुठेथके कहेवालागो हेमाताजूओने आबोकडो यथेष्ट अ
न्नादिकखायठे तेथीकहेवो पुष्टयइरह्योठे एहनेपुत्रनीपरेंपालेठे नानाप्रकारना अ
लंकारपहेरावेठे अनेमुजनेतो पोतानीमातानुंडुध तेपणकोइ पीवादेतोन्थी तथासुका
तृणतेपण वखतउपर पूरामलतानथी एहवुंसांजली मातायेंकहुं आउरचिणाइं
पया जाइंचरसिनंदिउ॥सुकृतिणेहलांतेहि एयं दीहाउलरकणं॥१॥हेवत्स जेमरोगीउ
मरवापडयोहोय तेहनेजेकांइ खावामांगे तेआपे तथाफुलनीमाला प्रमुखपहेरावे तेम
एबोकडानेपण वथ्यमंमननीपरें शृंगारादिककरेठे पोषेठे पणकोइप्राहुणाआवसे तेवा
रेपरीहाजणासे तेसांजली वत्सठानोरह्यो पठेकोइकदिवसें तेहनेघरेंप्राहुणाआव्या
तेवारेंतेबोकडानेबांधी उंचूकरी घणुतडफडतो जीजकाठतो दीनखरे आरडतो मृत्युप
माडयो तेहनामांसने खंडोखंडकरी पचावीने प्राहुणासहितसकुटुंबें घरधणिये नरु
णकीधुं तेवृत्तांतदेखीने वाठडो नयपाम्योथको चुरव्योतरम्योथकोपण मातानुंडुधपीये
नही तेवारेंमातायें पुठेथके वत्सबोव्यो हेमातामैं बोकडानीएहवी जूंमीअवस्थादीठी
तेथीमुजने धाववानीपण वांठाथातिनथी एमइहांपणएउपनय जोमवो जेमतेबोक
डोजीवितव्यनीवांठायें निर्जयपणे यथेष्टपुष्टयातुंथको प्राहुणाआवे मृत्युपाम्यो
तेमहेआत्मातुंपण प्रमादेपुष्टथको यथाइत्तायेंविचरेठे पणमृत्युआवेथके मनुष्य
जन्महारीनरकादिकना दुःखपामि घणुशोचपामीस.

हवेबीजुंकांगणीनुंदृष्टांतकहेठे जेमकोइकरांक परदेशेजइ मजूरीकरीने एकहजार
सोनैया कमायो पठेपोतानादेश तरफचाव्यो तेवारेंस्तामांखरचीसारुं एकरूपकवटा
वी तेहनी (८०) कागणीसाथेराखी बीजासर्वइव्यनी वांसलीनरी सीवीनेराखी एक
दिवसें किहांकमार्गमां विश्रामस्थानकें एककांगणीवीसरी ते सथवारासाथें आगलें

जातांसांजरी तेवारेंरांकेविचाखुंजे एककांगणीनीखोटे रखेनेबीजुंरूपक वटावबुंण्डे इमचितवी सधवारोमूकी इव्यनीवांसली किहांकगोपवीने तेकांगणीजेवा पाठोव ल्यो आवीनेजूएतेतो कांगणीकोइकलइगुं अनेपाठोफरीनेजूएतो वांसलीपण को इकलेइगुं पठेनिराशययी अतोत्रष्ट ततोत्रष्टथको घणुशोच करवालागो जेमतेरां के एककांगणीनालोचयी हजारसोनैयानीवांसली अनेतेकांगणी बेन्हे खोइने घ णाशोचनुंजाजनययो तेमआत्मापणपूर्व अप्राप्तकामनोगथको बहुमूलचारित्रपा मिने वलतुंकांगणीतुव्य कामनोगनीजालसायें चारित्र्यजिने कामनोगगवेषतोथको कामनोगपणनपामें अनेचारित्रपणनपामे एमउचयत्रष्टथयोथको तेरांकनीपरें घ णुशोचपामे इहां कांगणी ते एक मासानुं चोथोनाग अथवावीसकोमी अथवा एकरूपैयानुं (८०) मुंजागजाणवो.

हवेत्रीजुं उदकबिंडुनुंदृष्टांतकहेढे कोइकवनमां कोइतृषातुरने कोइकदेवतायें क रुणाकरीने क्षीरसमुइनेकांतेजइमुक्यो तेमूर्खेंतिहांपाणीपीधुंनही अनेदेवतानेकहुजे हेस्वामि महारागामनीसीममांकुउंढे तेहनेउपकांते माजनेअग्रेंलंबमान एकजलबिं डुढे तेखरीपडरो माटेमुजनेतिहांमूकोतो बिंडुओपीउं तेसांजली तेहनेमूर्खनिर्जाग्य जाणी देवतायेंतिहांमूक्यो देवतापोताने स्थानकेंगयो पठेतेबिंडुओपण खरीपडयो तेदेखीतेमूर्ख उचयत्रष्टथयो थको शोचकरवालागो तेमइहांतृषातुरतेजीवक्षीरसमु इतेचारित्र देवतातेसजरु जलबिंडुआरूप कामनोगनासुख एम उपनयजाणवुं.

हवेचोधुंआध्रदृष्टांतकहेढे कोइकराजाने आंबानाफलघणुज वल्लजहता एकदिव रें घणाआध्रफलनाखावाथकी अजीर्णविषुचिकाथयो पठेवैद्येअनेक औषधेंकरी,घ णीकष्टेनिरोगीकीधो वलतुंवैद्येकहुं हवेजोआध्रफलखासोतो मरणपामसो एमकही सर्वथावाख्यो राजायेंपणपोतानादेशमांथी आंबानासर्ववनढेदावीनाख्या हवेकोइक दिवसेराजा आहेडेनिकल्यो तिहांडुष्टअर्थें अपहस्यां एहवाप्रधान अनेराजाबेहुजण घणुदूरपंधें किहांकअटवीमांजइपहोता सैन्यसर्वपाठजरहुं राजाप्रधान बन्नेजण अ श्वथीउतरी आंबानीढायायेंबेठा तेआंबानीचेफलपरुघादेखी राजानेघणादिवसें अ जिजाषथयो प्रधानेघणुवाख्यो तोपणतेफलखांधु एटलेतत्काल मृत्युअवस्थातुव्यथ योथको घणुशोचवालागो जेमतेराजा आध्रनास्वादेंलुव्योथको प्रधानेवास्योथकोप ण ते फलखाइ राजा जीव्यत्वनी आशातजिने मरतांमहाशोकपाम्यो तेमइहांपण विषयलुब्धकजीव विषयने परवशथको जिनाज्ञाअणमानतो कामनोगासक्तथयी संयम अने मनुष्यजन्म बेहुहारीने पठे पश्चात्ताप करजे.

हवेपांचमुं वणिकनुं दृष्टांतकहेठे एकवणिकनेत्रणपुत्रहता तेत्रणेनेहजार हजार सौनैया थापणआपीनेकद्युंजे एटलाइव्यंतमेव्यापारकरीने अवधिउपरेंआवबुं हवे तेत्रणेजण नीमे नीमे मूललेइने जूदेजूदेनगरेंचाव्या तेमांपहेजोनाइसर्वव्यसनरहित अल्पव्ययकरतो थको व्यापारकरवालागोतेमां घणोकमाणुं अनेबीजो हजारसौनैयाकायमराखीने लाजआवेतेवावरे एरीतेंते मूलइव्यनेराखीरहुं अनेत्रीजेव्यापारकी धुंनही अनेवेश्यादिकनाव्यसनमां सर्वमूलइव्यवावरीनाख्युं अनुक्रमेंतेत्रणेजण पोतानाघरेंआव्या तेहोनुं व्यतिकरजाणीने त्रीजापुत्रनें मूलनीमेंपणनराख्योमाटे फितायें घरथीबारकामीमूक्यो लोकमांनिंदनिकथयो दासपणुंपाम्यो जेमतेत्रीजोपुत्र नीमेंमूलनेहारीने निंदाअवस्थापाम्यो तेमआत्माविषयलुब्धथको पूर्वजन्मपुण्यरूप मूल नीमेंहारीने जन्मांतरेंडुर्गतिना दुःखपाम्योथको घणुंशोचपामेठे.

हवेठणो शाकटनुं दृष्टांतकहेठे जेमकोइक गामानुवाहक सम विषम मार्गजाणतो थको पण विषममार्गे गामानेलेइगयो पठेधुसरूजांगेथके शोचकरवामांमद्युं तेमइ हांपण जीवपुण्यपापादिक मार्गनेजाणतोथको पण प्रमादना परवशपणाथकी कुमार्गे चालतो कुगतीमांपदसे तेवारेंशोच पामसे.

हवेसातमुं निहुकनुं दृष्टांतकहेठे कोइकगामडीआनो रहेवासी पुरुषदालिडेंपरा जव्योथको देशांतरेंजइ निहूमांगे पणपुण्यरहितपणाथकी निहूानपाम्यो तेवारे फरीपोतानां घरतरफचालवानिकव्यो मार्गमांकोइकगामे पाण पाटकपाशे एकदेवलठे तेमां रात्रेजइसुतो तेदेवलमांथी एकसिद्धचित्तेलुंकामकुंनहाथमांलेइ निकव्यो पठेएक बाजुयेंउजेरही घडानेकहेवालागो हेकुंनइहांमंदिरकर एटलेतिहां मंदिरथयुं एम तिहांशय्यादिक जोगसामग्रीसर्वकीधी पठेस्त्रीसहित रात्रेजोगजोगवी प्रजातेंसर्व संहयुं तेदेखीने निहूकेचिंतव्युं जेआजलगणहुं फोकट पृथ्वीमांजम्यो हवेजोहुंएसिद्धनेसेबुंतो माहरीसर्वआश्याफले एमचिंतवीते पाणनीसेवाकरी एकदिवशेते पाणप्रसन्नथइबोव्यो जेतुंसुंमागेठे तेवारेनिहूंबोव्युं जेताहरापशायथीहुंपण एहवोजोगपामुं पाणोकद्युंतुजने गमेतो एकुंनलेइजा अनेगमेतो एकुंनप्रतिष्ठानी विद्यालेइजा तेवारे निहूकबोव्यो जेहेस्वामीविद्यातो कष्टकरीसाधुं तेवारेंफले तेमाटेविद्यासिद्धकुंनठे तेहिजमने आपो तोकष्टकिधाविनाज जोगसिद्धिपामु पठेतेपाणोघमोआप्यो हवेतेगामडीओघटलेइने घरेंआव्यो घटनेप्रतापें उज्वलघरनीपजावी विविधजोगसामग्री मेजवी पोतानासर्वकुहुंबसहित मनोवांठित विलास जोगववालागो पोताना सऊनादिकने खेतीप्रमुख आजीविकाना उपाय सर्वमूकाव्या ढोरप्रमुखचतुष्पद सर्वठो

डीमूक्या एकदिवशे ते ग्रामीणमद्यपाने ठाकटोथइने मनमांहर्षधरतो तेविद्याकुंज
खांजाउपरलेइने नाचवालागो मद्यपानना परवशपणाथकी घटपडीने जांगीगयो
तेथी विद्यार्थे करेलुं वैजव सर्वमटीगयो पठेग्रामीणकुटुंबसहित आजीविकार्थे
डुःखीयथोथको शोचकरवालागोके हाहाइतिखेदे जोमेघटसिद्धिनी विद्यालीधीहती
तोसुखीयात एरीते जेमतेग्रामिकजिहु परिअटनकरतां दैववशात् कामकुंजपामिने
वलीमद्यपाननी परवशताथकी कुंजनागीनाखीने विद्यानुशोचपास्यु तेमएजीवपण
डुर्लज जिनधर्म पामिने प्रमादपरवशताथी धर्महारीने कुगतीयेगयोथको धर्मसा
मग्रीविना शोचपामे एसातदृष्टांतना संबंधजाणवा तेमांपहेजापांचदृष्टांततो श्रीउ
त्तराध्ययनना सातमां अध्ययनथी तथाठठोदृष्टांत पांचमांअध्ययनथी अने सा
तमोदृष्टांत ठठाअध्ययनथी लख्युंठे श्लोकमां आद्यशब्दकह्योठे तेथीबीजापण इ
रिडिकुटुंबादिक एहवादृष्टांत घणाठे तेग्रंथांतरथी जाणवा.

पतंगचृंगेणखगाहिमीनद्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ॥ शोच्या
यथा स्युर्मृतिबंधडुःखैश्चिरायजावी त्वमपीति जंतो ॥ १४ ॥

अर्थ॥हवेवली ग्रंथकार प्रमादीजीवने दृष्टांतेकरी जावीडुःखदेखाडेठे हेआत्मा जेम
पतंगीयो तथा नमरो मृग तथा खगके० पारेवाप्रमुखपद्मी तथासर्पअने माठलो तथा
हस्तिव्याघ्रइत्यादिक सर्वजीवते प्रमादजे शब्दादिकविषय तेहनावशथकी मरणसंब
धीडुःखेकरीने शोचनीयथायठे तेमांपतंगते नेत्रनाविषयथी दीपशिखायेमोह्योथको
मृत्युपामेठे अने नमरोघ्राणेंडियनाविषयथकी कमलमध्येमुझाइमरेठे मृगशब्दविष
यथी नादनुमोह्यो पाराधीथकी मरणपामेठे पद्मीशालप्रमुखकणनेलोने रसनेंडियना
वशथकी जालमांपमेठे सर्पकाननाविषयथी महुअरनानादनोमोह्यो बंधनपामेठे अने
मत्स बडिशनामांसनीलालचें रसनेंडियना वशथीमरेठे हस्तिहस्तीनामोह्यथी स्प
शेनेडियनावशे बंधनमरणादिपामेठे व्याघ्रपिंजरामारहेजा बोकडानामांसनीला
लचें रसनेंडियनावशेमृत्यु बंधनादिकपामेठे इत्यादिकबीजापण चित्राप्रमुखना दृ
ष्टांतजाणवा तेमाटेहेआत्मा तुंपणतेपतंगादिकनीपरें प्रमादनावशथकी चिरकाल
में शोचनीय थाइस. ॥ १४ ॥

पुरापि पापैः पतितोसि डुःखराशौ पुनर्मूढ करोषि तानि ॥ मऊ
न्महापंकिलवारिपूरे शिला निजे मूर्ध्नि गले च धत्से ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रमादनुं पापरूपपणुंदेखाडी तेहनोपरिहारकरेठे हेमूर्खतुंपूर्वेपण पा

पेकरीनेजडःखसमूहमांपडघोठे अनेफरीपण तेहिजपापनेकरेठे तेथीतुंघणाकदिवस
हितजलनापूरमां बुडतोथको पोतानामस्तकनेविषे अने गलानेविषे शिलाधरेठे॥१५॥

पुनःपुनर्जीव तवोपदिश्यते विज्ञेपि डःखात् सुखमीहसे चेत् ॥

कुरुष्व तत्किंचन येन वाञ्छितं जवेत्वास्तेऽवसरोयमेव यत् ॥१६॥

अर्थ ॥ हवेजीवने प्रमादपरिहारनुएहिजअवसरठे तेकहेठे हेजीवतुजने फरीफ
रीने उपदेशकहुंहुं केजोतुंडःखथीबीहेठे अनेसुखनेवांठेठे तोतुं एवुंकांइक सुकृत
करके जेथकीताहरुं वांठेजुंसुख तुजनेमिले अनेतेसुकृतकरवानो अवसर एहिजठे इ
हांफरीनेउपदेशदीधो माटेपुनरुक्तदोषनही यडुक्तं सञ्जायजाणतवजं सहेसुउवएस
धुईपयाणोसु ॥ संतगुणकित्तणोसु न हुंति पुणरुक्तदोसाउ ॥ १६ ॥

धनांगसौख्यस्वजनानसूनपि त्यज त्यजैकं न च धर्ममार्हतं ॥

ज्वन्ति धर्माच्च जवे जवे थिता न्यमून्यमीजिः पुनरेष डुर्लजः ॥१७॥

अर्थ॥हवेधर्मनीडुर्लजतादेखाडीने धर्मावसरनेज दृढकरेठे हेजीवतुं धनतथाशरीर
अनेसुख तथास्वजनकुटुंब तथाप्राणजे जीवितव्यपणुं तेसर्वनोत्यागकर पणएकश्रीस
र्वज्ञप्रणीतजे धर्म तेहनेकोइवारेंपण त्यजीशनही केमकेएधनादिक सर्ववस्तुतेधर्मथकी
जतुजनेजवजवनेविषे वाञ्छितमलशे पणधनादिकेकरी जिनोक्तधर्ममलवुं डुर्लजठे १७
दुःखं यथा बहुविधं सहसेप्यऽकामः कामं तथा सहसि चेत्करुणादिजावैः॥
अल्पीयसापि तव तेन जवांतरेस्या दाल्यंतिकी सकलदुःखनिवृत्तिरेव १८

अर्थ॥हवेआत्माने अकामडःखनासहेवाने बदले सकामडःखसहेवुंते जलुंएमकहे
ठे हेआत्मातुंजेम अकामके ०इहारहित परवशथको बहुविध सुख तृष्णा वध बंधनादि
कडःखप्रतेसहेठे तेमज जोकरुणादिक जेमेत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ एपरिणामेकरी
ने सकामके ० निर्झरानीबुद्धियें तुंडःखसहनकरे तो तेवाथोडापणडःखने सहवेकरीने
जवांतरनेविषे आत्यंतिकीके ० पुनःप्राडुर्जावेंरहित एहवी समस्तडःखनी निवृत्तिते नि
श्रयथाय एटले मोहूपद पामे ॥ १८ ॥

प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे यदाशया शर्म न तद्विनानितं ॥

विजावयंस्तत्र विनश्वरं कृतं विज्ञेपि किं दुर्गतिदुःखतो न हि॥१९॥

अर्थ ॥ हवेधर्मत्यजीने आत्मापापकर्ममां निपुणताकरेठे तेआश्रीकहेठे अरेमू
खजीवतुं सुखनीआस्यार्येकरी पापनाउत्पादकजेकर्म तेहनेविषे प्रगल्भसेके ० माहा
पणकरेठे पण ते धनस्वजनादिकनासुख तो प्राणितके ० जीवतव्यविना जोगवाचनही

अने ताहरो जीवतय्यतो शीघ्रके० उतावलुं विनाशशीलते एवीरीतेजाणतोथकोपण
तुं डुर्गतीनाडुःखधी केमबीहितोनधी ॥ १९ ॥

कर्माणि रे जीव करोषि तानि यैस्ते नविश्यो विपदो ह्यनन्ताः ॥

ताज्यो जिया तद्वधसे ऽधुना किं संजाविताज्योपि नृशाकुलत्वं ॥१०॥

अर्थ ॥ वलीप्रकारांतरेतेहिजकहेते हेजीवजोतुं तेहवाज हिंसा मृषावादादिककर्म
करेते जेकमेंकरीतुजने अनन्तिआपदाओथाशे तेवारेंहमणाजते आपदाओसंजारेथके
पण अतिशेनयेकरीने आकुलताकेमपामेते जोपापनाफलजाणतोथकोपण तुंपापक
र्मकरवानेप्रवर्तेते तेवारेंवली नरकादिकनाडुःखसांजलीनेसावास्ते जयपामेते निश्रंतु
जनेतेडुःखजोगवाजपडशे एमांसंशयसुंते एजावार्थते ॥ २० ॥

ये पालिता वृद्धिमिताः सहैव स्निग्धा नृशस्नेहपदं च ये ते ॥

यमेन तानप्यदयं गृहीतान् ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ वलीजीवने हीतार्थनेविषेप्रेरेते हेजीवजेस्वजन मित्रादिक तथापुत्रादिक
तेपाव्यापोष्या तथाजे तुजसार्थेवृद्धिपाम्या महोटाथया वलीतेताहरो अतिशयस्नेह
पात्रथया तेहुनेपण यमराजायें निर्दयपणेश्या तेजाणीनेपणतुं आत्महितकरवानेके
मउजमालयतुंनधी केमके तेहुनेजो यमेंग्रस्यतो तुंशीरीतेस्थिररहिस एजावार्थ ॥ २१ ॥

यैः क्लिश्यसे त्वं धनबंधवपत्य यशःप्रचुत्वादिजिराशयस्थैः ॥

कियानिह प्रेत्य च तैर्गुणस्ते साध्यः किमायुश्च विचारयैवं ॥ २२ ॥

अर्थ ॥ हवेजेतुक्लेशसहेते तेहथीतुजने काऽगुणनधी तेकहेते हेआत्मनतुं आ
शयस्थके० केवलकल्पितमात्र एहवाजेधन बंधु स्वजन अपत्यके० संतान तथा य
श कीर्ति अने प्रचुत्व स्वामिपणुं इत्यादिकनिमित्तेकरी क्लिश्यसेके० कष्टजोगवेते ते
धनस्वजनादिकेंरी तुजनेइहजवें तथा परजवें केटलुंक गुणसाधबुंतेएटले ते तुजने
सुंगुणकरसे अनेआकषाते केटलुंकते एमविचारी धनादिकतुं ममत्व करतां करतांज
आयुष पुरोथइजासे अने नवांतरेंकोऽपण ताहरेकामेआवसेनही ॥ २२ ॥

किमु मुह्यसि गत्वरैः पृथक् कृपणैर्बधुवपुःपरिग्रहैः ॥ विमृश

स्व हितोपयोगिनो ऽवसरैऽस्मिन् परलोकपांथ रे ॥ २३ ॥

अर्थ ॥ हेपरलोकेंजनार पंथीजीव तुं कृपण दीन सरणदेवाने असमर्थ एहवा अ
ने पृथगत्वरके० जूदाजूदावेराइजासे एहवाजेबंधु स्वजन तथा वपुजेशरीर तथा ध
नधान्यादिक परिग्रह तेणेकरी सुंमुंजायते एकोऽपण ताहारासार्थे आवेनही एजावा

थेते माटेएधर्मकरवायोग अवसरनेविषे पोतानाहितोपयोगी परलोकना सहायनूत
एहवाजे ज्ञानादिकगुण तेहोने चित्तमाराख ॥ १३ ॥

सुखमास्से सुखं शोषे जुंहे पिवसि खेलसि ॥ न
जाने त्वग्रतः पुण्यैर्विना ते किं नविष्यति ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ हवे हमणातुंसुखेविलशेते पण आगलताहरी सीगतिआसे तेकहेते हेआ
त्मातुं हमणापूर्वोपार्जित पुण्यफलना उपायथी सुंसुखेबेशीरहेते तथासुखेनोजनक
रेते सुखेंमद्यादिकपानकरेते सुखेंद्यूतादिकेंरमेते पणआगल परजवें तुजनेपुण्यविना
सुंयवानुते तेसुंनथीजाणतो एटलेपुण्यविना घणुजडुखीथइस ॥ १४ ॥

शीतात्तापान्मत्तिकाकतृणादि स्पर्शाद्युत्थात्कष्टतोल्पाद्विज्ञेपि ॥ ता
स्ताश्चैजिः कर्मजिः स्वीकरोषि श्वभ्रादीनां वेदना धिग् धियं ते ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हवेथोडाकष्टथी बीहतोथको घणुकष्टअंगीकारकरेते तेकहेते हेआत्मातुं
ताढथी तापथी तथामांखीप्रमुख तृण मानप्रमुखना स्पर्शादिकथी उपनुंजे अल्प
मात्रकष्ट तेथीबीहेते कायरथायते अनेएवापापकर्मकरिने श्वन्नके० नरकादिकना प्र
कारनीजे महावेदनाओ तेप्रतेअंगीकारकरेते तोताहरीबुद्धिने धिःकारते ॥ १५ ॥

क्वचित्कषायैः क्वचन प्रमादैः कदाग्रहैः कापि च मत्सराद्यैः ॥ आ
त्मानमात्मन् कलुषीकरोषि विज्ञेपि धिङ् नो नरकादधर्मा ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेते हेआत्मातुं किहांक परीषहादिकमां कषायेंकरीने वली
किहांक क्रियानुष्ठानादिकनेविषे प्रमादेकरीने वलीकिहांक उपदेशादिकमां कदाग्रहेंक
रीने किहांकगुणवंतनी अनुमोदनानेविषे मत्सरादिकेंकरीने पोतानीआत्माने मलीन
करेते पणतुंधर्मरहितथको नरकथीबीहितोनथी माटेतुजने धिःकारते ॥ १६ ॥ इति
श्रीअध्यात्मकल्पद्रुमे सामान्यतो वेराग्योपदेशारव्यो दशमोधिकार समाप्त.

अथधर्मशुध्युपदेशः ॥ नवेन्नवापायविनाशनाय तमद्गधर्मं कलुषीकरोषि
किं ॥ प्रमा दमानोपधिमत्सरादिजिर्न मिश्रितं ह्यौषधमामयापहं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेधर्मशुद्धिउपदेशनामें इग्यारमो अधिकारकहेते तिहांप्रथम धर्मनीशु
द्धताज थापेते जेधर्मते नवके० संसारसंबंधी अपायजे जन्ममरणादिक तेहनो वि
नाशकरवाने समर्थथाय एहवाधर्मने हेमूर्खआत्मा प्रमादजे मद्यादिक तथामान
अहंकार उपधि कपट तथामत्सर इत्यादिकेंकरीने सुं मलीनकरेते हवेतेउपर दृष्टां
तकहेते हियस्मात्के० मिश्रितअौषध आमयापहंनस्यात् एटले विरुद्धव्येमिश्रित

जे औषध तेकांश्रोगनिवारकनहोय अनेतेमजतेऔषधनीपरें धर्मपणजोप्रमादादि कें मिश्रितहोयतो संसारना अपायजे दुःखतेनो निवारकनहोय ॥ १ ॥

यतः ॥ शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहक्रुधोनुतापदंजाविधिगौरवाणि च ॥

प्रमादमानौ कुगुरुः कुसंगतिः श्लाघार्थिता वा सुकृते मला इमे ॥२॥

अर्थ ॥ हवेधर्मनेविषे मलसरिखाजेटलादोषते तेटलापूर्वाचार्यना वचनथीदेखाडे ठे सुकृतजेधर्मकार्यतेमां शैथिल्यके० धर्मनेविषे अनादरता मात्सर्यके० गुणवंतनेविषे देषनुंवरवुं तथाकदाग्रहके० जूठावचनतुंहठ क्रुधके० क्रोध वली अनुतापके० सुकृत करीनेपठे हाइतिखेदेमें फोकटदानदीधुं फोकटतपस्याकीधी इत्यादिकपश्चात्तापनुं कर वुं तथादंजके० कपट अने अविधिके० शास्त्रोक्तविधियें रहित क्रियानुंकरवुं तथागौर वके० हुंमहाधर्मिष्ट इत्यादिक महोटाइनुंचितववुं वलीप्रमादजे धर्ममां असावधा नपणुं अने मानजेअहंकार वलीकुगुरुजे लोहशिलातुअ अने कुसंगतिजे ऊत्सूत्र जाषी एहवामिथ्यात्वी प्रमुखनोसंग तथा श्लाघार्थिताके० लोकनामुखथी पोतानी कीर्तिनुंवांठवुं एटलाप्रकारेंकरी धर्ममलीनथाय धर्मनुंयथोक्तफलनथाय ॥ ३ ॥

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा तथा परेषामिति मत्सरोश्री ॥

तेषामिमां संतनु यत्नजेथास्तां नेष्टदानादिविनेष्टलाजः ॥३॥

अर्थ ॥ हवेआत्मापोतानागुणनी प्रशंसावांठेठे तेआश्रीउपदेशेठे हेआत्माजेम तुजने पोतानागुणनी प्रशंसावद्वनठे तेमपरजे अन्यजन तेहनेपणपोताना गुणनीप्र शंसावद्वनठे एहवुंजाणीने मत्सररहितथको तेअन्यजननी इमांके० गुणनीप्रशंसाप्र तें विस्तारीनेकहे जेमतुंपणतेप्रशंसाप्रतेंपामें केमके कोइने वांठितदानदीधाविनापोता नेपण वांठितलाजनथाय एटलेपारकागुणनी प्रशंसाकरीयेंतो पोतेंपण प्रशंसनीयथैयें

जनेषु गृह्णत्सु गुणान् प्रमोदसे ततो जवित्री गुणरिक्तता तवागृह्णत्सु

दोषान् परितप्यसे चरे ज्वंतु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्ततः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेकेटलाक काव्यनेविषे गुणप्रशंसानीवांठाथकी अवगुणदेखामेठे हे आत्माजोताहरागुण लोकेंग्रहणकह्याथकां तुंहर्षपामेठे तोतेहर्षपामवाथी ताहरे गुणनी रिक्तताथासे अनेजोलोकें अवगुणबोजतेठते तुं परितापके० खेदपामेठे तो तेखेदपामवाथी ताहराविषे अवगुणते निश्चलथइरहेसे तेमाटे गुणकह्याथी हर्ष अ नेदोषकह्याथी खेद एवेहुवाना तुंकरीसनही ॥ ४ ॥

प्रमोदसे स्वस्य यथाऽन्यनिर्मितै स्तवैस्तथा चेत्प्रतिपंथिनामपि ॥

विगर्हणैः स्वस्य यथापतप्यसे तथा रिपूणामपि चेत्ततोसि वित् ॥५॥

अर्थ ॥ हेआत्मातुं जेमलोकनामुखें पोतानागुण स्तवसांजलीने प्रमोदपामेठे तेम शत्रुनापण गुणस्तवसांजलीने जोप्रमोदपामें अने पोताने विगर्हणैः के० अवरणवादे करीने जेमपरीतापकरेठे तेमजजो शत्रुनापण अवरणवाद सांजलीने तुंपरीताप करे तेवारें एम जाणियेंजे तुंजाताढो ॥ ५ ॥

अथवा ॥ स्तवैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च प्रमोदतापौ नजसे तथा चेत् ॥

इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ष्वप्युदासतो वासि ततोऽर्थवेदी ॥६॥ इतिवापाठः

अर्थ ॥ वली पाठांतरेकरी एहिजअर्थकहेठे हेआत्मातुंजेम पोतानीस्तुतियेंकरी ने तथापोतानेविगर्हणेंकरीने प्रमोदतापौके० हर्षअनेशोकप्रतेनजेठे तेमज पोतानी स्तवना तथा निंदा अने परनीस्तवना तथा परनीनिंदा एचारेनेविषेजो उदास ताके० मथ्यस्थजावनेनजे तेवारेंतुं अर्थवेदीके० परमार्थतुंजाणढो एमजाणियें एकाव्य पहेलाकाव्यनुं पाठांतरजाणवुं ॥ ६ ॥

नवेन्न कोपि स्तुतिमात्रतो गुणी ख्यात्या न बव्ह्यापि हितं परत्र च ॥

तद्विबुरीर्ष्यादिजिरायति ततो मुग्धानिमानग्रहिलो निहंसि किं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हेआत्माकेवल एकजीस्तुतिमात्रथीज कोइगुणवंतनथाय अनेवली जग तमां ख्यातिकीर्तिजोघणीहोय तोपण तेथी कांइपरनवनुं हितनथाय तेमाटेपरलो के हितनुंवांढक एहवुंजेतुंते सुधाके० फोकट अजिमानेकरी घहेलोथयो थको ईर्षा दिकेंकरीने आयतिजे उत्तरकाल तेहने सावास्ते बगाडेठे एटलेईर्षा करवाथी ताहरो परनवनुंहित विणसीजायठे इतिजाव ॥ ७ ॥

सृजंति के के न बहिर्मुखा जनाः प्रमादमात्सर्यकुबोधविप्लुताः ॥

दानादिधर्माणि मलीमसान्यमू न्युपेक्षशुद्धं सुकृतं चराएवपि ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हवेदानादिककर्मने जे मलीनकरेठे तेहनेकहेठे हेआत्मा प्रमादजे मया दिक पांचप्रकारें तथामात्सर्य एटजे पारकीसंपदानी अदेखाइ तथाकुबोधजे मि प्यादर्शननुं दृष्टिराग तेणेकरी विप्लुतके० पराजव्या एहवा बहिरमुखजे स्वचित्तक द्विपत मार्गनास्थापक कुतीर्थकलोकते मलीमसके० महाआरंजादिकें दूःषत एह वादानप्रमुख ते धर्मकार्यमां कोणकोणनथीकरता अर्थात्मिष्यात्वीलोकपण सर्वपो

तपोताना मननीरुचियें दानप्रमुख धर्मकार्यकरेठे पण तेप्रमादादिकें दूषितथका य
शोक्तफलदायकनथाय तेमाटेतेमलीन धर्मकार्य उवेषीने ओरुंपण शुद्धधर्मकर ॥७॥

आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधंते सौजाग्यमत्र न
तथा प्रकटीकृतानि ॥ व्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा
वह्नःस्थलानि कलितानि यथा डुकूलैः ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रशंसारहितधर्मनुं विशेषफलदेखाहेठे इहांश्रीजिनशासननेविषे आ
ह्वादितके० प्रशंसानेहाक्याथका एटलेजेप्राणी प्रशंसायेरहित थका एहवाजे सुकृत
के० धर्मकार्य तेथीजेहवी सुजगतानेपामे तेहवी प्रकटितके० जेसुकृतकरीने लोक
आगलें प्रशंसाकरावे ते सुजगतानेनपामे तेहनुंदृष्टांतकहेठे जेम व्रीडाजेलज्जा ते
ऐकरीने नतके० नघठे आननसरोजके० मुखकमलजेहनुं एहवीजे सरोजनेत्राके०
कमलनयना एटले उत्तमस्त्री तेहना वह्नःस्थलजे स्तनमंडलते डुकूलजे वस्त्रतेऐकरी
सहितथका जेहवी सुजगताप्रतें पामे तेहवा उघाडाथका सुजगताप्रतेंनपामे ॥९॥

स्तुतैः श्रुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैर्गुणस्तवात्मन् सुकृतैर्न कश्च न ॥
फलंति नैव प्रकटीकृतैर्जवो द्रुमा हि मूलैर्निपतंत्यपि त्वध. ॥१०॥

अर्थ ॥ हेआत्मा ताहारासुकृतजे धर्मकार्य ते अन्यलोकें स्तुतके० वखाणेथके
तथा अन्यलोकें सांजलेंथके तथा अन्यलोकेंदेखेथके तेथीतुजने कोइगुणनथी तेउ
परदृष्टांतकहेठे जेमचूमीमांहेथी मूलप्रगटकरेठते डुमजेवृद्धतेफलेनहीपण उलटाहे
वापडे तेम सुकृतपण कघाडाकख्याथका फलदायक न थाय ॥ १० ॥

तपःक्रियावश्यकदानपूजनैः शिवं न गंता गुणमत्सरी जनः ॥

अपथ्यजोजी न निरामयो ज्वेजसायनैरप्यतुलैर्यदातुरः ॥११॥

अर्थ ॥ हवेगुणवंतनुं मत्सरकरबुंनिषेधेठे गुणजेपारका तपसंयमदानादिक तेह
नेविषे मत्सरनुंकरनार एहवोजे मनुष्यते तपतथाक्रिया जे आवश्यक दान तथापूजन
जे जिनबिंब पुस्तकप्रमुखनीपूजा इत्यादिक सर्वप्रकारेंकरीपण मोहूपामेनही तेउपर
दृष्टांतकहेठे जेम आतुरजे रोगीपुरुषते अपथ्यजोजन करतोथको अनोपम महामू
जा एहवाजे रसायन पारदादिक औषध तेऐकरी रोगरहितनथाय इहां रोगीतेआ
त्मा थने तपप्रमुखते रसायण थनेगुणवंतउपर मत्सरते अपथ्यजोजन तथा मुक्ति
ते निरोगता जाणवी एउपनयकहुं ॥ ११ ॥

मंत्रप्रचारत्नरसायनादि निदर्शनादल्पमपीहि शुद्धं ॥ दाना
र्चनावश्यकपौषधादि महाफलं पुण्यमितोन्यथाऽन्यत् ॥१७॥

अर्थ ॥ वलीप्रकारांतरे तेहिजकहेठे इहांश्रीजिनशासनमां दान देवपूजा आवश्य
क पोसहप्रमुखजे पुण्य तेथोमुंपण शुद्ध दोषरहितकीधोहोयतो मंत्रजे जांगुलीप्र
मुख तथा रत्नजे सूर्यकांत चंडकांतादिक तथा रसायनजे पारादिक तेहनीपरें म
हाफलकारीथाय जेममंत्रयोडाअक्षरतुंहोय तोपण विषप्रहारादिकनेहरी महागुणक
रे तथासूर्यकांतादिक रत्नन्हांतुंहोयतोपण महाप्रकाशकरे अने रसायणयोमुंपण म
होदारोगहरे तेमदोषरहितपुण्यजो थोमुंहोयतोपण महाफलदायकथाय अनेतेहथी
विपरीतजे अशुद्धपुण्यकार्य तेअन्यथाके० घणुंहोयतोपण अल्पफलदायकथाय ॥१७॥

दीपो यथात्पोपि तमांसि हंति लवोपि रोगान् हरते सुधायाः ॥

तृणं दहत्याशु कणोपि चाग्नेर्धर्मस्य लेशोप्यमलस्तथांहः ॥१८॥

अर्थ ॥ जेमदीपक अल्पके० न्हानोहोयतोपण अंधकारटालेठे वलीजेम अमृ
तनो एकबिंदुमात्रतेपण सर्वरोगनेहरे वलीजेम अग्नीतुंएककणीयुंमात्रतेपण तृणा
नेबालीनाखे तेमनिर्मलदोषरहित एहवोधर्मनुं लेशमात्रतेपण पापनेटाले ॥ १८ ॥

जावोपयोगशून्याः कुर्वन्नावश्यकीः क्रियाः सर्वाः ॥

देहक्लेशं लजसे फलमाप्स्यसि नैव पुनरासां ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ हवेसर्वक्रियानी सफलताते जावसहितकरवाथोजहोय तेकहेठे हेआ
त्मातुं जावजे श्रद्धा तेहनाउपयोगेंकरी शून्यके० रहित एहवासर्वए अवश्यकरवा
योग्य जे पडिकमणुं पडिलेहणप्रमुखक्रिया तेप्रते करतोथको पणतेथीकेवल शरीरने
क्लेशमात्रउपजावतुं तेहिजफलपामेठे पणतेक्रियातुं मुख्यफलजे मोहलक्षण तेसर्व
थानहीजपामे केमके जावथकी शून्यक्रियाजो घणीकरीतोपण निःफलथाय ॥ १९ ॥
इतिश्रीअध्यात्मकल्पद्रुमे धर्मशुध्युपदेशाख्य एकादशोअधिकार समाप्त ॥ ११ ॥

अथ श्रीदिवगुरुधर्मशुद्धिमधिकृत्य किंचिदुपदेशः ॥

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं हितार्थधर्मा हि तदुक्तिसाध्याः ॥

श्रयंस्तमेवेत्यपरीक्ष्य मूढ धर्मप्रयासान् कुरुषे वृथैव ॥२०॥

अर्थ ॥ हवेबारमेंअधिकारें देव गुरु धर्म एत्रणतत्वनीशुद्धिकहेसे तिहांप्रथमतो
जो शुद्धगुरुमले तोज शुद्धदेव तथाशुद्धधर्मपामियें तेमाटेप्रथम गुरुतत्वनी शुद्धि
कहेठे हेआत्मासर्वतत्वमां मुख्यतत्वते गुरुठे केमके हितार्थके० मोहनेअर्थें धर्म

साधवोहोयतो ते गुरुनावचनयकीसधाय तेमाटेतुं मूढयको परीक्षाकथाविनाज गु
रुने आश्रयतोयको धर्मनेनिमित्तेंजे प्रयासकरेते तेवृथाके० फोकटते ॥ १ ॥

जवी न धर्मैरविधिप्रयुक्ते र्गमी शिवं येषु गुरुर्न शुद्धः ॥

रोगी हि कल्पो न रसायनैस्तै र्येषां प्रयोक्ता त्रिषगेव मूढा॥१॥

अर्थ ॥ हवेगुरुअशुद्धहोयतोधर्मपण अशुद्धयाय तेकहेते नवीजे संसारीजीव
तेणे अविधियेंकीधाएहवाजे दानादिकधर्म तेहथीजीव मोहगामीनयाय केमकेजे
धर्मनेविषे शुद्धके० निर्दोषपणुं नथी तेधर्मवृथाते तेउपरदृष्टांत कहेते जेमरसायननुं
करनार वैद्यते गुणागुणनुं अजाणमूर्खहोयतो रोगीपुरुष ते रसायनेकरी निरोगीन
याय तेमइहंरोगी तेआत्मा औषधतेधर्म मूर्खवैद्य ते कुगुरु जाणवो ॥ १ ॥

समाश्रितस्तारकबुद्धितो यो यस्यास्त्वहो मङ्गयिता स एव ॥

ओघं तरीता विषमं कथं स तथैव जंतुः कुगुरोर्नवाब्धिं ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ हवेकुगुरुअने कुतारकनुंदृष्टांतकहेते जेप्राणियें तारकबुद्धियेंकरीने तार
कनेआश्रयोते अनेतेतारकज आश्रितप्राणीने बुढाडनारहोय तोतेप्राणी विषमड
स्तर एहवो उधजे समुडनापाणीनो प्रवाह तेशीरीतेंतरसे तेमज जेयकी तरवानीआ
शाराखियें तेहिज जेवारें बोडे तिवारें समुडनुं पारते केमपामियें तेमज कुगुरुथी
नवसमुडपण जाणवुं केमके जेगुरुप्रतें तारकजाणीने संसारसमुड तरवानी आशा
यें तेहने आश्रियें अनेतेगुरुतो उन्मार्गने देखाडवेकरी आश्रितप्राणीने संसारसमु
डमां बोडे तेवारें ते प्राणी संसारसमुडनो पारकेमपामे एजावार्थते ॥ ३ ॥

गजाश्वपोतोक्तरथान् यथेष्टपदाप्तये नञ् निजान् परान् वा ॥

नजंति विज्ञाः सुगुणान् नजैवं शिवाय शुद्धान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ ॥ तेमाटेशुद्धदेवगुरुधर्मने आदरवुंतेकहेते जेमविज्ञजे निपुणपुरुष तेवां
ठितस्थानकें पहोचवानेअर्थें पोताना अथवापारका हाथी घोडा तथा वाहण उठ ब
लद रथ तेआपआपणेगुणोसहितसुलक्षणाजोइने आदरे केमकेजो निर्लेक्षण वाहन
होयतो तेहथीवांठित स्थानकेंपहोचायनही माटेहेसरलप्राणी एरीतेंतुंपण मोहस्था
नक पामवानेअर्थें शुद्धगुणोपेत एवाजे देव गुरु धर्मतेप्रतेंनज जेयकीमोहपदपामे

फलादृथा स्युः कुगुरूपदेशतः कृताहि धर्मार्थमपीह सूद्यमाः ॥

तदृष्टिरागं परिमुच्य नञ् हे गुरुं विशुद्धं नज चेद्वितार्थ्यसि ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेकुगुरुनाउपदेश्याधर्म फलदायकनहोय तेकहेते इहांश्रीजिनशासनने

विषे कुगुरुनाशपदेशथकी धर्मनेअर्थेपणजे जलाउद्यमकरेलाहोय तेफलदायकनथाथ
माटेहेनइकजोतुं मोक्षफलनोअर्थीओ तोदृष्टिरागठांमीने शुद्धपरूपकगुरुनेनज ॥५॥

न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया श्रीवीर ये प्राक् त्वयातुं
टाकास्त्वदृतेऽनवन् बहुतरास्त्वञ्जासनं ते कलौ ॥ विभ्रा
णा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्णंति पुण्यश्रियः फूत्कुर्मः
किमराजके ह्यपि तलारक्षा न किं दस्यवः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेदृष्टांतेकरी कुगुरुनीडृष्टताकहेढे हेश्रीमहावीर पूर्वेतुमेजे सुधर्मास्वा
मिप्रमुख मोक्षमार्गना चसावनारामूक्याहता तेपढे कलियुगमां तुजविना ताहाराशा
सननेविषे पट्टपरंपरा सुविहिताचार्यथी अजगाथइने पोतानाकुमतने प्रवर्त्ताववेकरी
ने जूटाकके० जूटाराथया हवेतेहनुं जूटारापणुंकहेढे जेनणी तेयतिनामधरावताथ
का स्वल्पबुद्धिलोक जेकुगुरुनीपरिहाकरीसकतानथी तेहोनी पुण्यरूपजे लक्ष्मीतेप्रते
जूंढेढे एहवातेउत्सूत्रनाशनार कुगुरुनीवाततो अर्थीजीव किहांजइपोकारे केमकेवि
शेषज्ञानीविना पोकारकखानुं कोइतामनथी एटले अराजकके० राजानेअजावे त
लारक्षकजे कोटवाल तेपणचोरनथायसुं एटलेराजानहोय तेवारेजे रखवालाहोय
तेहिजचोरीकरे तेमइहांराजाते श्रीवीरपरमात्मा तेनोमार्ग प्रवर्त्तकतेसुधर्मादिकगण
धर अराजकतेकलिकाल जूटाकते कुमतना प्रवर्त्तक इत्यादिक उपनयजाणवुं ॥६॥

दमाद्यस्य शुद्धिर्गुरुदेवधर्मे धिग् दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः ॥

अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु कुपथ्यन्नोजीव महामयार्त्तः॥७॥

अर्थ ॥ हवेअशुद्धदेवगुरुधर्मपामिने हर्षधरेनहीतेकहेढे हेआत्मातुं अशुद्धदेव
गुरुधर्मप्रतेपामवाथकी गुणनीअपेक्षारहितथयोथको दृष्टिरागेकरी हर्षपामेढे तेमा
टेतुजते धिःकारढे पण जेवारें तेहनुंफल उदयआवशे तेवारेंतुंनरकादिकनेविषे घणो
शोचपामिस तेहनुंदृष्टांत कहेढे जेम महारोगीओ पुरुष स्वादना वशथकी कुपथ्य
नोजन करीने पढेरोगवधेतिवारें घणु शोचकरे तेमतुंपण दृष्टिरागे करी कुगुरुकुदेव
कुधर्म सेवीने पढे इर्गति पामेथके घणुसोचपामिस ॥ ७ ॥

नामं सुसिक्तोपि ददाति निंबकः पुष्टा रसैर्वध्यगवी पयो न च ॥

दुःस्थो नृपो नैव सुसेवितः श्रियं धर्मं शिवं वा कुगुरुर्न संश्रितः ॥८॥

अर्थ ॥ हवेकुगुरुनीसेवा शुद्धफलनीदेनारीनथाय तेकहेढे जेमनिंबडोजलीपरें सी
सोथकोपण आंबानुंफलनआपे तथारसजे धीतेनप्रमुख पुष्टकारीवस्तुथकीपणवांज

णीगायकांश्च इध्यापेनही वलीदेशत्रष्टविषमअवस्थानेपाम्यो जेराजातेने जलीपरसे
व्योथकोपण लक्ष्मीनआपे तेमकुगुरुनेपण सेव्योथको धर्म अथवा मोहप्रतेनआपेण
कुलं न जातिः पितरो गणोवा विद्या च बंधुश्च गुरुधनं वा ॥

हिताय जंतोर्न परं न किंचित् किंत्वादृताः सङ्गुरुदेयधर्माः ॥९॥

अर्थ ॥ हवेसर्वपदार्थधी देवगुरुधर्मअधिकठेते कहेठे जंतुके० जीवने कुजजेइ
द्व्यांगकुलप्रमुख तथाजातिजे मातानुपहू पितरके० पितामहप्रमुख तथागणजे स
रखासरखामित्रनीटोली तथाविद्याते धर्मंगीप्रमुख तथाबंधुजे स्वजन वलीगुरुजे कु
लविद्यानुअध्यापक अने धनतेसुवर्णादिक तथाबीजाजेकांश्च देश ग्राम मंदिरप्रमुख
तेसर्व हितायके० परलोकना हितनेअर्थेकोइथायनहीपण सत्के० शुद्धएहवा देव
गुरुअनेधर्म एत्रणनेआदखाथकां परलोकनाहितने अर्थेथाय ॥ ९ ॥

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्वात् प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मं ॥

न तत्समोरिः क्षिपते नवाब्धौ यो धर्मविघ्नादिकृतेश्च जीवं ॥१०॥

अर्थ ॥ हवेजेशुद्धधर्ममांजोमे तेपुरुषनीप्रशंसाकरेठे जेपुरुषजेहने तत्वदेखाडी प्र
तीबोधपमाडी अनेशुद्धधर्ममांजोडे तेहनेतेहिजपुरुष माता तेहिजपिता तेहिजस्वज
न अनेतेहिज गुरुजाणवुं अनेजेजीव हरेकप्राणिने धर्मनुअंतरायादिक करीने संसा
रसमुद्धमांनावेतो तेसरिखोतेनेकोइ बीजो शत्रुनथी ॥ १० ॥

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा पित्रादिभक्तिः सुकृत्तिलाषः ॥

परोपकारी व्यवहारशुद्धिर्नृणामिहामुत्र च संपदे स्युः ॥११॥

अर्थ ॥ हवेपुरुषने संपदानाकारण केटलाठे तेकहेठे दाक्षिण्यताजे अनुकूलता
तथालज्जा अनेदेवगुरुनीपूजा तथापितामाता काकोकाकी महोटाजाई इत्यादिकजे
कोइ गुरुस्थानकियाहोय तेहनीभक्ति तथापरनेउपकारनुं करवुं तथाव्यवहारशुद्धते
लहेणादेवामां साचापणंराखवुं एटलाप्रकार तेपुरुषने इहलोकें अथवापरलोके प
ण संपदादेवाना कारणजुतथाय ॥ ११ ॥

जिनेष्वभक्तिर्यमिनामवज्ञा कर्मस्वनौचित्यमधर्मसंगः ॥

पित्राद्युपेक्षा परवंचनं च सृजंति पुंसां विपदः समंतात् ॥१२॥

अर्थ ॥ हवेपूर्वोक्तप्रकारेथी विपरीतपणे प्रवर्त्ततां प्राणीने आपदाहोय तेकहेठे
जिनभक्तिरहितपणुं तथासाधुनीअवगणना अने कर्मजे साधुअने श्रावकनीक्रिया
तेहनेविषे अनुचितपणुं तथा अधर्मजे धर्मरहित एहवानदृष्टि नास्तिकप्रमुख अ

थवाविरुद्धमिते मिथ्यात्वी कुमतिप्रमुख तेहनीमित्राश्ते विवाहव्यापार प्रमुखेकरी परिचयकरवुं तथापिताप्रमुखनी अवगणना अनेपरने कुमालेख कुमानामा कुडा माप कुडातोजप्रमुखेकरीने उगवुं एटलासर्वप्रकारेकरी पुरुषनेआपदाउपजे ॥ ११ ॥

नक्तयैव नार्चसि जिनं सुगुरोश्च धर्मं नाकर्णयस्यविरतं विरतिर्न धत्से ॥

सार्थं निरर्थमपि च प्रचिनोष्यघानि मूल्येन केन तदमुत्र समीहसे शं १३

अर्थ ॥ वलीप्रकारांतरेकहेठे हेआत्मातुं नक्तियेकरी जिनपूजाकरतोनथी अने कदा पिपूजेठेतोपण कुजकर्मादिक परवशपणायकी पूजेठे पणनक्तिथीपूजतोनथी तथास द्गुरुपासेथी धर्मसांजलतोनथी तथानिरंतर अठारपापस्थानक पन्नरकर्मादान प्रमुखथीसंवरनुंकरवुं इत्यादिकविरतीपणुं तेपणनथीआदरतो तथासार्थकके ०पोताने अथवाकुटुंबादिकनेअर्थे अनेनिरर्थकके ०स्वार्थविनापण अपथ्य अनाचरित पापोपदेश हिंसाप्रदान प्रमादाचरित एपांचप्रकारेकरी कारणविना पापनेमेलवेठे तोपरलोकें तुं शामूलेकरी सुखनी वांढाकरेठे इहां मूलरूपते पुण्यजाणवुं ॥ १३ ॥

चतुष्पदैः सिंहइव स्वजात्यैर्मिल त्रिमांस्तारयतीहि कश्चित् ॥

सहैव तैर्मज्जति कोपि दुर्गे शृगालवच्चेत्यमिलन् वरं सः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ हवेसुगुरुनेसिंहनीउपमा अनेकुगुरुने सीयालनीउपमाकहीने उपदेशेठे पोतानीजातीनाजे चतुःपदमृगप्रमुख तेसार्थेमव्या सिंहनीपरें एसंसारमांजे सद्गुरु तेपोतानी जातीना नव्यपंचेंद्रियसंज्ञीमनुष्यइत्यादिकसार्थे मव्योथको आश्रीतजीव नेतारे जेमसिंहनिजाश्रितचतुःपदने कूपगर्तादिकथीतारे तेमसुगुरुपण निजाश्रितन व्यजीवने संसारसमुद्रथीतारे अनेकुगुरुतेसीयालनीपरें स्वजातीयजे मनुष्यादिक अनेविजातीयजे चतुःपद तेहनेसार्थेलेइजइने दुर्गजेनरकप्रमुख वलीदुर्गजे कूपादिकते मांबुमाडे तेमाटेजेकुगुरुतेनमव्योथकोजसारो जेमपंचारव्यानमां कोइकवन्नमां बीजा वाघसिंहादिकनुंनयटालवाने अर्थे सर्वचतुःपदेमली एकबलवंतसिंहने राजाकरी थाप्यो अनेसर्वचतुःपद तेहनीसेवाकरवालागा एकदिवसेतेवन्नमां अग्नीलागी तेवारें तेसर्वचतुःपद सिंहनेसरणोगया तेसर्वनेसिंहेपोताने पुंढडेवलगागी एकफालेकरी को इकमहानदी उतरीपहेलेपार पहोचाड्या वलीकेटलाकदिवसे दावानलमिटघो वन्न नवपन्नवययुं तेवारेंतेसर्वचतुःपदने पाठापोतानेठामे पहोचाड्या एहवोते सिंहनोप राक्रमदेखी कोइकडुर्बुद्धिसीयालेपण केटलाक हीनसत्व निर्जाग्य ससलाप्रमुखजीवने पोतानासेवककीथा वलीकालांतरें दवलगागे तेवारे सीयाले निजाश्रित सर्वचतुःपदने

पुंठडेवलगामी फालनरीनदी उत्तरवा लागो तेवारे सर्वजीवसहित पोतेंपण अ
गाधजलमांबुमो इहांसिंहते सुगुरु अनेसीयाजते कुगुरु महानदीते झर्गति अने
आश्रितजीवते धर्मार्थी मनुष्य एमउपनयलेवो ॥ १४ ॥

पूर्णं तटाके तृषितः सदैव नृतेपि गेहे क्लृधितः स मूढः ॥ क
ल्पद्रुमे सत्यपि ही दरिजो गुर्वादियोगेपि हि यः प्रमादी ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हवेगुर्वादिकनुं योगठतेप्रमाद करवुंनही तेदृष्टांतदेइनेकहेठे निश्चेंकरीजे
प्राणी देवगुरुधर्मनुं योगठतेपण प्रमादवंतथायठे तो हाहाइतिखेदेतेप्राणी नखातजा
वेंपण सदाइतरस्योठे वली ते पुरुष सुखडी प्रमुखे नखायका घरमां पण चुख्योठे
वली घरमांठते कल्पवृद्धें पण दरिडीठे तेमाटे गुर्वादिकनो योगठते प्रमादत्यजीने
धर्मसाधनकरवुं तेहिजसार्थकठे ॥ १५ ॥

न धर्मचिंता गुरुदेवभक्तिः येषां न वैराग्यलवोपि चित्ते ॥ तेषां
प्रसूक्लेशफलः पशूना मिवोद्भवः स्यादुदरंजरीणां ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रकारांतरेंतेहिजकहेठे आजमेंशुं धर्मकीधो अनेहवे नित्य प्रत्येंशोधर्म
करवानुंठे एहवीजेने विचारणानथी यडुक्तं उत्थायोत्थाय चिंतयं किमद्य सुकृतं कृतं ॥
आयुषः खंममादाय रविरस्तमयं गतः ॥ १ ॥ तथा जेने गुरुअने देवनीभक्तिनथी वली
वैरागनुंलेशमात्रपणनथी एहवाजेपेटनराप्राणी तेहोनुंजन्मते पशु कुंम कुंतराप्रसु
खनीपरें केवल माताने गर्जधारणादिकक्लेश करवामात्रज फलहोय ॥ १६ ॥

न देवकार्ये न च संघकार्ये येषां धनं नश्वरमाशु तेषां ॥ तदुर्ज
नाद्यैर्तृजिनैर्नवांधौ पतिष्यतां किं त्वलंबनं स्यात् ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रकारांतरें सुपात्रेंधनवावरवानी सफलतादेखाडेठे जेधनवंतप्राणीनुं
धन देवकार्यजे प्रासादकराववा अथवाजीर्णोद्धार बिंबप्रतिष्ठा इत्यादिकनेविषे तथा
संघकार्यजे चतुर्विधसंघनुंपोषवुं तथासाधर्मिनीवत्सलताते हीन अने दीनजे साधर्मि
कहोयतेनीचिंताकरवी तथा पुस्तकलखववा इत्यादिक कार्योमांउपयोगीनहोय तेप्रा
णीनुं विनाशशील एहवुंजेधन तेउपार्जनादिकनापापेकरी संसारकूपमांपडताने तेधन
सुंकांइ आधारनूतथाय अर्थातकांइनथाय एटलेसुपात्रेंव्ययविना अन्यथाकोइकामेना
वे ॥ १७ ॥ ति श्रीअध्यात्मकल्पद्रुमेदेवगुरुधर्मशुंकीनामा षादशोधिकारः समाप्त ॥ १७ ॥

ते तीर्णा जववारिधिं मुनिवरास्तेज्यो नमस्कुर्महे येषां नो विषयेषु निगृ
 ध्यति मनो नो वा कषायैः प्लुतं ॥ रागद्वेषविमुग् प्रशांतकलुषं साम्यात्
 शर्माद्यं नित्यं खेलति चाप्तसंयमगुणाक्रीडि जजज्ञावनाः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेयतिशिहोपदेशनामा तेरमोअधिकारकहेठे तेमांप्रथमयतिनुं स्वरूपक
 हेठे जेमुनीनुंमन विषयमां आसक्तपामतुंनथी तथाक्रोधादिककषायमां व्याप्तुं
 नथी एहवाजेमहानुनाव संसारसमुद्ध्यतया तेहनेनमस्कारकरियेठैयें जेमुनिराज
 रागद्वेषरहित यइने कलुषताजे पापाचरणतेहने शांतपमाडयोठे वलीसमतायेंकरी अ
 नुपमसुखपाम्योठे एहवुंथइने पांचमहाव्रतनी पचवीसजावना तथा अनित्यादिक
 बारजावनानेजजेठे वलीजिनप्रणीतजे संयमनागुण ह्यमादिकरूप उद्याननेविषे
 खेलेठे एहवुंजेहनुंमनहोय तेहनेज तत्वथकी मुनिकहियें एजावार्थेठे ॥ १ ॥

स्वाध्यायमादित्ससि नो प्रमादैः शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च धत्से ॥ त
 पोद्धिधा नार्जसि देहमोहा दल्पे हि हेतौ दधसे कषायान् ॥२॥ प
 रीसहस्रो सहसे न चोप सर्गात् शीलांगधरोपि वाऽसि ॥ तन्मोहमा
 णोपि जवाद्धि पारं मुने कथं यास्यविशेषमात्रात् ॥३॥ युग्मं ॥

अर्थ ॥ हवेसाधुनावेषमात्रथकीज अर्थसिद्धिनथाय तेकहेठे हेमुनितुंप्रमादैक
 रीसिस्त्रायध्यानकरवा वांढतोनथी तथाशुद्धनिर्मल मनादिकत्रणगुप्ति अने ईर्यादि
 कपांचसुमतीने धारणकरतोनथी वलीशरीरनामोहथी बाह्यअच्यंतर बेप्रकारेंतपप
 ए करतोनथी तथाधोमोपण कषायनुंकारणउपनाथी कषायधरेठे ॥ २ ॥ तथाह्युधा
 दिक बावीसपरिसह अने देवता प्रमुखनाकरेजा उपसर्ग तेप्रतेंनथीसहेतो तथा अ
 ढारसहस्ररूप शीलांगरथने पणधरतोनथी अनेकेवल वेषमात्रथीज मोहनेवांठेठे प
 णएरीतेंतोतुं संसारसमुद्दनोपारकेमपामीस ॥ ३ ॥ एबेकाव्यनोअर्थ एकठोठे.

आजीविकार्थमिह यद्यतिवेषमेव धत्से चरित्रममलं न तु कष्टजीरुः ॥ तद्धे
 त्सि किं न न बिचेति जगज्जिघृक्षुर्मृत्युः कुतोपि नरकश्च न वेषमात्रात् ४

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे हेसाधुतुंआसंसारमां आजीविकानेअर्थें जे यतिनोवेषध
 रेठे अनेकष्टकरवाथी बीहितोथको निर्मलनिरतिचार जेचारित्रतेप्रते धरतोनथी तो
 तेवारें तुं एमकांनथीजाएतो जे जगतनुंआसकरनार एहवोजेमृत्युते कोइथीबीहतोन
 थी वलीसाधुनोवेषमात्र धर्यांथकी तो नरकपणबीहितोनथी एटले मृत्यु अने नरक
 एबेवाना सर्वथा तुजनेआवशेज पण ताहाराथी डरसेनही इतिजाव ॥ ४ ॥

वेषेण माद्यसि यते चरणं विनात्मन् पूजां च वांठसि जनाद्बहुधोपधिं च॥
मुग्धप्रतारणञ्च नरके ऽसि गंता न्यायं विजर्षि तदजागलकर्तरीयं॥५॥

अर्थ ॥ हेअत्मातुंचारित्रविना यतिनेवेषेकरीहर्षपामेठे अनेलोकथकी बहुप्रकार
नीपूजा वंदन सत्कारप्रमुख तथाउपधिजे वस्त्रपात्र पुस्तकादिकप्रतेवांठेठे पणपठेतुं
एमुग्धलोकने प्रतारणके० कपटक्रियायें उगाडकरी तेहथीउपाज्योजेनरकतिहांज
रहीश तेमाटेतुं अजागले कर्तरीना न्यायप्रतेधरेठे जेमकोऽ खाटकियें एकबकरीहण
वानेअर्थे वधकरवानेस्थानकेआणी कातीयेंधारचडावी सज्जकरी तेबकरीनेपासेका
तिमूकी एटलामांकोऽकामनेअर्थे पोतेवरमांगयो पठवाडेबकरीयें पोतानापगेंकरीचू
मीखोदितेमांकातिदाटी नेविचाखुंजे रखेखाटकीआवेतिवारेंदेखे एमजाणीतेहनाउ
परसुती दैवयोगथी कंतलेकातीनीधारआवी तेथीगलुंदबाऽगुं अनेमृत्युपामि तेमहे
आत्मातुंपण तेबकरीनीपरें अज्ञानीअइने कातीरूपनरकने ठांकिराखेठे पणतेअवश्य
जाविपणाथी उदयआव्याविना रहेसेजनही तेमाटेप्रथमथीज अज्ञानत्यजीने साव
धानरहेजे एन्यायग्रंथातरें बीजेप्रकारेंपण लख्युंठे ॥ ५ ॥

जानेऽस्ति संयमतपोजिरमीजिरात्मन्नस्य प्रतिग्रहजरस्य न निष्क्रियोपि ॥
किं दुर्गतौ निपततः शरणं तवास्ते सौख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेहि॥६॥

अर्थ ॥ हेआत्माएल्लोकरंजन निमित्तेंजे संयमतथातप तेणेकरीने गृहस्थोपा
संथी अहार औषध वस्त्रपात्रादिकतुंलेवुं ते तो संयमतपादिकना समूहनुं वक्रयके०
मूलपणनथयुं तेवारेंतुजने दुर्गतिमांपमतां शरणतेसुंठे अनेपरलोकें सुखतें कोणआ
पसे तेविचारीजो एतोलोकोनाप्रतिग्रहनुं मूलमात्रपण ताहरुंसुकृतनथी माटेतुजने
नरकेपडतां उदार अनेपरलोकनेविषे सुखतेशायकीथासे एजावार्थेठे ॥ ६ ॥

किं लोकसत्कृतिनमस्करणाचर्नाद्यै रे मुग्ध तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान्
कृतन् जवांधुपतने तव यत्प्रवादो बोधिद्रुमाश्रयमिमानी करोति पर्शून्॥७॥

अर्थ ॥ ह्वेलोकसत्कारादिकदेखी राचवुंनहीतेकहेठे हेमूढआत्मा शुद्धनिर्मल
दोषरहित एहवाजे मनवचनकायानायोग तेविनालोकोनी सत्कारजे अन्युत्थाना
दिक तथानमस्कारवंदना अर्चना जेनवांगपूजा विलेपनादिक तेणेकरीने सुहर्षपामे
ठे केमकेएप्रमादते ताहरेसंसारकूपमां पडतांबोधरूप वृद्धनाआलंबनने ठेदवाने ए
लोकसत्कारते कुहाडारूपठे एटलेताहरोप्रमादरूपवैरीते तुजने संसाररूपकुवामां

नाखवासारुं बोधआलंबनरूपवृद्धने लोकसत्काररूप कुहाडेकरीडेदेडे एटलेहमणा
तो सत्कारपामिमनमां हर्षधरेडे पणआगळे बोधपामवो डुर्लजयासे ॥ ७ ॥

गुणांस्तवाश्रित्य नमंत्यमी जना ददत्युपध्यालयजैहृशिष्यकान् ॥

विना गुणान् वेषमृषेर्विचरिषि चेत् त तष्टकानां तव चाविनी गतिः॥८॥

अर्थ॥हेसाधो धर्मार्थिलोकतो तहारागुणआश्रीने तुजनेनमेडे तथा उपधि वस्त्र
पात्रादिक आलय वस्ति नैषज अन्नपानादिक अनेशिष्य तुजनेआपेडे अनेतुंजोगुण
विनाज मात्र वेषधरेडे तेवारे ताहरीधूर्त्तनी गति याज्ञे जेमठगारा कृत्रिम नवानवा
वेष करीलोकना धनठगीलिये पढेकोइकदिवसें तेहनाविपाकथी वध बंधनादिक पा
मे तेम ताहारा हवालपण तेहनीपरे यासे ॥ ८ ॥

नाजीविकाप्रणयिनी तनयादिचिंता नो राजनीश्च जगवत्समयं च वे
त्सि॥ नो राजनीर्धरसि वाऽऽ गमपुस्तकानि इत्यपि पाठः॥शुद्धे तथा
पि चरणे यतसे न जिहो तते प्रतिग्रहजरो नरकार्यमेव ॥९॥

अर्थ ॥ हवेसाधुपणानुं सुखदेखाडेडे हेजिहुकतेंघरबारपरिग्रहतोमूक्या माटे
आजीविका तथापुत्रादिकनी चिंतानथी तेमराजासंबंधीजयपणनथी वलीजिनप्रणी
त सिद्धांतपणजाणेडे अथवाजैनसिद्धांतना पुस्तकधरेडे तोपणशुद्धचारित्रनेविषे
उद्यमकरतोनथी तेवारेताहं वस्त्रपात्रादिकनुंलेवुं तेहनुंजारते नरकनेअर्थेजडे ॥९॥

शास्त्रज्ञोपि दृढव्रतोपि गृहिणीपुत्रादिबंधोज्जितोप्यंगी यद्यतते
प्रमादवशगो न प्रेत्य सौख्यश्रियो॥तन्मोहद्विपतस्त्रिलोकजयिनः

काचित् परा डुष्टता ब्रह्मायुष्कतया स वा नरपशुर्नूनं गमी डुर्गतौ॥१०

अर्थ ॥ हवेठतेयोगेपणजीव धर्मकरतोनथी तेहनाबेकारणदेखाडेडे लौकिकअ
ने लोकोत्तरशास्त्रने जाणतोथको तथा पंचमहाव्रतधारीथको तथास्त्रीपुत्रादिकना
प्रतिबंधेंरहितथको पण जेप्राणीप्रमादवशे पमयोथको परलोकनासुखनी संपदारूप ध
र्मकार्यनेविषेउद्यम करतोनथी तोतिहां त्रणलोकनुं जीपनारजे मोहरूपशत्रु तेहनी
ज कोइक अलक्ष्यमहाडुष्टताजाणवी अथवाते नररूपपणुवापडो पूर्वेनरकादिकना
आयुषाना बांधवाथकी डुर्गतिमांज जनारडे एमजाणीयेंबैयें ॥ १० ॥

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं सावद्यमित्यसकृदेतदथो करोषि ॥

नित्यं मृषोक्तिजिनवंचनचारिता तत्सावद्यतो नरकमेव विजावये ते११

अर्थ ॥ हवेयतिनावेषमां नित्येमृषावादिपणुं देखाडेढे जेयतिबीजा लोकोने उगवा
सारुं हुंसर्वथासावद्यकरुंनही एहबुंकहीनेपठे वारंवार सावद्यकर्म सचितआरंजप्रमु
खकरेढे तेमाटेनित्येमृषावादेकरी जारीअयुं एहबुंजे सावद्यआरंजादिककर्म तेहथी
तुजने नरकेंजबुंजसंनवेढे जुबुंबोलीने सावद्यकरवाथी निश्चैनरकगतिथाय ॥ ११ ॥

वेषोपदेशाद्युपधिप्रतारिता ददत्यनीष्टानृजवो धुना जनाः ॥

जुंहे च शेषे च सुखं विचेष्टसे जवांतरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेढे हेसाधुहमणाआनवमांतुं कालामेजाकपमाप्रमुखना
वेषे तथालोकरंजवाप्रमुखनेअर्थे उपदेशआपी कपटवैरागपोषीने धर्मकथाकहेढे इ
त्यादिककपटेंकरी जेचोलाजोकते तुजने वांठित अन्न पान वस्त्र पात्र वसति सिक्षा
दिकआपेढे तेथीसुखेखायढे सुखेसुएढे सुखेरमतोफिरेढे पणते सुखनोगव्यातुं फल
परजवें नरकादिकनाडुःखविना बीजाकांइजाणीसनही ॥ १२ ॥

आजीविकादिविधात्तिनृशानिशार्ताः कृत्रेण केपि महतैव सृजंति धर्मान्
तेज्योपि निर्दयजिघृक्षसि सर्वमिष्टं नो संयमे च यतसे जविता कथं ही ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ वलीप्रकारांतरे तेहिजकहेढे केटलाकश्रावको आजीविकाजे उदरवृत्ति
आदिशब्दथी वस्त्र आनरण राजदंम पुत्रादिकविवाह इत्यादिकचिंतायेकरी सदा
कालआकुलथका घणीकष्टेंकरीने धर्मजेदानप्रमुख तेकरेढे अने हेनिर्दयवेषनाधरना
र तुंतेवापाशेथीपण अन्नपानादिक सर्ववांठितवस्तु लेवानेवांढेढे अनेसंयममां उ
द्यमकरतोनी माटे हाइतिखेदेताहरी तेसीगतीयासे ॥ १३ ॥

आराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन् जवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ॥

श्रयंति ये त्वामिति नूरिजक्तिनिः फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ एगुणवंतढे एसंयमगुणेसहितढे एमहानुजावढे एनेआराध्योथको पोतेसं
सारसमुद्रतरेढे तेम आपणनेपण तारसे एहवीबुद्धियें घणीनक्तिर्येंकरी तेप्राणियें तु
जनेआश्रयोढे अनेतुंतोपोतेनिर्गुणतो माटेतुजने अथवाते आश्रयकरनारने एमांशो
फलढे एटलेतुंबुढतोथको तेप्राणीनेपण बोडेढे एजावार्थ ॥ १४ ॥

स्वयं प्रमादैर्निपतन् जवांबुधौ कथंस्वजक्तानपि तारयिष्यसि ॥ प्र

तारयन्स्वार्थमृजुन् शिवार्थिनः स्वतोन्वतश्चैव विलुप्यसेऽहसा ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ हेमुनितुंपोते प्रमादैकरीने बुढतोढतो पोतानाजक्तजे सेवकलोक तेने
शीरीतेंतारीश केमके पोताने अन्नपानादिकमले तेनेअर्थे सरलजे मोहार्थिलोक ते

हनेवंचतोथको तुंफरेठे एटलेपोताना प्रमादाचरणथी अनेबीजोलोकने उगवाथी एबनेप्रकारना पापेकरीने तुंजोपायठे ॥ १५ ॥

गृह्णासि शय्याहतिपुस्तकोपधीन् सदा परेच्यस्तपसस्त्वियं स्थितिः ॥

तत्ते प्रमादाङ्गरितात्प्रतिग्रहे कृणार्णमग्नस्य परत्र का गतिः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ हे वेषना धरनारयति तुं लोकोपासेथी शय्या वस्ति अहार तथापुस्तक ज्ञानोपकरण तथाउपधि वस्त्रपात्रादिकजे नित्यलियेठे तेतो तपसीलोकनी स्थिति ठे परंतु तुंतो प्रत्यहप्रमादमां मग्नथको कांइपणतपस्यादिक करतो नथी तेमाटे प्र तिग्रहने निग्रवेकरी नारीथयुं एहबुंजेप्रमाद तेथकीउपाज्युंजे लेणो ते लेणानेविषे मग्नथको खुतोठोएहबुंठतो ताहरीपरजवें सीअवस्थाथासे एटलेप्रथमतुं चारित्रले इने प्रमादसेवेठे तेलेणोकरेठे तेवारपठे तपसंयमादिकविना लोकोपासेथीशय्यादि क प्रतेंलीयेठे तेबीजोलेणो एमएबेप्रकारना लेणामांखूतोथको ताहरीसी अव स्थाथासे अर्थात् इष्टअवस्थाज पामीस इतिनाव ॥ १६ ॥

न कापि सिद्धिर्न च तेतिशायि मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ॥ तथा

प्यहंकारकदर्थितस्त्वं ख्यातीच्छया ताम्यसि धिङ् मुधा किं ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेतथाविधगुणविना कीर्तिनेसुंवांठेठे हेमुनिताहरेविषेकोइ विद्यामंत्रा दिक सिद्धिनथी वलीवांदणा खमासमणाप्रमुख उत्कृष्टक्रियानथी तथा मनवचन कायाना योगनी शुनप्रवृत्तिनथी तथाबाह्यान्तरतपनथीकरतो तथाश्रुतज्ञान आ दिशब्दथी प्रजाविकपणुं राजाप्रमुखतुं प्रतिबोधबुं इत्यादिकगुणतेपणनथी तोपणतुं अहंकारे कदर्थितथको ख्यातिजे प्रसिद्धितेहनी वांठायेकरीने फोकटशोपरीतापकरे ठे माटेतुजने धिःकारथाउताहरामां जो कोइ अतिशयगुणहोय तेवारंतो ख्यातिनी वांठापणयुक्तठे अनेतेविनाज प्रख्यातीनेवांठेठे माटेतुं धिक्कारवायोग्यठो ॥ १७ ॥

हीनोप्यरे जाग्यगुणैर्मुधात्मन् वांठंस्तवार्चाद्यनवाप्नुवंश्च ॥

ईर्ष्यन् परेच्यो लजसेऽतितापमिहापि यातो कुगतिं परत्र ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ फरोतेहिजकहेठे अरेनिर्जाग्य निःपुण्यकआत्मातुं गुणरहितथको फो कटस्तवनापूजाप्रमुखने वांठतो जोपूजास्तवनानथायतो वलीलोकोउपरक्रोधकरतो थको इहलोकेपण अतिशय तापसंतापपामेठे अनेपरलोकेपणडुर्गतियेंजइश ॥ १८ ॥

गुणैर्विहीनोपि जनानतिस्तुति प्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीक्षसि ॥

लुलायगोश्वोष्ट्रस्वरादिजन्मजि विना ततस्ते जविता न निष्क्रयः ॥ १९ ॥

अर्थ ॥ ह्वेकुगतिमांपडवाविषे उपदेशकरीने प्रतिबोधेहे हेयतिवेषनाधारक तुं गुणरहितथको पणहर्षवंतथयीने लोकथी नमस्कारादिक स्तवना वस्त्रपात्रअन्नादि कलेवावांढेहे तेहथीतुजने लुलायजे पामोपाणीवहेवायोग्य अथवागोजेबलदीअो हल गाडा यंत्र कोल प्रमुख वहेवायोग्य अथवाअश्वते अस्वारीकरवायोग्य तथा उंट खररासज अनेकविधनारवहेवायोग्य इत्यादिकअवतार पाम्याविना तेप्रतिग्रहादि कनुं मूलनथाय केमकेगुणविनापण लोकोपासेथी प्रतिग्रहादिक कल्पेहे तेहनुंलेणो पामाप्रमुखना अवतारपामि नारवहीनेबूटबुंढे एजावार्थ ॥ १९ ॥

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः प्रगीयसे यैरपि वंद्यसेऽर्च्यसे॥जु गुप्सितां प्रेत्य गतिं गतो ऽपि तैर्हसिष्यसे चाऽजिन्नविष्यसेऽपि वा॥१०॥ दानमाननुतिवंदनापरै मोदसे निकृतिरंजितैर्जनैः ॥ नत्ववैषि सुकृतस्य चेद्भवः कोपि सोपि तव लुंठयते हितैः॥११॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजप्रकारांतरेकहेढे हेमुनिजोतुंगुणनेविषे उद्यमकरतो नथी ते वारेइहनवेजे तुजने श्रावकादिक गीतनासप्रमुखेकरीगायढे तथावलीढादशावर्त्त वां दणायेंकरीवांढेहे सुगंधलेपनादिकेंकरीपूजेढे तेतुंपरजवे निंदनीक कुरूप दरिद्रतादि क पाम्याथका तेहिजताहराउपर हससे तथानानाप्रकारनीपीमा उपजावसे एटले ते स्वामिपणे अवतरसे अनेतुंदासपणेथाइस तिहां जातो जाठीप्रमुखना प्रहारेंकरी तुजनेपीडसे ॥ १० ॥ हेमुनितुं कपटक्रियायेंकरी लोकरीजवीने तेहोने दानसन्मान स्तवन वंदनानेविषे तत्परदेखीने हर्षपामेढे पण एम नथाजाणतो जे ताहरो लेश मात्रसुकृतढे तेहनेएलोकलुंढेहे ॥ ११ ॥

जवेजुणी मुग्धकृतैर्नहि स्तवैर्न ख्यातिदानार्चनवंदनादिभिः ॥ वि ना गुणान्नो जवडुःखसंक्षय स्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभिः॥१२॥

अर्थ ॥ हवेस्तवनादिकनी वांढामुकीने गुणतुंपोषकरबुंतेकहेढे हेमुनितुं विशेषाविशे पनाअजाण एहवामुग्धलोकनीकरेलीजे स्तुतितथाख्याति प्रशंसादिक तेणेकरीगुणवं तनथाय वलीगुणजे ज्ञानादिक तेहनीप्राप्तिविना संसारनोविनाश अनेमुक्तिनीप्राप्तिन थाय तेमाटेकेवल गुणनेजउपार्जनकर पणस्तुतिकराववाथी कांइअर्थसिद्धिनथी १२

अथ्येषि शास्त्रं सदसद्विचित्रा लापादिभिस्ताम्यसि वा समा

यैः॥येषां जनानामिह रंजनाय जवांतरे ते क्क मुने क्क च त्वां॥१३॥

अर्थ ॥ हवेजोकरीजववामाटेतुं शास्त्रजणेढे पणजवांतरेतुंकिहां अनेरीजनारलो

ककिहां तेदेखाडेठे हेमुनितुंजे लोकरीजववानिमित्तें सत्के० जलोजिनागम तथा असत्के० विरुद्धबौद्धादिकनुंशास्त्रते प्रतेंजणेठे अनेवली कपटसहित नानाप्रकार नाआलापसंजापादिक तेणेकरीने घणुंप्रयासकरेठे पणजवांतरें तेलोककिहागतिमां जशे अनेतुं केइगतियेंजइश एटलेआनवें जावजीवद्युद्धीजे जीव तें रीजव्याहशे तेपरजवेंकोइपण ताहरे कामेआवेसेनही ॥ १३ ॥

परिग्रहं त्वं व्यजहाद्गृहादे स्तत्किं न धर्मोपकृतिञ्चलात्तं ॥

करोषि शय्योपधिपुस्तकादे गर्गोपि नामांतरतोपि हंता ॥१४॥

अर्थ ॥ हवेपरिग्रहल्यजवा आश्रीउपदेशेठे हेमुनितेंपूर्वें धरप्रमुखनुंपरिग्रहणां ड्युं अनेवली धर्मोपकरणने मीसेंकरीने शय्या वस्ति उपधि वस्त्र पात्रादिक पुस्तक आदिशब्दयी पाठा चाबखी पोथी बांधणा जपमाला प्रमुखउपकरणनो परिग्रह सुंकरेठे धर्मोपकरणजेकांइ बहुमूलो ममतानावशयकी वधारेराखियेंते परिग्रहजजा एवो केमके० गरके० विष तेहनेनामांतरकखायकी एटलेनामफेरवीनाख्यायीपण हंताके० मृत्युकारकहोयज जोविषने साकर अमृत इत्यादिककहियेंतोपण खांधुयकुं प्राणहरणकरे तेमपरिग्रहने धर्मोपकरण निमित्ते राख्योयकोपण इर्गतिआपे परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनाजिधानमात्रात्किमु मूढ तुष्यसि ॥

न वेत्सि हेस्नाप्यतिचारिता तरी निमज्जयत्यंगिनमंबुधौ द्रुतं ॥१५॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे हेमूर्खसाधोतुं स्वीकृतके० प्रमाणकिंधुंठे धर्मसाधनके० धर्मोपकरण एहवुंनाममात्रजेहनुं एहवोपरिग्रह पाय्यायी सुंहर्षपामेठे हेमूर्खतुंनयीजाणतोजे अतिशयजारी एहवोजेसुवर्ण तेणेकरीजरी एहवीतरीजे होडी तेजेम अंगीनके० बेशनारमनुष्यने बोडेठे तेमतुजनेपण धर्मोपकरणनेमीसें मय्योएहवो जे अतिपरिग्रहतेजवसमुइमां बोडशे इतिनावः ॥ १५ ॥

येहः कषायकलिकर्मनिबंधजाजनं स्युः पुस्तकादिजिरपीहितधर्मसाधनैः ॥
तेषां रसायनवरैरपि सर्पदामयै रातात्मनां गदहृतेः सुखकृत्तु किं जवेत् १६

अर्थ ॥ जेमुनियें हितके० वांढ्युंठे धर्मनुंसाधनजेथकी एहवाजे पुस्तकादिकते एणेकरीनेपण अंहजेपाप तथाकषायजे क्रोधादिक तथा कलिजेकलहतेना करवायकी कर्मजे ज्ञानावरणियादिक तेनानिकांचित्बंधनुंजाजनथाय तेहनेबीजोकोइ सुखकार्य निवृत्तिनुंकरनारनथाय एटलेजेहनेधर्मोपकरणतेहिज ममत्वनावशयकी परिग्रहपणे परिणम्याठे तोतेहनेअर्थे क्लेशकषायादिकने करवेकरीकर्मवृद्धिकरेठे

तोतेहनेसंतोषते पठे फरीबीजाशयकीथासे एजावार्थ तेहनुंष्टांतकहेठे जेम रसा यनजे मृगांगपारादिक तेहनोसेवनकरवाथीज उलटोमांदापडयो एटलेरसायनथ कीपण जेहनेरोगवथ्यो तोपठेतेहनारोगनुं निवारकबीजोसुखकारी कोइनथी ॥१६॥

रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिता येऽर्था यतीनां जिनै वासःपुस्तकपात्र कप्रचृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ॥ मूर्धन्मोहवशात् एव कुधिया संसा रपाताय धिक् स्वं स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां पद्भुःप्रयुक्तं जवेत् ॥१७

अर्थ ॥ निश्चैकरीनेजे वस्त्रपुस्तकप्रमुख पदार्थतेथ्रीजिनेश्वरें साधुनेसंयमनी रक्षा नेअर्थे धर्मोपकरण स्वरूपेकह्याठे तोहाहा इतिखेदे तेहिजपदार्थ कुबुद्धिनाधणीने अतिशय मोहनावशयकी उलटासंसारमांबूडावनारनाकारण थइपडेठे तेहनुंष्टां त जेम बुद्धिहीनपुरुषनुं पोतानुं अस्त्रजेखड्गादिक तेविपरीतपणे राख्युंहोय तोपो तानेजवधकारीथाय तेहनीपरे जाणवुं ॥ १७ ॥

संयमोपकरणह्यलात्परान् नारयन् यदसि पुस्तकादिभिः ॥

गोखरोष्ट्रमहिषादिरूपचतुष्टिरं त्वमपि नारयिष्यसे ॥१८॥

अर्थ ॥ हेमुनितुं जे परप्राणीनारवाहक पोढी बलद उंटप्रमुखने संयमनावपकरण नेमीसेकरी पुस्तकादिकनुं नारवहेवरावेठे तेमाटेतेप्राणीतुजनेपण बलद उंट रास न पामाप्रमुखना अवतारपाम्याथका चिरकालजगें नारवहेवरावशे ॥ १८ ॥

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिभिः शोचया न खलु संयमस्य सा ॥

आदिमा च ददते जवं परा मुक्तिमाश्रय तदिह्यैकिका ॥१९॥

अर्थ ॥ हवेवस्त्रपात्रादिकथी संयमनीशोचानथीतेकहेठे हेमुनि वस्त्रपात्रतथाश रीर पुस्तकइत्यादिकनी शोचाकीधेयके निश्चैकरी संयमनीशोचानथाय एटलेवस्त्रादि कनीशोचाते संयमने अशोचाकारणीठे तेमांपणवली आदिमके० पहेलीजे वस्त्रादि कनीशोचाते जवन्नमणजआपे अने परके० बीजीजे संयमनीशोचाते मोहजआपे ते माटेजोसंसारनी वांढाहोयतो वस्त्रादिकनी शोचाआदर अनेजो मुक्तिनीवांढा तुजने होय तो संयमनीशोचाआदर ॥ १९ ॥

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिभिः शोचया न खलु संयमस्य सा ॥ तां तदत्र प रिहाय संयमे किं यते न यतसे शिवार्थ्यपि ॥ इतिचोत्तरार्द्धपाठः ॥३०॥

अर्थ ॥ वस्त्रपात्रेति एपागंतर एश्लोकनुंपूर्वाद् पूर्वनीपरेजाणवुं अनेउत्तरार्द्धनी

व्याख्याकहेठे तस्मात्कारणात् तेकारणमाटेहेसाधो ते वस्त्रादिकनी शोजाठांमीने जोमुक्तिनोअर्थीठोतो जिनप्रणीत चारित्रनेविषे केमउद्यमकरतो नथी ॥ ३० ॥

शीतातपाद्यान्नमनागपीह परीषहाश्रेत्कमसे विसोढुं ॥

कथं ततो नारकगर्जवास दुःखानिसोढासि जवांतरे त्वं ॥३१॥

अर्थ ॥ हवेपरीषह सहेवाअथ्री उपदेशआपेठे हेमुनिजोतुं संयमनेविषे टाहाड तापप्रमुख थोडापणपरीषह सहेवानेसमर्थनथी अनेकायरथायठे तोजवांतरेनेविषे नरकतथा गर्जवासनादुःख केम सहीस एटले नरकादिकना दुःखसहेवाथीतो परीष हनादुःखनुं सहेवुंजनुंठे एमजाण ॥ ३१ ॥

मुने न किं नश्वरमस्वदेह मृत्तिंडमेनं सुतपोव्रताद्यैः ॥ निपी

उद्य चीतीर्जवदुखराशो हित्वात्मसात्त्वैवसुखं करोषि ॥ ३२ ॥

अर्थ ॥ हवेसाधुने तपप्रमुखनुं उद्यमकरवुंकहेठे हेसाधु एविनाशशील तथा आ खरपोतानुंनही एहवोजेदेहरूप माटिनुंपिंम तेहने जलाजिनाझासहित तपव्रतप्रमुखे करी दमीने संसारनादुःखसंबंधी सर्वजयठांमिने मुक्तिसंबंधी सुखते पोतानेवश केमनथीकरतो ॥ ३२ ॥

यदत्र कष्टं चरणस्य पालने परत्र तिर्यङ्नरकेषु यत्पुनः ॥ तयोर्मि

थः सप्रतिपक्वता स्थिता विशेषदृष्ट्यान्यतरं जहीहि तत् ॥३३॥

अर्थ ॥ हेसाधुजेइहां श्रीजिनशासनेविषे चारित्रपालवानीकष्टे अनेपरजवे ति र्यचनरकादिकनेविषेजे कष्टे तेबेहुकष्टने परस्परं प्रतिपक्वपणुंरहेठे एटलेजिहां चारित्रकष्टे तिहांतिर्यचनरकनुं कष्टनथी अनेजिहां तिर्यचनरकादिकना कष्टे तिहां चारित्र कष्टनथी तेमाटेविशेषदृष्टिये विचारी तेबेमांथी एककष्टनेमूक ॥ ३३ ॥

शमत्र यद्विद्धुरिव प्रमादजं परत्र यच्चाब्धिरिव द्युमुक्तिगं ॥ तयोर्मि

थः सप्रतिपक्वता स्थिता विशेषदृष्ट्यान्यतरद्रुहाण तत् ॥३४॥

अर्थ ॥ हवेसुखनुंग्रहवुंकहेठे हेसाधोइहां चारित्रमांप्रमादकरवाथीजे सुख ते विंडजेटनुंठे अनेसंयमना पालवाथकीजे देवलोकमुक्तिनासुख तेसमुडसरखाठे तेबन्हेसुखने परस्परप्रतिपक्वपणुंठे जिहांप्रमादसुखतिहां मुक्तिसुखनथी अने जिहां मुक्तिसुख तिहांप्रमादसुखनथी माटेविशेषेविचारी बेमांथी सारजाणोतेने आदर ॥३४॥

अथवा॥नियंत्रणायाचरणेऽत्र तिर्यक् स्त्रीगर्नकुंजीनरकेषु या च ॥

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षत्वाद् विशेषदृष्ट्याऽन्यतरां गृहाण ॥३५॥

अर्थ ॥ हवेगुरुपारतंत्र्याश्रयीकहेढे हेसाधुऽहंजिनशासनमां चारित्रनेविषेजे गुरुपारतंत्र्यादिकत्रणप्रकारनो परवशपणुंढे अने तिर्यचनाअवतारमां तथास्त्रीनागर्न मां तथा कुंजीतेषणोजसांकमासुखनुंनारकीने उपजवानुंस्थानकतेमां उपनाजेनार कीते खंडोखंडथयी बाहेरनिकजे तेहनेविषेजे परवशतापणुंढे तेबेहुने परस्परेंप्रति पक्षीपणुंढे एतले जिहांचारित्रनी नियंत्रणाहोय तिहांतिर्यच स्त्रीअने नरकादिकनी नियंत्रणानहोय अनेजिहां तिर्यचस्त्रीनरकादिकनी नियंत्रणाहोय तिहां चारित्रनी नियंत्रणानहोय माटेविशेषदृष्टियेंविचारीने तेबेमांथी एकनियंत्रणानेआदर ॥३५॥

सहतपोयमसंयमयंत्रणां स्ववशतासहने हि गुणो

महान्॥शिवं गुण इति वा पाठः ॥ परवशस्त्वतिचूरि स

हिष्यसे न च गुणं बहुमाप्स्यसि कं च न ॥ ३६ ॥

अर्थ ॥ हवेपरवशेडुःखसहेवाकरता पोतानावशेडुःखसहेवुंनजुंढे तेकहेढे हेसा धुतुं चोथप्रमुखतप तथा नियमअनिग्रहादिक ते यम तथासत्तरचेदें संयमसंबंधी एत्रण नियंत्रणाउंढेतेनुंसहनकर केमके एत्रण नियंत्रणाओते पोताने स्वाधीनपणे सहनकरवीढेते महोढो गुणढे तथापाठांतरे एथकी शिवंगुणके० मुक्तिरूपीओगुण होय अने जे अतिपरवशपणे एकेंडियादिकमां पराधीनथको घणीजनियंत्रणाओ सहीस तिहां अकामनिर्झरासिवाय अधिकुंगुणमात्र कांऽपणपामीसनही ॥ ३६ ॥

अणीयसासाम्यनियंत्रणाजुवा मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ॥ यदि

क्षयो दुर्गतिगर्नवासगा सुखावलेस्तत्किमवापि नार्थितं ॥ ३७ ॥

अर्थ ॥ वलीप्रकांतरेतेहिजकहेढे हेसाधो आजन्ममां समतारूपनियंत्रणातेसं बंधीकष्ट तथाचारित्रसंबंधीजे अल्पमात्रकष्ट तेणेकरी दुर्गति अने गर्नावाससंबंधी असुखनासमूह क्षयथायढे तोतेथी सुवांठितपणुंतुंनपाम्यो अर्थात्पाम्योज ॥३७॥

त्यज स्पृहां स्वः शिवशर्मलाजे स्वीकृत्य तिर्यङ्नरकादि दुःखं ॥

सुखाणुजिश्चेद्विषयादिजातैः संतोष्यते संयमकष्टनीरुः ॥ ३८ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रमादवंतने रीसेकरीकहेढे हेसाधुतुं जो विषयादिकथीउपनोजे सुख नोलेश तेणेकरी संतोषपामेढे अने संयमनाकष्टथीबीहेढे एरीतेंतो तें तिर्यच तथा

नरकनुंडःखकबुजकरीने स्वर्गमोहनासुखपामवानी वांठासूकीदीधी एटलेअणुमात्र
सुख उपर राच्योषको स्वर्गमोहनुं अतुल्यसुखहारेठे एनावार्थेठे ॥ ३७ ॥

समग्रचिंतातिहतेरिहापि यस्मिन् सुखं स्यात्परमं रतानां ॥

परत्र चेज्जादिमहोदयश्रीः प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ॥३८॥

अर्थ ॥ हवेचारित्रथी इहलोकेंतथा परलोकेंसुखठे तेकहेठे चारित्रमांरक्तथयला
एहवाजेनावसाधु तेहने सर्वचिंताना निवारवाथकी इहलोकेपण परमअनुपमसुख
होय अनेपरलोकेंपण इंजादिकनीसंपदा तथा मोहनीसंपदाहोय तोहेसाधो एहबुंजे
चारित्रतेनेविषे रह्योथकोतुं सुंप्रमादकरेठे यतः देवलोकसमाणोअ परियाउमहेसि
ए ॥ रयाणअरयाणंच महाणरयसारिसा ॥ १ ॥ पुनः नच राजनयं नच चोरनयं न
च वृत्तिनयं न वियोगनयं॥इह लोकसुखं परलोकहितं श्रमणत्वमिदं रमणीयतरं॥२॥

महातपोध्यानपरीषहादि न सत्वसाध्य यदि धर्तुमीश ॥ तज्जावनाः

किं समितीश्च गुप्ती धत्से शिवार्थिन् न मनःप्रसाध्याः ॥ ४० ॥

अनित्यताया नज जावनाः सदा यतस्व दुःसाध्यगुणेऽपिसंयमे॥जि

घत्सया ते त्वरते ह्ययं यमः श्रयन् प्रमादान्न नवाद्भिजेषि किं॥४१॥

अर्थ ॥ हवेजेबहुकष्टकरीशकेनहीतोते सुखसाध्यधर्मकरे तेकहेठे हेसाधु तुं पराक्र
मवंतपुरुषने साधवायोग्य एहवाजे मासखमणप्रमुख महातप तथा प्राणायामादिक
ध्यान तथाह्युधादिकपरिसह धरवानेसमर्थनथी तोहेमोहनावांठक केवलमनेकरीज
साधिसकीयेंएहवीजे अनित्यादिकजावनातेनुंसेवनकर ॥ ४० ॥ तथावलीप्रकारांत
रेकहेठे हेसाधोतुंअनित्यताप्रमुख बारजावना ने सदानज अनेदुःखें साधवायोग्य
मूलोत्तरगुणठे जेना एहवासंयमनेविषेपण सुकुमालपणुंठांमीउद्यमकर केमके मृ
त्युते तुजने ग्रासकरवानीवांठायें उतावलुंथायठे दिनदिनप्रतें हुकहुंआवेठे मा
टेप्रमादसेवतोथकोपण मनेकरीसंसारथकी बीहितोरहेजे ॥ ४१ ॥

हतं मनस्ते कुविकल्पजालै र्वचोप्यवद्यैश्च वपुः प्रमादैः ॥ लब्धी

श्च सिद्धीश्च तथापि वांठन् मनोरथैरेव हहा हतोसि॥४२॥दग्धं

मनो मे कुविकल्पजालै र्वचोप्यवद्यैश्च वपुः प्रमादैः॥लब्धीश्च सि

द्धीश्च तथापि वांठन् मनोरथै रेव हहा विहन्ये ॥ इतिवापाठः ॥४३॥

अर्थ ॥ हवेसामग्रीविनापण महोटासहोटा मनोरथकरवा अफलठे तेकहेठे हे

साधुताहरोमनतें माठाविकल्पनासमूहें विणसाड्युं अनेवचनपण मृषानाषणादि क पापेकरीविणसाड्युं वलीशरीरपण प्रमादजेमद्यादिकतेणेकरी विणसाड्युं एरीतें मनवचनकायारूप त्रणशुभिविणसाडी तोपण आमोसहीप्रमुखलब्धि तथामंत्रविद्यादिकसिद्धिने वांढेढे माटे हाइतिखेदे मनोरथेंकरीज पीडायढे जेमशाली डुध खां नप्रमुख सामग्रीविनापण कोइमूर्खकीरनाजोजननुं मनोरथधरतो अहार्निशविकल्पें ज पीडाय तेमतुंपणपीडायढे ॥ ४२ ॥ तथावलीपाठांतरें माहरुंमन कुविकल्पजाळें विणास्युं तथा अवयके० मृषानाषणादिकपापें वचनविणास्युं अनेप्रमादेकरीशरीर विणास्युं तोपण लब्धि अने सिद्धि प्रतें वांढतो थको हाइतिखेदे हुं मनोरथमात्रें ज सुंपीमाउंढुं इत्यादिक पहेलाकाव्यनुं पाठांतर काव्यजाणवुं ॥ ४३ ॥

मनोवशस्त्रे सुखदुःखसंगमो मनो मिलेथैस्तु तदात्मकं भवेत् ॥

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलह्वीलांगमित्रैरनुषंजयानिशं ॥ ४४ ॥

अर्थ ॥ हवेमननेसतसंगमांजोडवुं तेकहेढे हेसाधुताहरे सुखअने दुःखनोजे मिलाप तेमननेवशढे केमकेमनजेहनीसार्थेंमिले तेरूपीथाय जेम तैलने जेहवाफूलनो संगमिले तेहवीवातनामयथाय माटे मननेप्रमादरूपचोरसार्थेंमलतो वारीने नित्ये शी लांगरथरूपजेमित्र तेनीसार्थेंमेलव जेथकीतुजने सर्वथासुखसार्थेंज मिलापथाय ॥ ४४ ॥

ध्रुवः प्रमादैर्नववारिधौ मुने तव प्रपातः परमत्सरः पुनः॥ गले न बद्धोरुशिलोपमोस्ति चे त्कथं तदोन्मज्जनमव्यवाप्स्यसि॥४५॥

अर्थ ॥ हवेयुक्तिविशेषेंकरी प्रमादनोपरिहारकहेढे हेसाधुप्रमादनाहेतुयेंकरी तु जनेसंसारमांपडवुंतो निश्चय थकीढे केमकेप्रमाद अनेसंसारने अग्निधुमादिकनीपरें नित्यबंधढे अनेवलीजो गलेबांधिमोटी शिलासरिखुं परप्राणीउपरमत्सरतुजनेढे तेवारे संसारसंमुड्मांथी तरीनिकलवुं केमपामिस माटेप्रमादअने मत्सरबेहुल्यज ॥४५॥

महर्षयः केपि सहंत्युदीर्या प्युग्रातपादीन्यदि निर्जरार्थं ॥

कष्टं प्रसंगागतमप्यणीयोपीठन् शिवं किं सहसे न जिहो ॥ ४६ ॥

अर्थ ॥ हवेकष्टसहेवाआश्री उपदेशआपेढे केटलाकमहाकृषी तेनड्वाडुस्वामी दीक्षितचार व्यवहारीपुत्रनीपरें शीतादिक परिसहनासहनारा वली उग्रके० घणोकठिण आतपके० तडकाप्रमुख कष्टने उदरीनेपण निर्झरानेअर्थेंसहेढे तेवारेंहेसाधुतुं मुक्तिनेतोवांढेढे तेवारें प्रसंगथी उदयआयुं एहवोस्वल्पमात्र कष्टप्रतेकानथीसहेतो अनेकष्टसह्याविना मुक्तिकेमपामिस एजावार्थ ॥ ४६ ॥

यो दानमानस्तुतिवन्दनादिभिर्न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ॥ अला
जलाजादिपरीषहान् जयन् यतिः सतत्वादपरो विडम्बकः ॥ ४७ ॥

अर्थ ॥ हवेअसाधुपणा तथा साधुपणानो जेददेखाडेजे जेलाजअलाजादिक प
रिषहनेजीपतोथको ग्रहस्थनुंआप्यो अहारउपधिप्रमुखदान तथासत्कारस्तुतिप्रमु
खमान इत्यादिकेकरी हर्षपामेनही अनेअलाज अपमान प्रहारादिकें इहवायनही
तेहिजपरमार्थथी यतिजाणवो अने अपरके० बीजाजेदान वंदनादिकथी हर्षपामे
तथा अलाजनंदादिकथी इहवाय तेयतिनावेषे विडम्बकके० नटरूपजाणवा ॥४७॥

दधजृहस्थेषु ममत्वबुद्धिं तदीय तप्त्या परितप्यमानः ॥ अ
निर्वृतांतःकरणः सदा स्वै स्तेषां च पापैर्भ्रमिता जवेसि ॥४८॥

अर्थ ॥ हवेमनोगुप्तिराखवानेअर्थे यतियें ग्रहस्थनी चिंताकरवीनही तेकहेजे
हेसाधुतुंग्रहस्थनेविषे ममत्वनीबुद्धिधरतोथको अनेग्रहस्थनीचिंतायें तपतोथको
पोतानापापें तथाग्रहस्थनापापें निरंतरव्याकुलचित्तवंतथको संसारमांनमीस ॥४८॥

त्यक्त्वा गृहं स्वं परगेहचिंता तप्तस्य को नाम गुणस्तवर्षे ॥

आजीवि काऽस्ते यतिवेषतोऽत्र सुडुर्गतिः प्रेत्य तु दुर्निवारा ॥४९॥

अर्थ ॥ हेसाधु पोतानुंघरमूकीने वलीपारका श्रावकादिकनाघरनी चिंतायेंकरी
तुजनेशोगुणजे एकघरमूकी घणाघरनीचिंतायें कोऽगुणनथी आजवमांतोतुजने यति
वेषनाप्रतापथी आजीविकाचालेजे पणपरजवेंतो तुजने अतिशयडुर्गतिदुर्निवारक
एहवा नरकादिकजे पणपरजवें डुर्गतिनोवारनारकोऽनथी एजावार्थ ॥ ४९ ॥

कुर्वे न सावद्यमिति प्रतिज्ञां वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ॥ शय्या

दिकृत्येषु नुदन् गृहस्थान् हृदा गिरा वाऽसि कथं मुमुक्षुः ॥ ५० ॥

अर्थ ॥ हवेतुंकायामात्रथीसाधुतो पणमनवचनथीसाधुनथी तेकहेजे हेमुक्तिवां
ठकसाधुतुं नित्यप्रतें आवश्यकरतां सवं सावङ्गजोगं पञ्चखामि जा जीवाए तिविहं
तिविहेणं मणोणं वायाए काएणं इत्यादिकपाठकहीने हुंसर्वसावद्यकरुंनही एहवीप्र
तिज्ञाकरतोथको तेसावद्यमात्र शरीरथीज अणकरतोथकोथयो पणशय्या जेउपाश्र
यप्रमुख कार्यनेविषे ग्रहस्थनेप्रेरतोथकोतो तो तेमांमनथी अनेवचनथी मुमुक्षु तेशा
नोजे एटले मन वचन कायायेंकरी सावद्यमूके तेहनेमुमुक्षुकहियें अनेतुंकायामा
त्रथीज सावद्यकरतोथी पणमनथी सावद्यचिंतवेजे अनेवचनथी सावद्यकर्मप्रेरेजे
तेमाटेमनथी तथा वचनथी मुमुक्षुनथी मात्रकायाथीज मुमुक्षुजे एजावार्थ इहांप्रेर

णाते आदेशदेवामात्रजजाणवी बीजीप्रवर्तनरूपप्रकरण इत्यादिकप्रेरणीयते एटले पूर्वेपणभावके एकतकखांते जाननुंकारणते इत्यादिकप्रेरणाकखानुंतो साधुनेव्यवहारतेज यथाश्रीरायप्रश्रीयसूत्रे च्छुत्तमेयंसुरियाजा पुराणमेयंसुरियाजा किवमेयंसुरियाजा करणिक्कमेयंसुरियाजा आइणमेयंसुरियाजा अप्रणुनायमेयंसुरियाजा इत्यादिक विधिवाक्यदेखायते तेप्रेरणाजाणवी ॥ ५० ॥

कथं ममत्वाय ममत्वतोवा सावद्यमिच्छस्यपि संघलोके ॥ न हे

ममद्यप्युदरे हि शस्त्री क्षिप्ताक्षिणोति क्षणतोप्यसून् किं॥५१॥

अर्थ ॥ वलीतेहजकहेते हेसाथोतुं साधुसाध्वी श्रावकश्राविकारूप चतुर्विधसंघमां अमुकागीतार्थनावखतमां आचैत्यकरायुं एहवीमहोटाइपामवानेअर्थे तथाआ अमारागह्वनो चैत्यउपाश्रयादिकते इत्यादिकममत्वथकी सुंसावद्यकर्मवांतेते संसारीनीपरे सारंनकार्यसर्वमाथेलेइने करवासुंवांतेते अथवासंघमां महत्वपामवानेअर्थे तथाममत्वथकीज सावद्यजे धनप्राप्ति प्रमुखतेसुंवांतेते जेमाटे सोनानीबुरीपण पे टमांचापीथकी सुंप्राणहरणनथीकरतीके. एटलेसोनानीबुरीपण पेटमांमारीथकी प्राणहरेते तेमसंघनिमित्तपण अविधियें सावद्यकर्मकीधुंते संयमरूपप्राणनेहरेते५१॥

रंकः कोपि जनाञ्जिन्नूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादा जुरोर्वेषं प्राप्य यतेः

कथंचन कियञ्जास्रं पदं कोपि च ॥ मौखर्यादिवशीकृतर्जुजनतादा

नार्चनेर्गर्वना गात्मानं गणयन्नरेंजमिव धिग्गंता द्रुतं द्रुगतौ ॥५२॥

अर्थ ॥ हवेआत्माने उइतपणुंनिवारवा उपदेशेते कोइकपुरुषपूर्वे ग्रहस्थावसतायें रंकहोय अनेलोकोने उपहास्यकरवायोग्य निंदाकरवायोग्य विविधप्रकारनी लोकोनीसेवा करवायोग्यहोय पडेगुरुनापशायथी तेअवस्थायजी यतिनोवेषपामीतथाघणाकष्टें कांइकशास्त्रनुंनणवुंपामी तथातेमांवली कोइकआचार्यउपाध्यायादिकपडीपामिने वाचालपणा प्रमुखकलायें जोलालोकोनेवशकरी तेहनाकरेजा जे दानपूजा सत्कारादिक तेपोकरीने अहंकारधरतो थको पोताना आत्माने राजातु व्यगणो पण एमनजाणेजे हुंते शीगणतिमांनुं एसर्व दानपूजादिक जे थायते तेतो श्रीजिनेश्वरना मार्गने थायते तेमाटेहाइतिखेदे तेप्राणी उतावळुं द्रुगतिजे नरकादिक तेमांजाणे माटेगर्वनकरवुं ॥ ५२ ॥

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरापं स्वदोषजैश्चेद्विषयप्रमादैः ॥ नवां

बुधौ धिक् पतितासि जिह्वो हतोऽसि इःखैस्तदनंतकालं॥५३॥

अर्थ ॥ हवेडुर्जनचारित्रपामिने विषयप्रमादत्यजवा तेप्रकारांतरेकहेढे हेनिहू
डुर्जनएहवुंजे चारित्रतेपामिने जोपोतानावांकथीउपना एहवाजे विषयप्रमाद तेणे
करीतुंसंसारसमुड्मांपमीश तेवारें ते अनंताकालसुधी चारगतिसंबंधीनाडुःखेकरीने
पीडाइश तेमाटेधिःकारढेतुजने जेतुंचारित्रनेविषे उजमालथातोन्धी ॥ ५३ ॥

कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं युगसमिलादिनिदर्शनादुरापं ॥

कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन् किमपि हितं लजसे यतोऽर्थितं शं॥५४॥

अर्थ ॥ हवेदृष्टांतसहित बोधनुंडुर्जनपणुंकहेढे हेसाधुतुंयुगसमिलादिक दशदृष्टां
तेंकरी डुर्जनएहवुं समकेतरूपरत्न तेघणोकष्टेंपामिने आगलेंवद्दयमाण विषयादिक
शत्रु तेहनुंआधीनपणुंत्यजतुंथको कांश्कआत्मानुंहितजे संयमादिकतेकर जेथकीवां
ठितसुखपामे. चुद्धग पासग धन्ने जूए रयणेष सुमिण चक्रेअ ॥ चम्मजुगे परमाणु दस
दिंता मणुयलंजे॥१॥ एदशदृष्टांतनानामजाणवा ॥ पुवं तेहुळजुगं अवरं ते तस्त हु
ळसमिलाउ ॥ जुगठिडंमि पवेसो इय संसडु मणुअलंनो ॥१॥ इत्यावश्यके ॥५४॥

द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादा असंवृता मानसदेहवाचः ॥ असं

यमाः सप्तदशापि हास्या दयश्चविज्यच्चर नित्यमेज्यः ॥ ५५ ॥

अर्थ ॥ हवेनामथकी शत्रुदेखामीने तेथीदूररहेवानो उपदेशआपेढे हेसाधो वि
षयजेशब्दादिकपांच तथाप्रमादजे मद्यादिक पांच अने असंवृतकहेतां मोकलामू
क्या एवाजे मनवचनकायानायोग तथा प्राणातिपातादिक पांचअव्रत अनेपांचेंदि
यतुं अणजीतवुं तथाक्रोधादिक चारकषायनो अपरिहार अनेमनवचनकाया एत्र
णयोगने डुःप्रवर्तियेंप्रवर्त्तावुं एसर्वमलीसत्तर असंयमनास्थानक तथावली हास्य
रति अरति नय शोक डुगढा ए हास्यषट्क एटलां ताहाराशत्रुढे तेमाटेएथकी
सदाकाल बीहीतोथको विचरजे ॥ ५५ ॥

गुरुनवाप्याप्यपहाय गेह मधीत्य शास्त्रण्यपि तत्ववांचि ॥

निर्वाहचिंतादिजराद्यजावे प्युषे न किं प्रेत्य हिताय यत्नः॥५६॥

अर्थ ॥ हवेसर्वसामग्री मव्याढतांपण आत्महितकांनथीकरतो तेकहेढे हेरुषितुं
घरतांमीने गुरुजेधर्माचार्य तेहनेपामीने तथातत्वप्ररूपक शास्त्रजेसिद्धांत तेजणीने
पण तथानिर्वाहजेआजीविका तेहनीचिंता अनेआदिशब्दथी वत्त्वपात्र वसतिप्रमुख
नीचिंता अनेराजजय चौरजय इत्यादिकतेहनो जरजेसमूह तथावलीआदिशब्दथी
गूह राज देशांतर जलपंथ प्रमुखव्यापार तेहनो अजावढतां पण परलोकना हितने

अर्थे कांउद्यमनधीकरतो एटले सकलसामग्रीने योगेपण जोआत्महितनथी साथ तो तोपठे घणोज शोचकरीश एनावार्थे ॥ ५६ ॥

विराधितैः संयमसर्वयोगैः पतिष्यतस्ते नवदुःखराशौ ॥ शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या नक्ताश्च लोकाः शरणाय नालं ॥ ५७ ॥

अर्थ ॥ हवेसंयमग्रहीने संयमविराधनानकरवी तेकहेठे हेयतितैविराध्या एहवा जे संयमनासर्वयोग एटले मूलगुणउत्तरगुणादिकविराध्यातेहेतुयेंकरीने संसारना दुःखसमूहमांपडतातुजने शास्त्रजेआगमादिक तथाशिष्यजे उपधीपुस्तकप्रमुख तथा वलीनक्तलोकजे श्रावकश्राविकादिक तेकोशरणआपवाने समर्थनहीधाय पण एक संयम मात्रज अविराध्या थको शरणदाइयागे ॥ ५७ ॥

यस्य क्लृणोपि सुरधामसुखानि पत्यकोटीर्निर्णानां द्विनवतीं ह्यधिकां ददाति ॥ किं हारयस्यधम संयमजीवितं तत् हा हा प्रमत्त पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥ ५८ ॥

अर्थ ॥ हवेसंयमंजीविततुं फलदेखाडी प्रमादनोपरिहार उपदेशेठे हेसाधो संयमजीविततुं क्लृणजेमुहूर्त्तमात्र तेपणपुरुषनेनिश्चयथी साधिक बाणोकोनिपत्योपमल गें देवलोकनासुखआपे यडुकं प्रतिक्रमणसूत्रवृत्तौ सामाश्रयंकुणंतो समजावंसा वउअघडियडुगं ॥ आउसुरेसु बंधइ इत्तिय मित्ताइ पत्तियाइ ॥१॥ बाणवईकोडीउ लस्कगुणसत्तिसहस्सपणवीसं ॥ नवसयपणवीसाए सत्तिहा अडनाग पत्तियस्त ॥२॥ इति बाणुकरोड आगणसाठलाख पचीसहजार नवसेंपचीश एटलापत्योपम अनेएक पत्योपमना नवजागकरीयें एहवाआठनवमांश अनेतेउपरवली एकनवमांशनो एक तृतीयांश एटलुंदेवायु बेधमोना एकसामाश्रयंबंधाय ते आंके करी लिखियेंठैयें ए२ ए३ ए४ ए २५, ८१. तो हाहाइतिखेदे हेअधमनीचप्राणी तुं संयमंजीवितने के महारेठे हेप्रमादवंतफरीनेतुजने एसंयमनीप्राप्ति क्यांथीयागे ॥ ५८ ॥

नाम्नापि यस्येति जनेऽसि पूज्यः शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ॥ तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुचूयमानोरुफलेपि किं न ॥ ५९ ॥

अर्थ ॥ हवेद्वारसमाप्तिना मंगलनेअर्थे संयमनाशुचनफल देखाडी शिक्षाकहेठे हे मोहार्थीसाधु जेसंयमना केवलनाममात्रथीज एटलेसंयमी एहवुंनाममात्र धराव्या थीज प्रत्यह प्रकारें करी लोकनेविषे तुं पूजनीकथयोठो तोशुद्धनिर्मल संयमथी शाशास्वर्गमोहादिक वांठितसुखनहोय एटलेसंयमथी अनीष्टसुख होयज तेमाटेप्र

त्यद्दृश्यमान जेहनुं महाफलअनुजवायठे एहवाए संयमनेविषे तुं कांउद्यम नथी करतो सर्वथा उद्यमकरवोज युक्तठे ॥५९॥ इति श्री अध्यात्मकल्पद्रुमे यतिशिद्धानिधानोनाम त्रयोदशोधिकार. संपूर्णः ॥

अथ सामान्यतो यतीन् विशेषधर्मस्थगृहिणश्चाश्रित्य मिथ्यात्वादिसं वरोपदेशः ॥ मिथ्यात्वयोगा विरतिप्रमादा नात्मन्सदा संवृणु सौख्य मिञ्चन् ॥ असंवृता यद्भवतापमेते सुसंवृता मुक्तिरमां च दद्युः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवे यतिने तथासम्यक्तमूलवारवृत्तधारक श्रावकने साधारण मिथ्यात्वाव्रति कषाय योग निरोधोपदेश तथा संवरोपदेश नामा चौदमो अधिकारकहेठे तिहांप्रथमकर्मबंधनाहेतुजे मिथ्यात्वादिकतेहनुंसंवरकहेठे हेअत्मातुं सुखनेवांठतो होयतोमिथ्यात्वजे अनिग्रहिकादिकपांच तेमांअनिग्रहिक तेपोतानाशास्त्रादिकनां ममत्वथी कदाग्रहकरवो तेकुतीधिपाखंडादिक बीजुंअनाजिग्रहिक ते सर्वे देवाः सर्वे गुरुवः सर्वे धर्माश्च आराध्याः एहवोअनिप्राय जेसामान्यप्राकृतलोकोनोते त्रीजुंअनिनिवेशिक ते वस्तुनुं यथास्थित स्वरूपजाणेशके पण कोइडुष्टान्निनिवेशना वशथी पोतानुं मतथा पवानेअर्थे गोष्ठीमाहिलादिकनीपेठे असत्यरूपणानुंकरवुं चोथोसांशधिक ते देवादिकतत्वनेविषे आसाचूके आसाचू एमंसंदेहधरवो पांचमुं अनाजोगिकते अनानोगनावशथकी एकेंडियादिकनेविषे जीवादिकतत्वनुं अणजाणवुं ५ एपांचमिथ्यात्व तथा अगुजमनोयोगादिकत्रण अनेअविरतिते प्राणातिपातादिकपांच तथाप्रमाद जेमद्यादिक पांच एचारेनेसदाकाललगे संवरवुंकेमके एचारेने अणसंवख्याथका संसारनातापप्रत्ये आपे अने संवख्याथका मुक्तिरूपिणी लक्ष्मीनेआपे ॥ १ ॥

मनः संवृणु हे विद्वन्नसंवृतमना यतः ॥

याति तंडुलमत्स्यो जाक् सप्तमीं नरकावनीं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रथमथी मननुंसंवरउपदेशेठे हेपंफितआत्मा तुंतारामननेसंवर केमके मनने संवरे रहित एवुंजे तंडुलमत्स्य तेउतावुं थोडाकालमांज सातमांनरकपृथ्वीयें जइअवतरे एमत्स्यसमुद्रमाहेला महोटा मत्स्योनी आखनीपांपणमांहे सूक्ष्ममत्सिने गर्जे सातमीनरकथीचवीनेअवतरेठे तेमत्स्य तंडुलप्रमाणगर्जजथाय पठेतेमहामत्स्यना मुखनाफाडमा पेसतांनिकलतां एहवाअनेकन्हाना मत्स्यादिकदेखीने तेतंडुलमत्स्यएहवुंचिंतवेजे हाहाइतिखेदेजो माहारी आवडीमोहोटी कायाथइहोततो हुंआ सर्वजीवनाकोलियाकरुं पणएमांथीएकेनेजावानआपुं एवुंमहाडुर्थ्यान चिंतवतोथको अंतर्मुहूर्त्तप्रमाण आयुजोगवीने एकमुहूर्त्तने अंतरेंवली सातमीनरकपृथ्वीयें जइ अ

वतरे एरीतेंजीवते वचन तथाकायार्थे अशक्तथकोहोयतो एण मात्र एकमननाज अ संवरथकी तंडुलमत्स्यनीपेठें डुर्गतिगामीयाथ ॥ २ ॥

प्रसन्नचंद्रराजर्षे मनःप्रसरसंवरौ ॥ नरक

स्य शिवस्यापि हेतुनूतौ क्लृणादपि ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ वलीतेउपरज दृष्टांतकहेठे हेप्राणि मननुंप्रसरजे डुर्ध्याननीप्रवृत्तिअने सं वरजे डुर्ध्यानथीनिवृत्ति तेबेहु एककृणमात्रमांजेम प्रसन्नचंद्रराजर्षिनेनरकनां अने मुक्तिनापण कारणथया केमकेतेने मननाडुर्ध्यानथी एककृणमात्रमां सातमांनरकनुंद लमेलव्युं अने तेजमनना संवरथी एककृणमां केवलज्ञानपण उपाज्युं. ॥ ३ ॥

हवेसंक्षेपथीतेप्रभ्रचंद्रराजर्षिनोसंबंधलखीयेंठेयें क्तिप्रतिष्ठितपुरमां प्रसन्नचंद्र राजा राज्यकरताहता अन्यदातिहां श्रीवीरस्वामी समोसखा प्रसन्नचंद्रराजा सह परिवारें वांदवाआव्यो देशनासांजली वैराग्यपाभ्यो पुत्रनेराज्यस्थापी श्रीवीरपासें पोतेदीक्षालीथी अनुक्रमेगीतार्थथयो अन्यदाविहारकरतो राजगृहनगरेंआव्यो ति हांजिनकल्पीनी तुल्यनानेअर्थे स्मशानमां काउसगधरीरह्योठे एटलामांश्रीवीरस्वा मीराजगृहनगरेंसमोसखाठे नगरलोकसर्व जगवंतने वांदवाजायठे एटलामांकोइए क बेवणिक तेक्तिप्रतिष्ठितनगरथीआव्याठे तेमांथीएकवणिक प्रसन्नचंद्रराजर्षिने जोइबोव्यो केधन्यठेआपणाराजानेजे राज्यलक्ष्मीतृणनीमाफकत्यजीने ध्यानाधिरूढथ को उग्रतपकरेठे तेसांजलीबीजोवणिकबोव्यो केअहोधिःकारठेएनातपने एनुंमुखजो वायोग्यनथी केमकेएबापडाबालकपुत्रने राज्यआपी मूढथइनिकव्यो अनेपाठलतो सीमाडेबीजाराजायेंआवीनेबालकनुंराज्यहरीलेवानगरघेखुंठे नगरतथादेशनालोकसर्व अनाथथयाथका बहुतलपेठे माटेदेशजांगसे घणुंअनर्थथाशे तेथीएतेंधुंधर्मआराधेठे ते सांजलीप्रसन्नचंद्रराजर्षि ध्यानथीचूकीने चिंतववालागो केअहोमुजबेठा माहारुं राज्यले एवोकोणठे एमरौइध्यानमां व्याप्तथइने मनसार्थेज महासंग्रामकरवामांमघो तेसमयेंश्रेणिकराजा श्रीवीरने वांदवाजातांमार्गमां तेकाउसगधरसाधुदेखी जक्ति पूर्वकवांदी तेहनीउग्रतपस्याने अनुमोदतो समोसरणेपहोतो त्यांश्रीवीरनेवांदिनेपु ठ्युं जेस्वामीएप्रसन्नचंद्रराजर्षि ध्यानाधिरूढअवस्थामां मेंवांथो तेअवस्थाने समयें काल करतो शीगतिपामें जगवंतेंकहुं सातमीनरकपामें तेसांजलिश्रेणिकसंत्रांतथइर ह्यो हवेप्रसन्नचंद्रराजर्षियें मनथीसंग्रामकरतां सर्वशत्रुहस्या अनेएककोइमहोटा श त्रुनीसाथेयुद्धकरता आयुधसर्वनष्टथयाठे त्यारेजाणुंजे माथेंलोहनोटोपपहेखोठे ते लश्नेशत्रूनेमारुं एमचिंतवी माथेहाथनाख्यो एटलेमस्तकतत्कालनुं लोचितमुंनदेखी

ने मनमांसवेगपाम्यो पश्चात्तापकरवालाग्यो हाहायामेष्टुंधुर्ध्यानचितव्युं मिष्ठामिडुक
 डवेवालागो एवामांफरीश्रेणीकें वीरनेपुठ्युं हेस्वामीयासमये राजर्षिकालकरेतोशीग
 तिपामे जगवंतेअनुत्तरविमानकद्युं तेसांजलीविस्मितयइने श्रेणिकेपुठ्युं कहोस्वा
 मी पहेलेप्रश्रेतोतमे नरककह्यो तेएतपस्वीनेकेमसंजवे अनेएकमुहूर्तनेअंतरे अनु
 त्तरविमानकद्युं तेपणअसमंजस अथवा चांतेकरीनेमें अन्यथासांजल्युं तेवारेंज
 गवंते यथास्थित सर्ववृत्तांतेंकरी श्रेणिकनोसंदेह टाल्यो एटलामां देवडुंजिनो
 नादसांजलीने श्रेणीके पुठ्युं हेस्वामि आमहोत्सवक्यांथायठे जगवंतेकद्युंजे प्रस
 न्नचंद्रराजर्षिने केवलज्ञानउपनुं त्यांदेवता महोत्सवकरेठे एमएप्रसन्नचंद्रराजर्षिने
 एकमुहूर्तनेअंतरे मननोव्यापार नरकहेते अनेमुक्तिहेतेपणथयो ॥

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण ध्यानं नैकेंडियादिषु ॥ धर्म्यं

शुक्लमनःस्थैर्यं नाजस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवेपवनसाधनादिकथी मननोरोधनिरर्थकठे तेकहेठे केवलमननीअप्र
 वृत्तिजे मनोव्यापाररहितपणुं तेणेकरीने एकेंडियादिकजे एकेंडिय बेंडिय तेंडिय चौ
 रेंडिय असंझिपंचेंडिय तेहनेविषेध्यानजे मनोरोध लक्षण तेजुंनथी एटलेपवनसा
 धनादिक मनोरोधकरवाथी जोध्यानथायतो एकेंडियादिकनेविषेथाय केमकेतेहनेस्व
 नावथीज मननेअनावेंकरी मनोव्यापारनीप्रवृत्तिनथी तेथीपवनसाधनादिकतेकोइस
 माधिलक्षण ध्याननोउपयोगीनथी श्वासरोधादिक क्लिष्टकर्मथी साहसुं मनआर्तियें
 व्याकुलथाय पणजेधर्मध्यान अनेशुक्लध्यान तेणेकरीने मननीस्थिरतानेजजे एवाजे
 ध्याननाकरनार तेनेज स्तवियेंठैयें एटलेध्यानते तेनुंजप्रमाणठे इतिनावः ॥ ४ ॥

सार्थं निरर्थकं वा यन्मनः सुध्यानयंत्रितं ॥ विरतं

दुर्विकल्पेभ्यः पारगांस्तां स्तुवे यतीन् ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेध्यानेकरी जेहनुंमनसार्थकके ०सफलठे अथवानिरर्थकके ०निष्फलठे
 तोपण शुनध्यानेकरियंत्रित एटले सांकलूथकुं दुर्विकल्पजे अशुनकार्यनामनोरथ ते
 हथीनिरम्युंठेतोतेसदाध्यानजठे एहवाजे संसारनापारगामी साधुतेहने दुंस्तबुंठुं ॥५

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण मौनं के के न बिभ्रते ॥ निर

वद्यं वचो येषां वचोगुप्तास्तु तांस्तुवे ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेवचनयोगनुं संवरउपदेशठे केवलवचननीअप्रवृत्ति एटलेमात्र वच
 ननेज अणउचरवेकरीने कोणकोणएकेंडियादिक तथा पंचेंडियमापण रोगविज्ञे

षथी तथामनुष्यमांपण मुंगाबोबडाप्रमुखप्राणी मौनपणानेनथीधरतासुं एटलेतेसर्वमौ
नपणोजधरेठे तोतेशी तेहने वचनगुप्तिवंतनकहियें पण जेहनुंवचन निरवद्यके० पाप
रहितहोय एटलेवचनबोझ्यानी शक्तिठतांपण सर्वथासावद्यवचननबोले तेनेवचनगुप्ति
वंतकहियें तेवानेहुंस्तबुं पणमात्रमौनपणोज धस्याथी वचनगुप्तिवंतनकहियें ॥६॥

निरवद्यं वचो ब्रूहि सावद्यवचनैर्यतः ॥ प्रया

ता नरकं घोरं वसुराजादयोद्भुतं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हवेदृष्टांतेकरीने सावद्यवचननुं अनिष्टफलदेखाडेठे हेप्राणितुं पापरहि
तवचनबोल केमके सावद्यवचनेकरीने वसुराजा प्रमुख ते घोररौइ एहवोजे नरक
तेने पाम्यां तेवसुराजानोसंबंध श्रीहेमाचार्यकृत रामचरित्रमांथी विस्तारेंजोइलेवो ए
मजाणी असत्यवचन सावद्यवचननो परिहारकरवो ॥ ७ ॥

इहामुत्र च वैराय दुर्वाचो नरकाय च ॥ अग्निद

ग्धाः प्ररोहंति दुर्वाग्दग्धाः पुनर्नहि ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ वलीतेहिजकहेठे जेदुर्वचनो तेअज्ञवमां अनेपरजवमांपण वैरकारीथा
य अनेवलीनरकदाइपणथाय जेमाटेअग्नियेंकरीदाधाजेवृद्धादिक तेफरीनवपल्लवथा
य पण दुर्वचननादाधाजेमनुष्य तेनवपल्लवनथाय एटलेस्नेहांकुर तेनेप्रगटेनही केम
के डुरवचनथी उपनोजे वैरजाव तेजन्मांतरेपणनमटे इतिजावः ॥ ८ ॥

अतएव जिना दीक्षा कालादाकेवलोज्ञवं ॥ अव

द्यादिजिया ब्रूयु ज्ञानत्रयज्ञतोपि न ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ एटजामाटे दीक्षालीधापठे केवलज्ञानउपजेंतिहांलगें जिनजेतीर्थंकरदेव
तेमति श्रुत अवधि एत्रणज्ञानना धारकठतांपण अवद्यजेपाप तथाआदिशब्दथी
वचनते ध्यानविधातादिकठे एमजाणी तेहनानयथी बोलेनही यद्यपि जगवंतने ठ
अस्थपणे मनपर्यवज्ञाननी सत्ताहोय तथा पिइहांत्रणज्ञानना धारककह्या तेजाणि
येंठैयेंजे मनपर्यवज्ञाननुंतो मात्र मननो पर्यायजाणवानुंज साम्यर्थेठे तेमाटेआ
चार्ये इहांकयुंनही अनेउपाध्यायश्री रत्नचंद्रगणिकृत एजग्रंथनी टीकामांपण एम
जलखुंठे वलीविशेषबुद्धिवंतेविचारवुं ॥ ९ ॥

कृपया संवृणु स्वांगं कूर्मा ज्ञाननिदर्शनात् ॥ सं

वृतासंवृतांगा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥ १० ॥

अर्थ ॥ हवेकायसंवरकहेठे हेप्राणि तुंकरुणार्थेंकरीने कांचबानादृष्टांतनानि

दर्शनथकी पोतानीकायानेसंवर केमके कायानासंवरवंत अने असंवरवंतते अनुक्रमे सुखअनेदुःखपामे एटलेकायाना संवरवंततेसुखपामे अनेअसंवरवंतते दुःखपामे जे मबेकाचबाहता तेमांथीएकेपोताना अंगसंवख्यातो पापीशीयालथीमृत्युनपाम्यो अ ने बीजेपोतानाअंगसंवख्यानही तो पापीशीयालथी अकालमृत्युपाम्यो एदृष्टांत सवि स्तरपणे श्रीज्ञातासूत्रना चोथाअथ्येनथी जाणवुं ॥ १० ॥

कायस्तंजात्र के के स्यु स्तरुस्तंजादयो यतः ॥ शि

वहेतुः क्रिया येषां कायस्तांस्तु स्तुवे यतीन् ॥ ११ ॥

अर्थ ॥ केवलकायने स्थिरतामात्रथीतोतरुजे वृद्ध तथा अचेतनजे स्तंजादिक ते कोणकोणसंवरवंतनथी अर्थातजेकोइ कायव्यापारना असमर्थते तेसर्वकायसंवरवं तजठे पणजेहनीक्रियाजे कायव्यापार तेमोहनेअर्थेहोय तेहने कायगुप्तिवंत कहियें ठैयें जेकायव्यापारने ठतेसामर्थे पण अशुनकायव्यापारने रुंधे अनेशुनक्रियानो खप करे तेहने कायगुप्तिवंतकहियें इतिचावः ॥ ११ ॥

श्रुतिसंयममात्रेण शब्दान्कान् के त्यजंति न ॥

इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ हवेपंचेंडियनुं संवरकहेते तेमांप्रथम श्रोत्रेंडियआश्री कहेते केवलकानना व्यापारना निरोधथकीज कोणकोणएकेंडिय बेंडिय तेंडिय चोरेंडिय तथापंचेंडियति र्यच अनेमनुष्यमथ्येपण बेहेराप्रमुखजे श्रोत्रेंडियेंविकल होय तेशब्दनाविषयने नथी त्यजतासुं अर्थातत्यजेजठे पणजेवारेंइष्टजे मृदंगादिवाजित्र तथास्त्रीकोयलप्रमुखना शब्द अनेअनिष्टजे खर तथाघूक प्रमुखनाशब्द नेविषे रागअनेद्वेषत्यजे तेवारेंमुनिथाय

चक्षुःसंवरमात्रात्के रूपालोकास्त्यजंति न ॥

इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १३ ॥

अर्थ ॥ केवलनेत्रव्यापारनेज तजवाथकी कोणकोण एकेंडिय बेंडिय तेंडिय त था अंध मनुष्यादिक तेदृष्टिविषयने नथीत्यजतासुं अर्थातत्यजेजठे पणइष्टजे स्त्रीनां कटाह नाटकप्रमुख तथाअनिष्टजे अमेध्य बीनत्सप्रमुख एवाजेएदृष्टिनाविषय तेह नेविषे राग अने द्वेषने त्यजे तेवारें ते मुनिथाय ॥ १३ ॥

घ्राणसंयममात्रेण गंधान् कान् के त्यजंति न ॥

इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १४ ॥

अर्थ ॥ केवलनाकना व्यापाररहितपणाथी कोणकोण शुनाशुनगंधने एकेंडिय

बेंडियादिक तथाबीजापण प्राणेंद्रियें विकलथयेला प्राणि नथीत्यजतां अर्थात्त्यजेजठे पणइष्टजे फुलप्रमुख अनेअनिष्टजे अमेध्यादिक एवाजेगंध तेहेनेविषे राग अने द्वेषत्यजे तेवारें तेमुनिथाय ॥ १४ ॥

जिह्वासंयममात्रेण रसान्कान्के त्यजंति न ॥

मनसा त्यज तानिष्ठान् यदीदृशसि तपःफलं ॥ १५ ॥

अर्थ ॥ केवलजिह्वाना संवरमात्रथीज कोणकोणशुनाशुन रसने पृथ्वीकायादिक एकेंद्रिय तथाबीजापण जावरसनेंद्रियथी विकलथयेलाप्राणी ते नथीत्यजतासुं अर्थात्त्यजेजठे पणहेआत्माजो तुं तपतुंफलवांठे तो तेजेइष्टवांठित मधुरादिकरस तेने मनसाकहेतां मनोयोगपूर्वक समता परिणामेकरीनेत्यज ॥ १५ ॥

त्वचःसंयममात्रेण स्पर्शान् काम्के त्यजंति न ॥

इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ केवलत्वचाजे स्पर्शनेंद्रिय तेहनो संयमजे स्पर्शज्ञानना नलेवानी शून्यता तेणेकरीने कोणकोणप्राणी शुनाशुनस्पर्शने नथीत्यजता अर्थात्त्यजेजठे यद्यपि एकेंद्रियादिक सर्वजीवने स्पर्शतुं विषयहोयठे तथापिकुष्ठादिक रोगनावशयकी त्वचानीबहिरिनाधणीने स्पर्शतुंज्ञाननजहोय एजावठे पणइष्टजेस्त्रीस्पर्शादिक तथा अनिष्टजे ताप शीत मांस मसा प्रमुखनेविषे राग द्वेषनेत्यजे तेवारेंजमुनिथाय ॥ १६ ॥

बस्तिंसंयममात्रेण ब्रह्म के के न विभ्रते ॥

मनःसंयमतो धेहि धीर चेत्तत्फलार्थसि ॥ १७ ॥

अर्थ ॥ हवेवलीस्पर्शनेंद्रियमां विशेषकहेठे बस्तिके० मूत्राशय एटलेगुह्येंद्रिय ते नासंवरमात्रथीज ब्रह्मचर्यधारणनथीकरतां सुं एटले नारकी संमूर्धिमपंचेंद्रिय प्रमुख तथा पुरुषरूपनपुंसक अने स्त्रीरूपनपुंसक इत्यादिक कोणकोणप्राणी मैथुननीअशक्तिथी शीलधारणनथीकरता एटलेतेसर्व ब्रह्मचर्यवंतजठे पणपरिणामविना असक्तिथीपालतुं तेनिष्फलठे माटेहेधीरआत्मा जो तुंब्रह्मव्रतनाफलनो अर्थाहोयतो मनने संवरेंकरीने ठतीशके ब्रह्मव्रतधारणकर ॥ १७ ॥

विषयेंद्रियसंयोगा ज्ञावात्के के न संयताः ॥ राग

द्वेषमनोयोगज्ञावाद्येतु स्तवीमि तान् ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ हवेसामान्यथी सर्वेंद्रियादिक तेहनोसंयोगजे एकत्रंमलतुंते हनाअजावथी कोणकोणसंवरवंतनहोय एटलेविषयनोयोग मळ्याविनासर्वेंसंवरवंतजठे पण

जेमहापुरुषे ते तो विषयादिकनो योगवतांपण रागदेष अने मनयोगना अजावथी
एटलेजेमनथकी रागदेषरहितपणे संवरवंतळे तेअनेहुंस्तबुं ॥ १८ ॥

कषायान् संवृणु प्राज्ञ नरकं यदसंचरात्॥

महातपस्विनोप्यापुः करटोत्करटादयः ॥१९॥

अर्थ ॥ एमइंडियआश्रित संवरकहीने हवेकषायआश्रितकहेळे प्राज्ञके० हेवि
वेकीप्राणी कषायजे क्रोधादिक तेनुंतुंसंवरकर केमकेएकषायना असंवरथकी करम
अने उकरम प्रमुख महातपस्वी महानुजाव तेपणनरकनेपाम्या एकरड अनेउकरड
बे ब्राह्मणमासीयाइ जाइहता ते वैराग्यथकी दीह्नालइ उग्रतपकरी अन्यदाकुणालान
गरियें कोटनाधरनालामां चोमासुंरह्या तिहांनगरना जलप्रवाहनेपूरें साधुरखेतणा
इजाय एमजाणीदेवतायें कुणालानगरीउपर वरसादयंजाव्यो कुणालाशिवायबीजे
सर्वत्रवर्षादिवरस्युं केटलेक दहाडे तेवातजाणी नगरलोकें ताडनातर्जनाकरी तेसाधु
नेकाढ्या तेवारें क्रोधशेखर करमबोव्यो वर्षमेघकुणलायां तेवारें उकरमबोव्यो दि
नानि दश पंच च वलीकरमबोव्यो मुशलप्रमाणधारानिः वलीउकरमबोव्यो यथारात्रौ
तथा दिवा तेवचनथी अहोरात्रमुशलधारार्यें कुणालानगरीउपर मेघवूठो तेहथीकु
णालानगरी लोकसहिततणाइगइ महाअनर्थथयो तेवारपठें त्रीजेवषें साकेतपूरें ते
पापनेअणआलोवेठते करमअनेउकरडबेमरीने सातमीनरके कालनामा नरकावास
मां बत्रीससागरोपमनेआयुषें नारकीपणे अवतत्या एमजाणी कषायनोसंवरकरवो.

यस्यास्ति किंचिन्न तपोयमादि ब्रूयात् स य तत्तुदतां परान् वा ॥ य

स्यास्तिकष्टाप्तमिदं तु किं न तद्भ्रंशनीः संवृणुते स योगान् ॥२०॥

अर्थ॥हवेवलीमनोयोगादिकनो संवरकहेळे जेप्राणिनेकांइ तपसंयमादिकनथी अ
विरतिळे तेप्राणिजेमतेम असंबंधबोले तथाअन्यजीवनेपीडाकरे एटले अत्रती जेजेअ
कृत्यकरे तेतेघटेळे पणविरतिवंतप्राणितो एतपसंयमादिक घणुंजकष्टेंप्राप्तिथायळे ए
मजाणी तद्भ्रंशनीःके० रखेमहारांतपसंयमनो विनाशथाय एमबीहीतोथको मनोयो
गादिकने केमनसंवरे एटलेविरतिवंतने सर्वथासंवरकरवुंज एजावार्थळे ॥ २० ॥

जवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु परं निदानं शिवसंपदा यः ॥ त्यजन्

कषायादिजडुर्विकल्पान् कुर्यान्मनःसंवरमिद्धीस्तं ॥ २१ ॥

अर्थ ॥ हवेवलीमननासंवरनुं आधिक्यतापणुकहेळे जेमननो संवरळे ते बीजा
जेटला संवरळे तेसर्वमां मोहसंपदानुं परमकारणळे ते माटे विशेषबुद्धिवंत

पुरुषतो कषायादिकथीउपनाजे कुविकल्पते त्यजतोथको मननोसंवरकरे एटले मु
क्तिनुं मुख्यकारणजाणीने विवेकीपुरुषे प्रथममननुं संवरकरवुं इतिनावः ॥ ११ ॥

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगताज्ञाक् सततं सुखेन॥
निःसंगतावादथ संवरस्तद्वयं शिवार्थी युगपद्भजेत ॥१२॥

अर्थ॥हवे ए अधिकारनो उपसंहारकहेढे तेमाटे एमपूर्वोप्रकारें कृतसंवरके० संव
रवंतजे आत्मा तेसदाकालें सुखेकरीने निःसंगपणानेनजे अथवा वली निःसंगपणाथी
संवरथाय एटले एबेहुनो अन्योन्यकार्यकारण नावजाणवो केमके कोइकनेनिःसंग
पणाथी संवरआवे अनेकोइनेसंवरथी निःसंगतापणुंआवे माटेमोहार्थीपुरुष तेसंव
र अनेनिःसंगता एबेनेसमकालेसेवे ॥ १२ ॥ इति श्रीअध्यात्मकल्पदुमे मिथ्यात्वादि
संवरोपदेशाख्य श्रतुर्दशोअधिकार समाप्त ॥ १४ ॥

अथ शुचप्रवृत्तिशिक्षोपदेशः॥आवश्यकेष्वतनु यत्नमाप्तौ दितेषु शुद्धेषु त
मोपहेषु ॥ न हंत्यनुक्तं हि न चाप्यशुद्धं वैद्योक्तमप्यौषधमामयापहं॥१॥

अर्थ ॥हवेशुचप्रवृत्तिशिक्षा एहवेनामे पन्नरमोअधिकारकहेढे एअधिकारमां य
तियोग्यशिक्षा यतीनेजाणवी अनेश्रावकयोग्यशिक्षा श्रावकनेजाणवी इहांप्रथम आ
वश्यक करवायोग्यजाणीने आवश्यकआश्रथी उपदेशकहेढे हेसाधु तथा हेश्रावक
तुं पापनानिवारक अनेसर्वज्ञनाषित एवांजेशुद्धनिर्मल आवश्यक सामायिकादिक
तथाअवश्यकरणीय पोसह उपवास आलोयणादिक तेहनेविषेउद्यमकर तेनाउपर
दृष्टांतकहेढे जेम वैद्यनुकसुंजेअौषध तेनखाधुंथकुं तथाअशुद्धजेकाचुं हरितालप्रमुख
तेखाधुंथकुंपण रोगनिवारक नथाय तेम सर्वज्ञनाषित आवश्यकजाणीनेपण तेह
नीक्रियानकरीयें अथवाअशुद्धक्रियाकरियें तोतेहथीकर्मकृत्यनथाय तेमाटेदोषरहित
शुद्धक्रियायेंकरी आवश्यकदिकनोउद्यमकरवो एउपनयते इहांप्रसंगथी सामायिकना
दोषलखियेंढैयें १ वखंतथानुजायेंकरीने पलांठीबांधे २ आसनआधुपातुंफेरवे ३
चपलपणोसर्वदिशायेंजोवे ४ गृहसंबंधीसावद्यकर्मकरें ५ चिंतीस्थंजादिकेंओतंगीबे
से ६ अंगोपांगमोडे ७ आलसमोडे तथाधर्मकार्येंआलसकरे ८ हाथपगेंकरकडा व
जाडे ९ शरीरनोमेलउतारे १० खाजिखणो ११ विसामणकरावे १२ निडाकरे ए
बारदोषकायथकीजाणवा तथा १ कुवचन कोइनुंमर्मनिंदादिकबोले २ सहसात्कारे
अविचासुंबोले ३ आर्तिमयविसंस्थलवचनबोले ४ आपढंढेंबोले ५ सूत्रनणतो अ

अवानवकारगुणतो वचनसंक्षेपकरे ६ कलहविवादकरे ७ राजकथादिकविकथाकरे ८ हास्यनावचनकहे ९ संपदारहितसूत्रनणे १० जावाआववानाआदेश आपे एद शदोषवचनशीजाणवा वली १ निर्विवेकीमनेकरे २ यशकीर्तिनीवांठार्येकरे ३ धनला जनेअर्थेकरे ४ गर्वशीकरे ५ जयशीकरे ६ धनपुत्रादिनेअर्थेनियाणुंकरे ७ सामायिकनाफलनो संदेहकरे ८ रीसधरीसामायिककरे ९ विनयरहितसामायिककरे १० चक्तिरहितसामायिककरे एदशदोषमनशीउपजे एम मन वचन अने कायाना मलीने बत्रीशदोषसामायिकनात्यजवा तथावांदणाना ३२ दोष अने काउसग्गना १ए दो ष ते जाष्यादिक ग्रंथशी जाणीने त्यजवा ॥ १ ॥

तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं मुखे कटून्यायतिसुंदराणि ॥ वि
घ्नंति तान्येव कुकर्मराशिं रसायनानीव छुरामयान् यत् ॥२॥

अर्थ ॥ हवेतपप्रवृत्तिआश्रयीउपदेशेठे मुखके ० प्रथमकरतीवेलायेतो सुखतृषादि कसहेवांपडे तेमाटे कडवाठे पण आयतिके ० उत्तरकालें सुखनाकरनार एहवांजेवि विधप्रकारना ठठ अठम दशमादिक तप तेनित्येकरवां केमकेतेतपज कर्मनासमूहने निवारेंठे तेउपरदृष्टांतकहेठे जेमरसायन पारो हरिताल सुवर्णादिक औषधिआो तेहिज उवरअनेह्यादिक छुरोगोनेनिवारें तेम इहांपण उपनयजेवुं ॥ २ ॥

विशुद्धशीलांगसहस्रधारी चवानिशं निर्मितयोगसिद्धिः ॥

सहोपसर्गास्तनुनिर्ममः सन् नजस्व गुप्तीः समितीश्च सम्यक् ॥३॥

अर्थ ॥ हवेतपकरनार प्रायेंशीलवंतजोइयें तेमाटेशीलआश्रयीउपदेशेठे हेसाधु तुंविशुद्धनिर्ममएवाजे अठारसहस्र शीलांगरथतेने धरतोथको नित्ये निर्मित योग सिद्धिके ० निपजावीठे अष्टांगयोगनीसिद्धिजेणे अथवायोगजे मनोयोगादिक तेह ना दुःप्रणिधानना निवारवारूप समाधिनी सिद्धिकर एटलेशीलांगधरतोथको मनव चनकायाना योगवशकर एजावार्थेठे वलीदेहनेविषे समत्वरहितथको देवादिकनाक रेला उपसर्ग तेनेसहनकर अनेपांचसमिति तथात्रगुणगुप्ती तेहनेनज ॥ ३ ॥

स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्नं मध्यस्थवृत्त्यानुसरागमार्थान् ॥

अगारवो नैह्मटाविषादी हेतौ विशुद्धे वशितेजियौघः ॥४॥

अर्थ ॥ हवेशीलवंतने मनस्थिरकरवानिमित्त जेसिद्धांतादिकतुं स्वाध्याय नणवुं

जणावबुं तेहनुं योगजे मनवचनकायायेकरी नित्यअन्यास करवानेविषे उद्यमकरे वलीआगमनाजे अर्थ तेमध्यस्थवृत्तिये कदाग्रहरहितपणे अनुसरे एटले कदाग्रहे करीने जिनवचननाअर्थनी परुपणाजूठीनकरे वली अगारवके० रुद्धिगारव रसगा रव सातागारव तेणेरहितथकुं अनेविशुद्धिनिर्मलहेतुजे मोहसाधन तेहनेविषे विषादरहितथकुं एटलेशुद्धक्रियाकरतां अविपिन्नचित्तथकुं अनेवलीवशकीधोठे इन्द्रिय नोसमूहजेणे एहबुंथकुं जैकेजेउंचनीचकुल शुद्धमानआहारतेहनी गवेषणाकरे ॥४

ददस्व धर्मार्थितयैव धर्म्यान् सदोपदेशान् स्वपरादिसाम्यात् ॥

जगद्धितैपी नवजिश्च कल्पै ग्रामे कुले वा विहराप्रमत्तः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेसआयनुंफलते शुनउपदेशठे तेमाटेशुनोपदेशआश्रीकहेठे हेसाधो तुं पोताना अनेपारकानेविषे समानपणे उपदेशकर एटले आमाहारोनकठे दाताठे धनाढवठे एहवानेधर्मकहुं अथवा आ मिथ्यात्वी कृपणदरिडीठे एहवानेउपदेशको एकहे इत्यादिककल्पना त्यजी केवलधर्मार्थीपणेकरीनेज पण आहारवस्त्रादिकने अर्थेनही एप्रकारे नित्यधर्मसंबंधीयाजे उपदेशते कहेतोरहे अनेवली सर्वसंसारीजी वने हितवांठतोथको नवकल्पेकरीने ग्रामनगरादिकनेविषे शुन उपदेशकरतोरहे त थाविहारकरवानी अशक्तें कुजके० ग्रामनगरादिकनो एकप्रदेशतेनेविषे प्रमादरहित थकुं विहारकर इहांकल्पते मागसिरप्रमुख आठमास जेरुतुब६काल तेहनाआठकल्प अनेश्रावणादिक चारमास चोमासना तेनोएकल्प एरीते सर्वमलीने नवकल्प जाणवा

कृताकृतं स्वस्य तपोजपादि शक्तीरशक्तीः सुकृतेतरे च॥ सदा

समीक्षस्व हृदाऽथ साध्ये यतस्व हेयं त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥

अर्थ ॥ हवेशुनोपदेशनाकहेनारने कल्याकृत्यनोविचारजोइये तेमाटेतेआश्रयीकहे ठे हेसाधु तथादेश्रावक तुंपोतानुं तप जप प्रमुखजेकर्म ते कल्याकृत्यकहेतां एटनुंमैकी धुं एटनुंमेनथीकीधुं एहबुंविवेचन तथाशक्ति अनेअशक्ति तथापोतानुंसुकृत अनेडुः कृत एटलांवाणा पोतानामनसार्थेसदायविचारीने तेवारपठे मोहार्थीथकुं साध्यजे साधवायोग्य तपोनुष्ठानादिक तेहनेविषेउद्यमकर अनेवली हेयकहेतां त्यजवायोग्य जेविषयकषायादिक तेहनेत्यज सत्पुरुषने चित्तरूपिणीनूमिनेविषे गुरुपदेश तेबीज वृद्धिरूपहोय पठेतेमां विचाररूप जलनासिंचवाथी सुकृतरूपवृद्धि विस्तारपामेते माटे मोहार्थीये हेयउपादेयझेयना विचारपूर्वक धर्मोद्यमकरवो ॥ ६ ॥

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदाऽस्तु ॥
साम्यैकलीनं गतञ्जुर्विकल्पं मनोवचश्चाप्यनघप्रवृत्ति ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हवेजेविचारवंतहोयते त्रियोगीनिर्मलजोइयें तेमाटेतेआश्रयीकहेढे हेआ
त्मात्रियोगीजे मनवचनकायाना त्रणेयोगतेणेकरी सदाइंनिर्मलथा एटजेसर्वजीवउप
रें हितबुद्धिराखीने मनवचनकायानायोग निर्मलकर एजावार्थेढे केमके परनेपीडा व
र्जवाथकी काययोगतो निर्मलथयोज अनेतेकाययोगनी निर्मलताथी मनपणसमता
येंलीन अनेजुर्विकल्परहितथाय तथावचनपण पापव्यवहाररहितथाय इहांआचा
यें काययोग सुगमढे माटे जुदोकरीने नकह्यो ॥ ७ ॥

मैत्रीं प्रमोदं करुणां च सम्यक् मध्यस्थतांचानय साम्यमात्मन् ॥

सज्ञावनास्वात्मलयं प्रयत्नात् कृताविरामं रमयस्व चेतः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हवेएत्रियोगीनेनिर्मलताते मैत्र्यादिजावनाथीथाय तेमाटेतेकहेढे हेआ
त्मातुं मैत्रीतथाप्रमोद तथाकारुण्य अनेमध्यस्थता ए चारजावना तेआत्मानेविषे
आण अनेवलीतेजावनायेंकरी सम्यक्प्रकारें समताआण वली प्रयत्नात्के० पंदि
तवीर्यफोरववाथी चित्तने आत्मलयके० ध्यानलीन अनेध्यानर्था अविषिन्न एहवुं थयुं
थकुं शुचजावनाजे अनित्यादिक तेहनेविषेरमाड ॥ ८ ॥

कुर्यान्न कुत्रापि ममत्वज्ञावं न च प्रज्ञो रत्यरती कषायान् ॥ इहापि

सौख्यं लजसेप्यनीहो ह्यनुत्तरामर्त्यसुखाजमात्मन् ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ हवेएजावनाआते ममत्वनात्यागथीहोय तेमाटेतेआश्रयीकहेढे हेसमर्थ
आत्मा जोतुंकोइवस्तुनेविषे ममत्वनकरें अनेवली रति अरति अनेकषाय नकरे ए
हवोतुं वांठनारहितथको रहेतो आजवेंज अनुत्तरविमानवासी देवतानाजेवुं सुखपा
में केमके अनुत्तरवासी देवतामां स्वामिसेवकनो व्यवहारनथी तेमाटे संसारिक सुख
जोतां अनुत्तरविमाननो सुखते सर्वोत्कृष्टजाणवुं ॥ ९ ॥

इति यतिवरशिद्धां योऽवधार्य व्रतस्थश्चरणकरणयो

गानेकचित्तः श्रयेत ॥ सपदि नवमहाब्धिक्लेशराशिं

सतीर्त्वा विलसति शिवसौख्यानंत्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥

अर्थ ॥ हवेएअधिकारनो उपसंहारकहेढे एप्रकारें यतिवरजे जलासाधु उपजहू

एथी नजाश्रावकपणजेवा तेसंबंधीनीजेशिहा तेनेचित्तमांधरीने एकाग्रचित्तथकुं चर
एकरणयोगजे चरणसित्तरी अनेकरणसित्तरीनागुण तेनेजेसेवे तेसाधु तथा ते श्रावक
शीघ्रके० उतावजुं क्लेशदुःखना समूहरूपजे संसारमहासमुद् तेथकीतरिने मोहसु
खनुं अनंतपणुं तेहनुं सायुज्यके० जेसहचारीपणुं तेपामीने वलीमोहनाअविनाशीसु
खनीपरे पोतेपणत्यां अविनाशीजावपामी विलसतिके० सर्वदासुखनेअनुनवे ॥१०॥
इति श्रीअध्यात्मकल्पदुमेऽद्युनप्रवृत्तिशिक्षोपदेशाख्यः पंचदशोअधिकारसमाप्त.

अथ ग्रंथोपसंहाराय साम्यसर्वस्वं ॥ एवं सदान्या
सवशेन सात्म्यं नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ॥ यतः
करस्थाः शिवसंपदस्ते नवंति सद्यो नवनीतिजेतुः ॥ १॥

अर्थ ॥ हवेग्रंथनाउपसंहारनेअर्थें साम्यसर्वस्वनामें सोलमोअधिकारकहेणे हेप
रमार्थनाजाण विवेकीपुरुष तुंएमपूर्वोक्तप्रकारें अन्यासवशेंकरीने साम्यजेसमता ते
हने सात्म्यकहेतां आत्मासाथे ऐक्यपमाड जेसमताथी नवनीतजे संसारसंबंधी
नय तेहनेजेदवावांढतो एवोजेतुं तेतुजने मोहनी संपदाओ ते तत्कालमात्र करस्था
कहेतां हस्तप्राप्तथाय ॥ १ ॥

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव त्वमेव शर्मापि शिवं त्वमेव ॥ त्व
मेव कर्माणि मनस्त्वमेव जहीह्यवज्ञा मवधेहि चात्मन् ॥२॥

अर्थ ॥ हवेआत्माने अविद्यानोपरिहार अनेसमतानुंधरवुं कहेणे हेआत्मातुंडुः
खनेकारणें प्रवर्त्यो माटे दुःखतेतुंजणे एमआगलपण सगलीवस्तुनुं आत्माजकार
णरूपजाणवुं वलीनरकनुंकारणतेपणतुंजणे वलीसुखपणतुंजे अनेमुक्तिपणतुंजे व
लीकर्मपणतुंजे अने मनोव्यापारना प्रकाशकपणाथी मनपणतुंजे तेकारणमाटे अव
ज्ञाजेधर्मकार्यनेविषे अनादरकरवो एटजेहमणा धर्मनथीथातो तोपठेकरीश इत्यादि
क कल्पना त्यजोने अवधेहिकहेतां धर्मकार्यनेविषे सावधानरहे ॥ २ ॥

निःसंगतामेहि सदा तदात्मन्नर्थेष्वशेष्वपि साम्यजावात् ॥
अवेहि विघ्नममतैव मूलं शुचां सुखानां समतैव चेति ॥ ३॥

अर्थ ॥ हवेसर्वत्रपणे निःसंगपणानुं प्राध्यान्यपणुकहेणे हेआत्मा तेकारणमाटे
सकलपदार्थनेविषे समताजावथी सदाय निःसंगपणाने पाम अनेवली हेनिपुणप्राणि

सकलशोकनुमूल ते ममताजठे अनेसकलसुखनुमूलते समताजठे एहवुं जाणीने म
मताने त्यज अने समताने आदर इतिजावः ॥ ३ ॥

स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा संपदि प्रसरदापदि चात्मन् ॥ त
त्वमेहि समतां समतामुक् येन शाश्वतसुखाद्यमेपि ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेनिःसंगताते ममत्वमुकवाधीजघायठे तेमाटेममतात्यजवानुं उपदेशे
ठे हेआत्मा ते पूर्वोक्तकारणथी तुंममतारहितथको स्त्रीनेविषे अनेधूलिनेविषे वली
स्वजननेविषे अनेपरशत्रूनेविषे तथा वलि संपत्तिनेविषे अने विस्तारपामतीआपदाने
विषे समतानेपामवेकरीने सरखोपरिणामराखजे एटलेमोहसुखनोकोक्ताथाइश ॥४

तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्ना दधीष्व शास्त्राण्यपि तानि विदन् ॥ न दे
वतत्वं परिज्ञावयात्मन् येभ्यो ऋवेत्साम्यसुधोपज्ञोगः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेसमतातेज सकलपदार्थनो सारकरीनेउपदेशेठे हेविदन् हेआत्मन्
तुंउद्यमकरीने तेहिजगुरुनेसेव अनेगुरुसेवनाकरीनेशास्त्रपण तेहिजण तथाशास्त्र
जणीने तत्वरहस्यपण तेजचित्तमांचितव केजेगुरुथी अनेशास्त्रथी तथाजेतत्वथी सम
तारूपीयुं जेअमृत तेनोउपज्ञोग आस्वादपामे एटलेजेजेपदार्थनेतुं समतानुंकारणजा
णें तेतेपदार्थनुंस्वरूपकर केमकेबीजासर्वपदार्थ तेनिरर्थकठे ॥ ५ ॥

समग्रसत्तास्त्रमहाणिवज्यः समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयं ॥ निपी
यतां हे विबुधा लजेध्व मिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां यत् ॥६॥

अर्थ ॥ हवेआचार्यग्रंथने उपसंहरतो ग्रंथनीउपादेयतादेखाडेठे हेपंफितजनो
तमेसमग्र जजांजे धर्मशास्त्र तेरूपीयो जेमहासमुइ तेहथीउधखुंजे एसमतारूपियुं
सुधारसके० अमृतरसतेप्रत्ये तुमें पीयतांकहेतां आदरसहितसांजलो तथाजणो जे
थी तमेआलोकेपण मुक्तिनासुखनी वर्णिकाकहेतां वानगीनेपामो केमकेसमतारस
मय जीवते आलोकेपण मुक्तिसुखने अनुजवेठे ॥ ६ ॥

शांतरसजावनात्मा मुनिसुंदरसूरिभिः कृतो ग्रंथः ॥

ब्रह्मस्पृहया ध्येयः स्वपरहितोध्यात्मकल्पतरुरेषः ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हवेग्रंथनेठेडे आचार्यपोतानुंनाम अनेग्रंथनुंनाम जणाववाकहेठे स्व
परहितकहेतां ग्रंथकर्त्ताने तथापरजेश्रोताप्रमुख एबेहुनेहितकारी एबोजेआअध्या

त्मकल्पद्रुमनामेग्रंथ तेतपगङ्गाधिराज श्रीमुनिसुंदरसूरियेकीधो ते एग्रंथ पंक्तितें ब्रह्मजेज्ञान तेहनी वांढायें नएवुं अथवा ब्रह्मजे मुक्ति तेहनीवांढायें चिंतववुं ॥ ७ ॥

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं नवाडाक् ॥ स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह नववैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हवेफलोपदर्शन द्वारें मंगलगर्जित उपसंहार वाक्यकहेढे जेमतिवंत पुरुष अथ्यात्मकल्पद्रुमनामे ग्रंथनेजणि पोताना चित्तनेविषेरमाडे रात्रदिवसचिंतवे तेपुरुष संसारथकी थोडाकालमां विरक्तथाय अनेवलीएहनाज चिंतनथी तेपुरुषनेविषे संसाररूपीया शत्रुनीजे जयलक्ष्मी तेणोसहित शिवश्रीजेमोक्षलक्ष्मी तेमां रमिके ० आश्रयीनेरहे एटलेतेसंसाररूप शत्रुनेजीतीने मोक्षरूपलक्ष्मीपामे. इतिअथ्यात्मकल्पद्रुमे साम्थसर्वस्वनामा षोडशोधिकारः समाप्तः ॥ १६ ॥

ए श्रीअथ्यात्मकल्पद्रुमनामे ग्रंथनो बालावबोधार्थे उपाध्यायश्री रत्नचंद्रगणिकृत तथाउपाध्यायश्री विद्यासागरगणिकृत एबेटीकाजोइने में महारीबुद्धिने अनुसारें मुज सरखा स्वल्पबुद्धिवंत प्राणिना उपकारने अर्थें लेशमात्र लख्योढे तेमां अनानागथी तथाअज्ञानथी तथात्रांतिथी जेकांइसूत्रना तथाटीकाना अनुसारथी थोडुंअधकुं अयुक्त लखाणुंहोय तेहनुं मिठामीडुकुं अथवाकिहांएक सुगमपणानेअर्थें किहांएक साहचर्यथी किहांएकरूढिथी जेकांइ विनक्ति वचन लिंग कारक अन्वय प्रमुखनो विपर्यास कीधो होय तेअपराध बहुश्रुत गीतार्थेखमवो तथा उपकारबुद्धे अष्टुं टालिने शुद्धकरवुं.

अथ प्रशस्तिः ॥ श्रीमत्तपगणगगनां गणनासनतरुणतरणिनिजः ॥ श्रीराजविजयसूरिर्वनूव बुवि नूरि वितानयशाः ॥ १ ॥ योत्याक्षीद्विजवं घनं सुविहितानुष्ठानबद्धादरो लोकं कोकमिव प्रबोधमनयज्ञोनिश्च गोस्वामिवत् ॥ ठित्वादीकिटदर्पमुज्वलपटांश्रुके विशोषोज्वलान् यो वाचाजितमालवेश्वरसितह्वत्रप्रजावोज्वलः ॥ २ ॥ रत्नत्रयप्रथितसंयमनृत्तदीय पट्टेष्वरत्नविजयावहयसुरिरासीत् ॥ येन प्रशांतरजसा प्रशमार्णवेन रत्नाकरायितमनल्पगुणौघरंजैः ॥ ३ ॥ तस्यान्वये निखिलनूतलगीतकीर्तिः श्रीहीररत्न इतिसूरिवरो विरेजे ॥ स्वर्गं गतोप्यखिलनक्तसमीहितानि योद्यापि पूरयति नव्य इवामरदुः ॥ ४ ॥ तत्पट्टनूषणमणिर्जयरत्नसूरिः सर्वाग्रणीर्गुणिषु नूरिगुणाश्रयोऽनूत् ॥ श्रीनावरत्न इति नावविदां वरेण्यस्तत्पट्टनूत्कथयति संप्रति सूरिराजः ॥ ५ ॥ श्रीहीररत्नसूरे

मुख्याः शिष्याः सुनिर्मलान्निख्याः ॥ श्रीलब्धिरत्नविबुधाः शास्त्रार्णवपारदृश्वानः ॥ ६ ॥
 श्रीसिद्धिरत्ननाम्ना पाठकवर्यास्तदन्वये तदनु ॥ श्रीहर्षरत्नवाचक, वरा वरीयोगुणैर्व
 द्याः ॥ ७ ॥ लक्ष्मीरत्नगणीशा आसन् दुर्वादिदनुजलक्ष्मीशाः ॥ श्रीज्ञानरत्नगणयस्त
 दाश्रवाः सांप्रतं जयंतु चिरं ॥ ८ ॥ तच्चरणकमलसेवा नृगस्तत्संगसमयतरंगः ॥ सुविहि
 तकव्याणविमल गणिवरविहितार्थिनीनुन्नः ॥ ९ ॥ बालावबोधवार्त्ता मध्यात्मसुरदृ
 माख्यशास्त्रस्य ॥ मुनिहंसरत्न एता मतनोत्तनुबुद्धिसत्वहितां ॥ १० ॥ शोध्यं सुतत्ववि
 ज्जिर्ग्यथो ऽयं धीधनैः प्रवाच्यमानश्च ॥ सन्नावसंपदाढ्यै राचंशर्कं चिरं जयतात् ॥ ११ ॥

इति श्रीमुनिसुंदरसूरिकृतअध्यात्म
 कल्पद्रुमो बालावबोधसहितः संपूर्णः

॥ अथ श्री सीतलनाथष्टकं ॥

वृषनतुव्यगतिं वृषदं सदा व्यजितदर्पकदर्पकज्ञेदकं ॥ अमितशंभवनीतिविवर्जितं
 जिनमहं प्रणमामि सुशीतलं ॥ १ ॥ दृढरथाख्यकुजागनिन्दनं सुमतिधाम विचकृ
 णपुंगवं ॥ षड्विनिर्जितपद्मप्रचं वरं जिनमहं ॥ २ ॥ यमसुपार्श्वविचूषितविग्रहं
 विशदचंद्रप्रचाननबंधुरं ॥ सुविधिरंजितनव्यजनव्रजं जिनं ॥ ३ ॥ विबुधमोदकशि
 तलवाग्नरं सकलश्रेयसिकामकुटोपमं ॥ सुवसुपूज्यपदं शिवदायकं जिनं ॥ ४ ॥ वि
 मलनीरजपत्रविलोचनं गृहमनतगुणस्य रुपापरं ॥ सदयधर्मप्रवृत्ति प्ररूपकं ॥
 जिनं ॥ ५ ॥ जगति शांतिविताननिपादकं धृतशमं किल कुस्थमनिंदितं ॥ विगतदो
 षमरं नविनौनिजं ॥ जिनं ॥ ६ ॥ युगकषायजयप्रतिमद्वजं कनकवर्णधरं मुनिसुव्रतं ॥
 नमत दानवमानवराजितं ॥ जिनं ॥ ७ ॥ विततधर्मरथांगकनेमिकं निखिलविष्टप
 पार्श्वमदूषणं ॥ सबलमोहविनाशनवीरकं ॥ जिनं ॥ ८ ॥ इति स्तुतः श्रीजिनशीत
 लाख्यः स्थितः पुरे रायधनाजिधाने ॥ श्रीवीरचंद्रस्य मजूकचंद्र नाम्ना विनेयेन वशां
 श्रिये स्तात् ॥ ९ ॥ इति श्रीमहतीतलनाथाख्यदशमतीर्थाधिपतेरष्टकं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्री कल्याणसागरसूरिकृत माणिक्यस्वामिस्तवनप्रारंभः ॥

नमःसिद्धेभ्यः॥स्वर्गधराहृदः॥स्वामी माणिक्यपूर्वस्त्रिभुवनतिलकश्चित्तश्रीसुरादि सै
लोकोद्योतकर्ता प्रथिततरयशा श्वित्रकृन्नाममंत्रः ॥ श्रीमन्मोनाजिन्नुपान्वयगगनरवि
मैञ्जुकव्याणकांती राष्ट्रे सद्वह्निणाख्ये निरुपममहिमा ख्यातिकारिप्रतापः ॥ १ ॥ दुत
विजंबितहृदः॥ प्रवरधर्मधनार्पणकामगौरमृतवाग्गुणरंजितनागरः॥रिपुसमूहनिवार
णसङ्गतो वृषभचिन्हितपादकुशेशयः॥२॥ हरिणीहृदः॥ शुभमतिकरश्रंदादित्याधिको
त्तरजास्वर स्त्रिभुवनमणि विश्वाधारो धरेश्वरकीर्तितः ॥ उपशमरसासक्तस्वांतोप्यनंत
चतुष्टयी गुणमणिखनिर्नेष्टारिष्टामयाधिजराव्यथः ॥ ३ ॥ पंचचामरहृदः ॥ अखर्व
देहराजितो यतीश्वरो घृणाप्रशीतमानसः कलाधरः ॥ अनेकलब्धिमंडितो वृषाकरः
शिवाब्धिबृद्धिचंद्रमा नतासुरः ॥ ४ ॥ जुजंगप्रयातहृदः ॥ प्रभुमार्गदेवश्विदाब्दादली
नः सदाचारलीलाविलासातिशाली ॥ महामोहमातंगपंचास्यकहो हितार्थी कलाशि
ल्पविज्ञाननाथी ॥ ५ ॥ मालिनीहृदः॥ जलधिनिजगनीरः सारसारंगघोषो जितविष
यविकारो ज्ञानबुद्धिप्रदाता॥ खलसमिरष्टदाकुर्वदेवाधिराजः समवसरणशोनासिंधु
पुरौघमेघः ॥६॥ नाराचहृदः ॥ श्वेतातपत्रचामरैर्युक्तो मनोज्ञपुञ्जलैः ॥ नव्यांगिराशि
वंदितो धर्मार्थमोक्षसाधकः ॥ ७ ॥ आर्याहृदः॥ देवैर्ध्वेयो विमलः सुंदरवंशो नृपूत्तरा
त्मापि ॥ मान्यः सतामजस्रं सदोदयो वरातिशयधरः ॥८॥ गीतिहृदः ॥ त्रैलोक्या
वाप्तविभुः समस्तगुणरत्नकलितसाधुमनाः ॥ एनस्तमोनिशेशः सुश्लोकैर्धवलिता
श आशादः ॥ ९ ॥ नगस्वरूपिणीहृदः ॥ सदार्यमार्गदेशको प्यमेयजाग्यधारकः ॥
प्रभूतसत्वपालको विवेकनीतिकारकः ॥१०॥ माणवकहृदः॥ दुःखहरो नाकिनुत स्व्य
कमहादोषनरः ॥ पारगतस्तीर्थकरः शीलशाली ज्ञानधनः ॥११॥ तोटकहृदः॥ कम
लाननमोहितसन्यजनः समयार्थनिरूपणरम्यसुधीः ॥ नृशिलीमुखखेलनतामरसः पु
रुषोत्तमपुण्यनिधिर्वरदः ॥ १२ ॥ मणिमध्यहृदः॥ लक्षणपंतया सारतनु निर्जितमा
यालोककलिः ॥ आदृतसाध्वाचाररतिः सादरदेवाधीशपतिः ॥ १३ ॥ चंपकमालाहृ
दः॥ केवलयुग्मालोक्तलोका लोकविनागः संयमितेभ्यः ॥ इन्द्रियबाणाजेदितचेता
श्रंपकमालामंडितगात्रः॥१४॥ हंसीहृदः॥ प्राप्तानंदो भुवनमुकुट स्तीर्थस्वामी विस्तृत
नयनः ॥ सश्रीकात्मा सुरुतनिलयो योगीन्द्रो वै विजितकपटः ॥ १५ ॥ शालिनीहृ
दः॥ आदेयाख्यो मुक्तिजस्फारसौख्यो विश्वोत्तंसो दुष्टकर्मारिहंता ॥ चक्रेश्वर्याराधितो
गोमुखेशः कांताकारश्चोत्तधर्माधिकारः ॥ १६ ॥ केकीरवहृदः॥ जगतीशपूज्यो जयताञ्जि

नेशः कुशलार्थवद्भोततिवारिधारः ॥ विशदावदातावलिचित्तनामा नववार्द्धिपोतः कु
लपाकनाथः ॥ १ ॥ कुलकं॥ इवज्जाठंदः॥ एवं मया संस्तुत आदिदेवो नूयात् सदा
संघगणस्य नूत्यै ॥ हेमं करो विश्वजगत्सुदीपः कव्याणमांगल्यकलापकोशः ॥ १७ ॥

॥ अथ सूर्यपुरीयश्रीसंज्ञवजिनस्तवनप्रारंभः ॥

वसंततिलकाठंदः ॥ कामं नमोऽस्तु सततं जिनसंज्ञवाय चंज्ञाननाय कमलामल
लोचनाय ॥ देहप्रजास्थगितलोकचमत्कराय दुर्ध्यानपादपविजेदनसिंधुराय ॥ १ ॥
देवैः स्तुताय नवसागरपारगाय कीर्तिप्रसूनसुरजीकृतविष्टपाय ॥ सन्मूर्तिकांतिततिरं
जितमानवाय सेनांगकुहिवरशुक्तिकमौक्तिकाय ॥ २ ॥ अब्जोपमाय जिनशासनदीप
काय सूर्यार्ख्यबंदरमनोरममंडनाय ॥ नव्याब्जकाननविजासनजास्कराय नानार्थ
दानहरिचंदनसन्निनाय ॥ ३ ॥ आदेयनामकलिताय गुणाशयाय सिध्यंगनामिलनसादर
लोलुपाय ॥ राक्षांतहार्दिकयनोत्तरकोविदाय तेजःप्रजावयशसामवनीश्वराय ॥ ४ ॥
अज्ञानमोहजयसंज्वरनेषजाय सौजाग्यजाग्यगुणरत्नकरंडकाय ॥ अष्टापदाजतनुव
र्णविराजिताय निर्लोचहंसरतिखेलनमानसाय ॥ ५ ॥ आब्दानमंत्रविनिवारितपातका
य कव्याणसागरतरंगकलाधराय ॥ दुष्टारिचक्रलवणांबुधरोपमाय वाचासुधाश्रवणह
र्षितनागराय ॥ ६ ॥ सद्गर्भमार्गविधिदेशनदेशिकाय दुःखौघवारणमृगैऽपराक्रमाय ॥
लोकातिशायिमहिमाचलनूषणाय गंधर्वलंठनसुशोभितपत्कजाय ॥ ७ ॥ सस्यौघवृद्धि
करणाय जितेन्द्रियाय शुद्धान्वयोन्नतिकराय कृपालयाय ॥ मिथ्यात्वतापशशिचंदनपादपा
य दुष्कर्मवायुशुभ्रजगाय नरार्चिताय ॥ ८ ॥ संकल्पकल्पनविवर्जितमानसाय गांजीर्य्यै
र्यमणिसंज्ञवरोहणाय ॥ सज्ञानबुद्धिघरदाय गुणाकराय कौशल्यवह्निपरिवर्द्धनमंडपा
य ॥ ९ ॥ इवशाठंदः ॥ स्तोत्रं चतुर्थ्यंतविजक्तिसंयुतं ध्यायंति ये संज्ञवदेवरागि
णः ॥ तिष्ठंति तद्दाम्नि गुणाः समृद्धयः कव्याणसंपादनकामधेनवः ॥ १० ॥ शा
र्वूलविक्रीडितठंदः ॥ लक्ष्मीकेलिगृहं सदावलिनतं श्रीसंज्ञवाख्यं जिनं सन्मार्तंडपुरा
मजाचलवरोक्षीषे नवाब्धौ तटं ॥ देवाधीशनरेशशेषपटलैः संसेवितं कामहं मुक्तिस्त्री
सुखरंगलोनमनिशं सेवे मुदा सिद्धये ॥ ११ ॥

॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्तवनप्रारंभः ॥

दुतविज्ञंबितठंदः ॥ सुविधिनाथजिनं नयनामृतं सुविधिनाथजिनं महिमालयं ॥
सुविधिनाथजिनं नररंजनं सुविधिनाथजिनं वरकेवलं ॥ १ ॥ सुविधिनाथजिनं कम
लाकरं सुविधिनाथजिनं नवदं परं ॥ सुविधिनाथजिनं ह्यतिकीर्तिदं सुविधिनाथजिनं

सुविधिप्रदं ॥ २ ॥ सुविधिनाथजिनं रजतहृविं सुविधिनाथजिनं जडतापहं ॥ सुविधिनाथजिनं मकरांकितं सुविधिनाथजिनं जगदंचितं ॥ ३ ॥ सुविधिनाथजिनं रजतांहितं सुविधिनाथजिनं परमेश्वरं ॥ सुविधिनाथजिनं श्रुतसूरिणं सुविधिनाथजिनं शिवपारगं ॥ ४ ॥ सुविधिनाथजिनं शुभदर्शनं सुविधिनाथजिनं जनतानतं ॥ सुविधिनाथजिनं वरदं विभुं सुविधिनाथजिनं नमितासुरं ॥ ५ ॥ अनुष्टुप्ठंदः ॥ सितेतरपुराधीशः सुविधिर्नवमो जिनः ॥ संघस्य सुखदो नूयात् कव्याणसूरिणा स्तुतः ॥ ६ ॥

॥ अथ श्रीशांतिनाथजिनस्तवनप्रारंभः ॥

दुतविलंबितहृदः ॥ सकलदेवनरेश्वरवदितं विबुधमानवसंस्तुतपूजितं ॥ कमललोचनरंजितनागरं नविकपातकतामसनास्करं ॥ १ ॥ निखिलवांछितदानसुरागमं विदितशास्त्रविचारनयागमं ॥ कठिनकर्मदवानलनीरदं परमशांतिरदामृतशांतिदं ॥ २ ॥ विविधलक्षणरंजितसंचरं सुविधिमागं प्रकाशनतत्परं ॥ चपलमत्तमतंगजगामिनं कमलकोमलमांसलपाणिनं ॥ ३ ॥ दलितदंजमहाधृतिविग्रहं विहितमोहमहाबलिनिग्रहं ॥ दृढपरीषहवायुचुजंगमं किल शुभं युमनीष्टसमागमं ॥ ४ ॥ नविचकोरसुखाय कलानिधिं विनयधैर्यगुणोत्करशेवधिं ॥ मुनिषडंद्निवासकुशेशयं विधुसुधामधुसारतराशयं ॥ ५ ॥ कुसुमसन्निजदंतविराजितं सुजगन्नाग्यसुखाकरशोजितं ॥ निजचुजाबलसाधितराष्ट्रकं जितविपद्गणं नतराजकं ॥ ६ ॥ कुशलकेलिविलासचुवं परं विशदकीर्त्तिविकाशिदिगंतं ॥ कुमतसिंधुरसिंधुरवैरिणं सुमतिकामितसज्जतिकारणं ॥ ७ ॥ वरसुवर्णसवर्णसुवर्णकं जितहृषीकमधर्मनिवारकं ॥ हरिणसेवितपादकजं जिनं हितकरं स्तुतनिर्झरसङ्गनं ॥ ८ ॥ प्रवरवार्षिकदानगुणैर्वरं हतदरिद्रपरं परमेश्वरं ॥ समधरीकृतमेरुसुरदुमैः प्रचुरसर्वगुणादधिकोत्तमैः ॥ ९ ॥ विकटदुर्जयमन्मथशंकरं जनकलापिघनं विगतांतरं ॥ लपननिर्जितचंद्रमसं नृशं विगतदोषकलिं च महौजसं ॥ १० ॥ अशिवविघ्नघनाघनमारुतं विषयतापवशं जनतामतं ॥ शिवधूपरिरंजणसोऽलुपं विमलकेवलिसाधुकुलाधिपं ॥ ११ ॥ नजत शांतिजिनं तु शिवंकरं कुशलसागरवृद्धिकलाधरं ॥ अतुलरूपवशीकृतमानवं प्रणतसादरकिन्नरदानवं ॥ १२ ॥ षाडशजिः कुलकम् ॥ मालिनोठंदः ॥ सुवननलिनचानोः शांतिदेवस्य नर्त्तुर्नवजलनिधिसेतो डुःखदारिद्र्यहर्तुः ॥ निजहृदयविद्युद्भ्या स्तोत्रमेतत्पठंति प्रतिदिनमपि ये ते संपदः प्राप्नुवन्ति ॥ १३ ॥

॥ अथ श्रीशांतिजिनस्तवनप्रारंभः ॥

स्वधराठंदः ॥ दद्याद्द्वीशांतिदेवो वरकनकतनुः सारसौरव्यानि शश्वद्भक्तानां जक्ति

नाजां त्रिभुवननगरे स्फारकोटीरहीरः ॥ चार्वाकारेः प्रणेता प्रणतहितकरः काम
 दो मारिवारः सर्वज्ञाख्यातनामा प्रकटितमहिमा प्राप्तकर्मारिपारः १ ॥ तोटकहृदः ॥
 सुरमानवपूजितपाणिकजः कमलोदयकारकधर्मधनः ॥ विगतामयदूषणजन्मततिः
 शुनसागरसोमनिजो विमलः ॥ २ ॥ इति प्रथमांतविजक्तिकाव्ययुग्मं ॥ जुजंगप्रयात
 हृदः ॥ अजर्यं विजुं विश्वपूज्यं प्रसन्नं जिनं सत्प्रन्नं शंकरं देवदेवं ॥ सदाज्ञानव
 क्षीततौ मेघमेकं स्तुवे शांतिनाथं कलौ कामकुंजं ॥ ३ ॥ हरिणीहृदः ॥ कमलवदनं प्रा
 प्तानंदं नताशुनचंचलं गजपतिगतिं विश्वाधारं सुरेश्वरवंदितं ॥ सदयहृदयं त्यक्तातंकं वि
 निर्जितशोचनं परमपददं ज्ञातार्थौघं त्रिकालविदंचितं ॥ ४ ॥ इंद्वंशाहृदः ॥ अर्च
 ति देवा नवपारगं जिनं कव्याणकारं मुनिवृंदसेवितं ॥ ठत्रादिसद्वृणलकृतं कि
 तावानंदसंदोहकरं सुधामयं ॥ ५ ॥ इति द्वितीयांतविजक्तिकाव्यत्रिकं ॥ शालिनीहृ
 दः ॥ प्राज्यं राज्यं चक्रवर्तित्वसंगं त्यक्त्वा दत्त्वा स्वर्णरूप्यादिदानं ॥ श्रुत्वा वाक्यं ब्रह्म
 लोकांतिकानां येनावप्तं संयमं मुक्तियोग्यं ॥ ६ ॥ द्रुतविलंबितहृदः ॥ अमितपुण्य
 वता जनतावता कुगतिवारणतत्परसज्जिा ॥ नतनरामरकिन्नरशालिना जगवता
 शुवि शर्म विधायिना ॥ ७ ॥ इति तृतीयांतविजक्तिकाव्य चतुर्थं ॥ इंद्वज्जाहृदः ॥ श्रीशांतिदेवाय
 नमोऽस्तु नेत्रे विघ्नौघहर्त्रे शिवमार्गदात्रे ॥ चक्रांकहस्ताय समस्तत्रे शंखेंडहारोज्ज्व
 लशुक्लकर्त्रे ॥ ८ ॥ रथोद्गताहृदः ॥ दर्शनामृतनिलीनजंतवे विश्वशास्त्रनयनीतिहेत
 वे ॥ ज्ञानसागरसुवेलसेतवे क्षापरावलितमिस्रज्ञानवे ॥ ९ ॥ इति चतुर्थीविजक्तिकाव्ययु
 ग्मं ॥ उपेंड्वज्जाहृदः ॥ अधानि नश्यंति पुराकृतानि प्रशस्तनाम्नातिशयप्रसक्तः ॥
 अनेकसंसारनिबंधितानि प्रगाढबंधस्थितिसंचितानि ॥ १० ॥ मालिनीहृदः ॥ नव
 ति सुखमनंतं शांतिनाथप्रसादाहरिणशरणदातुर्विश्वसेनांगजातात् ॥ नतनविकज
 नानां प्रीतिराजात्प्रकामं निरवधिजिनरागे लग्नसन्मानसानां ॥ ११ ॥ इति पंचम्यं
 तविजक्तिकाव्यचतुर्थं ॥ शिखरिणीहृदः ॥ सदा ध्यानं शांतेरखिलगुणधाम्नः शुनवतो
 धरति श्रीकारं सुमतिमतिकारं नयहरं ॥ नरा नव्याः शक्त्या विगतमदतंज्ञाः श्रुतप
 रास्त्रिसंथं सद्ग्यानं प्रबलतरजाग्योदयमतः ॥ १२ ॥ विद्युन्मालाहृदः ॥ शांतेः शांतेः
 पादहृदं नत्वा नत्वा सश्रीकाः स्युः ॥ नोनोः श्राद्धायायुष्मंतस्तुष्टयानंदं कृत्वा कृत्वा ॥
 १३ ॥ इति षष्ठीविजक्तिकाव्यद्विकं ॥ वसंततिलकाहृदः ॥ चेतोस्ति चेन्नवपयोनिधि
 पारमाप्त तीर्थकरे जिनपतौ किल शांतिदेवे ॥ जक्तिं कुरुष्व सततं विपुलामुदारां
 हत्वा प्रमादमपि कर्मविशेषजन्यं ॥ १४ ॥ दोधकहृदः ॥ दुर्गतिसागरपीतसमुद्गे नि
 भ्रलसंयमपालनमेरौ ॥ शारदशुद्धसुधाकरवक्रं शंखसमाननिरंजनचित्ते ॥ १५ ॥ ना

राघवहृदः ॥ कारुण्यरंगरंजिते कार्पण्यदोषवर्जिते ॥ देवाधिपेऽचिरासुते लोकोपकारक
मेते ॥ १६ ॥ इति सप्तमीविजक्तिकाव्यत्रिकं ॥ वंशस्थहृदः ॥ स्वकीयवंशांबरजास्कर
प्रजो विशालगंगाजलशुभ्रकीर्ति ॥ अपारसंसारजयाञ्च सत्वरं कृपापरस्त्वं परिरक्त
सेवकान् ॥ १७ ॥ इति संबोधनविजक्तिकाव्यमेकं ॥ मंदाक्रांताहृदः ॥ कल्याणोक्तं
कुशलजननं सर्वसंघस्य नित्यं नानावृत्तैः प्रकलितमिदं स्तोत्रमेतत्रिकालं ॥ मुक्त्वाऽऽल
स्यं न एति मनुजो जाविनाजावितात्मा गेहे लक्ष्मीर्नवति दृढता तस्य दीर्घायुष
श्च ॥ १८ ॥ शार्दूलविक्रीडितहृदः ॥ कल्याणोदधिवर्द्धनं कलिहरं कौशल्यमालास्पदं
सौभाग्यौघकरं विजक्तिकलितं कायैर्विजिनैः परं ॥ श्रीशांतेः स्तवनं पठन्ति नविनः
सत्पुण्यपल्याजयास्तेषां धाम्नि शुभे निवासमतुलाः कुर्वन्ति संपत्तयः ॥ १९ ॥

॥ अथ श्रीअंतरिक्षपार्श्वस्तवनप्रारंभः ॥

इंद्रवज्राहृदः ॥ विश्वेश्वरं विश्वजनेशपूज्यं सर्वार्थनिष्पादनकामकुंजं ॥ प्रख्यातिमंतं
महिमौषलक्ष्म्या पार्श्वे नजे संस्थितमंतरिक्षे ॥ १ ॥ कल्याणमालागुहमंगिदेव विद्या
धराधीशनुतांद्दिपद्यं ॥ सर्वत्र राष्ट्रेषु विशालकीर्तिं पार्श्वे ॥ २ ॥ रोगाधिचिंतार्त्तिसमू
हतापनैषज्यमाचारविचारसूरिं ॥ सन्नीलरत्नहविज्जुषितांगं पार्श्वे ॥ ३ ॥ संसारसिंधौ
वरयानपात्रं मुक्तयंगनासक्तहृदं शरण्यं ॥ वामांगजातं जगतीप्रदीपं पार्श्वे ॥ ४ ॥ श्री
पार्श्वयक्षाधिपमद्वितीयं श्रीशालिनं सेरपुरावतंसं ॥ वाचासुधाकर्षितसन्धिलोकं पा
र्श्वे ॥ ५ ॥ त्रैलोक्यकोटीरमनाथनाथं दारिद्र्यवाताहिमनंतशक्तिं ॥ शास्त्रार्थनैपु
ण्यनिधिं दयालुं पार्श्वे ॥ ६ ॥ पद्मावतीसेवितपादयुग्मं मंहोजरध्वांतदिनेशमाद्यु ॥
लावण्यसौभाग्ययशोनिराढ्यं पार्श्वे ॥ ७ ॥ ज्ञानादिधर्मान्तरणं वरेण्यं सद्बोधदाना
दिकमार्गपाथं आनंदवल्लीततिवारिधारं पार्श्वे ॥ ८ ॥ कलशः ॥ स्रग्धराहृदः
इत्थं ये देववंद्यं विविधसुखकरं चांतरिक्षारख्यपार्श्वे नित्यं ध्यायन्ति नक्तया हृदयरति
युजो नाग्यवंतो नरोपि ॥ लक्ष्मीस्तेषां निकाय्ये वसति दृढतया सर्वदा कामकर्त्री क
ल्याणश्रेणिकर्तुर्जुवि विदिततरा सर्वसंपत्तिकांता ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीगौडिकपार्श्वष्टकप्रारंभः ॥

शार्दूलविक्रीडितहृदः ॥ वामेयं मरुदेशजुषणतरं श्रीपार्श्वयक्षाचिंतं कल्याणावलिबद्धि
सिंघनघनं श्रीद्वाकुवंशोज्ज्वलं ॥ आराडाप्रसमागतैर्नरवरैः संसेवितं नित्यशः श्रीमङ्गीकर
गौडिकानिधधरं पार्श्वे सुपार्श्वे नजे ॥ १ ॥ नानासाधुजनौघपंकजवने मार्त्तंडविंवायितं वि
प्रभ्यूहनिवारकं कलिषुगे प्राप्तप्रतापालयं ॥ विश्वस्यां प्रथितावदाननिकरं निर्दोषदुष्णो

ज्वलं श्रीमह्नी० ॥ १ ॥ संपद्भेणिसुदानकामकलशं त्रैलोक्यचिंतामणिं सदाचामृतरंजि
तामरनरं सद्दर्शबोधप्रदं ॥ सौजाग्याद्भुतकांतकीर्त्तियशसा संपूरिताशांतरं श्रीम
ह्नी० ॥ ३ ॥ मार्गं चांतरनीतिवारिनिचिते हेमंकरं सर्वदा दारिद्र्यादिनिपातनात्तकुलि
शं चिंतार्त्तिरोगापहं ॥ दुःखत्राससमीरणौघचुजगं नागांकमंहोमथं श्रीमह्नी० ॥ ४ ॥
कारुण्यांचितचारुचित्तकमलं सत्वेषु संसारिषु सदैर्यादिगुणैरजंकृततनुं लावण्यलोला
स्पदं ॥ संसारार्णवपीतवारिधिसमं मुक्तयंगनावल्लजं श्रीमह्नी० ॥ ५ ॥ त्रैलोक्ये ति
लकायितं निरुपमं नव्यैर्नृनिः पूजितं दुष्टानां निजसत्वदर्शनपरं ह्यिप्रं सतां कामदं ॥
नाम्ना ध्वस्तसमस्तवैरिनिचयं राधांतनिर्देशकं श्रीमह्नी० ॥ ६ ॥ नूयिष्ठामलनक्ति
शक्तिकलितैर्देवैश्चतुर्धा नतं सर्वाशाकरणैककल्पफलदं सर्वांगिचूडामणिं ॥ शिष्टानं
तचतुष्टयीवरतरं श्रीमेरुतुंगं जिनं श्रीमह्नी० ॥ ७ ॥ स्फाराकारनिराजितांगमंतुलं स
द्वर्ण्यहेमाकरं विश्वव्याप्ततरं प्रवाससदनं गंजीरतासागरं ॥ नासोद्योतितविश्वविश्वम
वनौ कल्याणसिंधौ विधुं श्रीमह्नी० ॥ ८ ॥ अष्टनिः कुलकं ॥ अनुष्टुपठंदः ॥ निन्न
माले सदाश्रेष्ठे गुणवह्वन्नूषिते ॥ पुष्पमालेऽतरानिख्ये नेकवीहारसंयुते ॥ ९ ॥ श्री
मतः पार्श्वनाथस्य स्तवनं जगतोऽवनं ॥ कल्याणसागराधीशैः सूरिनी रचितं मुदा ॥ १० ॥
॥ स्वग्धराठंदः ॥ ध्येयं श्रीपार्श्वदेवं नजत किल जना गोमिकग्रामराजं शश्वत्सर्वार्थ
सिद्धयै विहितशुनहितं विष्टपे चैत्रपूर्वे ॥ सानंदोद्घासलष्टाः कुशलगविबुधाः सर्वलोके
विशिष्टानिर्दोषाचारपुष्टा जिनपपतिषु रता आप्तकल्याणतुष्टाः ॥ ११ ॥

॥ अथ श्रीगोपीपार्श्वनाथस्तवनप्रारंभः ॥

मालिनीठंदः ॥ जयति जगति चंद्रः पार्श्वनामा जिनैडो विकचकमलदृष्ट्या नंदिताम
र्त्यमर्त्यः ॥ अकलितमहिमौघस्तोर्णसंसारसिंधुर्जगकलितपादः पुण्यपीयूषपुष्टः ॥ १ ॥
स्वग्धराठंदः ॥ श्रीपार्श्वं गोडिकारख्यं नजत नविगणे कल्पवृहं सुगोत्रं नानादेशेषु ल
ब्धातिशयमहितताव्यूहवारं सुमूर्त्तिं ॥ श्रीमंतं नीलरत्नाधिकतरवपुषं स्फारलावण्यशा
लं मोहांनोराशिकुंनोद्भवममरनुतं पार्श्वयद्धार्वितांद्दिहं ॥ २ ॥ पंचचामरठंदः ॥ नमं
ति पार्श्वमंगिनो नरालसा धृतातपत्रचामरैः सुरैः स्तुतं ॥ अनंतशक्तिमालिनं गतामयं
विवेकरत्नरोहणं दयाकरं ॥ ३ ॥ वसंततिलकाठंदः ॥ करीरुतं व्रतमनुत्तरमंगिनेत्रा द
त्वा ऽद्यु येन वरवार्षिकदानराशिं ॥ वामोद्घेन मुनिनायकनायकेन कल्याणकेलिनि
लयेन शुनाशयेन ॥ ४ ॥ दुतविलंबितठंदः ॥ मम नमोस्त्ववते परमात्मने नगवते
शिवशर्मविधायिने ॥ अमितशौर्यतिरस्कृतमेरवे शुनदशेरकमंडलमौलये ॥ ५ ॥ हरि

णीढदः॥ अमृतरसताधिक्याजीष्टान्नरोत्तमसंगताद्भुवनसुजगात्पाश्वानिख्याद्विनश्यति
पातकं ॥ प्रसरति च वै कीर्त्तिर्दिक्रु प्रसूनवडुज्वला प्रनवति पुनः शीघ्रं लीलाजयो
न्नतिवर्द्धनं ॥६॥ शार्दूलविक्रीडितढदः ॥ आकृत्या नरदेवदेवमनुषां संतुष्टिकर्तुस्सदा
चेतोवह्ननकामसार्थददतः कर्मारिहर्तुर्नृशं ॥ आनंदौघसरःप्रवृद्धिकरणे पानीयदा
तुर्मुदा पार्श्वस्यास्ति नतिः समृद्धिजननी कल्याणविस्तारिणी ॥७॥ तोटकढदः॥ नरल
क्षणनूपितवह्युपुरे मुखनीरजरंजितविश्वजने॥ श्रुतदेशनदर्शितधर्मपथे जिननेतरि ति
ष्ठति नाग्यरमा॥८॥ जुजंगप्रयातढदः ॥ सुराधीशचक्रैः स्तुत ज्ञानसिंधो जगन्नाथ नेतः
कृपालोकबंधो ॥ विजो पाहि मां सर्वदा जक्तिजाजं स्मरं तं चिरं त्वत्पदांजोज्जुंगं
॥ ९ ॥ शार्दूलविक्रीडितढदः ॥ स्तोत्रं पार्श्वजिनेश्वरस्य सततं ये प्राणिनो जा
वतः सद्बुद्ध्यापि पठन्ति हृद्यमनसस्तेषां गृहे संपदः ॥ स्थुर्नित्यं स्थिरजावशोच
नतरा धर्मार्थनिष्पादिकाः कल्याणार्णवसूरिनिर्विरचितं मांगल्यमालाकरं ॥१०॥
शिखरिणीढदः॥ सदा धार्यं चित्ते स्तवनमनवद्यं जयहरं नरैर्नूनं सिद्धयै कुशलवन
राजौ घननिचं ॥ अवंध्यं जक्तानां जिनगुणरतानां स्मृतिमतां समेषां जव्यानां प्रमु
दकरणं कामितकरं ॥ ११ ॥

॥ अथ श्रीदादापार्श्वनाथस्तवनप्रारंभः ॥

॥ इड्वजाढदः ॥ कल्याणगेहं गुणरत्नराजं सद्देहकांत्याजितनीजरत्नं ॥ स्तोष्ये
मुदाशंकरमंगिवद्यं दादानिधं श्रीवरपार्श्वनाथं ॥ १ ॥ सद्दर्मलीनाशयमाद्यु विज्ञं
कर्मपृदावानलवारिधारं ॥ संसारपाथोनिधिकर्णधारं दादा० ॥ २ ॥ आचारव
ह्नीततिवृद्धिनोरं सत्कीर्त्तिपुष्पदुत्तवासिताशं ॥ नानार्थराक्षंतविचारदहं दाद० ॥
॥ ३ ॥ वैराग्यरंगार्पितचारुचित्तं सद्बोधितातारमनीहसेव्यं ॥ नागेडसंसेवि
तपादपद्मं दादा० ॥ ४ ॥ त्रैलोक्यचूडामणिमृद्धिशोचं सौनाग्यजाग्यावलिपूर्ण
देहं ॥ जव्यौघराजीवदिनेशमेकं ॥ दादा० ॥ ५ ॥ सर्वांगिनेतारमजीष्टवाचं विश्वे
श्वरं रंजितसन्ध्यलोकं ॥ लोकार्त्तिचिंताजयडुःखवारं दादा० ॥ ६ ॥ हृद्याकृतिं कृत्तजरा
धिदोषं नरामरेंडं स्तुतमर्त्यसंघं ॥ सन्नागचिन्हं कुशलार्थकारं दादा० ॥ ७ ॥ सर्वत्र वि
ख्याततरप्रतापं कारुण्यसत्रं सुवि शिष्टगोत्रं ॥ अज्ञानमिष्यात्वतमिस्त्रदीपं दादा०
॥ ८ ॥ अष्टनिः कुजकं ॥ शार्दूलविक्रीडितढदः ॥ श्रीमह्वीवटपड्जडनगरे शृंगार
हारोपमं कल्याणंबुजजानुचंडमसमं वामांगजातं परं ॥ दादाख्यं जिनपार्श्वदेवमन
धं ध्यायन्ति ये नित्यशस्तेषां धाम्नि रमा निवासमनिशं कुर्वति कल्याणतः ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीकलिकुंडपार्श्वष्टकप्रारंभः ॥

॥ विबुधादिराजैर्नतपादपद्मं बहुजाग्यसौजाग्यलतौघमेघं ॥ कमठोपसर्गाचल
धैर्य्यनिति कलिकुंडपार्श्वं सुचिरं नजेऽहं ॥ १ ॥ कमलाप्रदाने हरिचंदनांगं
सपयोधिदेशाद्भुतलब्धकीर्तिं ॥ रुचिरारुतौ रंजितविश्वविश्वं कलिकुंडं ॥ २ ॥
महिमावदातोत्तमनाममंत्रं समतानिरामं कमलानिनेत्रं ॥ अनिलाषदं सिद्धि
विलासयंत्रं कलिं ॥ ३ ॥ दुरितांधकारारुणसन्निकाशं करुणाशयं दुःखवने
षु दावं ॥ नरदेवपूज्यं सुखदं सुमूर्तिं कलिं ॥ ४ ॥ कनकादिदातारमनंतशक्तिं
वरनीलरत्नाधिकदेहवर्णं ॥ शिवशर्मराजं जनतानिवंद्यं कलिं ॥ ५ ॥ अनघं सदा
सद्गुणकेलिपालं गुणलक्ष्णालंकृतवर्षगात्रं ॥ कुलनूषणं शत्रुतृणौघदात्रं कलिं
॥ ६ ॥ जगतीश्वरं कर्मविमुक्तसंगं विषमायुधालग्रमनःस्वरूपं ॥ धरणेऽपार्श्वार्चित
पादयुग्मं कलिं ॥ ७ ॥ गुणसिंधुवृद्धौ शशिनं वरेण्यं वचसा सुधाजेन सहर्षस
न्यं ॥ श्रुतसूरिणं पुण्यविराजमानं कलिं ॥ ८ ॥ अष्टनिः कुलकं ॥ इंद्वज्जातदः ॥
एवं स्तुतः श्रीकलिकुंडपार्श्वः कल्याणनाम्ना मयका नितांतं ॥ ये प्राणिनः स्तोत्रमिदं
पठन्ति तद्वाग्नि लक्ष्मीर्विलसत्यवश्यं ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीरावणपार्श्वष्टकप्रारंभः ॥

॥ इंद्वज्जातदः ॥ देवाधिदेवं कृतपार्श्वसेवं नागाधिराजेन नतांश्चिपद्मं ॥
पद्मावतीसंस्तुतनामधेयं सेवे सदा रावणपार्श्वनाथं ॥ १ ॥ आनंदकंदोदय
वृद्धिमेघं मेघध्वनिध्वानविशेषराजं ॥ जिताश्विंदं विगताधिमोहं सेवे ॥ २ ॥
वामांगजातं कुलनंदिकारं ध्वस्तोपसर्गोत्कटदुष्टरागं ॥ प्रख्यातिमंतं भुवने प्रजा
वैः सेवे ॥ ३ ॥ सन्नीलनासा हसितेऽनीलं सत्कांतकांत्या रमणीयरूपं ॥ प्रावीण्यना
नातिशयैः प्रधानं सेवे ॥ ४ ॥ संजीतिहर्त्तारमनंतसौख्यं विश्वेश्वरं द्योतितविश्व
लोकं ॥ पद्मार्थदाने सुररत्नवृद्धं सेवे ॥ ५ ॥ अज्ञानमिष्यात्वतमिस्रजानुं नामं
मलालंकृतमौलिपृष्ठं ॥ वाणीसुधामोदितसन्ध्यसंघं सेवे ॥ ६ ॥ कौशल्यमांगल्यनिवा
सगेहं पूर्णीकृताक्षीष्टपदार्थराशिं त्रैलोक्यदीपं वरसिद्धिनाजं सेवे ॥ ७ ॥ संसार
रत्नाकरयानपात्रं निःशेषदोषोन्नितधर्ममार्गं ॥ आदेयसौजाग्ययज्ञःसुपात्रं सेवे ॥ ८ ॥
अष्टनिः कुलकं ॥ मालिनीतदः ॥ अलवरपुररत्नं रावणं पार्श्वदेवं प्रणतगुणसमुद्
कामदं देवदेवं ॥ अमितगुणनिधाना ये नरः संस्तुवन्ति जगति विदितसारा जा
ग्यवंतो नवन्ति ॥ ९ ॥

॥ अथ श्री गोडीपुरपार्श्वजिनस्तवनप्रारंभः ॥

रागेणगीयते॥ गौडिपुरप्रच्युपाश्वममंदं दर्शनदर्शनपरमानंदं नमितसुरासुरवृंदं॥ १ ॥
 श्रीजिनशासनचारुशृंगारं अंतरंगरिपुवृहकुठारं सकलजगदाधारं॥ २ ॥ निरुपमरूपविरा
 जितदेहं विदलितनानाजनसंदेहं अमितगुणधनगेहं॥ ३ ॥ डुरितकाननचेदनदात्रं रुचि
 रलक्षणविचूषितगात्रं वारितकुमतकुपात्रं ॥ ४ ॥ अनघजिनवरगोत्रसुगोत्रं कामकुंजम
 णिनिर्जरगोत्रं संयमदृढतागोत्रं ॥ ५ ॥ वेदितनवनयमरणारिष्टं प्रकटितमहिमातिशयव
 रिष्टं जगदैश्वर्यगरिष्टं ॥ ६ ॥ विहिताखिलनविजनकल्याणं पालितयथाख्यातकल्याणं
 दक्षमार्गणकल्याणं ॥ ७ ॥ आधिबंधवधगदहृत्तारं वाढितकुशलसौख्यकर्तारं सुव
 नत्रयनकर्तारं ॥ ८ ॥ विकटकष्टनिवारणशूरं आगमनयप्रकाशनसूरं चारतीगंगापू
 रं ॥ ९ ॥ धृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्मीगणविश्वं केवलयुगलालोकितविश्वं प्राप्तजनेप्सित
 विश्वं ॥ १० ॥ सेवकमनोनीष्टदातारं रंजितदेवनरनेतारं अनुचूतकुलत्रातारं ॥ ११ ॥
 इंद्रनीलमणिवर्णसुवर्णं निखिलदेशविरव्यातसुवर्णं वाक्सुधासारसुवर्णं ॥ १२ ॥ सु
 क्तिमीमंतिनीसंगमलुब्धं चंचलविषयसुखसंगालुब्धं कर्मपराविप्रलुब्धं ॥ १३ ॥ वंदि
 तामरमौलिकुटीरं विषमकषायदवानलनीरं उत्कटपरीषहधीरं ॥ १४ ॥ अंचलगणनी
 रधिसारंगं कीर्तिलतावर्द्धनसारंगं दुर्जनशलनसारंगं ॥ १५ ॥ वंदेऽनंतचतुष्टयिराजं
 पूजितसुरपतिमानवराजं प्रवरतीर्थाधिराजं ॥ १६ ॥ षोडशनिः कुलकं॥ शिवतातिपाश्व
 वरदवरपाश्वं मोहतमिस्रसवितारं नागराजराजं त्रिचुवनपूज्यं लब्धनवोदधिपारं ॥
 शुनसागरनित्यप्रथितगरिमाणं ये ध्यायंति विष्टं मुदा लक्ष्मीस्तान् समुपैति तस्वर
 मतुला सर्वार्थसिद्धिप्रदा ॥ १७ ॥

॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवनप्रारंभः ॥

तोटकहृदः ॥ नविकांबुजनासनजानुनिजं नवतापसमावनवारिधरं ॥ रचितागम
 शास्त्रविचारनयं जय मंगलकीर्तियशोनिचयं ॥ १ ॥ कमलामलकेलिगृहं विमलं
 लसदाशयमुश्रितसंतमसं ॥ शुनसागरवर्द्धनचंद्रमसं सकलामरपूजितपादकजं ॥ २ ॥
 विकटोत्कटकर्ममृगेजरिपुं खगनागनरेश्वरदेवनतं ॥ तरसा जितमोहरिपुं विजयं
 यमसंवरसंहितसाधुहितं ॥ ३ ॥ शुनलक्षणलक्षितहस्तयुगं गजराजगतिं गतविघ्न
 रुजं ॥ जडतामयजेषजमीशवरं दशनयुतिद्योतितचारुमुखं ॥ ४ ॥ कनकाचलधीरम
 नीष्टतरं रसनारसरंजितसर्वसजं ॥ चुवनत्रयमंडलमोघतरं रुचिराकृतिमोहितदेवजनं
 ॥ ५ ॥ अरिहंतमनुत्तरतीर्थकरं रचितं वरबुद्धिधनं जिनपं ॥ पुरुषोत्तममस्मरमर्थनिधिं धृ

तिकांतिनिकेतनमंगिनृतं ॥६॥ निजवंशवतंसकमार्तिहरं रवनिर्जितमेधनदं शिवदं ॥
 दयितं भुवि विश्वजनीनतमं नतनूतगणं जितलोचनजटं ॥ ७ ॥ शरणाश्रितपालकमु
 क्तिपदं दधतं वरशांतरसं नवमं ॥ महसेन्द्रमणिप्रजदेहधरं धरणेन्द्रनिषेवितपार्श्वयुगं
 ॥८॥ अममं नुतपार्श्वजिनं सततं तपसा हृतसिद्धमनंतबलं ॥ लज्जनाजनसंगविरक्त
 मलं मलवर्जितमुत्तरसौख्यधरं ॥९॥ नवजिः कुलकं ॥ सुरराजखेचरनागपुरंदरधरणिरा
 जसुसेवितं श्रीपार्श्वजिनेश्वरं नमितसुरेश्वरपद्मावतीसंस्तुतं ॥ येऽनंतचक्रया विशुद्धश
 क्रया संस्तुवंति जिनं मुदा शुचसागरपठनाद्भविकरमासमेतं ते लज्जंति सुखं सदा ॥ १० ॥

॥ अथ श्रीमद्दुरपार्श्वार्ष्टकप्रारंभः ॥

द्रुतविलंबितहृदः ॥ विबुधमानवमानसनंदनं विजवदानविधौ हरिचंदनं ॥ नि
 खिलसन्न्यजनैः कृतवंदनं नजत पार्श्वजिनं महुराजिधं ॥ १ ॥ युगलकौशिकसा
 म्यतराशयं भुवनजानुनिवासघनाश्रयं ॥ विषयिवारणकेसरिसन्निभं नजत ॥ २ ॥
 अरुणकोटिविजाधिकजास्वरं कुमुदबांधवशुभ्रतराननं ॥ वरगनीरगुणोत्तमसागरं
 नजत ॥ ३ ॥ नविकपद्मविजासनजास्करं जगति जावप्रकाशनदीपकं ॥ नयनपाटव
 पावनतंत्रकं नजत ॥ ४ ॥ रचितकामठवारिदसंचयैरखिलधैर्यसमन्वितचेतसं ॥ विकट
 कर्मसमीरणजोगिनं नजत ॥ ५ ॥ कमठनिर्मितपांशुकदंबकैः स्थिरतरोत्कटजाव
 विराजितं ॥ जगति हुजेनसर्पविषापहं नजत ॥ ६ ॥ प्रशमनूषणनूपणनूधनं सुजग
 नाग्यगुणावलिमंदिरं ॥ धवलकीर्तियशोंबरघासितं नजत ॥ ७ ॥ सकलसंधसमीहि
 तकं निचितविघ्नपराजवहर्तकं ॥ अतिशयाद्भुतचारुचरित्रकं नजत ॥ ८ ॥ हरि
 णीढं ॥ महुरजिनपं नित्यं वंदे शिवोदधिर्वदनं शशिनमनिशं क्तिवध्वांते दिनेश
 महोदयं ॥ स्तवनजणने चिताल्हादैः कृतादरसेवकेविविधधनदं विश्वे विश्वे जिनेश
 नतानने ॥९॥ द्रुतविलंबितहृदः ॥ महुरपार्श्वजिनेश्वरसंस्तवं पठति यः सुधियोपसि
 नित्यशः ॥ वसति तस्य गृहे कमलाऽखिला स्थिरतरासुमतां वरदायिनी ॥ १० ॥

॥ अथ सत्यपुरीय श्रीमहावीरस्तवनप्रारंभः ॥

द्रुतविलंबितहृदः ॥ त्वमसि सज्जुणनंदनमंदरस्त्वमसिमेरुलतावलिमंरुपः ॥
 त्वमसि खेचरनाकिनरस्तुतस्त्वमसि रूपवशीकृतविष्टपः ॥ १ ॥ त्वमसि योगिजनौ
 यशिरोमणिस्त्वमसि कांतिविकाशितदिग्गणः ॥ त्वमसि जाषितरंजितनागर स्त्वम
 सि सिद्धिवशरतिमोहितः ॥ २ ॥ त्वमसि नडकरः करुणालयस्त्वमसि नक्तचकोर
 निशाकरः ॥ त्वमसि दर्शनहर्षितमानवस्त्वमसि संसृतिसागरपोतकः ॥ ३ ॥ त्वमसि
 मोहमहोरुहमुद्गरस्त्वमसि धर्मधनो धनकामदः ॥ त्वमसि संशयवायुभुजंगम

स्त्वमसि दर्शितजीवदयापथः ॥ ४ ॥ त्वमसि धारितशीलविनूषणस्त्वमसि कामि
तदामसुरद्रुमः ॥ त्वमसि देवनराधिपवंदितस्त्वमसि जाडघतमिस्रनचोमणिः ॥ ५ ॥
त्वमसि कर्मवनावनिपावकस्त्वमसि सेवकपूजितपंकजः ॥ त्वमसि जन्मजरामृतिवा
रणस्त्वमसि शाश्वतमोक्षपदस्थितः ॥ ६ ॥ त्वमसि मंजुलसत्कुलदीपकस्त्वम
सि सर्वपदार्थविशारदः ॥ त्वमसि लोकनतो नतवत्सल स्त्वमसि देवशिखीमुख
पुष्करः ॥ ७ ॥ त्वमसि नाथमनोहरलक्षणस्त्वमसि संमतजीवणः सदा ॥ त्वमसि
संवरमार्गविधायकस्त्वमसि दानगुणाढ्यितकल्पकः ॥ ८ ॥ त्वमसि चित्रकराति
शयांचितस्त्वमसि सूरिततीश्वरसेवितः ॥ त्वमसि दुःखिजनावनतत्परस्त्वमसि हारनि
जः क्वितिमंडले ॥ ९ ॥ त्वमसि शिष्टनरामरसंगतस्त्वमसि लोकचमत्कृतनिर्म
मः ॥ त्वमसि केवलिसाधुनतो मुदा त्वमसि कुग्रहदोषनिवारकः ॥ १० ॥
त्वमसि सद्गतनारवृषोपमस्त्वमसि वीतमदो विशदाशयः ॥ त्वमसि तीर्थपते रु
चिराव्हयस्त्वमसि गुप्तिपवित्रितमानसः ॥ ११ ॥ त्वमसि बुद्धिपराजितगीःप
ति स्त्वमसि हाटकसन्निजविग्रहः ॥ त्वमसि नाग्यविनाशनिकेतनस्त्वमसिलोज
महीधरवज्रकः ॥ १२ ॥ त्वमसि सप्तनयार्णवतारकस्त्वमसि दुर्घटसत्यनयाध्व
गः ॥ त्वमसि सम्मदसंततिकारकस्त्वमसि सिद्धिकरो वरदायकः ॥ १३ ॥ त्वमसि विश्व
जगज्जनवद्वनस्त्वमसि रक्षितनूतकदंबकः ॥ त्वमसि दुर्जगदुस्थहरोनिशं त्वमसि वि
स्तृतलोचनरंजकः ॥ १४ ॥ त्वमसि विश्वपतिः श्रितबांधवस्त्वमसि वक्रतिरस्कृतचंद्र
माः ॥ त्वमसि वैरिसमुद्घटोद्भवस्त्वमसि तीर्थकरः प्रतिबोधदः ॥ १५ ॥
त्वमसि जव्यशिखंडिबलाहकस्त्वमसि बंधुरमूर्तिधरोऽजरः ॥ त्वमसि सर्वविद्युर्विग
तातुरस्त्वमसि संयममंडनमंडितः ॥ १६ ॥ त्वमसि शांतरसाश्रितचेतनस्त्वमसि
पौरुषनिर्द्धितकर्मणः ॥ त्वमसि दुर्जनबोधिनिबंधनस्त्वमसि कामदुयाधिकदानदः
॥ १७ ॥ त्वमसि संचितपुण्यनिधिः परस्त्वमसि विघ्नसरीसृपगारुडः ॥ त्वमसि शु
भ्रयशोचरमंदिरस्त्वमसि संघजयोन्नतिहर्षदः ॥ १८ ॥ त्वमसि सत्वहितो मतिव
र्द्धनस्त्वमसि धर्मसरोजसरःसमः ॥ त्वमसि चक्रिनतो नविशेश्वरस्त्वमसि पारग
तः परमेश्वरः ॥ १९ ॥ त्वमसि सत्यपुरामलनूषणस्त्वमसि संश्रितपादमृगाधि
पः ॥ त्वमसि केवलयुग्मविराजितस्त्वमसि वीरजिनो जिननायकः ॥ २० ॥
त्वमसि शासनपोतनियामकस्त्वमसि साधुदयालुलज्जामकः ॥ त्वमसि सौख्यकरस्त्रिश
लांगजस्त्वमसि विश्वगुरुः शुचिसागरः ॥ २१ ॥ हरिणीढंदः ॥ जयति सततं वीरः शं
चुर्नवोदधिपारगो जगति तिलकः पापध्वांते गजस्तिरनुत्तरः ॥ कुशलनिलयस्तीर्थस्वा

मी सुरासुरसंस्तुतो विदितमहिनां विश्वे विश्वेश्वरार्चितपत्कजः ॥ ११ ॥ वंशरथहृदः ॥
 कुलावतंसं यतिधर्मदेशकं कलंदिकापारगमंगिपालकं ॥ नवीमि वीरं मतिदं हिता
 वदं मनोर्यसंपादनकामकुंजकं ॥ १३ ॥ जुजंगप्रयातहृदः ॥ प्रभुं देववंद्यं जिनं वि
 श्वनाथं जगच्चारुचूडामणिं वीरनाथं ॥ स्तुवेऽहं जितारिं नतस्वर्गिनाथं सदा शांति
 कारं नरेंद्राधिनाथं ॥ १४ ॥ स्वग्धराहृदः ॥ श्रीराजं वीरदेवं प्रणतसुरमणिं देवमर्त्या
 धिराजं कल्याणांजोधितृद्धौ विमलशशधरं जाग्यसौजाग्यकारं ॥ ये जव्याः संस्तुवं
 ति प्रतिदिनमनयं चारुजक्तया त्रिसंध्यं प्रख्यातिं ते लजंते त्रिभुवनविदितां कीर्तिप्रा
 ग्गजारकर्त्री ॥ १५ ॥ तुन्यं नमः समयधर्मनिवेदकाय तुन्यं नमस्त्रिभुवनेश्वरशेख
 राय ॥ तुन्यं नमः सुरनरामरसेविताय तुन्यं नमो जिनजनार्चितपत्कजाय ॥ १ ॥ तु
 न्यं नमोऽजिलषते हरिचंदनाय तुन्यं नमो वरकुलांबरनास्कराय ॥ तुन्यं नमः प्रणतदे
 वनराधिपाय तुन्यं नमः प्रवररूपमनोहराय ॥ २ ॥ तुन्यं नमो हरिणनायकनाय
 काय तुन्यं नमो यतिततिप्रतिपालकाय ॥ तुन्यं नमो विकचनीरजलोचनाय तुन्यं
 नमस्तनितनादविराजिताय ॥ ३ ॥ तुन्यं नमः कुशलमार्गविधायकाय तुन्यं नमोवि
 कटकष्टनिषेधकाय ॥ तुन्यं नमो डुरितरोगचिकित्सकाय तुन्यं नमस्त्रिजगतो हृदि
 नूषणाय ॥ ४ ॥ तुन्यं नमो दलितमोहतमोनराय तुन्यं नमः कनकसन्निजनूषणा
 य ॥ तुन्यं नमोप्यखिलसद्गुणमंदिराय तुन्यं नमो मुखकलादिऽतचंडिकाय ॥ ५ ॥
 तुन्यं नमोऽतिशयराजिविभूषिताय तुन्यं नमः कुमतितापसुजंजनाय ॥ तुन्यं न
 मो मुखपयोधिवह्नित्रकाय तुन्यं नमो विगतकैतवमत्सराय ॥ ६ ॥ तुन्यं नमो विदि
 तजव्यजनाशयाय तुन्यं नमो निखिलसंशयवारकाय ॥ तुन्यं नमः प्रथितकीर्त्तिय
 शोन्विताय तुन्यं नमो जितहृषीकमुनीश्वराय ॥ ७ ॥ तुन्यं नमोप्रमितपुञ्जनिर्मि
 ताय तुन्यं नमः सकलवाङ्मयपारगाय ॥ तुन्यं नमो जविकचातकनीरदाय तुन्यं
 नमश्चरणवैभवदायकाय ॥ ८ ॥ कुलकम् ॥ वीराष्टकं पठति यः सततं त्रिसंध्यं त्य
 क्त्वा सदा प्रबलमीहजडुःप्रमादं ॥ तद्वाग्नि मंडु कुरुते कमला निवासं कल्याणसा
 गरं भुवामसतामनीष्टं ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीलोडणपार्श्वनाथस्तवनप्रारंभः ॥

श्रीकरं कष्टहर्तारं विधिवादप्रकाशकं ॥ धिया तर्जितवागीशं परमात्मानमन्वहं ॥ १ ॥
 ह्रमागारं कृपापात्रं गताधिव्याधिदूषणं ॥ ठेकं तु सर्वकार्येषु श्रीप्रदं दलितामयं ॥ २ ॥
 धनधान्यकरं लोके रमाकेलिपदं परं ॥ मर्मतामदमानौघमूर्खतादोषवर्जितं ॥ ३ ॥
 धार्त्तिसंतापनेत्तारं सूरिश्रेणिशिरोमणिं ॥ रिपुसारंगसारंग मंगिनाथनिषेवितं ॥ ४ ॥

तेजसां मंदिरं रम्यं वारिताशेषदुर्जनं ॥ निःसीमं सर्वगोत्राणां श्रीमंतं गुणसागरं
 ॥ ५ ॥ कथिताचारमार्गौघं कव्याणकमले विधुं ॥ प्रणताशेषदेवेशं शासनं कांतनुध
 नं ॥ ६ ॥ गदिताममसंदोहं रसनामृतसुंदरं ॥ सूराधिकप्रतापाजिं रिकथदं दमितेडि
 यं ॥ ७ ॥ नागैड्विबुधैः सेव्यं लोकानां शांतिकारकं ॥ जडताया विभेत्तारं नयनादहा
 दकारणं ॥ ८ ॥ पालकं सर्वसत्वानां पार्श्वयक्षेण पूजितं ॥ नाकिमानववन्द्यांहिं नाथ
 नाथं जगत्प्रभुं ॥ ९ ॥ क्रियासंततिनेतारं त्रासितानेकदोषकं ॥ कृतांतार्थविचारकं
 तारतारुण्यराजितं ॥ १० ॥ संसारसागरे पोतं घस्मराधिविवर्जितं ॥ सर्वज्ञं मेघगंजी
 रं हितं विश्वस्य सर्वदा ॥ ११ ॥ तेजोनिधिं मुदा पार्श्वं नवीमि लोमणाजिधं ॥ क
 व्याणसागरारख्येन संस्तुतं ह्यादिमाकरैः ॥ १२ ॥ षादशनिः कुलकं ॥ श्रीमद्वोडण
 पार्श्वनाथमवनौ विख्यातगोत्राजिधं ये जव्या वरजावजक्तिसहिताः पूजंति सौख्या
 र्थिनः ॥ ते सत्वाः सुखमानकीर्तिकलिताः कव्याणतुंगाः परा जायंते चुवने प्रतापरु
 चिरा आदेयवाचः सदा ॥ १३ ॥

॥ अथ श्रीसेरीशपार्श्व्याष्टकप्रारंभः ॥

कामौघकर्त्तरिमशेषदेवाधीशैस्सदाचर्चितपादपद्मं ॥ कव्याणकारं वरनीलवर्णं सेरी
 शपार्श्वं नुथ लोडणारख्यं ॥ १ ॥ सत्पुण्यवद्वीवनवारिधारं निःशेषजव्यावलिपूरिता
 शं ॥ त्रैलोक्यठत्रं चुवनाधिनाथं सेरीं ॥ २ ॥ सारंगवाणीजितचित्तदाढ्यं सारंगगंजी
 रनिनादकांतं ॥ सारंगसारांबकयुग्मराजं सेरीं ॥ ३ ॥ विश्वेषु सत्त्वेषु कृपानिधानं स
 म्यक्त्वरत्नाचरणांकितगं ॥ दुःस्वांगपशुं दजितारिवर्गं सेरीं ॥ ४ ॥ अपारसंसारसमुड
 पोतं सर्वज्ञमाचारपवित्रवंशं ॥ राक्षांतशास्त्रार्थरहस्यदहं सेरीं ॥ ५ ॥ वाणीरसानंदितवि
 श्वविश्वं तीर्थकरं नागपुरेशपूज्यं ॥ सर्वत्र विख्यातयशोजिरामं सेरीं ॥ ६ ॥ तेजोनिधिं
 कामितकामकुंजं सौजन्यसौहार्दविलासपात्रं ॥ कव्याणसूर्यादिवितानहेतुं सेरीं ॥
 ७ ॥ आदित्यचंद्राधिकदेहनासं सत्प्रातिहाय्याष्टकराजिराजं ॥ स्फाराकृतौ मोहि
 तदेवदेवं सेरीं ॥ ८ ॥ कलशः ॥ एवं कव्याणवंद्यं त्रिचुवनतिलकं लोडणार्हं सुपार्श्व
 कृत्वैकाग्र्यं स्वचित्ते जवसफलकृते ज्ञानसंपत्तिसिद्धयै ॥ नित्यं ध्यायंति जव्याजिनसमय
 रताः शुभ्रलेश्याजिरामास्तेषां हर्षात्प्रकामं जवति च सदने मंजुपद्मानिवासः ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीसंजवनाथाष्टकप्रारंभः ॥

लावण्यगेहं कलहेमवर्णं उद्योक्षितं सुंदरवाहचिन्हं ॥ लक्ष्मीकलापार्णवधि
 षण्यनाथं देवैर्नतं संजवनाथमीडे ॥ १ ॥ श्येनांगजं दारुणकर्मशत्रौ वीरं वरं पू
 तचरित्रशोचं ॥ हेमास्पदं सजुणरत्नखानिं देवैः ॥ २ ॥ इहवाकुवंशं वरतिग्मरधि

राकेडुवक्रं गतवक्रमाद्यं ॥ अज्ञानवैश्वानरशांतिनीरं देवैः ॥ ३ ॥ दुःखोदधौ पीत
समुद्भिः ॥ सत्प्रातिहार्याष्टकराजिराजं ॥ कृमानिधिं विस्तृतपुण्यमूर्तिं ॥ दे
वैः ॥ ४ ॥ जव्यैर्मुदा सेवितपादपद्मं सज्ञानवजाहृतमोहनूधरं ॥ संसारदावाकुल
मर्त्यमेघं देवैः ॥ ५ ॥ सत्कीर्त्तिपात्रं दुरितारिसेव्यं जगज्जनानंदकरं शरण्यं ॥ कारुण्यसं
युक्तपवित्रचित्तं देवैः ॥ ६ ॥ कुंदार्हदंतं कजलोचनं वै वपुःश्रियातार्जितसूर्यकांतिं ॥
पापांधकारेऽमलदीपकं तं देवैः ॥ ७ ॥ प्रसादनातत्परसेवकस्येपिनतार्थदाने सुर
देववृद्धं ॥ सुखैरनेकैर्युतचारुदेहं देवैः ॥ ८ ॥ कलशः ॥ इत्यष्टकं श्रीजिनसंज्ञवस्य
पठंति ये मञ्जुजनावयुक्त्या ॥ तेषां गृहे पुण्यनिधानजव्याः कल्याणकाराश्च नवंति क
श्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीमज्जिननायकस्य श्रीसूर्यपुरचूषणस्य श्रीसंज्ञवनाथस्याष्टकं संपूर्णं ॥

॥ अथ श्रीसूक्तमुक्तावली प्रारंभः ॥

मालिनी ठंडः ॥ सकलसुकृतवज्जीवृद्धजीमूतमालां निजमनसि निधाय श्रीजि
नेऽस्य मूर्तिं ॥ जलितवचनलीलालोकनाषानिबद्धैरिह कतिपयपदैः सूक्तमालां
तनोमि ॥ १ ॥ अथक्रमसंग्रहकाव्यं ॥ शार्दूलविक्रीडितठंडः ॥ तत्त्वज्ञानमनुष्य
सज्जनगुणान्यायप्रतिज्ञाकृमा चित्ताद्यं च कुजं विवेकविनयो विद्योपकारोद्यमाः ॥
दानक्रोधदयादितोषविषयाः साक्षात्प्रमादस्तथा साधुश्रावकधर्मवर्गविषये ज्ञेया
प्रसंगाह्यमी ॥ २ ॥ अथदेवतत्वविषेः मालिनीठंडः ॥ सकल करमवारी मोक्षमार्ग
धिकारी ॥ त्रिभुवनउपगारी केवलज्ञानधारी ॥ जविजन नित सेवो देव ए जक्तिजा
वे ॥ इहज जिन जजंतां सर्व संपत्ति आवे ॥ ३ ॥ जिनवरपदसेवा सर्वसंपत्तिदा
ई ॥ निशिदिन सुखदाई कल्पवल्ली सहाई ॥ नमि विनमि लहीजे सर्व विद्या बडाई ॥
रूपन जिनह सेवा साधतां तेह पाई ॥ ४ ॥ अथगुरुविषेः ॥ स्वपरसमयजाणे ध
र्मवाणी वखाणे ॥ परम गुरुकहाथी तत्व नीशंक माणे ॥ नबिककज विकाशे जा
नुज्युं तेज नासे ॥ इहज गुरु नजो जे शुद्धमार्ग प्रकाशे ॥ ५ ॥ सुगुरुवचनसंगे
निस्तरेजीवरंगे ॥ निरमल नर थाए जेम गंगाप्रसंगे ॥ सुणिय सुगुरु केशी ॥ वाणि
रायप्रदेशी ॥ लहि सुरनव वासी जे हसे मोक्षवाशी ॥ ६ ॥ अथधर्मविषे ॥ जलनि
धि जलवेला चंडथी जेम वाधे ॥ सकल विनवलीला धर्मथी तेम साधे ॥ मनुअ
जनमकेरो सार ते धर्म जाणी ॥ नजिनजि नवि नावे धर्म ते सौख्य खाणी ॥ ७ ॥
इह धरम पसाये विक्रमे सत्य साध्यो ॥ इह धरम पसाये शालिनो साक वाथ्यो ॥
जस नर गज वाजी मृत्तिकाना जिकेई ॥ रणसमय थया ते जीव साचा तिकेई ॥
॥ ८ ॥ अथज्ञानविषेः ॥ तन धन ठकुराई सर्व ए जीवनेठे ॥ पण इक इहिनूं

ज्ञान संसारमां ठे ॥ नवजलनिधि तारे सर्वे जे दुःख वारे ॥ निजपरहित हेते
 ज्ञान ते कां न धारे ॥ ए ॥ यवऋषि इक गाथा बोधयी नै निवाख्यो ॥ इक पदधि
 चिलातीपुत्र संसार वाख्यो ॥ श्रुतजणत सुज्ञानी मास तुंढादि थावे ॥ श्रुतधि अज
 य हाथे रोहिण्यो चोर नावे ॥ १० ॥ अथमनुष्यजन्मविषेः ॥ नवजलनिधि जमंतां
 कोइ वेला विशेषे ॥ मनुजजनम लाथो दुह्नहो रत्न लेखे ॥ सफल कर सुधर्मा ज
 न्म ते धर्मयोगे ॥ परजवसुख जेशी मोहलक्ष्मी प्रजोगे ॥ ११ ॥ मनुजजनम पा
 मी आलसे जे गमेठे ॥ शशिनृपतिपरे ते शोचनाथी जमेठे ॥ दुलह दश कथा थूं
 मानुर्योजन्म ए ठे ॥ जिनधरम विशेषे जोडतां सार्थ ते ठे ॥ १२ ॥ अथसज्जन
 विषेः ॥ सदयमन सदाई दुःखियां जे सदाई ॥ परहित मतिदाई जास वाणी मि
 ताई ॥ गुणकरि गहराई मेरुज्युं धीरताई ॥ सुजनजन सदाई तेह आनंददाई ॥ १३ ॥
 जइ डुरजन लोके दूहव्या दोष देई ॥ मनमलिन न थाए सज्जना तेह तेई ॥ दुप
 वजनकपुत्री अंजना कष्टयोगे ॥ कनकजिम कशोटी ते तिसी शोल जोगे ॥ १४ ॥
 अथगुणविषेः ॥ गुणगहि गुण जेमां ते बहू मान पावे ॥ नर सुरनिगुणे ज्युं फूल
 शीजे चढावे ॥ गुणकरि बहु माने लोक ज्युं चंडमाने ॥ अति कश जिम माने पू
 र्णने त्युं न माने ॥ १५ ॥ मलयगिरि कडे जे जंबुलिंवादि सोई ॥ मलयजतरु संगे
 चंदना तेइ होई ॥ इम लहिय वडाइयुं कीजिये संग रंगे ॥ गजशिरचडि बेठी ज्युं
 अजा सिंहसंगे ॥ १६ ॥ अथन्यायविषे ॥ जग सुजस सुवासे न्यायलह्नी उपासे ॥
 व्यसन डुरित नासे न्यायथी लोक वासे ॥ इम रुदय विमासी न्याय अंगी करी
 जे ॥ अनय परिहरीजे विश्वने घश्य कीजे ॥ १७ ॥ पशु पण तस सेवे न्यायथी जे
 न चूके ॥ अनयपथ चले जे नाइ ते तास मूके ॥ कपिकुल मिलि सेव्यो रामने
 सीत नामी ॥ अनयकरि तज्यो ज्युं नाइए लंकस्वामी ॥ १८ ॥ हय गय न सहाई
 युद्ध कीर्त्ता सदाई ॥ रिपुविजय वधाई न्याय ते धर्मदाई ॥ धरमनय धरे जे ते सुखे
 वैरि जीपे ॥ धरमनय विहूणा तेहने वैरि कोपे ॥ १९ ॥ धरमनय पसाये पांमवा
 पंच तेई ॥ करि युधे जय पाम्या राज्यलीला लहेई ॥ धरमनय विहूणा कौरवा
 गर्व माता रणसमय विगूता पांमवा तेह जीत्या ॥ २० ॥ अथप्रतिज्ञाविषेः ॥
 शुन अशुन जिकाई आदखुं जे निवाहे ॥ रवि पण तस जोवा ब्योम जाणी
 वगाहे ॥ करिगहन तिवाहे तास निस्संत आपे ॥ मलिन तनु परवाले
 सिंधुमां सूर आपे ॥ २१ ॥ पुरुषरयण मोटा जे गणीजे धराथे ॥ जिण जिम प
 डिवज्युं ते न गंडे पराथे ॥ गिरिश विष धख्यो जे ते न अद्यापि नाख्यो ॥ डुर

गति नर जेई विक्रमादित्य राख्यो ॥ ११ ॥ अथ उपशमविषेः ॥ उपशम हित
 कारी सर्वदा लोकमांही ॥ उपशम धर प्राणी ए समो सौख्य नांही ॥ तप ज
 प सुर सेवा सर्व जे आदरे ठे ॥ उपशमविण जे ते वारि मंथा करे ठे ॥ १२ ॥
 उपशम रस लीला जास चित्ते विराजी ॥ किम नर नव केरी रिद्धिमां तेह रा
 जी ॥ गज मुनिवर जेहा धन्य ते ज्ञान गेहा ॥ तपकरि कृश देहा शांति पीयू
 ष मेहा ॥ १४ ॥ अथ त्रिकरणशुद्धिविषेः ॥ जग जन सुखदाई चित्त एतुं सदाई ॥
 मुखे अति मधुराई साच वाचा सुहाई ॥ वपु परहित हेते त्रण्य ए शुद्ध जेने
 ॥ तप जप व्रत सेवा तीर्थ ते सर्व तेने ॥ १५ ॥ मण वच तनु त्रण्ये गंगज्युं
 शुद्ध जेने ॥ निज घर निवसंतां निर्जरा धर्म तेने ॥ जिम त्रिकरण शुद्धे डौप
 दी अंब वाव्यो ॥ घर सफल फलंतो शील धर्म सुहाव्यो ॥ १६ ॥ अथ कुलविषे
 सहज गुण वडो ज्युं शंखमां श्वेतताई ॥ अमृत मधुरताई चंद्रमां शीतलाई
 कुवलय सुरजाई इक्षुमां ज्युं मिठाई ॥ कुलज मनुजकेरी त्युं सुजावे नजाई ॥
 ॥ १७ ॥ जिण घर वर विद्या जो दुवे तो न रुद्धि ॥ जिण घर डुय लाजे तो
 न सौजन्य वृद्धि ॥ सुकुल जनम योगे ते त्रणे जो लहीजे ॥ अनय कुमार ज्युं
 तो जन्म साफल्य कीजे ॥ १८ ॥ अथ विवेकविषे ॥ हृदय घर विवेके प्राणि
 जो दीप वासे ॥ सकल नव तणो तो मोह अंधार नाशे ॥ परम धरम वस्तु त
 त्व प्रत्यक्ष नासे ॥ करम जर पतंगा स्वांग तेने विधंसे ॥ १९ ॥ विकल नर
 कहीजे जे विवेके विहीना ॥ सकल गुण नखा जे ते विवेके विलीना ॥ जिम सुम
 ति पुरोधो नूमि गेहे वसंते ॥ उगति जुगति कीधी जे विवेके उगंते. ॥ २० ॥
 अथ विनय विषे ॥ निशिविण शशि सोहे ज्युं न शोले कलाई ॥ विनयविण
 न सोहे त्युं न विद्या वमाई ॥ विनयवहि सदाई जेह विद्या सहाई ॥ विनय
 विण न काई लोकमां अश्चताई ॥ २१ ॥ विनय गुण वहीजे जेहथी श्री वरीजे ॥
 सुर नर पति लीला जेह हेलां लहीजे ॥ पर तणय शरीरे पेशवा जे सुविद्या ॥
 विनय गुणप्रि लाधी विक्रमे तेह विद्या ॥ २२ ॥ अथ विद्याविषे ॥ अगम म
 ति प्रयुंज्ये विद्ययें कोन गंजे ॥ रिपु दल बल नंजे विद्ययें विश्व रंजे ॥ धनधि
 अखय विद्या सीख एणे तमासे ॥ गुरुमुख जणि विद्या दीपका जेम नासे
 ॥ २३ ॥ सुर नर सुप्रसंसे विद्ययें वैरि नाशे ॥ जगि सुजस सुवासे जेह वि
 द्या उपासे ॥ जिणकरि नृप रंज्यो नोज बाणे भयूरे ॥ जिणकरि कुमारिंदो
 रीजव्यो हेम सूरें ॥ २४ ॥ अथ उपकारविषेः ॥ तन धन तरुणाई आयु ए चंचला ठे ॥

परहित करि ले जे ताहरो ए समे ठे ॥ जब जनम जरा जां लागरो
 कंठ साई ॥ कहि न तिए समे तो कोण थारो सहाई ॥ ३५ ॥ नहि त
 रु फल खावे ना नदी नीर पीवे ॥ जस धन परअर्थे सो नले जीव जीवे ॥
 नल करण नरिंदा विक्रमा राम जेवा ॥ परहित करवा जे उद्यमी दहू तेवा ॥ ३६ ॥
 ॥अथ उद्यमविषे ॥ रथण निहितरी ने उद्यमे लल्लि आणे ॥ गुरु जगति हरीने उ
 द्यमे शास्त्र जाणे ॥ दुख समय सहाई उद्यमे ठे नलाई ॥ अति अलस तजी
 ने उद्यमे लाग नाई ॥ ३७ ॥ नृपशिर निपतंती वीज जात्कारकारी ॥ उदम क
 रि सुबुद्धी मंत्रिए ते निवारी ॥ तिम निज सुतकेरी आवती दुर्दशाने ॥ उदम
 करि निवारी ज्ञानगर्भे प्रधाने ॥ ३८ ॥ अथ दानविषे ॥ धिर नहि धन राख्यो
 तेम नाख्यो न जाए ॥ इण पर धन जोतां एव गत्या जणाए ॥ इह सुगुण सु
 पात्रे जेह दे नक्ति नावे ॥ निधि जिम धन आगे साथ तेहीज आवे ॥ ३९ ॥
 नल बलि हरिचंदा जोज जे जे गवाए ॥ प्रहू समय सदा ते दानकेरे पसाए ॥
 इम वृद्धय विमासी सर्वथा दान दीजे ॥ धन सफल करीजे जन्मनो लाहु जी
 जे ॥ ४० ॥ अथ शीलविषे ॥ अशुन करम घाले शील शोना दिखाले ॥ गुणगण
 अजुआले आपदा सर्वे टाले ॥ तस नर बहु जीवी रूप लावण्य देई ॥ परनव शि
 व होई शील पाले जिकेई ॥ ४१ ॥ इण जग जिनदास श्रेष्ठ शीले सुहायो ॥ ति
 म निरमल शीले शील गंगेव गायो ॥ कलि करण नरिंदा ए समां ठे जिकेई ॥
 परनव शिव पामे शील पाले तिकेई ॥ ४२ ॥ अथ तपविषे ॥ तरणि किरणथी
 ज्यूं सर्व अंधार जाए ॥ तपकरि तपथी त्यूं दुःख ते दूर थाए ॥ बलि मलिन थ
 यूं जे कर्मचंमाल तीरे ॥ किम तनु न पखाळे ते तपस्वर्ण नीरे. ॥ ४३ ॥ तपविण
 नवि थाए नाश दुःकर्म केरो ॥ तपविण न टले जे जन्म संसार फेरो ॥ तप ब
 लि लहि लब्धी गोतमे नंदिखेणे ॥ तप बलि वपु कीथुं विष्णु वैकीय जेणे ॥ ४४ ॥
 अथ नावविषे ॥ मनविण मिलवो ज्यूं चाववो दंतहीणे ॥ गुरुविण जणवो ज्यूं
 जीमवो ज्यूं अलूणे ॥ जसविण बहु जीवी जीव ते ज्यूं न सोहे ॥ तिम धरम
 न सोहे नावना जो न होहे. ॥ ४५ ॥ नरत नृप इलाची जीरणश्रेष्ठि नावे ॥
 बलि बलकल चीरी केवल ज्ञान पावे ॥ बलनद हरिणो जे पंचमे स्वर्ग जाए ॥
 इहज गुण पसाये तास निस्तार थाए ॥ ४६ ॥ अथ क्रोधविषे ॥ तृण दहन दे
 हंतो वस्तु ज्यूं सर्व बाले ॥ गुण करण नरी त्यूं क्रोध काया प्रजाले ॥ प्रसम ज
 लद धारा वन्हि ते क्रोध वारो ॥ तप जप व्रत सेवा प्रीतिवल्ली वधारो. ॥ ४७ ॥

धरणि परशुरामे क्रोधि निहृत्रि कीधी ॥ धरणि सुशुमराये क्रोधि निब्रह्मि सा
 धी ॥ नरकगति सहायी क्रोध ए दुःख दाई ॥ वरज वरज चाई प्रीति दे जे वधा
 ई ॥ ४७ ॥ अथ मानविषे ॥ विनय वनतणी जे मूल शाखा विमोडे ॥ सुगुण क
 नककेरी गूंखलाबंध तोडे ॥ उनमद करि दोडे मान ते मत्त हाथी ॥ निजवश
 करि ले जे अन्यथा दूर एथी ॥ ४८ ॥ विषद विष समो ए मान ते सर्प जाणो
 मनुज विकल होवे एण मंके जडाणो ॥ इह न परिहस्यो जो मान डुर्योधने तो ॥
 निज कुल त्रिणसाडयो मानने जे वहंतो ॥ ४९ ॥ अथ मायाविषे ॥ निवुरपणु
 निवारी हीयडे हेज धारी ॥ परिहर ठल माया जे असंतोषकारी ॥ मधुर मयुर
 बोले तोहि विश्वास नाणे ॥ अहि गिलण प्रमाणे माथिने लोक जाणे ॥ ५० ॥
 म कर म कर माया दंन दोषद्रु ठाया ॥ नरय तिरिय केरा जन्म दे जेह माया ॥
 बलि नृप ठलवाने विष्णु माया वहंतां ॥ लहुयपण लह्युं जे वामनारूप छेतां
 ॥ ५१ ॥ अथ लोचविषे ॥ सुण वयण सयाणे चित्तमां लोच माणे ॥ सकल व्य
 सनकेरो मार्ग ए लोच जाणे ॥ इक खिण पण एने संग रंगे म लागे ॥ नव
 नव दुख दे ए लोचने दूर त्यागे ॥ ५२ ॥ कनकगिरि कराया लोचधी नंदराये ॥
 निज अरथ न आया ते हखा देवताये ॥ सयल निधि लही जे स्वाय ते विश्व
 कीजे ॥ मन तनह वरीजे लोच तृष्णा न ठीजे ॥ ५३ ॥ अथ दयाविषे ॥ सुकृत क
 लप वेली लहि विद्या सहेली ॥ विरतिरमण केली शांति राजा महेली ॥ सकल
 गुण नलेरी जे दया जीव केरी ॥ निज त्ददय धरी ते साधिए मुक्ति सेरी ॥ ५४ ॥
 निज सरण परेवो जेनथी जेण राख्यो ॥ षट दशम जिने ते ए दया धर्म दा
 ख्यो ॥ तिह त्ददय धरीने जो दया धर्म कीजे ॥ नवजलधि तरीजे दुःख दूरे करी
 जे ॥ ५५ ॥ अथ सत्यविषे ॥ गरल अमृत वाणी साचथी अग्नि पाणी ॥ सृज
 सम अहिराणी साच विश्वास खाणी ॥ सुपसन सुर कीजे साचथी ते तरीजे ॥
 त्रिण अलिक तजीजे साचवाणी वदीजे ॥ ५६ ॥ जग अपजश वाधे कूडवाणी
 वदंतां ॥ वसु नृपति कुगत्यें साख कूडी नरंतां ॥ असत वचन वारी साचने चि
 त्त धारी ॥ वद वचन विचारी जे सदा सौख्यकारी ॥ ५७ ॥ अथ चोरीविषे ॥ पर
 धन अपहारे स्वार्थपें चोर हारे ॥ कुल अजस वधारे बंध घातादि धारे ॥ पर धन
 तिण हेते सर्प ज्युं दूर वारी ॥ जग जन हितकारी होय संतोष धारी ॥ ५८ ॥
 निशिदिन नर पामे जेहथी दुःख कोडी ॥ तज तज धन चोरी कष्टनी जेह थोरी ॥
 पर विजव हरंतो रोहिणी चोर रंगे ॥ इह अचथ कुमारे ते ग्रह्यो बुद्धि संगे ॥ ५९ ॥

अथ कुशीलविषे ॥ अथश पद्मह वागे लोकमां लीह जागे ॥ डुरजन बहु जागे
जे कुले लाज लागे ॥ सजन पण विरागे मां रमे एण रागे ॥ परतिय रस रागे दो
पनी कोडि जागे ॥ ६१ ॥ परतिय रसरगे नाश लंकेश पायो ॥ परतिय रस त्या
गे शील गंगेव गायो ॥ द्रुपद जनक पुत्री विश्व विश्वे विदीती ॥ सुर नर मिलि सेवी
शीलने जे धरंती ॥ ६२ ॥ अथ परिग्रहविषे ॥ शशिवदय वधे ज्युं सिंधु वेला जलेरी ॥
धनकरि मन साए तेम वाधे घणोरी ॥ डुरित नरग सेरी तूं करे ए परेरी ॥ ममकर अधि
केरी प्रीति ए अर्थकेरी ॥ ६३ ॥ मनुज जनम हारे ॥ दुःखनी कोडि धारे ॥ परिग्र
ह ममता ए स्वर्गना सौख्य वारे ॥ अधिक धरणि लेवा धातकी खंन केरी ॥ सुचुम,
कुगति पामी चक्रिराये घणोरी ॥ ६४ ॥ अथ संतोषविषे ॥ सकल सुख नराए विश्व
तावश्य थाए ॥ नवजलधि तराए दुःख दूरे पलाए ॥ निज जनम सुधारे आपदा
दूर वारे ॥ निज धरम वधारे जेह संतोष धारे ॥ ६५ ॥ सकल सुखतणो ते सार
संतोष जाणे ॥ कनक रमणिकेरी जेह इहा न थाणे ॥ रजनि कपिल बांध्यो स्व
र्णनी लोलताए ॥ नमर कमल बांध्यो ते असंतोषताए ॥ ६६ ॥ अथ विषयविषे ॥
शिवपद यदि वांठे जेह आनंद दाई ॥ विषसम विषया तो ठांनि दे दुःखदाई ॥
मधुर अमृत धारा दूधनी जो लहीजे ॥ अति विरस सदा तो कांजिका संग्रही
जे ॥ ६७ ॥ विषय विकल ताणी कीचके नीम जार्या ॥ दशमुख अपहारी जा
नकी रामजार्या ॥ रति धरि रहनेमी क्रीडवा नेमि जार्या ॥ जिण विषय न वर्ज्या
तेह जाणो अनार्या ॥ ६८ ॥ अथ इंद्रियविषे ॥ गज मगर पतंगा जेह जृंगा कुरं
गा ॥ इक इक विषयार्थे ते लहे दुःख चंगा ॥ जस परवश पावे तेहनूं शूं कही
जे ॥ इम वृद्धय विमासी इंद्रि पांचे दमीजे ॥ ६९ ॥ विषय वन चरंता इंद्रि जे
उंटडा ए ॥ निज वश नवि राखे तेह दे दुःखडा ए ॥ अवश करण मृत्यू ज्युं अगुर्गे
द्रि पामे ॥ स्ववश सुख लह्या ज्युं कुर्म गुर्गीद्रि नामे ॥ ७० ॥ अथ प्रमादवि
षे ॥ सद्गु मन सुख वांठे दुःखने को न वांठे ॥ नहि धरम विना ते सौख्य ए संपजे
ठे ॥ इह सुधरम पामी कां प्रमादे गमीजे ॥ अति अलश तजीने उद्यमे धर्म की
जे ॥ ७१ ॥ इह दिवश गया जे तेह पाठा न आवे ॥ धरम समय आले कां प्र
मादे गमावे ॥ धरम नवि करे जे आयु आले वहावे ॥ शशि नृपतिपरे त्युं सोच
ना अंत पावे ॥ ७२ ॥ अथ साधुधर्मविषे ॥ शार्दूल विक्रीडितछंदः ॥ जे पंच व्रत मेरु
नार निवहे, निःसंग रंगे रहे ॥ पंचाचार धरे प्रमाद न करे, जे दुःपरिस्ता सहे ॥
पांचे इंद्रि तुरंगमा वश करे, मोक्षार्थने संग्रहे ॥ एवो डुष्कर साधु धर्म धन ते, जे

ज्युं ग्रहे त्युं वहे ॥ ७३ ॥ मालिनीबंद ॥ मयण सरव मोमी कामिनी संग होमी ॥
 तजिय कनक कोडी मुक्तिसूं प्रीति जोडी ॥ नव नव नय वामी शुद्ध चारित्र पामी ॥
 इह जग शिवगामी ते नमो जंबु स्वामी ॥ ७४ ॥ अथ श्रावकधर्म विषे ॥ शा
 दूलविक्रीडितबंद ॥ जे सम्यक्त लही सदा व्रत धरे, सर्वज्ञ सेवा करे ॥ संध्या वश्य
 क आदरे गुरु नजे, दानादि धर्माचरे ॥ नित्ये सद्गुरु सेवना मनधरे, एवो जि
 नाधीशरे ॥ नाख्यो श्रावकधर्म दोय दशधा, जे आदरे ते तरे ॥ ७५ ॥ मालिनी
 बंद ॥ निशिदिन जिनकेरी जे करे शुद्ध सेवा ॥ अणु व्रत धरि जे ते काम आनंद
 देवा ॥ चरम जिन वरिंदे जे सुधर्म सुवास्या ॥ समकित सतवंता श्रावका ते प्रसं
 स्या ॥ ७६ ॥ इम अरथ रसाला जे रची सूक्तमाला ॥ धरम नृपति बाला मालि
 नी बंद शाला ॥ धरम मति धरंतां ए इहां पुण्य वाध्यो ॥ प्रथम धरम केरो सार ए
 वर्ग साध्यो ॥ ७७ ॥ इति श्रीमत्सूक्त मुक्तावल्यां धर्मवर्गः प्रथमः समाप्तः ॥ १ ॥

॥ अथ अर्थवर्ग प्रारंभः ॥

उपेडवजाबंदः ॥ अथार्थवर्गे हितचिंतनं श्रीर्मितंपचार्यस्व महीशसेवा ॥
 खलादिमैत्री व्यसनादि चैव; मिहावधार्याः कतिचित्प्रसंगाः ॥ १ ॥ अथ अर्थ
 विषेः मालिनी बंद ॥ अरथ अरजि जेणे स्वायते विश्व होवे ॥ जिण विण गु
 ण विद्या रूपने कोण जोवे ॥ अजिनव सुखकेरो सार ए अर्थ जाणी ॥ सकल
 धरम एथी साधिए चित्त आणी ॥ २ ॥ अरथ विण कवन्नो जेह वेश्याइ ना
 ख्यो ॥ अरथ विण वसिष्ठे राम जातो उवेख्यो ॥ सुकृत सुजस कारी अर्थ ते ए
 उपाजो ॥ कुवणज उपजंतो अर्थ ते दूर वर्जो ॥ ३ ॥ अथ हित चिंतनवि
 षेः ॥ परहित करवा जे चित्त उहाह धारे ॥ परकृत हितहीये जे न कांई विसारे ॥
 प्रति हित परथी ते जे न वांढे कदाई ॥ पुरुष रयण सोई वंदिए सो सदाई ॥ ४ ॥
 निज दुख न गणीने पारकूं दुःख वारे ॥ तिहतण बलिहारे जाइए कोडि वा
 रे ॥ जिम विषनर जेणे मंक पीडा सहिने ॥ विषधर जिनवीरे बूळव्यो ते वहीने
 ॥ ५ ॥ अथ लक्ष्मीविषेः ॥ हरि सुत रति रंगे जे रमे रात सारी ॥ शिवतनय कुमा
 रो ब्रह्म पुत्री कुमारी ॥ हितकरि दृगलीला जेहने लडि जोवे ॥ सकल सुख ल
 हे सो सोहि विख्यात होवे ॥ ६ ॥ लखमि बलि यशोदा नंदने विश्व मोहे ॥ ल
 खमि विण विरूपी संघु जिहू न सोहे ॥ लखमि लहिय रांके जे शिलादित्य नां
 ज्यो ॥ लखमि लहिय शाके विक्रमे विश्व रंज्यो ॥ ७ ॥ अथ कृपणविषेः ॥ कण

कण जिम संचे कीटिका धान्यकेरो ॥ मधुकर मधु संचे जोगवे को अनेरो ॥ ति
 स धन रूपणकेरो नोपकारे दिवाये ॥ इमहि विलय जाए अन्यथा अन्य खाए ॥
 ७ ॥ रूपण पणु धरंतां जे नवे नंद राया ॥ कनक गिरि कराया ते तिहां अर्थ
 नाया ॥ इम मनत करंतां दुःख वासे वसीजे ॥ रूपण पणु तजीजे मेघज्युं दा
 न दीजे ॥ ८ ॥ अथ याचनविषेः ॥ निरमल गुण राजी त्यां लगे लोक राजी ॥
 तब लग कहि जीजी त्यां लगे प्रीति जाजी ॥ सुजन जन सनेही त्यां लगे मि
 त्र तेही ॥ मुख थकि न कहीजे ज्यां लगे देहि देही ॥ १० ॥ जइ वडपण वांढे
 मांगजे तो न कांई ॥ लहु पण जिण होवे केम कीजे तिकाई ॥ जिम लघु थइ सोजें
 वीरथी दान लीधूं ॥ हरि बल नृप आगे वामना रूप कीधूं ॥ ११ ॥ अथ नि
 र्धनविषेः ॥ धनविण निज बंधू तेहने दूर ठंडे ॥ धनविण गृह चार्या तेह सेवा न
 मंडे ॥ निरजल सरजेवो देह निर्जीव जेवो ॥ निरधन तृण जेवो लोकमें ते गणे
 वो ॥ १२ ॥ सरवर जिम सोहे नीर पूरे जरायो ॥ धन करि नर सोहे तेम नीते
 उपायो ॥ धनकरिय सुहंतो माघ जे जाण दूतो ॥ धनविण पग सूजी तेह दीतो मरं
 तो ॥ १३ ॥ अथ राज सेवाविषेः ॥ सुजनसु हित कीजे दुर्जना सीख दीजे ॥ जग
 जन वश कीजे चित्त वांढा वरीजे ॥ निज गुण प्रगटीजे विश्वना कार्य कीजे ॥ प्रभु
 सम विचरीजे जो प्रनूसेव कीजे ॥ १४ ॥ जगतिकरि वडानी सेव कीजे जिकाई
 ॥ अधिक फल न आपे कर्मथी ते तिकाई ॥ जलधि तरिय लंका सीत संदेस
 लावे ॥ हनुमत करमे ते राम कन्होट पावे ॥ १५ ॥ अथ खलताविषे ॥ रस विर
 स नजे ज्युं अंब निंब प्रसंगे ॥ खल मिलण दुवे ल्युं अंतरंग प्रसंगे ॥ सुण सु
 ण ससनेही जाणि ले रीति जेही ॥ खल जन निसनेही तेहगुं प्रीति केही ॥ १६
 मगर जल वसंतो ते कपीराय दीतो ॥ मधुर फल चखावी ते कखो मित्र मीतो
 ॥ कपि कलिज नखेवा मत्स खेजी खलाई ॥ जलमहिं कपि बुद्धी ठांदि दे ते जला
 ई ॥ १७ ॥ अथ अविश्वासविषे ॥ उपजाति ठंद ॥ विश्वासिसाथे न ठले रमीजे ॥ न
 वैरि विश्वास कदापि कीजे ॥ जो चित्त ए धीर गुणे धरीजे ॥ तो लहि लीला ज
 गमां वरीजे ॥ १८ ॥ इंडवजाठंद ॥ चाणायके ज्युं निज काज साख्यो ॥ जे राज जागी नृप
 तेह माख्यो ॥ जो घूअडे काक विश्वास कीधो ॥ तो वायसे घूकने दाह दीधो ॥ १९ ॥
 अथ मैत्रीविषे ॥ मालिनीठंद ॥ करि कनक सरीसी साधु मैत्री सदाई ॥ घसि कसि
 तप वेधे जास वाणी सवाई ॥ अहव करहि मैत्री चंडमां सिंधु जेही ॥ घट घट
 वध वाधे सारखा वे सनेही ॥ २० ॥ इह सहज सनेहे जे वधे मित्रताई ॥ रवि प

रि न चले ते काजज्युं बंधुताई ॥ हरि हलधर मैत्री कृष्णने जे ठमासे ॥ हलधर नि
 ज खंधे ले फिखो जीवि आसे ॥२१॥ अथ व्यसन विषे ॥ नलिन मलिन शोभा सां
 ऊथी जेम थाए ॥ इह कुवसनथी ल्युं संपदा कीर्त्ति जाए ॥ कुविसन तिण हेते स
 र्वथा दूर कीजे ॥ जनम सफल कीजे कीर्त्ति कांता वरीजे ॥ २२ ॥ अथ द्यूतविषे ॥ दु
 तविलंबित ठंड ॥ सुगुरु देव जिहां नवि लेखवे ॥ धनविणा सहुए जिण खेलवे ॥ नव
 नवे नमवूं जिण ऊवटें ॥ कहिनि कोण रमे तिण जूवटें ॥ २३ ॥ अथमांस नकृण
 विषे ॥ उपजातिठंड ॥ जे मांस लुब्धा नर ते न होवे ॥ ते राहसा मानुषरूप सोवै ॥ अथ
 चोरीविषे ॥ जे लोकमां नर्ग निवास करी ॥ निवारीए ते परडव्यचोरी ॥ २४ ॥ अथ म
 द्यविषे ॥ अर्यंगप्रयातठंड ॥ सुरापानथी चित्त संत्रांत थाये ॥ गले लाज गंजीरता शी
 ल जाये ॥ जिहां ज्ञान विज्ञान सूजे न बूजे ॥ इशू मद्य जाणी न पीजे न दीजे ॥
 ॥२५॥ अथ वेश्याविषे ॥ कहो कोण वेश्या तणो अंग सेवे ॥ जिणे अर्थनी लाजनी
 हाणि होवे ॥ जिणे कोश सिंहा गुफाये निवासी ॥ ठव्यो साधु ने पालग्यो कंबलासी
 ॥२६॥ अथ खेटकविषे ॥ ठंड ॥ मृगयाने तज जीव घात जे ॥ सघले जीव दया सदा
 नजे ॥ मृगयाथी दुख जे लह्या नवां ॥ हरि रामादि नरेंड जे हवा ॥ २७ ॥
 परस्त्रीविषे ॥ चौपाईठंड ॥ स्वर्ग सौख्यजणि जो मन आशा ॥ ठांढे तो परनारि
 विलासा ॥ जेण एण निज जन्म दुःखए ॥ सर्वथा न परलोक सूखए ॥ २८ ॥
 अथ ए विषयोना उदाहरणो ॥ शार्दूलविक्रीडितठंडः ॥ जूवा खेलण पांनवा वन
 नम्या, मद्ये बली द्वारिका ॥ मांसे श्रेणिक नारकी दुख लह्या, बांध्या नरे चोरि
 का ॥ आखेटे दशरत्थपुत्र विरही, केवल वेश्या घरे ॥ लंकास्वामि परत्रिया रस
 रमे, जे ए तजे ते तरे ॥२९॥ अथ कीर्त्तिविषे ॥ मालिनी ठंडः ॥ दिशिदिशि पसरं
 ती चंद्रमा ज्योति जैसी ॥ श्रवण सुणत लागे जाण मीठी सुधासी ॥ निशिदिन
 जनगाये रामराजिंद जेवी ॥ इण कलि बहु पुण्ये पामियें कीर्त्ति एवी ॥३०॥ अथ
 प्रधानविषे ॥ सकल व्यसन वारे स्वामिसूं नक्तिधारे ॥ स्वपरहित वधारे राज्यना का
 ज सारे ॥ अनय नय विचारे हुडता दूर वारे ॥ निजसुत जिम धारे राज्य लक्ष्मी
 वधारे ॥ ३१ ॥ अथ कलाविषे ॥ चतुर कर कलानो संग्रहो सौख्यकारी ॥ इण
 गुण जिण लाधी डौण संपत्ति सारी ॥ त्रिपुर विजय कर्ता जे कलाने प्रसंगे ॥ हि
 मकर मनरंगे ले धखो उत्तमांगे ॥३२॥ अथ मूर्खताविषे ॥ वचन रस न जेदे मूर्ख
 वार्त्ता न वेदे ॥ तस कुवचन खेदे तेहने सीख जे दे ॥ नृपशिर रज नाखी जेण मू
 र्खे वहीने ॥ हित कहत हणीज्युं वानरे सुग्रहीने ॥३३॥ अथ लज्जाविषे ॥ निज

वचन निवाहे लाज ग्युराज्य वाले ॥ व्रत नय कुलरीते मातज्युं लाज पाले ॥ सक
ल गुण सुहावे लाजथी नावदेवे ॥ व्रत नियम लह्यो जे चाइ लज्जा प्रचावे ॥३४॥
शालिनी ठंद ॥ एवा जे जे रूयडा नाव राजे ॥ एणेविश्वें अर्थथी तेह ठाजे ॥ एवं
जाणी सार ए सौख्य केरो ॥ ते धोरा जे अर्थ अर्जे नलेरो ॥ ३५ ॥ इतिश्री सूक्त
मुक्तावल्यां अर्थवर्गो द्वितीयः समाप्तः ॥ २ ॥

॥ अथ कामवर्ग प्रारंभः ॥

उपजाति ठंदः॥ ग्राह्याः किर्यतः किल कामवर्गे कामो नृनायों गुणदोषनाजः ॥
सुंजह्यै र्योगवियोगयुक्तैः समातृपितृप्रमुखाः प्रसंगाः ॥ १ ॥ अथ कामविषेः ॥
कंदर्प पंचानन तेज आगे ॥ कुरंग जेवा जगजीव नागे ॥ स्त्रीशस्त्र लेई जग जे व
दीता ॥ तिणए देवा जनवृंद जीता ॥ २ ॥ मालिनी ठंदः ॥ मनमथ जगमांहे ड
र्जयीजे अद्यापी ॥ त्रिभुवन सुरराजी जासशस्त्रे सतापी ॥ जलज विधि उपासे वा
र्दिजा विष्णु सेवे ॥ हर हिम गिरिजाने जेण अर्धांग देवे ॥ ३ ॥ शार्दूलविक्रीडित
ठंदः ॥ जिह्नीनाव चव्यो महेश उमया, जे काम रागे करी ॥ पुत्री देखि चव्यो चतुर्मु
ख हरी, आहेरिका आदरी ॥ इंडे गोतमनी त्रिया विलसिने, संजोग ते ओलव्या ॥
कामे एम महंत देव जग जे, ते जोलव्या रोलव्या ॥ ४ ॥ मालिनी ठंदः ॥ नल नृ
पद वदंती देखि चारित्र चाळे ॥ अरह नरहनेमी ते तपस्या विटाले ॥ चरम जिन
मुनी ते चिह्नणारूप मोहे ॥ मयण सर व्यथाना एह उन्माद सोहे ॥ ५ ॥ अथ
गुणदोषोद्भावनविषे ॥ रथोद्गताठंदः ॥ उत्तमा पण नरा न संजवे ॥ मध्यमा तिम
न योषिता हुवे ॥ एह उत्तमिक मध्यमी पणो ॥ बेहुमांहि गुणदोषनो गिणो ॥६॥
तत्र पुरुषगुणा यथा ॥ शार्दूलविक्रीडितठंदः॥ जे नित्ये गुण वृंद ले परतणा, दोषां
न जे दाखवे ॥ जे विश्वे उपगारिने उपकरे, वाणीसुधा जे लवे ॥ पूरा पूनिम चंद
जेम सुगुणा, जे धीर मेरूसमा ॥ उंमा जेह गंजीर सायर जिस्या, ते मानवा उत्तमा
॥७॥ अनुष्टुप् ठंदः॥रूप सौजाग्य संपन्नाः सत्वादिगुणशोचनाः ॥ ते लोके विरला
धीरोः श्रीराम सदृशा नराः ॥ ८ ॥ अथ पुरुष दोषा यथा ॥ शार्दूलविक्रीडितठंदः ॥
लंकासामि हरंति राम तजि जे, शीतातणी एवकी ॥ स्त्रीवेची हरिचंद पांमव नृपे, क
ष्णा न राखी सको ॥ रात्रें ठांनि निज स्त्रिया नल नृपे, ए दोष मोटा जणी ॥ जोवो
उत्तम मांहि दोष गणना, का वात बीजातणी ॥ ९ ॥ अथ स्त्रीगुणा यथा ॥ उपजा
तिठंदः ॥ सुसीख आले प्रिय चित्त चाळे ॥ जे शील पाले गृह चिंत टाले ॥ दाना

दि जेणे गृहधर्म होई ॥ ते गेहि नित्ये घरजन्नि सोई ॥ १० ॥ अथ स्त्रीदोषा यथा
 ॥ उपजातिठंद ॥ नर्त्ता हण्यो जे पति मारकार्ये ॥ नाख्यो नदीमां शुक्र मालिका
 ये ॥ सुदर्शनश्रेष्ठि सुशील राख्यो ॥ ते आज देई अजयाय दाख्यो ॥ ११ ॥ वसंत
 ततिलका ठंदः ॥ माख्यो प्रदेशि सुरिकांति विषयावलीए ॥ राजा यशोधर हण्यो न
 यनावलीए ॥ दुःखी कख्यो स्वसुर नूपुर पंडिताए ॥ दोषी त्रिया इम जणी
 इण दोषताए ॥ १२ ॥ अथ सुलक्षणी स्त्रीविषेः--शार्दूलविक्रीडितठंद ॥ रुडी
 रूपवती सुशील सुगुणी, लावण्य अंगे लसे ॥ लज्जालु प्रियवादिनी प्रियतणे, चित्ते
 सदा जे वसे ॥ लीला यौवन उद्धसे उरवसी, जाणे नृलोके वशी ॥ एवी पुण्यतणे
 पत्ताय लहिये, रामे रमा सारशी ॥ १३ ॥ उपजातिठंदः ॥ सीता सुनडा नलराय रा
 णी ॥ जे शोपदी शीलवती वखाणी ॥ जे एहवी शीलगुणे समाणी ॥ सुलक्षणा ते
 जगमांही जाणी ॥ १४ ॥ अथसंयोगविषेः ॥ मालिनी ठंदः प्रियसखि प्रिययोगे उद्ध
 से नेत्र रंगे ॥ हसित मुख शशीज्युं सर्व रोमांच अंगे ॥ कुच इक मुक्त वैरी नम्रता
 जे न दाखे ॥ प्रिय मिलण समे जे अंतरो तेह राखे ॥ १५ ॥ अथ वियोगविषेः
 दिन वरस समाणे रैणि कळपांत जाणे ॥ हिम रज कदली जे तेह जाला प्रमाणे
 ॥ शशिरसिकरसो जे सूरसो सोइ लागे ॥ प्रिय विरह प्रियाने दुःख शूं शूं न जागे
 ॥ १६ ॥ अथ माताविषे ॥ इंडवजाठंदः ॥ जे मातनो बोल कदा न लोपे ॥ जे विश्वमां सू
 रज जेम आपे ॥ ज्यां धर्म चर्या बहुधा परीखी ॥ त्यां मातपूजा सद्गुमां सरीखी
 ॥ १७ ॥ जे मात मोहें जिन एम कीधो ॥ गर्जे वसंतां व्रत नेम लीधो ॥ जे मात न
 डा वयणे प्रबुद्धो ॥ शीला तपंते अरहन्न सीधो ॥ १८ ॥ अथपिताविषेः ॥ जे बाल जा
 वे सुतने रमाडे ॥ विद्या जणावे सरसूं जमाडे ॥ ते तातनो प्रत्युपकार एही ॥ जे तेह
 नी नक्ति हिये वहेही ॥ १९ ॥ मालिनीठंदः ॥ निषध सगर राया जे हरीनड चं
 डा ॥ तिम दशरथ राया जे प्रसन्ना मुनिंडा ॥ मनक जनक जेते पुत्रने मोह जा
 ख्या ॥ स्वसुत हित करीते तेहना काज साखा ॥ २० ॥ अथ पुत्रविषेः ॥ स्वागताठंदः
 मात तातपद पंकज सेवा ॥ जे करे तस सुपुत्र कहेवा ॥ जेह कीर्त्ति कुललाज वधा
 रे ॥ सूर्य जेम जगि तेज सधारे ॥ २१ ॥ शालिनीठंदः ॥ गंगापुत्रे विश्वमां कीर्त्ति
 रोपी ॥ आज्ञा जेणे तातकेरी न लोपी ॥ ते धन्या जे अंजनापुत्र जेवां ॥ जेणे की
 धी जानकी नाथ सेवा ॥ २२ ॥ तोटकठंदः ॥ इम काम विलास उलास तए ॥ र
 सरीति हृदे अनुजावतए ॥ जिमचंदन अंग विलेप तए ॥ हिय होय सदा सुख
 संपतए ॥ २३ ॥ इति श्रीसूक्त मुक्तावल्यां काम वर्गस्तृतीयः समाप्तः ॥

अथ मोक्षवर्ग प्रारंभः

उपजातिहृदः ॥ ग्राह्याः कियंतः किल मोक्षवर्गे कर्मकृत्यासंयमजावनाद्याः ॥ वि
वेकनिर्वेदनिजप्रबोधा इत्येवमेते प्रवरप्रसंगाः ॥ १ ॥ मोक्षार्थविषे मालिनीहं
दः ॥ इह नव सुख हेते के प्रवर्ते नखेरा ॥ परनव सुखहेते जे प्रवर्ते अनेरा ॥ अवर
अरथ ठंमी मुक्ति पंथा अराधे ॥ परम पुरुष सोई जेह मोक्षार्थ साधे ॥ २ ॥
तजिय नरत केरी जेण ठे खंड नूमी ॥ शिवपथ जिण साथ्यो सोलमे सांति सामी ॥
गजमुनि सुप्रसिद्धा जेम प्रत्येक बुद्धा ॥ अवर अर्थ ठंडी धन्य ते मोक्ष लुद्धा ॥ ३ ॥
अथ कर्मविषे ॥ करम नृपति कोपे दुःख आपे घणोरा ॥ नरथ तिरथ केरा जन्म ज
न्मे अनेरा ॥ सुज परिणति होवे जीवने कर्म तेवे ॥ सुरनरपतिकेरी संपदा सोइ
देवे ॥ ४ ॥ करम शशि कलंकी कर्म निहू पिनाकी ॥ करम बलि नरेंडे प्रार्थना
विष्णुरांकी ॥ करम वश विधाता इंड सूर्यादि होई ॥ सबल करम सोई, कर्म जेवो
न कोई ॥ ५ ॥ अथ कृमाविषे ॥ डुरित नर निवारे जे कृमा कर्म वारे ॥ सकल
तप सधारे पुन्य लक्ष्मी वधारे ॥ श्रुत सकल अराधे जे कृमा मोक्ष साधे ॥
जिण निज गुण वाधे ते कृमा कां न साधे ॥ ६ ॥ सुगति लहि खिमाए खंध
सूरीस सीसा ॥ सुगति दृढ प्रहारे कूरगद्गु मुनीसा ॥ गज मुनिस खिमाए मु
क्ति पंथा अराधे ॥ तिम सुगति खिमाए साधु मैतार्थ साधे ॥ ७ ॥ अथ संयमविषे
स्वागता हंदा ॥ पूर्व कर्म सवि संयम वारे ॥ जन्म वारिनिधि पार उतारे ॥ तेह संयम
न केम धरीजे ॥ जेण मुक्ति रमणी वश कीजे ॥ ८ ॥ तुंग शैल ब्रजदेव सुहायो ॥ जे
ण सिंह मृग बोध बतायो ॥ तेम संयम लहीय अरायो ॥ जेण पंचम सुरालय पायो
॥ ९ ॥ अथ द्वादश जावनाविषे ॥ तत्र प्रथम अनित्य जावना ॥ मालिनी हंदा ॥ धण
कण तनु जीवी वीज जात्कार जेवी ॥ सुजन तरुण मैत्री स्वप्न जेवी गणोवी ॥
अहमत ममताए मूढता कांइ माचे ॥ अथिर अरथ जाणी एणशूं कोण राचे
॥ १० ॥ धरणि तरु गिरिंदा देखिए जाव जेई ॥ सुर धनुष परे ते जंगुरा जाव तेई
इम वृद्धय विमासी कारमी देह ढाया ॥ तजिय नरतराया चित्त योगे लगाया ॥ ११ ॥
द्वितीय असरण जावना ॥ परम पुरुष जेवा संहखा जे कृतांते ॥ अवर सरण के
नुं लीजिये तेह अंते ॥ प्रिय सुवृद्ध कुटंबा पाश बेठा जिकोई ॥ मरण समय राखे
जीवने ते न कोई ॥ १२ ॥ सुर गण नर कोडी जे करे जास सेवा ॥ मरण नय
न नूटा तेह इंडादि देवा ॥ जगत जन हरंतो एम जाणी अनाथी ॥ व्रत ग्रहिय वि
बूटो जेह संसारमांथी ॥ १३ ॥ तृतीय संसार जावना ॥ शार्दूलविक्रीडितहृदः ॥

तिर्यचादि निगोद नारकितणी, जे योनि योनी रह्यां ॥ जीवे दुःख अनेक दुर्गतित
 णा, कर्मप्रभावे लह्यां ॥ या संयोग वियोग रोग बहुधा, या जन्म जन्मे दुखी ॥ ते
 संसार असार जाणि इहवो, जे ए तजे सो सुखी ॥ १४ ॥ इन्द्रजातुदः ॥ जे हीन
 ते उत्तम जाति जाए ॥ जे उच्च ते मध्यम जाति थाए ॥ ज्युं मोहमेतार्य
 मुनींइ जाए ॥ ल्युं मंगु सूरी पुरयकू थाए ॥ १५ ॥ चतुर्थ एकत्वनावना
 पुण्ये अकेलो जिव स्वर्ग जाए ॥ पापे अकेलो जिव नर्क जाए ॥ ए जीव जा आ
 व करेअकेलो ॥ ए जाणिने ते ममता महेलो ॥ १६ ॥ उपजाति तुदः ॥ ए एकलो जी
 व कुटुंब योगे ॥ सुखी दुखी ते तस विप्रयोगे ॥ स्त्री हाथ देखी वलयो अकेलो ॥ न
 मी प्रबोध्यो तिणथी वहेलो ॥ १७ ॥ पंचम अन्यत्वनावना ॥ जो आपणो देहज ए
 न होई ॥ तो अन्यको आपण मित्त कोई ॥ जे सर्व ते अन्य इहां नणीजे ॥ केहो ति
 हां हर्ष विषाद कीजे ॥ १८ ॥ देहादि जे जीवथकी अनेरां ॥ श्यो दुःख कीजे तस
 नासकेरां ॥ ते जाणिने वाघणिने प्रबोधी ॥ सुकोसले स्वांगन सारकीधी ॥ १९ ॥ अथ
 अशुचिनावना ॥ काया महा एह अशुचिताई ॥ जिहां नव ढार वहे सदाई ॥ कस्तू
 रिकपूर सुद्वय सोई ॥ ते काय संयोग मलीन होई ॥ २० ॥ अशुचि देही नर नारि केरी
 ॥ म राच जे ए मलमूत्र सेरी ॥ ए कारमी देह असार देखी ॥ चतुर्थ चक्रिय पण ते उवेखी
 ॥ २१ ॥ सप्तमी आश्रवनावना ॥ मालिनीतुदः ॥ इह अविरति मिथ्या योग पापादि साधे
 इण उण नव जीवा आश्रवे कर्म बांधे ॥ करम जनक जेने आश्रवा जे न रुंधे ॥ स
 मर समय आत्मा संवरी सो प्रबुद्धे ॥ २२ ॥ इन्द्रजातुदः ॥ जेकुंडरीके व्रतठांडि दीधुं
 ॥ नाईतणूं तेवलि राज्य लीधुं ॥ तेदुःख पाम्या नरके घणोरा ॥ तेहेतु एआश्रव दोषकेरा ॥ २३
 अष्टमी संवरनावनाजे सर्वथाआश्रवनेनिरुंधे ॥ तेसंवरी संवरनाव साधे ॥ ते जाववंदो
 गुरुवज्र स्वामी ॥ जेणे त्रिया कंचन कोडिवामी ॥ २४ ॥ नवमी निर्जरा नावना ॥ मालिनी
 तुदः ॥ इयदस तपजेदे कर्म ए निर्जराए ॥ उतपति थिति नाशे लोक नावा जराए ॥ इरलज
 जग बोधीदुर्लजा धर्मबुद्धी ॥ नव हरणि विजावो नावना एह शुद्धी ॥ २५ ॥ उपजातितुदः ॥
 बे निर्जरा काम सकाम तेही ॥ अकाम जे ते मरुदेवि जेही ॥ ते ज्ञानथी कर्मह निर्ज
 रीजे ॥ दृढ प्रहारी परि तो तरीजे ॥ २६ ॥ दशमी लोकनावना ॥ मालिनी तुदः ॥
 जिम पुरुष विलोये ए अधो लोक तेवो ॥ तिरिय पण विराजे थाल स्योवृत्त जे
 वो ॥ उरध सुरज जेवो लोकनाले प्रकास्यो ॥ तिमज नवन जानुं केवली ज्ञान
 नास्यो ॥ २७ ॥ एकादश बोधिदुर्लजनावना ॥ स्वागतातुदः ॥ बोधि बीज लहि
 जेह अराधे ॥ ते ज्ञासुत परे शिव साधे ॥ धर्म नावन लही नवि नावो ॥ राय

संप्रति परे सुख पावो ॥ २८ ॥ अथ रागविषे ॥ इंड्वज्जा ढंदः ॥ रागे म राचे नव
 बंध जाणी ॥ जे जाण ते राग वझे अनाणी ॥ गौरी तणे राग महेस रागी ॥ अर्धांग देवा नि
 जबुद्धि जागी ॥ २९ ॥ अथ द्वेषविषे ॥ रे जीव विद्वेष मने म आणे ॥ विद्वेष संसार
 निदान जाणे ॥ सासू नणंदे मिलि कूड कीधूं ॥ जूवं सुनडा शिर आल दीधूं ॥ ३० ॥
 अथ संतोषविषे ॥ वसंततिलका ढंदः ॥ संतोष तृप्त जनने सुख होय जेवुं ॥ ते इव्य
 लुब्ध जनने सुख नाहि तेवुं ॥ संतोषवंत जनने सद्गु लोक सेवे ॥ राजेंद्र रंक सरि
 खा करि जेह जोवे ॥ ३१ ॥ अथ विवेकविषे ॥ उपजाति ढंदः ॥ जो जेह चित्ते सुवि
 वेक जासे ॥ तो मोह अंधार विकार नाशे ॥ विवेक विज्ञानतणे प्रमाणे ॥ जीवादि जे
 वस्तु स्वभाव जाणे ॥ ३२ ॥ इंड्वज्जा ढंदः ॥ बाला पणे संयम योग
 धारी ॥ वर्षाकृतें काचलि जेण तारी ॥ श्रीवीरकेरो अयमत्त तेई ॥ सुज्ञान पाम्यो सु
 विवेक लेई ॥ ३३ ॥ अथ निर्वेदविषे ॥ शार्दूलविक्रीडित ढंदः ॥ जे बंधूजन कर्म बंधन जि
 सा, जोगा जुजंगा गिणे ॥ जाणंतो विषसारिखी विषयता, संसारता ते हणे ॥ जे सं
 सारह रागहेतु जनने, संसार जावा हुवे ॥ जावो तेइ विरागवंत जनने, वैराग्यता
 दाखवे ॥ ३४ ॥ वसंततिलकाढंदः ॥ निर्वेद ते प्रबल दुर्जर बंदिखाणो ॥ जे ढोडवा
 मनधरे बुध तेह जाणो ॥ निर्वेदथी तजिय राज विवेक लीधो ॥ योगींइ नर्तृहरि सं
 यम योग लीधो ॥ ३५ ॥ अथ आत्मबोधविषे ॥ ए मोहनींद तजि केवल बोध हेते ॥
 ते ध्यान शुद्ध रुदि जावनि एक चित्ते ॥ ज्युं निःप्रपंच निज ज्योति स्वरूप पावे ॥
 निर्बोध जे अखय मोह सुखार्थ आवे ॥ ३६ ॥ मालिनी ढंदः ॥ नवि विषयतणा जे
 चंचला सौख्य जाणी ॥ प्रियतम प्रिय योगा जंगुरा चित्त आणी ॥ करमदल स्वपे
 ई केवल ज्ञान लेई ॥ धन धन नर तेई मोह साधे जिकेई ॥ ३७ ॥ इति मोहव
 र्गः चतुर्थः समाप्तः ॥

उपजाति वृत्तं ॥ इत्येवमुक्ता किल सूक्तमाला विनूषिता वर्गचतुष्टयेन ॥ तनोतु
 शोभा मधिकं जनानां कंठस्थिता मौक्तिकमालिकेव ॥ १ ॥ शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं ॥
 आसीत्सज्जुणसिंधुपार्वणशशी श्रीमत्तपागह्वयः सूरिः श्रीविजयप्रनाभिधगुरुर्बुध्या
 जित स्वर्गुरुः ॥ तत्पट्टोदयनूधरो विजयते जास्वानिवोद्यत्प्रजः सूरिश्रीविजयादिर
 त्सुगुरुर्वि षड्जनानंदनूः ॥ २ ॥ आर्यावृत्तं ॥ विख्यातास्तडाज्ये, प्राज्ञाः श्रीशान्तिवि
 मलनामानः ॥ तत्सोदरा बनुवुंः प्राज्ञाः श्रीकनकविमलाब्हाः ॥ ३ ॥ तेषामुज्जा विनेयौ
 वि षान् कड्याणविमल इत्याब्हाः ॥ तत्सोदरो द्वितीयः केसरविमलानिधो ऽवरजः ॥ ४ ॥
 तेन चतुर्भिर्वर्गैः, रचिता नाषानिबद्धरुचिरेथं ॥ सूक्तानामिह माला, मनोविनोदाय

बालानां ॥ ५ ॥ वेदेन्द्रियर्षि चंद्र, प्रमिते श्रीविक्रमाहते वर्षे ॥ अग्रंथि सूक्तमाला केसर
विमलेन विबुधेन ॥ ६ ॥ इति श्रीसूक्तमुक्तावली संपूर्ण.

॥ श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥

अथ

श्री विनयविजयजी उपाध्यायकृत शांतसुधारस ग्रंथ अर्थसहित प्रारंभः

शार्दूलविक्रीडितबुंदः ॥ नीरंध्रे नवकानने परिगलत्पंचाश्र
वांनौधरे नानाकर्मलतावितानगहने मोहांधकारोत्क्षुरे ॥
भ्रान्तानामिह देहिनां स्थिरकृते कारुण्यपुण्यात्मनिस्तीर्थे
शैः प्रथितास्सुधारसकिरो रम्या गिरः पांतु वः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ प्रथमग्रंथकर्त्ता ग्रंथनेत्रादे श्रीतीर्थकरदेवनी वाणीनी स्तुतिकरी मंग
लाचरणकरेढे हेनव्यो जेमां कोइडिडनथी एटलेनिकलवानो बारणोनथी वलीजेमां
समस्तप्रकारें पांचआश्रवरूप मेघ वरसीरह्युंढे तथानानाप्रकारना ज्ञानावरणीयादि
क कर्मोनीप्रकृतिरूप वेलियेंकरीव्याप्त अनेमोहरूप अंधकारेकरीयुक्त एहवोआसं
साररूपवन तेमांफिरनाराजे प्राणीओ तेने स्थिरकरवानेअर्थें करुणायेंकरीपवित्रढे
अंतःकरणजेहनो एहवा चतुर्विधसंघरूप तीर्थनाईश्वरजे श्रीतीर्थकरदेव तेणेउपदे
सेली अमृतरसने वरसती एहवीरमणीयजेवाणी ते तमारुं ररूणकरो ॥ १ ॥

द्रुतविलंबितं वृत्तत्रयं॥स्फुरति चेतसि जावनया विना न वि
डुषामपि शांतसुधारसः॥ न च सुखं कृशमप्यमुना विना
जगति मोहविषादविषाकुले ॥ २ ॥ यदि नवभ्रमखेदप
राड्मुखं यदि च चित्तमनंतसुखोन्मुखं ॥ शृणुत तत्सुधि
यः शुचिजावनाजृतरसं मम शांतसुधारसं ॥ ३ ॥ सुम
नसो मनसि श्रुतपावना निदधतां द्यधिका दश जावनाः॥
यदिह रोहति मोहतिरोहिताजुतगतिर्विदिता समतालता॥४॥

अर्थ ॥ हवेजेशांतसुधारसते जावनाओविना स्फुरतोनथी तेकहेढे विद्वानलोको

ना अंतःकरणमांपण शांतिरूपअमृतनोरस तेजावविना स्फुरतोनथी अने मोह
तथा खेद तद्रूपविषेकरीव्याप्त एहवोजेजगत तेमां शांतसुधारसविना किंचित्मात्र
थोमोपणसुखनथी ॥ ३ ॥ माटेआशांतसुधारसनामा ग्रंथसांजलवानो उपदेशकरेढे
हेबुद्धिमंतो जोतमारुंमन संसारत्रमणकरवाना खेदेकरी पराङ्मुख उपरांतू अयोहोय
अनेजेमां अनंतसुखढे एहवोजेमोह तेनासुखपामवानेविषे सन्मुखथयो होय तोजेमां
मनोहरजावनानो रसनरेलोढे एवोमारो आशांतसुधारसनामा ग्रंथसांजलो ॥ ३ ॥
हवे जावनाथी समताप्रगटथायतेकहेढे हेपंफितजनो आसंसारमां जेनुंश्रवणमा
त्रकरवाथीज पवित्रतानेकरनारी एहवीबारजावनाढे तो तेने धारणकरनारो जेजीव
तेनारुदयमां मोहजेअज्ञान तेने आह्लादितकरनारी अनेजेहनी अद्भुतगतिढे एहवी
प्रख्यात समतारूप वेलीप्रगटथरो ॥ ४ ॥

रथोद्धतावृत्तं॥आर्तरोडपरिणामपावक पुष्टजावुकविवेकसौष्ठवे॥
मानसे विषयलोलुपात्मना क प्ररोदतितमां समांकुरः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवेसमतापामवाने जे अयोग्यहोयतेकहेढे जेनुंमन पांचेंडियना त्रेवीस
विषयोनेविषे लोलुपढे एहवाप्राणोअ्रोने आर्त रोडथ्यानेकरीने उत्पन्नथयेली एह
वीजे माठापरिणामरूप अग्नि तेणेकरीने जावनाना रसनेविषे जे चतुरपुरुषोढे तेना
विचाररूप रूडापणुं जेमांथीबलीगयुंढे एहवाप्राणीअ्रोना मनमां समतानोअंकुर
किहांथी उत्पन्नथाय अर्थात्तनजथाय ॥ ५ ॥

वसंततिलकावृत्तं॥यस्याशयं श्रुतकृतातिशयं विवेकपी
यूषवर्षरमणीयरमं श्रयंते ॥ सजावना सुरजता नहि
तस्य दूरे लोकोत्तरप्रशमसौख्यफलप्रसूतिः ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हवेसमतापामवाने योग्यहोयतेकहेढे सिद्धांतश्रवणादिकेकरीने अत्यं
तपणे संपूर्णजरेला वृद्धिपामेला तथा विवेकरूप अमृतवृष्टीनी रमणीयजेक्रीडा ते
णेकरीने रम्यके० मनोहर शोजायमान एहवांजेनां अंतःकरणढे तेवांअंतःकरणो
मां सजावनाओ श्रयंतेके० प्रवेशकरेढे तेथीतेपुरुषने लोकोत्तरजे प्रशमके० शांतर
सनासुख अर्थात्मोहसुख तेनाफलने प्रसवनारी एहवीजे सुरजताके० कल्पलता
ते दूरनथी अर्थात् तेहने मोहदूरनथी ॥ ६ ॥

अनुष्टुब्धव्यं॥ अनित्यताशरणते नवमेकत्वमन्यतां ॥ अशौच
माश्रवं चाल्मन् संवरं परिजावय ॥७॥ कर्मणो निर्जरां धर्मं सुकृतां
लोकपद्मतिं ॥ बोधिदुर्लभतामेता जावयन्मुच्यसे नवात् ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हवेबे श्लोकेंकरी आग्रंथमांजाववानी बारजावनाओनां नामकहेढे १
अनित्यजावना २ अशरणजावना ३ संसारजावना ४ एकत्वजावना ५ अ
न्यत्वजावना ६ अशुचिजावना ७ आश्रवजावना ८ संवरजावना॥हेआत्मातुं एजा
वनाओनो विचारकर ॥ ७ ॥ ८ कर्मनिर्जराजावना १० धर्मजावना ११ रूडाप्रका
रनी लोकस्वरूप जावना १२ बोधिदुर्लभ जावना॥हेआत्मातुं एबारजावनाओ नो वि
चारकरतोयको संसारथकीमुक्तथइस ॥ ८ ॥

पुष्पिताग्रावृत्तं ॥ वपुरवपुरिदं विदभ्रलीलापरिचितमप्यतिजंगुरं नरा
णां ॥ तदतिजिहुरयौवनाविनीतं नवति कथं विडुषां महोदयाय ॥ ९ ॥

अर्थ ॥ हवेप्रथमअनित्यजावना जावतां शरीरतुं अनित्यपणुंदेखाडेढे हेवि६
नजन आजगतमां अन्नलीलानीपरें कृणजंगुर अनेजेहनो जयकरवो अत्यंतकठी
णढे एहवो तरुणअवस्थायेंकरी उन्मत्त मदनजे कामदेव तेनाजेहवुं सुंदर एहवुं
जे मनुष्योनुंशरीरते विद्वान्जे पंडितलोक तेनापण महोटा उदयकरवानुं कारण
शरीरतेंथाय अपितुनहीजथाय ॥ ९ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तव्यं॥ आयुर्वायुतरत्तरंगतरलं लघ्नाप
दः संपदः सर्वेपीडियगोचराश्च चटुलाः संध्याभरागादिवत् ॥
मित्रस्त्रीस्वजनादिसंगमसुखं स्वप्नेज्जालोपमं तत्किं वस्तुन
वे नवेदिह मुदामालंबनं यत्सतां ॥ १० ॥ प्रातर्भ्रातरिहाव
दातरुचयो ये चेतनाचेतना दृष्टा विश्वमनःप्रमोदविडुरा जा
वाः स्वतः सुंदराः॥तांस्तत्रैव दिने विपाकविरसात् हा नश्य
तः पश्यतश्चेतः प्रेतहतं जहाति न नवप्रेमानुबंधं मम॥११॥

अर्थ ॥ हवेबेकाव्येंकरी संसारनो अनित्यपणुंदेखाडेढे हेप्राणी आसंसारमां वा
यरेंकरी चंचलययला एहवाजे पाणीनातरंग तेहनीपरें आयुषपणचंचलढे वली
विचित्रप्रकारनी संपत्तिओढे तेपण विपत्तियेंकरीयुक्तढे अने समस्त रूपरसादिकजे

विषयते ते संख्याकालना आकाशजेवासुंदरते एटले संख्याना अत्ररागनीपरें सुंदर तोठे पण अत्ररागनीपरें थोडीवारपठि विनाशशीलते तथा मित्र स्त्री स्वजन इत्या दिकोनोजे समागम तेणेकरीने थयेलुंजेसुख तेस्वप्रसरीखुं किंवाइंजालसरखुंते ते वारें आसंसारमां सत्पुरुषोने आश्रयकरवायोग्य कइवस्तुठेवारुं, अर्थात्कोइजनथी सर्वविनाशशील अनित्यते इतिनाव ॥ १० ॥ वली चातके० हेजाई आजगतमां जे प्रजातसमयें स्वहृकांतिवान तथा अत्यंतपणे जगतने आनंद आपनारा अने स्वतासुंदरजे चेतनपदार्थ अने अचेतनपदार्थना नावदीठाहोय तेपदार्थोनो काल परिपाक थयाथी तेहिजदिवसें शोनायेंकरी हीन थईजायते अने नाशपामेठे ए ह्वापदार्थोने जोनारो एहवो महारुं हतके० नष्टथयलुं जे अंतःकरण ते संसार संबंधने मूकतुंनथी ए कहेवी महोटी खेदनीवातते ॥ ११ ॥

॥ प्रथमनावनाष्टकं रामगिरिरागेण गीयते ॥

मूढ मुह्यसि मुधा ॥ मूढ मुह्यसि मुधा ॥ ध्रुवपदं ॥ विज्व
मनुचिंत्य हृदि सपरिवारं ॥ कुशशिरसि नीरमिव गलद
निलकंपितं ॥ विनय जानीहि जीवितमसारं ॥ मू० ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेवलीविशेषें अनित्यनावना नावतोथको संसारनुं अनित्यपणुं देखाडे ठे हेमूर्खशिष्य तुं परिवारसहित पोतानीसंपत्तिनुं चिंतनकरीने शुंअर्थमोहपामेठे वायुयें हलाव्योथको कंपायमानथयीने गलीजनारो एहवो दर्जनाअग्रनागें रहेना रोजे पाणीनुं बिंडुओ तेनीपरें हेविनय आ तहारुंजीवितव्य असारते एमजाण एरीतें विनयविजयजीउपाध्याय पोतेपोताने प्रतिबोधकरतो बीजानेपण उपदेशकरेठे ॥ १ ॥

पश्य जंगुरमिदं विषयसुखसौहृदं पश्यतामेव नश्यति सहासं ॥

एतदनुहरति संसाररूपं रयाज्वलज्जलदबालिकारुचिविलासं ॥ मू० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ वलीहेमित्रतुं जो के आविषयसुखते ह्णजंगुरते जेमकोई हाथतालीदेई ने हसतांहसतांज नाशीजायते तेनीपरें विषयसुखपण जोतांजोतांज नहता एह वाथईजायते वली आ संसारनुं स्वरूपते वेगेकरीने जनारी एहबीजे बीजली तेना जवुकानी कांतीनुं अनुकरण करेठे एटले एसंसारनुं स्वरूपते बीजलीनीपरें चंचलते ॥ २ ॥

हंत हतयौवनं पुञ्जमिव शौवनं ॥ कुटिलमति तदपि लघु दृष्टनष्टं ॥ तेन
वत परवशापरवशा हतधियः ॥ कटुकमिह किं न कलयति कष्टम् ॥ मू० ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ आ एकमहोटी खेदनीवातठे के डुष्टतारुष्यपणुंते कुतरानी पुठडीसरिखो वांको अने जेहने जोतावारज तुरतनहीएवोथईजायठे अर्थात् नाशपामीजायठे एह वा तारुष्यपणाने परवशाके० पराधीनथयला हतधियके० नष्टबुद्धिवंतजे पुरुषोठे ते संसारमां परवशाके० स्त्रीओ ते कष्टकारी कडवाफलनीआपनारीठे एहवुं जाण तानथी माटे बतइतिखेदे एणएकमहोटुं खेदनोज कारणठे ॥ ३ ॥

यदपि पिण्याकतामंगमिदमुपगतं ॥ जुवनडुर्जयजरापीतसारं ॥ तदपि गतलज्जमुश्चतिमनो नांगिनां वितथमतिकुथितमन्मथविकारं॥मू०॥४॥

अर्थ ॥ जोपण त्रणेलोकना प्राणीओ जेने जीतवाने अत्यंतअसमर्थ एहवीजे जराअवस्था तेणेकरिने जेपुरुषतुं सारके० सत्वपणुं जतुरखुंठे एटले जरार्थेकरी शरीरहीणथईगयुंठे एहवुं एशरीर डुर्बल थयुं होय तोपण निलेङ्गाप्राणीओनां मन निष्फल बुद्धिथी उत्पन्नथयला कामविकारने सूकतानथी ॥ ४ ॥

सुखमनुत्तरसुरावधि यदतिमेडुरं ॥ कालतस्तदपि कलयति विरामं॥ क तरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकं॥स्थिरतरं नवति चिंतय निकामं ॥मू०॥५॥

अर्थ ॥ जुओके पांचअनुत्तरविमाननां घणाज पुष्टकारीसुखठे तेनीपण मर्यादा ठे ते पणकालेकरी मर्यादापुरीथयाथी विरामपामेठे तो पांच अनुत्तरविमान करतां एवी बीजीकईवस्तुठे जेसंसारमां वधारेस्थिरीनूतथसे एवातनो तुं महोटोविचारकरप

यैः समं क्रीडिता ये च नृशमीडिता यैः सहाकृष्महि प्रीतिवादां॥तान् जनान्वीक्ष्य बत नस्मन्नूयंगतान्निर्विशंकाः स्म इति धिक्प्रमादं॥मू०॥६॥

अर्थ ॥ जेनीसार्थे आपणे हरहमेस रमता खेलता क्रीमाकरता तथा जेनीआ पणे अत्यंत स्तुतिकरतां अने जेनीसार्थे आपणेप्रीतीथेकरी बोलताहता तेहिजप्रा णीने नस्मन्नूत थईगयला देखीने पण जोअमें निशंक रहियेठेथे तो बतइतिखेदे एवोजे अमारो प्रमाद तेप्रमादने धिःकारहोजो ॥ ६ ॥

असकृदुन्मिष्य निमिषंति सिंधूमिवच्चेतनाचेतनाः सर्वज्ञावाः ॥ इंज्जालोपमाः स्वजनधनसंगमास्तेषु रज्यंति मूढस्वज्ञावाः ॥ मू० ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेम समुडना कड्कोल वारंवार उत्पन्नथयीने नाशपामेठे तेमज जगत मां स्थावर अने जंगमपदार्थोना जावठे एमजाणवुं अने जगतमां इव्यादिकनो जेसं बंधठे तेसर्व इंज्जाल सरिखोठे तो एहवा पदार्थोउपर हेमूर्खप्राणीतुं गूरीजपामेठे ७

कवलयन्नविरतं जंगमाजंगम जगदहो नैव तृप्यति कृतांतः ॥ मुखग
तान् खादतस्तस्य करतलगतैर्न कथमुपलप्स्यतेऽस्माजिरंतः ॥ मू० ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ वली स्थावर अने जंगमात्मक जगतने निरंतर नहणकरनारो एहवोजे क
तांतके ० यमते तृप्तथातोन्था एमहोटोआश्रयठे तोमुखमां आव्याप्राणीनो नहणक
रनारोजे कालतेनाजहाथमां रहेनारा अमेठैयें ते अमारोमृत्यु केवीरीतेनथाय ॥ ८ ॥

नित्यमेकं विदानंदमयमात्मनोरूपमनिरूप्यसुखमनुभवयं ॥

प्रशमरसनवसुधापानविनयोत्सवो नवतु सततं सतामिह न

वेऽयं ॥ ९ ॥ इतिमहोपाध्यायश्रीकीर्तिविजयगणेशिष्योपा

ध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते शांतसुधारसगेयकाव्ये

अनित्यजावनाविजावनो नाम प्रथमः प्रकाशः ॥

अर्थ ॥ तेमाटे नित्य एकचिदानंदमय जे महारोआत्मा तेहनुं स्वरूपजोईने सु
खनो अनुभव हुंकरीश इहां विनयविजयजी उपाध्यायकहेठेके आ मनुष्यनवमां
शांतिरसरूपजे नूतनअमृत तेहनेपानकरवानो उत्साह सत्पुरुषोने निरंतरहोजो ॥ ९ ॥
इतिश्रीमन्महोपाध्याय श्रीकीर्तिविजयगणेशिष्योपाध्याय श्रीविनयविजयगण
विरचिते शांतसुधारसगेयकाव्ये अनित्यजावनाविजावनोनाम प्रथमः प्रकाशः ॥

शार्दूलविक्रींक्षितं वृत्तं ॥ ये षट्खंडमहीमहीनतरसा निर्जित्य बभ्राजिरे ये च
स्वर्गजुजो जुजोर्जितमदा मेडुर्मुदामेडुराः ॥ तेषि क्रूरकृतांतवक्ररदनैर्निर्द
ल्यमाना हठादत्राणाः शरणाय हा दश दिशः प्रैक्षंत दीनाननाः ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेबीजी अशरणजावना जावेठे आसंसारमां मृत्युआवेथकेकोईने को
ईनुं शरणनथी एमदेखाडेठे हाइतिखेदे जेपुरुष महोटापराक्रमेकरी ठखंनष्टथवी
जीति शोचानेपाम्या एहवा चक्रवर्ती तथा जेहपैकरीपुष्टयला अने जेहनी सु
जाओमां उत्कृष्टबलठे एटले स्वर्गनासुखनोगवीने आनंदपाम्याठे एहवा देवताओ
नेषण जेवारें क्रूरहृदयवंत जे यम तेपोताना मुखमांलेई दांतोनाबलात्कारेंकरी न
हणकरे तेवारें तेअशरण थयाथका दीनमुखकरी कोईनुंशरणलेवानेअर्थे दश
दिशायें जूएठे तोपणतेने कालनादांतमांथी सूकाववाने कोई समर्थनथाय ॥ १ ॥

स्वागतावृत्तं ॥ तावदेव मदविभ्रममाली तावदेव गुणगौरवशा

ली ॥ यावदहमकृतांतकटाक्षैर्नेक्षितो विशरणो नरकीटः ॥ २ ॥

अर्थ ॥ माटेजेनो रक्कणकरनार कोईनथी एहवो एमनुष्यरूपीओ कोटजेकीडो ते हनेजिहांसुधि सहनकरवाने डुर्जेन एहवोजेकाल तेणे पोताना कटाहेंकरी जोयुंन थी तिहांसुधी मदजे अहंकार तेनाविलासेकरी शोनेठे अने तिहांसुधीज गुणोनो गौरवपणुं धारणकरेठे ॥ २ ॥

शिखरिणीवृत्तं ॥ प्रतापैर्व्यापन्नं गलितमथ तेजोन्निरुदितैर्गतं
धैर्योद्योगैः श्लथितमथ पुष्टेन वपुषा॥प्रवृत्तं तद्रव्यग्रहणविषये
बांधवजनैर्जने कीनाशेन प्रसन्नमुपनीते निजवशं ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ पण जेप्राणीने जेवारें यंमराजायें पोताने स्वाधीनकखो तेवारें तेप्राणी नो प्रतापपण नाशपास्यो अने उदितथयलुंजेतेज हतुं तेपणगलीगयुं तथा धैर्य अ ने उद्योग पण जतुरद्युं वली शरीरपुष्टहतो तेपण शिथिलथईगयुं अनेतेपुरुषनुं एकतुं करेलुं इव्य लेवाने अर्थे बांधवजन जे नाईओ प्रमुख हता ते प्रवर्त्तथया ॥ ३ ॥

दीतीयजावनाष्टकं मारुणीरागेण गीयते

स्वजनजनो बहुधा हितकामं प्रीतिरसैरन्निरामं॥मरणदशावशमुपगत
वंतं रक्तुति कोपि न संतं ॥१॥ विनय विधीयतां रे श्रीजिनधर्मः शरणं॥
अनुसंधीयतां रे शुचितरचरणस्मरणं ॥ वि० ॥ २ ॥ ध्रुवपदं ॥

अर्थ ॥ फिरि सम्यक्दृष्टीजीवें विशेषेंकरी अशरणजावनाने आवीरीतें जाववीते कहेठे जेपोताना स्वजनलोकठे तेघणुंज हितनावांढक तथा प्रीतिनाराखनार इत्या दिकरीते घणाप्रकारें रूडाठे पणतेसर्व स्वार्थनिमित्तेजाणवा ए तात्पर्यठे परंतु हेस त्पुरुषो जेवारें जीव मरणअवस्था पामवाने तैथारथयो तेवारेंतेनुं संरक्कण करना र कोईनथी ॥ १ ॥ तेमाटेअंधनाकर्त्ता श्रीविनयविजयजी उपाध्यायकहेठे के हेवि नय तुं श्रीजिनधर्मनुं शरणकर अने पवित्र एहवुंजे चारित्रतेनुं स्मरणकर ॥ २ ॥

तुरगरथेन्नरावृत्तिकलितं दधतं बलमस्खलितं ॥ हर

ति यमो नरपतिमपि दीनं मैनिकइव लघुमीनं ॥ वि० ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ घोडा रथ हाथी पायदल एचतुरंगणी सेनायेंकरीयुक्त तथा पोतेंपण अस्खलित बलने धारणकरनारो एटलेकोईकालें खलनापामेनही एहवो महापरा क्रमवंत राजा तेनेपण जेरीतें मैनिकके० माळलानोमारनार जटवेईने लघुमी नके० न्हाना दीनमाळलाओने पकडीलियेठे तेरीतें यम पकमीलियेठे ॥ ३ ॥

प्रविशति वज्रमये यदि सद्ने तृणमथ घटयति वदने ॥

तदपि न मुंचति हतसमवर्ती निर्दयपौरुषनर्ती ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ॥ जो वज्रमय एटले वज्रनाज परमाणुयें बनावेला घरमांप्रवेशकरे अथवा मुखमां तृणबलाधारणकरे परंतु निर्दय अने पराक्रमेंकरी नाचनारो तथाजेहनी सर्वेनेविषें समानघातकरवानीजवृत्तिठे एहवोजेयम ते तेनेपण मूकतो नथी ॥ ४ ॥

विद्यामंत्रमहौषधिसेवां सृजतु वशीकृतदेवां ॥ रसतु

रसायनमुपचयकरणं तदपि न मुंचति मरणं ॥ वि० ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हेप्राणी जो देवतानुंसाधनकरी पोतानेस्वाधीनकरो अथवा महोटीम होटी विद्याओ साधनकरो मंत्रसाधनकरो तथा महोटी औषधिओसाधी शरीरपु ष्टी करवानेअर्थे आरोगो तोषण मरण मूकतुंनथी ॥ ५ ॥

वपुषि चिरं निरुणद्धि समीरं पतति जलधिपरतीरं ॥ शिर

सि गिरेरधिरोहति तरसा तदपि स जीर्यति जरसा ॥ वि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हेजव्यो जो समाधीचढावी शरीरने घणाकालसुधी वायुनोरोधकरो अथ वा समुद्रने पहेलाकांठे जईवेशो अथवा बलात्कारें पर्वतनाशिखरउपर चडीवेशो तोषण जराअवस्थायी ऋणयवुं ते काईबंधयतुनथी ॥ ६ ॥

सृजतीमसितशिरोरुहललितं मनुजशिरोवलिपलितं ॥ को

विदधानां जूघनमरसं प्रज्वति रौद्रं जरसं ॥ वि० ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ कालाकेशेंकरीने घणोजसुंदर एहवो मनुष्यनो कालोमस्तक तेने सपेतप णानी करनारी तथा शरीरना मांसनोनाशकरनारी खोखरासरीखोकरी नशोनसने जूडी करीदेखाडनारी पृथ्वीउपर मेघसमान शरीरतेने शुष्ककरीनाखनारी एहवीजरा अवस्था जेवारें प्राणीने आवज्ञे तेवारें तेनोरोधकरवाने कोण सहायजूतयसे अ र्थात् कोर्षण वृद्धावस्थानो रोधकरवाने समर्थनथाय ॥ ७ ॥

उद्यत उग्ररुजा जनकायः कः स्यात्तत्र सहायः ॥ एकोऽ

नुज्वति विधुरुपरागं विजति कोपि न जागं ॥ वि० ॥ ८ ॥

अर्थ ॥ हेआत्मा जेवखतें ताहसंशरीर उग्ररोगेकरी व्याप्तथाज्ञे तेवखतें तुजने कोणसहायथाज्ञे ! जूओ जेमचंडमा एकलोपोतेज राहुना ग्रहणनी पीडानोगवेठे प

रंतु नक्तत्र अथवा ताराकोईपण तेनाडुःखमांविजागलेतानथी तेम तुजनेपण जेवारें
रोगादिक डुःखप्राप्तथजे तेवारें ताहरोकोईपण संबंधी तेडुःखमांविजागलेनारनथी ॥५

शरणमेकमनुसर चतुरंगं परिहर ममतासंगं ॥ विनय रचय शिव
सौख्यनिधानं शांतसुधारसपानं ॥ वि० ॥ ५ ॥ इति श्रीशांतिसुधार
स गेयकाव्ये अशरणजावनाविजावनो नाम द्वितीयः प्रकाशः ॥

अर्थ ॥ माटे दान शील तप अने जाव एचार अंग जेहनाढे एहवाएक धर्मनुंज
तुं शरणकर अने ममत्वनो संग परिहर हेविनय तुं शिवसुखनो निधान एहवो
जे शांतसुधारस तेनुंपानकर ॥ ५ ॥ इति श्री शांतसुधारसगेयकाव्ये अशरणत्वजा
वना विजावनोनाम द्वितीयः प्रकाशः ॥

शिखरिणीवृत्तत्रयं ॥ इतो लोचः क्लोचं जनयति छुरंतो द्रवइवो
ल्लसल्लाजांजोनिः कथमपि न शक्यः शमयितुं ॥ इतस्तृष्णाऽक्ता
णां तुदति मृगतृष्णेव विफला कथं स्वस्थैः स्थेयं विविधजयत्री
मे जववने ॥ १ ॥ गलत्येका चिंता जवति पुनरन्या तदधिका
मनोवाक्काये हा विकृतिरतिरोषात्तरजसः ॥ विपज्जतावर्ते ऊटिति
पतयालोः प्रतिपदं न जंतोः संसारे जवति कथमप्यर्तिविरतिः ॥
॥ २ ॥ सहित्वा संतापानशुचिजननीकुक्किकुहरे ततो जन्म प्राप्य
प्रचुरतरकष्टक्रमहतः ॥ सुखाजासैर्यावत्स्पृशति कथमप्यर्तिवि
रतिं जरा तावत्कायं कवलयति मृत्योः सहचरी ॥ ३ ॥

॥ हवे त्रीजी संसारजावना जावेढे आ संसारमां छुरंतके० घणोमहोढो जेहनो
अंतनथी अनेदावानल सरिखो अर्थात् वनअग्नीसरखो एहवोजेलोच तेनेकोईपणरी
तें उदयनेपामनारो जे लोचरूप अंजोनिःके० उदकते शांतकरी शक्तोनथी पणउलढो
क्लोचने उत्पन्नकरेढे वलीइहां संसारमां मृगतृष्णा जेवीरीतेविफलढे तेवीरीतेइंइयोनी
तृष्णा प्रेरणाकरेढे तेपणविफलढे तोएहवा अनेकप्रकारना नानाविधजयेंकरी बिहा
मणा संसाररूप अरण्यमां शीरीतें स्वस्थपणे रहिशकियें ॥ १ ॥ आसंसारमां एक
चिंतामटिजायढे तोफरी तेकरतांपण अधिक बीजीचिंताआवी उत्पन्नथायढे वली म
न वचन अने कायानाव्यापारेंकरी विकारथायढे तथाअत्यंतक्रोधना योगेंकरी रजो
गुणने पामवापणुंप्राप्तथायढे एरीतेंसंसारमां विपत्तिरूप खाईनापाणीनी चमरीमां

पगलेपगले पडनारा प्राणीओने कोईवारेडुःखनो अंतआवतोनथी ॥३॥ वली पहे लातो अपवित्रमाताना उदरनेविषे नानाप्रकारना उदरसंबंधी संतापोने सहनकर तो कष्टनीपरंपरार्येकरी तामनतर्जनायेयुक्तथको रहेठे अने जन्मपास्यापठे जेटलामां सुखानास करवानेअर्थे कोइपणपोताने अतीपीनाओ दूरकरेठे परंतु एटलामांतो मृ त्युनी सहचारिणी एहवीजे जराअवस्था ते आवीने प्राणीनादेहनो ग्रासकरेठे ते वारें संसारमां सुखतेसुंठे अर्थात् काईजनथी ॥ ३ ॥

उपजातिवृत्तं ॥ विभ्रांतचित्तो बत बंभ्रमीति पक्षीव रुधस्तनु
पंजरेंऽगी ॥ नुन्नो नियत्याऽतनुकर्मतंतुसंदानितः सन्निहितां
तकौतुः ॥ ४ ॥ अनुष्टुब्वृत्तं ॥ अनंतान् पुञ्जलावर्ताननंतानं
तरूपञ्चत् ॥ अनंतशां भ्रमत्येव जीवोऽनादिचवार्णवे ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ प्रारब्धे प्रेरणाकरेलो महोटाकर्मरूप तंतुयेंकरी बांधेलो कालरूप बिछा डानीपासें बेठेलो एहवोप्राणी बतइतिखेदे शरीररूप पिंजरामां पक्षीनीपरें रुंध्योथ को चांतिवंत चित्तेकरीफिरेठे ॥ ४ ॥ एरीतेंअनंतानंत शरीरोनोधारणकरनारो एजी वअनंतीवार अनादिकालनो संसारसमुड्मां अनंता पुञ्जपरावर्त्तरूप पाणीनी च मरीमां प्रतिचमण करतोथको फिरेठे ॥ ५ ॥

॥ तृतीयजावनाष्टकं केदारारागेण गीयते शांतसुधारसकुंभेमां एदेशी ॥

कलय संसारमतिदारुणं जन्ममरणादिजयजीत रे ॥ मो
हरिपुणेह सगलग्रहं प्रतिपदं विपदमुपनीत रे ॥ क० ॥ १ ॥

अर्थ ॥ वलीविशेषप्रकारें संसारजावनाजावतो संसारनीबीकदेखाडेठे मोहरूप शत्रुयें गलोथोदेइने पकडयुंठे तेणेकरी पगले पगले विपत्तीनेपामेला अरेजीव आ संसारते जन्ममरणादिकना जयेंकरी अत्यंतजयंकरठे एवं तुं जाण ॥ १ ॥

स्वजनतनयादिपरिचयगुणैरिह मुधा बध्यसे मूढरे ॥ प्रति
पदं नवनवै रनुजवैः परिचवै रसकृडपगूढ रे ॥ क० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हेमूर्खआत्मातुं स्वजन अने पुत्र इत्यादिकोनां परिचयगुणेकरीने गुंआ संसारमां व्यर्थबंधायठे वली पगलेपगले नवानवा अनुजवेकरी अने नवानवा परा जवेकरी वारंवारतुं आलिंगितठो एटले युक्तठो ॥ २ ॥

घटयसि क्वचन मदमुन्नतेः क्वचिदहो हीनतादीन रे ॥ प्र
तिभवं रूपमपरापरं वहसि बत कर्मणाधीन रे ॥ क० ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ हेआत्मातुं किहांकतो राजलक्ष्मीप्रमुख संपत्तीनामदने धारणकरेढे वलीकिहांकतो हीनतापामी रांकजेवो नीखारीथई दीनतापणाने धारणकरेढे ए वाआश्चर्य हेजीवतुं कर्माधीनथको जन्मजन्मप्रतें अपरअपरके० नवानवाज रूपध रेढे कोईनवेनीखारी कोईनवेराजा कोईनवेतिर्येच कोईनवेनारकी वलीएकनवमांपण राजारंकपणुप्रमुख अनेकरूपधारणकरेढे ए केहेवो महोटो खेदनोहेतुढे ॥ ३ ॥

जातु शैशवदशापरवशा ॥ जातु तारुण्यमदमत्त रे ॥ जातु
दुर्जयजराजर्जरो ॥ जातु पितृपतिकरायत्तरे ॥ क० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ अरेजीवतुं एकजनवमांपण कोईकवारेंतो बाजकअवस्थाने आधीनर हेढे अने कोईकवारेंतो तारुण्यअवस्थाना मदेकरी उन्मत्तथायढे वलीकोईकवारें दुर्जय जरा अवस्थायें करी दुःखवंतथायढे अनेकोईकवारें यमराजाना हाथमां सप डाईजायढे एहवी अवस्थाओने पामेढे ॥ ४ ॥

व्रजति तनयोपि ननु जनकतां ॥ तनयतां व्रजति पुनरेष रे ॥ जाव
यन् विकृतिमिति जवगते ॥ स्त्यजतमां नृजवशुचशेष रे ॥ क० ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हेआत्मा आसंसारमां कोईनवमांतो दीकरोते बापथायढे फरीकोईक नवमां बापतेदीकरो थायढे एहवी संसारी पुरुषोनी गतिओनी फजेतीजोईने मनु ष्यजन्ममां जेना पुण्यशेषरह्याढे एहवो तुं आसंसारने मूकीआप ॥ ५ ॥

यत्र दुःखार्तिगददवलवैरनुदिनं दह्यसे जीव रे ॥ हंत
तत्रैव रज्यसि चिरं मोहमदिरामदह्नीव रे ॥ क० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ अरेजीव आसंसारमां दुःख तथा आरतिजेचिंता अने रोगरूप दावान लेंकरीने तुं नित्यनित्यप्रते दाजेढे तोपणमोहरूप मदिराना मदेकरी उन्मत्तथईने तेमां जघणाकालसुधी अनुरक्तथायढे माटेबतइतिखेदे मोहनाफंदेज जीवदुःखीथायढे ॥ ६ ॥

दर्शयन् किमपि सुखवैभवं ॥ संहरंस्तदथ सहसैव रे ॥ विप्र
लंनयति शिशुमिव जनं ॥ कालबटुको ऽयमत्रैव रे ॥ क० ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ अरेजीव जेमकोइलघुबालकने उगवासारुं कोइकचीजतेनाहाथमां आ पीपाढी ढीनवीलइयें तेम हंतइतिखेदे आजगतमां कालरूपीओ बटुकके० चोर ते

तुजने कांश्कसुख ऐश्वर्यादिक देखाडीने अकस्मात् तेसुखने जाणेनजहता तेवा करीनाखेढे एम ठोकराने उगवानी रीते कालरूपबटुक लोकोने उगेढे ॥ ७ ॥

सकल संसारजयनेदकं ॥ जिनवचो मनसि निबधान रे ॥

विनय परिण मय निःश्रेयसं ॥ विहितशमरससुधापान रे ॥ ७ ॥

इति श्री शांतसुधारस गेयकाव्ये संसारजावना विजावनो नाम तृतीयः प्रकाशः ॥

अर्थ ॥ तेमाटे अरेविनयतुं शांतिसुधारसनुंपानकरी समस्तसंसारिकजयना नाशकरनार एहवा जिन श्री वीतरागनावचनने मनमाधारणकर अने मोहूपाम एरीते विनयविजयजीउपाध्याय पोतेजपोताना आत्मानेसीखामण आपेढे ॥ इतिश्रीशांतसुधारसगेयकाव्ये संसारजावना विजावनोनाम तृतीयःप्रकाशः ॥ ३ ॥

स्वागतावृत्तं॥ एक एव जगवानयमात्मा ज्ञानदर्शनतरंगसरंगः ॥

सर्वमन्युपकल्पितमेतत् व्याकुलीकरणमेव ममत्वम् ॥ १ ॥

अर्थ॥ हवेचोथी एकत्वजावना जावेढे एकज जगवानते आआत्माढे अने ज्ञानदर्शन तथा चारित्ररूप तरंगेकरीने सरंगके० विलासीढे पणते आत्मासिवाय बीजाजे कांई कल्पितपुजनादिकढे तेसर्व ममतास्पदमांज व्याकुलकरनाराढे ॥ १ ॥

प्रबोधतावृत्तत्रयं॥ अबुधैः परजावलालसालसदज्ञानदशा

वशात्मनिः॥ परवस्तुषु हा स्वकीयता विषयावेशवशादि

कल्प्यते ॥ २ ॥ कृतिनां दयितेति चिंतनं परदारेषु यथा

विपत्तये॥ विविधातिजयावहं तथा परजावेषु ममत्वजावनं॥

३ ॥ अधुना परजावसंवृतिं हर चेतः परितोवगुंठितं॥ क्लृण

मात्मविचारचंदनद्रुमवातोर्मिरसाः स्पृशंतु मां ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ परवस्तुउपर रहेलीअत्यंतइहाना योगेकरी उपनीजे अज्ञानअवस्थानी आधीनता तेजेना अंतःकरणमां व्यापीढे एहवामूर्खीने जे परकीयवस्तुउपर स्वकीयपणुकल्पेढे तेमात्र शब्द रूप रसादिकविषयोना आवेशेकरीजकल्प्योजायढे ए ए क महोदुं खेदनुंकारणढे ॥ २ ॥ पुण्यवानपुरुषे परस्त्रीने पोतानीस्त्रीकरी चिंतवनकरवुं तेजेमविपत्तीनुं कारणथायढे तेमज परकीयवस्तुउपर जे ममत्वकरवुं तेपण नानाप्रकारनीपीमानुं अने अनेकप्रकारना जयनुं कारणथायढे ॥ ३ ॥ माटेहेआ

त्मा हवे चारेबाजुयेंविंटेली परवस्तुनी संवृति जे आढादन तेनेतूंदूरकर अने आत्मवि
चाररूप चंदनवृद्ध उपरना वायुनीलहेरीतुंजे रस तेनुंएकद्वणमात्र स्पर्शकर ॥४॥

अनुष्टुबृत्तं ॥ एकतां समतोपेतामैनामात्मन् वि

जावय ॥ लजस्व परमानंदसंपदं नमिराजवत् ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ अरेजीव आसमतायेंकरीयुक्त एहवुंजे एकत्वपणुं तेने तुं पोताना आ
त्मासां विचारीजोईशतो नेमिराजकृषीनाजेवी परमानंद संपदानेपामिश ॥ ५ ॥

॥ चतुर्थजावेनाष्टकं परजीयारागेणगीयते ॥

विनय चिंतय वस्तुतत्वं जगति निजमिह कस्यकिं ॥ जवति

मतिरिति यस्य हृदये झुरितमुदयति तस्य किं ॥ वि० ॥ १ ॥

एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते ॥ एक एव हि

कर्म चिनुते ॥ सैककः फलमश्नुते ॥ वि० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवेवलीविशेषें एकत्वजावनाजावेढे इहांश्री विनयविजयजी उपाध्याय
पोतेज पोतानीआत्माने उपदेशेढे के हेविनय तुं वस्तुतत्वजे आत्मज्ञान तेनुं चिंत
वनके० विचारकर आजगतमां कोऽनोस्वकीयपणुंढेकेचुं एहवीबुद्धि जेनाऋदयमां
उत्पन्नथायढे तेप्राणीने झुरितपापादिक उदयपामेढेसुं अपितुतेने पापोदयपामतुंज
नथी ॥ १ ॥ हेआत्मा ताहरोजीव एकलोज उपजेढे एकलोज मरणपामेढे एक
लोज कर्मनेबांधेढे अने तेबंधायला कर्मोनाफलनेपण एकलोज नोगवेढे ॥ २ ॥

यस्य यावान्परपरिग्रहः ॥ विविधममतावीवधः ॥ जलधि

विनिहितपोतयुकल्या पतति तावद सावधः ॥ वि० ॥ ३ ॥

स्वस्वजावं मद्यमुदिते जुवि विलुप्य विचेष्टते ॥ दृश्यतां प

परजावघटनात्पतति विलुठति जृंचते ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जिहांसुधी जेप्राणीनेमाथे परपरिग्रहउपर नानाप्रकारनी जे ममत्व त
दूपजारपडयोढे तिहांसुधी तो पडराप्रमुख वजनदारवस्तुयेंनरेलो जिहाज जेम समुध
नातलियामां जइवेसेढे तेम तेप्राणी पण संसाररूप समुडना तलियामां पमेलोजा
णवुं ॥ ३ ॥ जेम मदेकरी उन्मत्तथयलो पुरुष स्वकीयस्वजाव एटले मूल स्वजा
वने लोपी जमीनउपरपदी चेष्टाकरेढे तेमज परवस्तुनी घटनायेंकरी उन्मत्तथयलो
पुरुष संसाररूप जमिनमांपडेढे लोटेढे अने जंत्रायमान थयोथकोरहेढे ॥ ४ ॥

पश्य कांचनमित्तरपुञ्जलमिलितमंचति कां दशां ॥ केवलस्य तु तस्य
रूपं विदितमेव चवाद्दशां ॥वि० ॥५॥ एवमात्मनि कर्मवशतो चवति
रूपमनेकधा ॥कर्म मलरहिते तु चगवति चासते कांचनविधा ॥वि० ॥६॥
अर्थ ॥ जेमसुवर्णमां बीजाधातुनी मिश्रताथवाथी विपरीतदशानेपामेढे अने
तेसुवर्णना शुद्धस्वरूपनीतो हेजीव तहाराजेवाने खबरजढे ॥ ५ ॥ तेमजआत्मा
नेविषे कर्मरूप अन्यधातुना वशंकरी नानाप्रकारना रूपथायढे पणकर्ममलरहित
शुद्धज्ञानस्वरूपी आत्मातो सुवर्णसरखो देदीप्यमानचासेढे ॥ ६ ॥

ज्ञानदर्शनचरणपर्यवपरिवृतः परमेश्वरः ॥ एक एवानुचवसदने सर
मतामविनश्वरः ॥वि० ॥७॥ इति रुचिरसमतामृतरसं कृणमुदितमास्वाद
य मुदा ॥विनय विषयातीतसुखरसरतिरुदंचतु ते सदा ॥वि० ॥८॥ इतिश्री
शांतसुधारसगेयकाव्ये एकत्वजावनाविजावनोनाम चतुर्थः प्रकाशः

अर्थ ॥ तेआत्मा ज्ञान दर्शनअने चारित्रना पर्यायेंकरीयुक्त एहवो अविनाशीजे एकपर
मेश्वर तेमहारा अनुचवगृहमां रम्यमाणथजो ॥७॥ माटेहेआत्मा प्राप्तथयलो एहवो अ
तिसुंदर समतारूप अमृतरस तेनोएककृणमात्र पण संतोषेंकरी आस्वादनकर अने हे
विनय सर्वकाल विषयसुखथी अतीत एटलेजूदा एहवाजे शांतिसुखरस तेनाउपर ताह
रेप्रीतिहोजो ॥८॥ ६० शांतसुधारसगेयकाव्ये एकत्वजावनाविजावनोनाम चतुर्थः प्रकाशः

उपजातिवृत्तं ॥ परः प्रविष्टः कुरुते विनाशं लोकोक्तिरेषा न मृषेति मन्ये ॥
निर्विश्वकर्माणुचिरस्य किं किं ज्ञानात्मनो नो समपादि कष्टं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवे पांचमी अन्यत्वजावना जावतोथको श्रीविनयविजयजी उपाध्यायकहे
ढे एकनाथरमां बीजायेंप्रवेशकखो एटले पहेलानोनाशकरेढे एहवुं लोकोनुं बोजवुं
मने खोटुंजागतुंनथी केमके महारोआत्मा ज्ञानस्वरूपीढे तेमां कर्मरूप परमाणुयें प्र
वेशकरीने आत्माने कोणकोण कष्टोनथीआपी अर्थात् सर्वकष्टोआपीजढे ॥ १ ॥

स्वागतावृत्तम् ॥ खिद्यसे ननु किमन्यकथार्तः सर्वदैव ममतापरतंत्रः ॥

चिंतयस्यनुपमान्कथमात्मन्नात्मनो गुणमणीन्न कदापि ॥ २ ॥

अर्थ ॥ अरेजीवतुं सर्वकाल ममताने स्वाधीनथई अन्यजे पुजलादिक तेनीज
गोष्टीयें पीडितथको कांखेदपामेढे अने जेहनीकोइउपमाजनथी एवा तारी आत्मा
ना गुणरूपजे मणीरत्न तेनुंकोइवारेंपण चिंतन केमकरतो नथी एकेटलुं अयुक्तढे ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तघयम् ॥ यस्मै त्वं यतसे विज्ञेपि च यतो यत्रा
निशं मोदसे यद्यञ्चोचसि यदिञ्चसि हृदा यत्प्राप्य पेप्रीयसे ॥
स्निग्धो येषु निजस्वप्नावममलं निर्लोठ्य लालप्यसे तत्सर्वं पर
कीयमेव जगवन्नात्मन्न किञ्चित्तव ॥ ३ ॥ दुष्टाः कष्टकदर्थनाः क
तिन ताः सोढास्त्वया संसृतौ तिर्यङ्नारकयोनिषु प्रतिहतञ्चिन्नो
विचिन्नो मुहुः ॥ सर्वं तत्परकीयञ्चिर्विलसितं विस्मृत्य तेष्वेव हा
रज्यन्मुह्यसि मूढ तानुपचरन्नात्मन् न किं लज्जसे ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हेआत्मातुं जेनेवास्ते घणीयत्नकरेढे अने जेनाथकी घणोबीहितोरहेढे
तथा जेथकी सर्वकाल आनंदपामेढे वली जेनाअर्थेघणुंशोचकरेढे अथवा जेनेतुं
ताहरारुदयमां हरहमेस इहेढे वली जेनादेखवाथी अत्यंतप्रीतिपामेढे जेनेविषे तुं
घणुंस्नेहराखी पोतानानिर्मल ज्ञानादिक स्वप्नावनो नाशकरी लालनपालनकरेढे इ
त्यादिकक्रियाते सर्वपरकीयजढे पण हेआत्मस्वरूपी जगवन् एमांस्वकीय ताहरोकां
इनथी ॥ ३ ॥ अरेजीवतुंपूर्वोक्तप्रकारेंकरतोथको आसंसारमां तिर्येच अने नारकीनी
योनीमां अत्यंतदुष्ट एहवी अनेककदर्थनाओ तेंजोगवीनथीकेसुं अपितु जोगवीतोढे
ज केमके मुहुके० वारंवार नरकादिकयोनीओमां हणाणुं ढेदाणुं जेदाणुं एहवीएह
वी तहारी अवस्थाओथइ तोपणहेमूर्ख तेसर्व परकीय एटले स्वरूपविना पुजलनासंग
थी दुर्विलासथया तेनेविस्मृतकरी फरितेनाउपरज प्रेमधरीने मोहपामेढे अनेतेहनुं
ज सेवनकरतोथको केमलज्जातोनथी माटे हाइतिखेदे एपणमहोटी खेदनीजवातढे

अनुष्टुप्वृत्तं ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रकेतनाचेतनां विना ॥

सर्वमन्यद्विनिश्चित्य यतस्व स्वहिताप्तये ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हेआत्मातुं ज्ञान दर्शन अने चारित्रनी आश्रयनूतजे चेतना तेविना
बीजाजे विजाविक पदार्थोढे तेसर्वने निश्चयथकी तहाराथी अन्यके० जूदाजाणीने
पोताना हितने अर्थेयत्नकर ॥ ५ ॥

॥ पंचमजावनाष्टकं श्रीरागेण गीयते ॥ तुज्जगुणपारनहिसूअणोएदेशी ॥
विनय निजालय निजजवनं तनुधनसुतसदनस्वजनादिषु किं नि
जमिह कुगतेरवनं ॥वि०॥१॥ येन सहाश्रयसे ऽतिविमोहादिदमहमि
त्यविज्ञेदं तदपि शरीरं नियतमधीरं॥त्यजति जवंतं धृतखेदं॥वि०१॥

अर्थ॥हवेविशेषे अन्यत्वनावनानावता श्रीविनयविजयजी उपाध्याय पोतानेउप देशकरेढे के हेविनय तुंतदारापोताना आत्मारूपघरने जो अने आसंसारमां शरीर इव्य पुत्र घर स्वजनादिकमां कोणतुजने दुर्गतिथीरहूण करवालोढे अर्थात्कोइज नथी एटलेतुं स्वजनादिकनेअर्थे माताकर्मकरेढे तेकर्मनायोगथी जेवारें नरकादिक दुर्गतिमांजइस तेवारें तहारोहाथपकमीने तुजने कोइदुर्गतिथी वारीराखजेनही ॥१॥ बीजातोदूररह्या पणजेनीसाथे तुं अत्यंतमोहनावशथकी ऐकपणुंकरेढे एहवुंजे शरीरतेपण निश्चयथीअधीरोढे सेवट खेदकरावी तुजने मूकीचाव्योजसे अथवा खेद नोकरनारतुंढो एहवा तुजनेमूकी चाव्योजसे ॥ ३ ॥

जन्मनि जन्मनि विविधपरिग्रहमुपचिनुषे च कुटुंबां॥ तेषु ज्वं तं परज्वगमने नानुसरति कृशमपि सुंबं ॥ वि० ॥३॥ त्यज ममतापरितापनिदानं ॥ परपरिचयपरिणामं ॥ जज निस्संगत या विशदीकृतमनुजवसुखरसमजिरामं ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हेप्राणीतुं जन्म जन्मने विषे विविधप्रकारना परिग्रहने संपादनकरेढे तेमज नानाप्रकारना कुटुंबने संपादनकरेढे परंतु जन्मांतरेंजाता ते पूर्वोक्तपरिग्रह मांथी एकदोकडो पण ताहरीसाथेआवतोनथी ॥ ३ ॥ माटे ममतानायोगेंकरी अ त्यंततीव्रतापनुं मुख्यकारण एवो परकीयवस्तुनो परिणाम तेनोत्यागकर अने निःसंग त्वपणेकरी स्वच्छथयलुं आढ्हादनोकरनार एहवुंजेअनुजवसुख तेनुंसेवनकर ॥ ४॥

पथि पथि विविधपथैः पथिकैः सह कुरुते कः प्रतिबंधं ॥ निजनिजकर्मवशैः स्वजने सह किं कुरुपे ममताबंधं॥वि०॥५॥ प्रणयविहीने दधदन्निपंगं ॥ सहते बहुसंतापं ॥ त्वयि निः प्रणये पुञ्जलनिचये वहसि मुधा ममतातापं ॥ वि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेमपंथीमाणसने जूदेजूदेस्थानकें मार्गमार्गमां वाटालुलोकनुं मिलाप थतोजायढे पणते वाटमार्गुनीसाथे कोइप्रतिबंधकरतोनथी तेमजपोतपोताना कर्म नेवशें आवीमल्या एहवावाटमार्गुतुल्य जे तारास्वजनलोक तेनीसाथेतुं ममत्वनो प्रतिबंधकांकरेढे ॥५॥ जेमकोइ स्नेहशून्यपदार्थहोथ अथवामनुष्यहोथ तेनाउपर स्नेहधरनाराप्राणी बहुसंतापने सहनकरेढे तेमज तुंपण ताहाराउपर निस्नेही ए हवोजे पुञ्जलनोसमुदाय एटलेपोतानुंशरीर तेपणपुञ्जलढे अनेजेस्वजनादिक शरीरी

जीवठे तेपणपुञ्जजठे तथा नवविधपरिग्रह तेपणपुञ्जठे एहवापुञ्जलना समुदायउप
र व्यर्थ ममता रूप ताप धारण करीने संताप सहन करेठे ॥ ६ ॥

त्यज संयोगं नियतवियोगं ॥ कुरु निर्मलमवधानं ॥ नहिविद
धानःकथमपि तृप्यसि॥मृगतृष्णाघनरसपानं ॥वि०॥७॥ नज
जिनपतिमसहायसहायं ॥ शिवगतिसुगमोपायं ॥ पिब गद
शमनं परिहृतवमनं ॥शांतसुधारसमनपायं ॥ वि० ॥ ७ ॥

६०शांतसुधारसगेय काव्ये अन्यत्वजावनाविजावनो नाम पंचमः प्रकाशः

अर्थ ॥ माटेनिश्चयेंकरी जेहनो वियोगथवानोठे एहवापुञ्जलादिकसाथे जे तें सं
योगकखुंठे तेनोत्यागकर अनेनिर्मल एहवोजेपोतानो शुद्धात्मजावतेनेविषे अवधान
के० स्वस्थथइ एकाग्रपणोलहराख केमकेकोइपणप्राणी मृगतृष्णारूप जलनुंपानक
रीने कदापिकालें तृप्तथवानोनथी तेमतुंपण परवस्तुउपर ममत्वराखी कोइकालें
आत्मरतिमां तृप्तिपामनारनथी ॥ ७ ॥ माटेरेआत्मा तुं असहायने सहायनाकर
नार एटलेअशरणने शरणचूत एहवातीर्थीकरदेव तेनुंसेवनकर अनेनिरदोष मोह
गतिमांजवानुं जे सुगमोपाय अथवा जेमांथी परिकृतके० नाशपाम्युंठे वमनंके०
मोहनासुखनो वमवापणुं वली गदशमनके० संसाररूप रोगनो समावनार एहवो
जे शांतनामा सुधारसके० अमृतरस तेनो पिबके० पानकर ॥ ७ ॥ इतिश्रीशांतसु
धारसगेयकाव्ये अन्यत्वजावनाविजावनो नाम पंचमः प्रकाशः

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं ॥ सञ्चिजो मदिराघटः परिगलत्तल्लेश
संगाशुचिः शुच्या मृद्यमृदा बहिः स बहुशो धौतोपि गंगो
दकैः ॥ नाधत्ते शुचितां यथा तनुचृतां कायो निकायो महाबी
जत्सास्थिपुरीषमूत्ररजसां नायं तथा शुद्ध्यति ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेठठी अशुचि जावना जावेठे जेम मदिरा गालवानुंयंत्र जारीनीमाफ
क ढिडेंकरी सहितथायठे तेठिडोमांथी मदिरागलावेठे तेथी तेठिडोमां मदिराना
कणिआनुं अंशरहीजायठे तेजेशमात्र पण मदिरानासंगेकरीने अपवित्रथयलुं
एहवोजे मदिराना जाजननो ढिड तेनेपवित्रकरवाने अर्थे बाहिरथी माटीसाथें गसी
ने पठे गंगानदीना पाणीयेंकरी घणावखत धोइधोइने साफकरवामांभियें तोपणते
मदिरागालवाना ढिडो कोइवारें पवित्र थायनही तेमज मनुष्यनो अत्यंत बीजत्स

डुगहाकरवायोग्य हाम रक्त मल मूत्रनोस्थानकरूप शरीर तेने माटीयेंगसवाथी
अथवा गंगादिकनापाणीये नवराव्याथी पणपूर्वोक्त दृष्टांतेकोऽवारें शुद्धथातुंनथी?
मंदाक्रांतावृत्तं॥स्नायं स्नायं पुनरपि पुनः स्नांति शुद्धान्निरङ्गि वा
रं वारं बत मलतनुं चंदनैरर्चयंते ॥ मूढात्मानो वय मपमलाः प्री
तिमित्याश्रयंते नो शुद्ध्यंते कथमवकरः शक्यते शोद्धुमेवं ॥ १ ॥
अर्थ ॥ माटेजगतमां जेनुंअंतःकरण मूढथयुंठे एहवालोके स्नानकरीने वा
रंवार शरीरशुद्धि करवानेअर्थे फरिपण स्नानकरेठे तथा वारंवार मलनास्थानकरू
प शरीरने चंदनेकरीचर्चेठे अने अर्मेनिर्मलथया एवुंकहीने प्रीतिकरेठे पण एम न
थी जाणताजे एशरीर तो किवारेपण शुद्धथातुंनथी केमके खात्रनुं उकरडो तेको
इरीते शुद्ध थायकेसुं अर्थात्नजथाय ॥ १ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं ॥ कर्पूरादिन्निरर्चितोपि लशुनो नो
गाहते सौरजं नाजन्मोपकृतोपि हंत पिशुनः सौजन्यमा
लंबते ॥ देहोप्येष तथा जहाति न नृणां स्वाजाविकीं विस्त्र
तां नान्यक्तोपि विचूषितोपि बहुधा पुष्टोपि विश्वस्यते ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ जेमलसणमां कर्पूरादिकपदार्थानो जेलकखो तोपण लसणकांइ सुगंधी
वंत थायनही तथा जन्मपर्यंत उपकारकखोहोय तोपण दुर्जनपुरुष कांइ सौजन्यता
ने धारणकरतो नथी तो हंतइतिखेदे आमनुष्यनुंशरीर तेपण स्वजावसिद्ध दुर्गंधने
मूकतुंनथी आशरीरने विविधप्रकारनासुगंधीतेलेकरीमसत्यो अनेवस्त्रालंकारेकरी
चूषितकखो तथा खवरावी पीवरावीने अत्यंतपुष्टकखो तोपण विश्वासनोपात्र था
यनही एटले एशरीर हवेसारुंथयुं एहवोविश्वास कदापिआवेनही ॥ ३ ॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तं ॥ यदीयसंसर्गमवाप्य सद्यो जवेच्छुचीनामशुचित्वमु
च्चैः ॥ अमेध्ययोनेर्ववपुषोस्य शौचसंकल्पमोहोयमहो महीयान् ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ शरीरनोसंबंधपामिने पवित्रपदार्थाने पण अपवित्रतापणुं आवेठे केम
के आशरीरने उत्तमजातिना चंदनादिकें मर्दनकरो तो तेचंदनादिक थोडीजवारमां
पोतानुं सुगंधतापणुंमूकीने दुर्गंधतानेधारणकरेठे तेमज उत्तमप्रकारनाजोन खव
राव्याथी तेपण तुरत नरगमय थयीजायठे एवो आ अपवित्रवस्तुने उत्पत्तिनुंकार
ण जेशरीर तेनेपवित्रपणुं करवाना संकल्पनो मोहराखवुं एमहोटीआश्चर्यकारीठे ४

स्वागतावृत्तां॥इत्यवेत्य शुचिवादमतथ्यं पथ्यमेव जगदेकपवित्रं ॥

शोधनं सकलदोषमलानां धर्ममेव हृदये निदधीथाः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ एरीते शरीरने पवित्रकरवानोवाद स्वोटोजाणीने जगतमां एकपवित्र पथ्य तो समस्तदोषरूपमलानो शोधक एहवोजेधर्म तेहनेरुदयमांधरो ॥ ५ ॥

॥ पष्टनावनाष्टकं आसावरीरागेण गीयते कागररेतनुचुनिचुनिजावे एदेशी. ॥

जावय रे वपुरिदमतिमलिनं विनय विबोधय मानसनलिनं॥

पावनमनुचिंतय विजुमेकं॥परममहोमयमुदितविवेकं॥जा०॥१॥

दम्पतिरेतोरुधिरविवर्ते किं शुचमिह मलकश्मलगत्तै॥ नृशम

पि पिहितः स्रवति विरूपं को बहुमनुतेऽ वस्करकूपं ॥जा०॥२॥

अर्थ ॥ हवेविनयविजयजी उपाध्याय पोतेपोताने उपदेशकरतो अशुचिपणुं जावेढे हेविनय आशरीरनेतुं घणुजमलीनजाणीने पोतानुंमनरूपकमल प्रफुल्लित कर वलीजे परमतेजस्वी अनेजेनाथकी उत्तमविचार उत्पन्नथाय एहवो एकपवित्र परमात्मानुं चिंतवनकर ॥ १ ॥ स्त्रीनोरक्त अने पुरुषनो रेत तेनापरिणाम स्वरूपथी उत्पन्नथयुं एहवुं मलमयजे कश्मलके० चीखलतेनी गर्ताके० खाइ रूप आ शरीर तेमांसुसारुंढे जोआशरीरने अत्यंतढाकीराख्युं तोपणतेमांथी विरूपप णे माठोडुर्गंधज स्रवेढे तोएवांकचराना कूवाने कोणरुडोकरी माननारुंढे अर्थात् कोऽपण उकरडारूप कचरायेकरी नरेला कूवाने जलुंमानसेनही ॥ २ ॥

नजति सचंद्रं शुचि तांबूलं ॥ कर्तुं मुखमारुतमनुकूलं ॥तिष्ठ

ति सुरजि कियंतं कालं॥मुखमसुगंधि जुगुप्सितलालं॥ जा०

॥३॥असुरजिगंधवहोंतरचारी॥आवरितुं शक्यो न विकारी॥

वपुरूप जिघ्रसि वारंवारं॥हसति बुधस्तव शौचाचारं ॥जा०४॥

अर्थ ॥ सुंदरतांबूलमां कर्पूरप्रमुखनाखीने मुखसंबंधीवायु अनुकूलकरवानेअर्थे खायढे परंतु निंदाकरवायोग्य अनेघणीज डुगडाकरवायोग्यढे लालजेनी वली अप वित्रजेनोगंध एहवा तहारामुखनी सुगंधीते केटलोक वखतरहसे ॥३॥ शरीरमांचाल नारो विविधप्रकारना विकारेकरीसहित असुरजिगंधनो वहेनारो जे ताहारामुखनो वा युतेने ढांकीमूकवाने तुंसमर्थथयोनही तोताहराअंगने सुगंधीपदार्थोनो छेपकरी वारं वार तेहनो सुवासलियेढे ए तारो पवित्रतानो आचारजोऽने पंडितलोकोहसेढे ॥४॥

द्वादश नव रंध्राणि निकामं ॥ गलदशुचीनि न यांति विरामं ॥
यत्र वपुषि तत्कलयसि पूतां मन्ये तव नूतनमाकूतं ॥ जाण ॥ ५ ॥
अशितमुपस्करसंस्कृतमन्नं जगति जुगुप्सां जनयति हन्नं ॥ पुं
सवनं धैनवमपि लीढं जवति विगर्हितमति जनमीढां ॥ जाण ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ अतिशयेंकरी जेमांथी रात्रदिवस अपवित्रवस्तुश्रवेठे पणकोश्वारें विरा
मपामतिनथी एहवास्त्रीना बारठिइ अने पुरुषनानवठिइ तेठिइंकरिसहित एहवा
शरीरने तुंपवित्रपणोजाणोठे माटेए ताहरोकोइ नवोज आचारजणायठे ॥ ५ ॥ ना
नाप्रकारे वगारप्रमुखना संस्कारेकरी संस्कृतकरेलुं पचावेलुं एहवुंजे अन्न तेपण आ
शरीरमां आरोग्याथकी हन्नके० विष्टारूपथइजायठे तेणेकरी जगतमां जुगुप्सा
के० डुगह्वाउत्पन्नकरेठे वजी आशरीरने वीर्यनीवृद्धिकरनारुं गायनुंडुध प्राशनक
रीने फरीतेपुरुषें मूत्रितकस्योथको तेपणअत्यंत निंदाकरवायोग्य थइपडेठे ॥ ६ ॥

केवलमलमयपुजलनिचये अशुचीकृतशुचिजोजनसिचये ॥ वपु
षि विंचितय परमिहसारं शिवसाधनसामर्थ्यमुदारं ॥ जाण ॥ ७ ॥
येन विराजितमिदमतिपुण्यं तच्चिंतय चेतननैपुण्यं ॥ विशदागमम
धिगम्य निपानं विरचय शांतसुधारसपानं ॥ जाण ॥ ८ ॥ इतिश्री
शांतसुधारसगेयकाव्ये अशौचजावनाविजावनोनाम षष्ठः प्रकाशः

अर्थ ॥ माटे केवलमलरूप पुजलनोसमूह अने पवित्रजोजनने अपवित्रपणु आ
पनार एहवाशरीरमां मात्रएक मोहसाधन करवानुंजे सामर्थ्यठे एहिजमहोठो सार
नूतजाण ॥ ७ ॥ मोहसाधनेकरी नूषितकस्योथको ए शरीरपवित्रथायठे तेचेतना
नीज चातुर्यताजाणवी पणजेमां निर्मलसिद्धांतरूप जलमिलेठे एहवो जलस्थान
कजोइने शांतसुधारसनोपानकर ॥ ८ ॥ इतिश्री शांतसुधारसगेयकाव्ये अशुचिजा
वनाविजावनोनाम षष्ठः प्रकाशः

जुजंगप्रयातं वृत्तं ॥ यथा सर्वतो निर्जरै रापतद्भिः प्रपूर्येत सद्यः पयोनिस्त
टाकः ॥ तथैवाश्रवैः कर्मभिः संजृतांगी भवेद्वाकुलश्चंचलः पंकिलश्च ॥ १ ॥
अर्थ ॥ हवेसातमी आश्रवजावना जावेठे जेम सर्वबाजुथी पमता पाणीना
निजरणायेंकरी तत्कालतलाव नराइजायठे पठे पाणीनातरंगेंकरी चंचलथायठे ते

मज कांदववधेते इत्यादिके व्याकुलथायते तेम आश्रवेंकरीयुक्तप्राणी कर्मरूपपाणी
यी नरपूरथई व्याकुल अने चंचलथको पापरूपकादवें सहितथायते ॥ १ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं ॥ यावत्किंचिदिवानुचूय तरसा कर्मह
निर्जायते तावच्चाश्रवशत्रवोऽनुसमयं सिंचति चूयोपि तत् ॥
हा कष्टं कथमाश्रवप्रतिजटाः शक्या निरोद्धुं मया संसा
रादतिन्नीषणान्मम हहा मुक्तिः कथं जाविनी ॥ २ ॥

अर्थ ॥ ते जेटलामां अनुभवलेइने बलात्कारेकरी महारा अत्तामांथी कांइक
र्मने हुं शुष्ककरुंहुं तेटलामांवली आश्रवरूपशत्रु समयसमयप्रतें कर्मोने फरी सी
चनकरेते माटे हाइतिखेदे मने एवुं कणलागेते के हुं आश्रवरूपशत्रुने केवीरीते
जीतिशकुं अने एरीतेंतो अत्यंतजयंकर संसारथकी महारोडूटको पण सीरीतेंथसे ॥ ३ ॥

प्रहर्षणीवृत्तं ॥ मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसंज्ञाश्रवणः
सुकृतिनिराश्रवाः प्रदिष्टाः ॥ कर्माणि प्रतिसमयं
स्फुटैरमीनिर्बध्नंतो भ्रमवशतो भ्रमंति जीवाः ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ पुण्यवंतपुरुषोए १ मिथ्यात्व २ अव्रति ३ कषाय ४ योग एचारनाम
ना चारआश्रवकह्याते ते समयसमयप्रतें एचारआश्रवना योगेकरी कर्मोने बांध
नारा जीवो ते चमेकरी चारगतिरूप संसारमांजमेते ॥ ३ ॥

रथोद्धतावृत्तं ॥ इंद्रियाव्रतकषाययोगजाः पंच पंच चतुरन्वितास्त्र
यः ॥ पंचविंशतिरसक्रिया इति नेत्रवेदपरिसंख्यया ऽप्यमी ॥४॥

अर्थ ॥ पांचइंद्रियो तथा प्राणातिपातादिक पांचअव्रत अने क्रोधादिक चारक
षाय वली मनादिक त्रणयोग तथा कायिकादिक पचीस असक्रिया एरीते सर्व
मलीने आश्रव बेतालीस प्रकारनुंते ॥ ४ ॥

इंद्रवज्रावृत्तं ॥ इत्याश्रवाणामधिगम्य तत्वं निश्चित्य सत्वं श्रुतिसन्निधा
नात् ॥ एषां निरोधे विगलद्विरोधे सर्वात्मना जागृ यतितव्यमात्मन् ॥५॥

अर्थ ॥ एहवुं आश्रवनुं तत्वजाणीने निश्चयथकी शास्त्रसन्निधानपणुं एटले
आंगम सिद्धांतरूप शास्त्रनुं ठतापणुं तेजेनाथकी विरोधगयुंते एहवा आश्रवरूप
शत्रुनो निरोधकरवा विषे हेआत्मातुं तुरत यत्नकर ॥ ५ ॥

सप्तमजावनाष्टकं धनाश्रीरागेण गीयते ॥ जोलीदारेहंसारेविषयनराचियें एदेशी ॥

परिहरणीया रे सुकृतिजिराश्रवा हृदि शमतामवधाय ॥ प्रजवं
त्येते रे जृशमुच्छंखला विजुगुणविजववधाय ॥ परि० ॥ १ ॥
कुगुरुनियुक्ता रे कुमतिपरिष्णुताः ॥ शिवपुरपद्यमपहाय
प्रयतंतेऽमीरे क्रियया डुष्टया प्रत्युत शिवविरहाय ॥ परि० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ सुकृतवंतपुरुषें हृदयमां समताधारणकरी आश्रवनोपरिहारकरवो अरे
जीव आ लोखदना शांकलनीपरें बांधीराखनारो जे आश्रव ते विजुजे परमात्मा
तेनागुणरूप ऐश्वर्यतानो नाशकरवाने समर्थथायडे ॥ १ ॥ कुगुरुयेंकरेलीप्रिरेणा
अने कुमतियेंकरी युक्तथयला हेडुष्टजीव तुं कायिकादिक डुष्टक्रियाउमां प्रवर्त्तवे
करी मोक्षपुरीयें जवानो मार्गमूकीने उलटोमोक्षमार्गनो नाशकरवानुंज यत्नकरेडे ॥ २ ॥

अविरतचित्ता रे विषयवशीकृता विपहंतंते विततानि ॥ इह
परलोके रे कर्मविपाकजान्यविरलडुःखशतानि ॥ परि० ॥ ३ ॥
करिऊषमधुपा रे शलजमृगादयो विषयविनोदरसेन ॥ हंत
लजंतंते रे विविधा वेदना बत परिणतिविरसेन ॥ परि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेनाचित्तमां वैराग्यनथी एहवा विषयने पराधीनथयलाप्राणी इहलोकें
तथा परलोकेपण निरंतरपणे कर्मनापरिणामोथी उत्पन्नथयलां शैकमाडुःखानुं
सहनकरेडे ॥ ३ ॥ हस्ति मत्स्य चमर पतंग अने मृग एवा पांचजातना प्राणीओ
अनुक्रमेंस्पर्शी रस गंध रूप शब्द ए एकेकाविषयना विनोदरसेकरी नानाप्रकारनी
वेदनाओने एविषयोना परिणाम जे विरस एटले माठारस तेणेकरीपामेडे ए महो
दुःखेदनुं कारणडे ॥ ४ ॥

उदितकषाया रे विषयवशीकृता यांति महानरकेषु परिव
र्तते रे नियतमनंतशो जन्मजरामरकेषु ॥ परि० ॥ ५ ॥
मनसा वाचा रे वपुषा चंचला डुर्जयडुरितजरेण ॥ उपलि
प्यंतंते रे तत आश्रवजये यततां कृतमपरेण ॥ परि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेने क्रोधादिक कषाय उदयमांआव्याडे तेप्राणीओ पांचइंदिओना
विषयोने स्वाधीनथयलाडे तेणेकरी महोटा नरकमां जायडे अने अनंतिवार जन्म
जरामरणकरेडे ॥ ५ ॥ आश्रवेंकरी चंचल थयला प्राणी मन वचन अने कायाना

योगे दुर्जय एहबुंजेपाप तेषोकरी युक्तथायढे माटे चतुरपुरुषे आश्रवने जीतवानुं
प्रयत्नकरवुं अने नवा कर्म बांधवानही ॥ ६ ॥

शुद्धायोगा रे यदपि यतात्मनां स्रवंते शुभकर्माणि ॥ कांचन
निगडांस्तान्यपि जानीयात् हतनिर्वृतिशर्माणि ॥ परि० ॥ ७ ॥

मोदस्वैवं रे साश्रवपाप्मनां रोधे धियमाधाय ॥ शांतसुधारसपा
नमनारतं विनय विधाय विधाय ॥ ८ ॥ इतिश्री शांतसुधा
रस गेयकाव्ये आश्रवजावनाविजावनोनाम सप्तमः प्रकाशः

अर्थ ॥ जेषोपोतानुं मनस्वाधीनकखुं तेनाशुद्धयोगजेढे ते शुद्धयोग जोपण
शुभकर्मोनेज स्रवेढे एटले शुभकर्मोनीज प्राप्तिकरावेढे परंतु तेकर्मोपण मोहसुख
ना नाशकरवाने शोनानीबेडीसरखा जाणवा ॥७॥ माटे विनयविजयजी उपाध्याय
पोते पोतानेकहेढे के अरेविनय आवाप्रकारेंकरी आश्रवसहित जेपाप तेनोनि
रोधकरवा उपर बुद्धिराखी वारंवार शांतिसुधारसनो पानकरीकरीने आनंदपाम ॥८॥
इतिश्रीशांतसुधारस गेयकाव्ये आश्रवजावनाविजावनो नाम सप्तमः प्रकाशः

स्वागतावृत्तद्वयं ॥ येन येन य इहाश्रवरोधः संज्ञवेन्नियतमौ
पयिकेन ॥ आजियस्व विनयोद्यतचेतास्तत्तदांतरदृशा परिजा
व्य ॥ १ ॥ संयमेन विषयाविरतत्वे दर्शनेन वितथाज्जिनिवे
शां॥ध्यानमार्तमथ रौडमजस्रं चेतसः स्थिरतया च निरुंध्याः ॥२॥

अर्थ ॥ हवेआठमी संवरजावनाजावेढे अरेविनय आजगतमां जे जे उपायेंकरी
निश्चयथी आश्रवनोरोध थतोहोय ते ते उपाय ताहरी अंतरदृष्टियेंजोइ तेनेविषे
चित्त लगामीने तेनेस्वीकारकर ॥ १ ॥ एटले संयमेंकरीने विषयउपर वैरागकर
सम्यक्त दर्शनेकरीने अज्जिनिवेशके० मिथ्यात्वनो आग्रहसूकीआप अने चित्तना
स्थिरपरिणाम पणे करीने आर्त्त तथा रौड ए बे ध्याननुं निरंतर रुंधनकर ॥ २ ॥

शालिनीवृत्तं ॥ क्रोधं ह्यांत्या मार्दवेनाजिमानं हन्या मायामार्जवेनो
ज्वलेना॥लोचं वारांशशिरोडं निरुंध्याः संतोषेण प्रांशुना सेतुनेवा ॥३॥

अर्थ ॥ ह्मार्थेंकरी क्रोधनो जयकर मार्दवेंकरी अजिमाननो जयकर सरलपणे
करी मायाजेकपट तेने हणीनाख वलीसमुडजेवो डुण्कर जे लोच तेहनो उंचो सेतु
सरिखोजे संतोष तेषोकरी रोधकर ॥ ३ ॥

स्वागतावृत्तं॥ गुप्तिजिस्तिस्त्रिरेवमजय्यान् त्रीन् विजित्य तरसाऽधमयो
गान् ॥ साधुसंवरपथे प्रयतेया लप्स्यसे हितमनीहितमिदं ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ एमज मनगुप्ति वचनगुप्ति अने कायगुप्ति एत्रण गुप्तियेंकरीने जे जीत
वाने घणाजडुलेन निंदनीक एहवा त्रण डुष्टयोग्य तेने जीती रूडासंवर मार्गनेवि
षे यत्नकर एटले प्रकाशवंत वेदीप्यमान अने कोइकालें विनाशने न पामनारा एह
वा जे हितार्थ तेने पामीस अर्थात् मोक्षसुखने पामीस ॥ ४ ॥

मंदाक्रांतावृत्तं ॥ एवं रुद्धेष्वमलहृदयैराश्रवेष्वप्राप्तवाक्यश्रद्धाचंच
त्सितपटपटुः सुप्रतिष्ठानशाली ॥ शुद्धैर्योगैर्जवनपवनैः प्रेरितो
जीवपोतः स्रोतस्तीर्त्वा ज्वजलनिधेर्याति निर्वाणपुर्या ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ एवाप्रकारेंकरी स्वहृद्दयवंत पुरुषें आश्रवनो रोधकरवो पढे आप्तके०
पोतानाहितवांठक तीर्थकरादिक पुरुषोना वाक्योत्तर जेश्रद्धाराखवी तेजाणीयें
वाहणनेविषे एकसुंदर अनेउज्वल वावटोचडाव्यो एहवो नूतनपीठबंध ययो यको
शुद्धमनोयोग शुद्धवचनयोग शुद्धकाययोग एत्रणयोग तेहिज जाणियें कोइक वेग
वानवायरो तेषोकरी पूछोथको जीवरूपीथो जहाज तेसंसारसमुद्रनो प्रवाहतरि
ने तुरत मोक्षरूप नगरियें जइपहोचेढे ॥ ५ ॥

॥ अष्टमनावनाष्टकं नटरागेण गीयते महावीरमेरो लालन एवेशी ॥

शृणु शिवसुखसाधनसङ्पायं सङ्पायं रे सङ्पायं ॥ शृणु शिवसु
खसाधनसङ्पायं ॥ ज्ञानादिकपावनरत्नत्रयपरमाराधनमनपायं
॥ शृ० ॥१ ॥ ॥ विषयविकारमपाकुरु दूरं क्रोधं मानं सहमायं ॥
लोभं रिपुंच विजित्य सहेलं ॥ नज संयमगुणमकषायं ॥ शृ० ॥१॥

अर्थ ॥ हे विनय तुं मोक्षसाधननो रूडोउपाय सांजल एकतो निर्दोषपवित्र
ज्ञानादिक रत्नत्रयनुं आराधनकर बीजो पांचेंडियोना विषयसंबंधीजे विकारोढे ते
हनेदूरकर त्रीजोमायासहित क्रोध मान अनेलोभरूप शत्रुथोनी हेलनाकरी सहेज
मां श्रमबिना एचारेकषायने हलकटजेवा जाणी जीतीजेइने कषायथी शून्यथयलो
एहवोजे संयमरूप गुण तेनुंसेवनकर ॥ १ ॥

उपशमरसमनुशीलय मनसा रोषदहनजलदप्रायं ॥ कलय
विरागं धृतपरजागं हृदि विनयं नायं नायं ॥ शृ० ॥ ३ ॥
आर्तं रौंजं ध्यानं मार्जय ॥ दह विकल्पपरचनानायं ॥
यदियमरुद्धा मानसवीथी ॥ तत्वविदः पंथा नायं ॥ शृ० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ क्रोधरूपअग्नीने शमाववा मेघनीपरं शांतिनोकरनार एहवोजे उपशम
रस तेहने तुं मनमां धारणकर हे विनय रुदयमां धारणकरेलोजे परपुञ्जादिक
संबंधी नाग तेहने तहारा रुदयमांधी नीत्वानीत्वाके० काढीकाढीने अत्यंत गुणवा
नजे वैराग्य तेने धारणकर वली आर्तध्यान अनेरौंजध्यानने धारणकरीसनही ॥ ३ ॥
तथा संकल्प विकल्पनीजेजालढे तेने बाली नस्मकरीनाख कारणके मनो
योगना मार्गने रुंधी न राखवो एवोकांइ तत्व वेत्तानो मार्गनथी तत्ववेत्ता पुरुष
नेतो मनोयोग मोकलो राखवुंज नही ॥ ४ ॥

संयमयोगैरवहितमानसशुद्ध्या चरितार्थयकायं ॥ नानामत
रुचिगहने चुवने निश्चिनु शुद्धपथं नायं ॥ शृ० ॥ ५ ॥ ब्रह्म
व्रतमंगीकुरु विमलं विभ्राणं गुणसमवायं ॥ उदितं
गुरुवदनाड्यपदेशं संगृहाण शुचिमिव रायं ॥ शृ० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ संयमनायोगथी अयलीजेमननीशुद्धि तेणेकरीने कांइपण कृतार्थकर
नानाप्रकारनी रुचिसहीत विचित्रप्रकारना मतेकरी गहन एटलेव्याप्त एहवो आज
गतमां नयरूप शुद्धमार्ग एटले स्यादाद शैलीरूपजे जैनमार्ग तेनोशोधकर ॥ ५ ॥
वली गुणना समुदायने धरनार अत्यंतनिर्मल एहवाब्रह्मचर्यव्रत ने स्वीकारकर
अने गुरुयेंकरलाउपदेशने जेरीतें शुद्धव्यनो संग्रहकरियें तेरीतेंसंग्रहकर ॥ ६ ॥

संयमवाङ्मयकुसुमरसैरति सुरजय निजमथ्यवसायं ॥ चेतन
मुपलक्ष्य कृतलक्षणज्ञानचरणगुणपर्यायं ॥ शृ० ॥ ७ ॥ वदन
मलंकुरु पावनरसनं जिनचरितं गायं गायं ॥ सविनय शांतिसु
धारसमेनं चिरं नंद पायं पायं ॥ शृ० ॥ ८ ॥ इति श्रीशांतिसुधा
रसगेयकाव्ये संवरजावनाविजावना नाम अष्टमः प्रकाशः

अर्थ ॥ संयमना प्रतिपादन करनारा एहवा परमेश्वरनी वालीमय जेपुष्प ते
पुष्पोना रसनीसुगंधी पोताना अथ्यवसायनेअत्यंतपणेकर अने ज्ञानादिक गुणपर्या

यरूप लक्षणो करनारुं एहवोजे तहारुं चैतनठे तेने तुं अोलख ॥ ७ ॥ पवित्र
अने जलारसेंकरि सहित एहवुं परमेश्वरनाचरित्रोनुं गायन करीकरीने पोताना सु
खने अलंरुतके० शोनितकर (नूषितकर) वली विनयसहित आ शांतिसुधारसनो
पान करी करीने घणाकाल सुधी आनंद मगमां रहे ॥ इतिश्री शांतिसुधारस गेयका
अ्ये संवरजावनाविजावनो नाम अष्टमः प्रकाशः ॥

इंजवजावृत्तं॥यन्निर्जरा घादशधा निरुक्ता तत् घादशानां तपसां विजे
दात्॥ हेतुप्रजेदादिह कार्यजेदः स्वातंत्र्यतस्त्वेकविधैव सा स्यात् ॥१॥

अर्थ ॥ हवे निर्जरा जावनाजावेठे निर्जराजे बारप्रकारनी कहीठे तेबारप्रकारना
तपने जेदेकरीथाय इहां कारणनेजेदे कार्यनो जेदथाय तेणेकरी बारप्रकार कहेवाय
नहीकां स्वतंत्रपणेतो निर्जरा एकप्रकारनीजठे ॥ १ ॥

अनुष्टुबृत्तघयं॥काष्ठोपलादिरूपाणां निदानानां विजेदतः॥वन्दि
र्यथैकरूपोपि पृथग्रूपो विवक्ष्यते॥२॥ निर्जरापि घादशधा तपो
जेदैस्तथोदिता ॥ कर्मनिर्जरा एात्मा तु सैकरूपैव वस्तुतः ॥ ३ ॥

अर्थ ॥जेम कारणरूप काष्ठ अने पाखाणना जूदाजूदा जेदठे तेनाजेदेकरी यद्य
पि अग्निएकरूपठे तथापि निन्ननिन्नरूप देखायठे एटले आ अमुक काष्ठनीअग्नि
अथवा आ अमुक पाखाणनी अग्नि इत्यादिक अग्निना जेदकहेवायठे ॥ २ ॥ ते
मज तपनाजेदेकरी निर्जरा बारप्रकारनीकहीठे पण वस्तुतत्वे विचारतां कर्मनिर्ज
रा स्वरूप जे ठे तेतो एक रूपजठे ॥ ३ ॥

उपेंजवजावृत्तं॥ निकाचितानामपि कर्मणां यज्जरीयसां नूधरधुर्धराणां॥
विजेदने वज्रमिवातितीव्रं नमोस्तु तस्मै तपसेऽद्भुताय ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ पर्वतजेवा डुर्धर एहवा महोटा निकाचितकर्मानो जेदकरवाविषे वज्रनी
परें अत्यंततीव्र एहवुंअद्भुतजे तप तेने महारो नमस्कार होजो ॥ ४ ॥

उपजातिवृत्तं॥ किमुच्यते सत्तपसः प्रजावः कठोरकर्माजितकिल्बि
षोपि ॥ दृढप्रहारीव निहत्य पापं यतो ऽपवर्गं लज्जतेऽचिरेण॥५॥

यथा सुवर्णस्यशुचि स्वरूपं दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति ॥
तथात्मनः कर्मरजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद्विशदीकरोति ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ तपना रूमाप्रजावनुं केटलुं वखाण करिये जेटलुं वखाणकरिये तेटलुं

थोमुंजठे केमके दृढप्रहारी जेवा पुरुषोए महोटा कठोर कर्म करीने अत्यंत पापोनो संपादान कखुंहतो तेपण तपस्याना प्रजावें समस्त पापोनो नाशकरीने थोडाज का लमां मोहू प्रते पाय्या ॥ ५ ॥ जेम प्रदीप्तअग्नि सुवर्णनुं पवित्रस्वरूप प्रगटकरेठे तेमज तपजेठे तेपण आत्मांमांथी कर्मरूप रजनो नाशकरीने साहात् आत्मानुं ज्योतिस्वरूप प्रगटकरेठे ॥ ६ ॥

स्त्रग्धरावृत्तां॥ बाह्येनाच्यंतरेण प्रथितबहुजिदा जीयते येन शत्रुश्रेणी बाह्यांतरंगा नरतनृपतिवत् ज्ञावलब्धजडिम्ना॥ यस्मात्प्राङ्मूर्ध्वेयुः प्रकटितविज्जवा लब्धयः सिद्धयश्च वंदे स्वर्गापवर्गार्पणपटु सततं तत्तपो विश्ववन्द्यं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेना बाह्य अने अच्यंतर जेदेकरी घणाजेद प्रख्यातठे एहवा तपना उपर विशेषजावना योगेंकरी जेहने दृढपणुं लब्धके० प्राप्तथायतो ते तपेंकरी इस मनादिक बाह्यशत्रु अने रागादिक अंतरंग शत्रु तेनीजे श्रेणीके० पंक्ति तेने नरत राजानीपरें जीतीजवायठे वली जेतपथकी ऐश्वर्यताने प्रगटकरनारी अठधावीसल व्धीश्रो अने आठसिद्धिश्रो प्रगटथायठे तथा जे स्वर्ग अने मोहूना सुखआपवामां कुशल वलीजगतने पूजवायोग्य एहवोजेतप तेहनेहुं निरंतर नमस्कारकरुंठुं ॥ ७ ॥ अथनवमजावनाष्टकं सारंगरागेण गीयते ॥ जिणंदरायसरण तिहारे आयोएदेशी॥

विजावय विनय तपोमहिमानं ॥ ध्रुवपदं ॥ बहुजवसंचितञ्ज
ष्कृतममुना ॥ लज्जतेलघुलघिमानं ॥ वि० ॥ १ ॥ याति
घनापि घनाघनपटली ॥ खरपवनेन विरामं ॥ नजति त
था तपसा छुरिताली ॥ कृष्णजंगुरपरिणामं वि० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ विनयविजयजी पोताने उपवेशकरेठेके अरेविनय तुं तपनामहिमानी जावनाकर जेनायोगथकी घणाजवनुं संचितकरेठुं पाप तुरतज हलकापणुंपामे ठे ॥ १ ॥ जेम तीक्ष्णवायुयें करी महोटी महोटी मेघनीपंक्तिश्रो नाशपामेठे तेमज तपेंकरीने महोटीमहोटी पापनीपंक्तिश्रो एक कृष्णमात्रमां नष्टअज्ञायठे ॥ २ ॥

वांभितमाकर्षति दूरादपि रिपुमपि व्रजति वयस्यं॥ तप इदमाश्र
य निर्मलजावादागमपरमरहस्यं॥३॥ अनशनमूनोदरतां वृत्तिच्छा
सं रसपरिहारं नज सांलीन्यं कायक्लेशं तप इति बाह्यमुदारं॥४॥

अर्थ ॥ वली जे वाञ्छितार्थ घण्टुंदूरहोय तेनेपण नजीकआणीआपेठे तथाशत्रु
नेपण मित्रकरेठे एहवाएतपने शास्त्रनुं परमरहस्य जाणीने निर्मलजावें आदर ॥
॥ ३ ॥ तेतपनाबारजेदठे १ अनशन २ उनोदरी ३ वृत्तिःहास एटले वृत्तिसं
क्रेष ४ रसपरिहार ५ सांलीन्यता एटले इंडियोनोरोधनुं एकांतेवेसनुं ६ कायक्लेश
एठप्रकारनुं महोदुं बाह्यतपठे तेनुं तुं सेवनकर ॥ ४ ॥

प्रायश्चित्तं वैयावृत्यं स्वाध्यायं विनयं च ॥ कायोत्सर्गं शुचध्यानं
आन्यंतरमिदमंचा॥वि०॥५॥शमयति तापं गमयति पापं रमयति
मानसहंसं॥हरति विमोहं दूरारोहं तप इति विगताशंसः॥वि०॥६॥

अर्थ ॥ १ प्रायश्चित्त २ वेयावृत्त ३ स्वाध्याय ४ विनय ५ कायोत्सर्ग ६ शुच
ध्यान एठप्रकारना आन्यंतर तपठे तेनेसेव ॥ ५ ॥ एतप अनेकप्रकारना संसारी
कतापनी शांतिकरेठे अनेपापनोनाशकरेठे तथा मनरूपहंसने रमाडेठे वली निःसं
शयपणे आजगतमां दुःखोनेदूरकरवा असमर्थ एहवोजे मोहतेनो नाशकरेठे ॥६॥

संयमकमलाकार्माणमुज्वलशिवसुखसत्यंकारं चिंतितचिंतामणिमाराध
य तप इह वारं वारं ॥वि०॥७॥ कर्मगदौषधमिदमिदमस्य च जिनपति
मतमनुपानं॥विनय समाचर सौख्यनिधानं शांतिसुधारसपानं॥वि०॥८
इतिश्रीशांतसुधारसगेयकाव्ये निर्जराजावनाविजावनोनामनवमःप्रकाशः

अर्थ ॥ वलीएतपते चारित्ररूप लक्ष्मीने वशकरवानी विद्याठे तथा सुंदर मो
हना सुखआपवाने विशारदठे वली चिंतितार्थ देवाने चिंतामणीरत्नसरखोठे एह
वा तपने आजगतमां हेविनय तुं वारंवार अंगीकारकर ॥ ७ ॥ हेविनय कर्मरूप
रोगनुं औषध अने तीर्थकरोनो जे मत तेठे अनुपानजेहनुं तथा समस्त सुखनुं
निधान एहवोजे शांतसुधारस तेनुंतुपानकर ॥ ८ ॥ इतिश्रीशांतसुधारस गेयकाव्ये
निर्जराजावनाविजावनो नाम नवमः प्रकाशः

उपजातिवृत्तं ॥ दानं च शीलं च तपश्च जावो धर्मश्चतुर्धा जिनबां
धवेना॥निरूपितो यो जगतां हिताय स मानसे मे रमतामजस्रं॥१॥

अर्थ ॥ हवेदशमी धर्मजावना जावेठे तीर्थकरदेवें लोकहितार्थे दानशील तप अ
ने जाव एरीतें चारप्रकारनो धर्मकह्योठे तेधर्ममारामनमां सर्वकाजरहो ॥ १ ॥

इंजवजावृत्त त्रयं॥सत्यकृमामार्दवशौचसंगत्यागार्जवब्रह्मविमुक्तियु
क्तः॥ यः संयमः किंच ततोपगूढश्चारित्रधर्मो दशधायमुक्तः॥ १ ॥ य
स्य प्रजावादिह पुष्पदंतौ विश्वोपकाराय सदोदये ते ॥ ग्रीष्मोष्मन्नी
ष्मामुदितस्तद्वितान् काले समावासयति क्षितिं च ॥ ३ ॥ उल्लो
लकल्लोलकलाविलासैर्नाष्ठावयत्यंबुनिधिः क्षितिं यत् ॥ न
घ्नति यत् व्याघ्रमरुद्ववाद्या धर्मस्य सर्वोप्यनुजाव एषः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ १ सत्य २ कृमा ३ मार्दव ४ शौच ५ तपधर्म ६ संगत्याग ७ ब्रह्मचर्य ८
विशेषप्रकारें मुक्तिएटले निर्लोचतापणुं ९ संयम १० अकिंचनता तेणोकरीयुक्त ए
रीतें दसप्रकारनुं चारित्रधर्म कसुंठे ॥ १ ॥ जे धर्मेनापसायेंकरी जगतमां चंडसूर्य
पण सर्वप्राणीमात्रने उपकारकरवाने अर्थें नित्यउदयपणुं पामेठे वलीग्रीष्मऋतुमां
नी अत्यंत तप्तथयली जमीनने वर्षाऋतुमां मेघ वर्षादकरीने ठंफिकरेठे ॥ ३ ॥ त
था समुद्रपोताना महोटाकल्लोलेंकरी पृथ्वीनेबुडावतोनथी अने व्याघ्र तथा दावा
नल अने पवन इत्यादिकोकोइने मारतानथी एप्रतापसर्व धर्मनोजठे ॥ ४ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तद्वयं ॥ यस्मिन्नेव पिता द्विताय यतते
भ्राता च माता सुतः सैन्यं दैन्यमुपैति चापचपलं यत्रा
फलं दौर्बलं ॥ तस्मिन्कष्टदशाविपाकसमये धर्मस्तु संवार्मि
तः सज्जः सज्जन एष सर्वजगतस्त्राणाय बद्धोद्यमः ॥ ५ ॥
त्रैलोक्यं सचराचरं विजयते यस्य प्रसादादिदं योत्रामु
त्र हितावहस्तनुचृतां सर्वार्थसिद्धिप्रदः ॥ येनानर्थकदर्थ
ना निजमहःस्सामर्थ्यतो व्यर्थिता तस्मै कारुणिकाय ध
र्मविजने चक्तिप्रणामोऽस्तु मे ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेवखत पोतानाहितनेअर्थें बाप नाइ माता पुत्र अत्यंतउद्योगकरेठे
तेपण धर्मनोजप्रतापजाणवो अनेवली धनुष्यनायोगेंकरी चपलथयलो जे सैन्यके
लशकर तेपण दैन्यके ० दीनपणाने पामेठे तथा जेवखतपोतानी जुजाओनुंबल
निष्फलथायठे एवी कष्टअबस्थाना परिणामकालें पण सज्जनएहबुंजे आधर्मरूप
मित्रते पोतानाअंगमां बरुतरजेबुंथइ जाणे एक धर्मरूप बरुतरज पहेसुंहोयनी एट

ले आंगमां बरुत्तरपहेखा नीपरेंथयीने सर्वजगतना ररुणार्थे उद्योगकरेठे ॥ ५ ॥
वली जेहनापसायथकी स्यावर अने जंगमसहित जगत शोचेठे तथा जे आलोकें
प्राणीओने हितकरवाने योग्यथयीने सर्वअर्थनी सिद्धताने पमाडेठे जेणेपोताना
तेजस्वीसामर्थेकरी पापरूपविटंबनानो नाशकरीनाख्युंठे एहवो जे दयावंत धर्मरूप
प्रभु तेने महारो नमस्कार होजो ॥ ६ ॥

मंदाक्रांतावृत्तं ॥ प्राज्यं राज्यं सुजगदयिता नंदनानंदनानां रम्यं
रूपं सरसकविता चातुरी सुस्वरत्वं ॥ नीरोगत्वं गुणपरिचयः
सङ्गनत्वं सुबुद्धिं किंतु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ महोद्वंराज्य सुंदरस्त्री पुत्र पुत्रीओ रमणीकरूप घणीज सरस कविता
करवानी चतुराइ सुस्वरपणुं आरोग्यतापणुं गुणोनोपरिचय तथासङ्गनपणुं अने
रूडीबुद्धि एसर्ववाना ते धर्मरूप कल्पवृक्षना फलठे ॥ ७ ॥

॥ अथ दशमजावनाष्टकं वसंतरागेण गीयते नवितुमेवंदोरेहीरविजयसूरिराया एदेशी ॥

पालय पालय रे पालय मां जिनधर्म ॥ मंगलकमलाकेलिनिके
तन करुणाकेतन धीर ॥ शिवसुखसाधन नवजयबाधन जगदा
धार गंजीर ॥ पा० ॥ १ ॥ सिंचति पयसा जलधरपटलीनूतलममृत
मयेन ॥ सूर्याचंडमसावुदयेते तव महिमातिशयेन ॥ पा० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हे जैनधर्म तुं महारुंररुणकर महारुंररुणकर तुं मांगलिकरूप लक्ष्मी
तुं क्रीमागृहठो वलीकरुणानो स्थानकठो तथा मोहसुखतुं साधनठो अने संसा
रना समस्तजयनो नाशकरनारठो तेमज जगतना जीवोने आश्रयनूतठो अनेअतिगं
जीरठो ॥ १ ॥ जे मेघनो समूहते पृथ्वीतलने अमृत सरखा पाणीये करीने सिंचन
करेठे अने चंड सूर्य जे नित्य उगेठे तेसर्व ताहरोज महिमाठे ॥ २ ॥

निरालंबमियमसदाधारा तिष्ठति वसुधा येनातं विश्वस्थितिमूलस्तं
जं तं सेवे विनयेन ॥ पा० ॥ ३ ॥ दानशीलशुचननावतपोमुखचरितार्थीऽकृ
तलोकः ॥ शरणस्मरणकृतामिह नविनां दूरीकृतजयशोकः ॥ पा० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ निरालंब पृथ्वीनेकोइ आधार नठतां जेनाआधारथकी रहेठे एहवो जग
तनीस्थितीनो मूलस्तं जे धर्म तेने हुं नित्यप्रतें विनय एटले नक्तिये करी सेवुंठुं ॥ ३ ॥
दान शील शुचनाव अने तप एचारप्रकारेकरी लोकोने चारित्रार्थीनो करनारो अने

जे प्राणी आ जगतमां ए धर्मनो स्मरण करेढे तथा आश्रय करेढे ते प्राणीना जय तथा शोकने दूर करनारो एहवो ए धर्मढे ॥ ४ ॥

ऋमासत्यसंतोषदयादिकमुजगसकलपरिवारः ॥ देवासुरनरपूजित
शासन कृतबहुजवपरिहारः ॥ पा० ॥ ५ ॥ बंधुरबंधुजनस्य दिवानिशमस
हायस्य सहायः ॥ भ्राम्यति जीमे जवगहनेंगी त्वां बांधवमपहाय ॥ पा० ६
अर्थ ॥ जेनो ऋमा सत्य संतोष दया आवेदेइने समस्तपरिवार सुंदरढे वली
देवता वैत्य अने मनुष्योए जेनी आहामान्यकरीढे तथा अनेक जन्म जरा मरण
नो परिहार करनारो ते ए धर्मजढे ॥ ५ ॥ वलीहे धर्मतुं जेनेकोइ जाइनथी तेनोजा
इ तथा जेनेकोइ सहायनथी तेने रात्रदिवस सहायनो करनार बांधव रूपढो तेम
ढता बांधवरूप तुजने मूकीने प्राणीओ संसाररूप अरएयमां फिरेढे ॥ ६ ॥

उंगति गहनं जलति कृशानुः स्थलति जलधिरचिरेण ॥ तव कृपयाऽखिल
कामितसिद्धिर्बहुना किंतु परेण ॥ पा० ॥ ७ ॥ इह यत्तसि सुखमुदितदशांगं
प्रेत्येज्जादिपदानि ॥ क्रमतोज्ञानादीनि च वितरसि निःश्रेयससुखदानि ॥ ८
अर्थ ॥ हे धर्मरूपमित्र तहारीकृपाथकी आरएय ते महोटा नगर जेवो थाय तथा
अग्निने पाणीसरखीथाय अने समुइते स्थल सरखो तुरतथइजायढे वधारे सुं कहुं
तहारी कृपाथकी प्राणीमात्रना सर्व मनोरथ पूर्णथायढे ॥ ७ ॥ आलोकमां जेना
अंगनेविषे दयारूप धर्म उदयआव्योढे तो तेने इहांपण पूर्वोक्तप्रकारें सुखआपेढे
अने परजवे इंजादिक देवताओनी पदवीआपेढे वली क्रमेकरी मोहसुखने आप
नारा एहवा ज्ञानादिक गुणआपेढे ॥ ८ ॥

सर्वतंत्रनवनीतसनातन सिद्धिसदनसोपान ॥ जय जय वि
नयवतां प्रतिलंबितशांतिसुधारसपान ॥ पा० ॥ ९ ॥ इतिशांत
सुधारस गेयकाव्ये धर्मजावनाविजावनो नाम दशमः प्रकाशः
अर्थ ॥ सर्वशास्त्रोमां नवनीत एटले माखणजेवो सारनूत अने सनातनके० शा
श्वत तथा सिद्धिरूपगृहनो सोपान एटले निसरणीरूप अने जे विनयवंत शिष्यो
ने शांतिसुधारसतुं पान करावेढे एहवोजे धर्म ते जयपामो जयपामो ॥ ९ ॥
इतिश्री शांतिसुधारस गेयकाव्ये धर्मजावनाविजावनो नाम दशमः प्रकाशः

मालिनी वृत्तं ॥ सप्ताधोधो विस्तृता याः पृथिव्यश्बत्राकाराः संति रत्नप्रजा
द्याः ॥ तान्निः पूर्णो योस्त्यधोलोक एतौ पादौ यस्य व्यायतौ सप्तरज्जुः ॥ १

अर्थ ॥ हवे इग्यारमी लोकस्वरूप जावनाजावेठे सातअधोअधो एटले एकबी
जाने नीचिनीचिं विस्तीर्ण बत्राकारें रत्नप्रजादिक सातपृथ्वीओठे तेणेकरी परिपू
र्ण एवा अधोलोकरूप सातरज्जुप्रमाणे जेना महोटाबेपगठे ॥ १ ॥

तिर्यग्लोको विस्तृतो रज्जुमेकां पूर्णो द्वीपैरण्वांतैरसंख्यैः ॥ यस्य
ज्योतिश्चक्रकांचीकलापं मध्ये कार्श्यं श्रीविचित्रं कटित्रं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ अने एक रज्जु प्रमाण विस्तारवंत असंख्याता द्वीपसमुद्धं करी व्याप्त एह
वो तिर्यग्लोकमां कृशपणानी शोनायेंकरी युक्तठे वली ज्योतिष चक्ररूप कांचीक
लापायें युक्त जेनुं सुंदर कणदोरोठे ॥ २ ॥

लोकोऽधोर्ध्वं ब्रह्मलोके द्युलोके यस्य व्याप्तौ कूर्परौ पंच रज्जु ॥ लोक
स्यांतो विस्तृतो रज्जुमेकां सिद्धज्योतिश्चित्रको यस्य मौलिः ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ जेनो ऊर्ध्वलोकें ब्रह्मनामा देवलोक पांचरज्जुप्रमाणे व्याप्त ते कोपरा स
रखो कूरपरठे अने जेनुं लोकनेअंतें एकरज्जुविस्तारपणे जे सिद्धज्योतिषातेमस्तकठे ॥ ३

यो वैशाखस्थानकस्थायिपादः श्रोणीदेशे न्यस्तहस्तद्वयश्च ॥ का
लेऽनादौ शश्वदूर्ध्वदमत्वाद्द्विभ्राणोपि श्रांतमुष्मामखिन्नः ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेना मथनकरवाना दंडने स्थानकेंपगठे एटले ठासमथन करवाना दंमनी
परें जेना पगपसरेलाठे जेणे पोतानी कटीउपर बेहाथ राखेलाठे एहवोथको अना
विकालनुं निरंतर ऊर्ध्वदमपणे जितेंद्वियथको शांतमुष्म धरीरह्योठे पण खिन्ननथी ॥ ४

सोयं ज्ञेयः पुरुषो लोकनामा षड्व्यात्माऽ कृत्रिमोनाद्यनंतः ॥

धर्माधर्माकाशकालात्मसंज्ञै र्व्यैः पूर्णः सर्वतः पुज्यलैश्च ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ षट्स्वरूप जेना आत्मानुं स्वरूपठे जेनेकोश्यें कखोनथी जेनो जन्म
अथवा मृत्युथयोनथी वली धर्म अधर्म आकाश काल जीव अने पुज्य एपांचस्
व्येकरी सर्वस्थले परिपूर्ण एवो आ चउदराज लोकनामा पुरुषजाणवो ॥ ५ ॥

रंगस्थानं पुज्यलानां नटानां नानारूपैर्नृत्यतामात्मनां च ॥ का

लोद्योगस्वस्वजावादिजावैः कर्मातोद्यैर्नर्तितानां नियत्या ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ वली जे काल उद्योग स्वस्वजावादिकजावें कर्मरूपवाजिर्त्रें नियतियेक

री नानाप्रकारना रूपेकरी नचावेला जीवोतुं अने नाचनारोजे पुञ्जलरूप नाटकी
ओ तेनुं रंगस्थान एटले रंगमंनपठे एवो एचउदराज लोकनामा पुरुषठे ॥ ६ ॥

एवं लोको जाव्यमानो विविक्त्या विज्ञानां स्यान्मानसस्थैर्यहेतुः ॥
स्थैर्यं प्राप्ते मानसे चात्मनीना सुप्राप्येवा ऽध्यात्मसौख्यप्रसूतिः ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ एरीतेलोकने विवक्त एटले जूदोजूदो स्पष्टपणे जाव्यो थको विज्ञानीपुरुषो
नामनने स्थिरकरवानो कारण तेहीजथायठे जेवारें मनस्थिरथयो तेवारें आत्माने
हितकरनारी अध्यात्मिक सुखनी प्राप्तिमुलजथायठे ॥७॥ सप्तनिर्मालनीवृत्तैः कुलकं
॥ अथ एकादशनावनाष्टकं काफ़ीरागेणगीयते आजसखीमनमोहनो ॥ एदेशी

विनय विजावय शाश्वतं ॥ हृदि लोकाकाशं ॥ सकलचराचरधा
रणे परिणमदवकाशं ॥ वि० ॥१॥ लसदलोकपरिवेष्टितं गणनाति
गमानं ॥ पंचनिरपि धर्मादिभिः सुघटितसीमानं ॥ वि० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ विनयविजयजी उपाध्याय पोताने समजावेठेजे अरेविनय शाश्वतो
चिरकाल रहेनारो एहवो लोकाकाशतुं ताहरा हृदयमां धारणकर जेमां समस्त
स्थावर अनेजंगमपदार्थोने धरवाविषे पूर्णअवकाशठे ॥ १ ॥ वलीशोनायमान अ
लोकेंकरी वेष्टितके० विटधुंठे तथा जे गणनाके० परिमाण मूकीने रह्योठे केमके
असंख्यातो लोकाकाशठे माटे, वली जेनीसीमाधर्मादिक पांचड्व्येंकरी सुघटितके०
रूमीरचनायें करी रचितठे एहवो ए चउदराज लोकनामा पुरुषठे ॥ २ ॥

समवघातसमये जिनैः परिपूरितदेहं ॥ असुमदणुकविविधक्रिया
गुणगौरवगेहं ॥ वि०॥३॥ एकरूपमपि पुञ्जलैः कृतविविधविवर्तं ॥
कांचनशैलशिखरोन्नतं कचिदवनतगर्तं ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ वली लोकनामा पुरुषनेविषे श्रीतीर्थकरदेव समुजातना समयें पोतानी
आत्माना प्रदेशेकरीने चउदराजलोकना समस्तजाग परिपूर्णकरेठे तथा असुमत्के०
प्राणी अने अणुके० परमाणु तेमनी नानाप्रकारनी जेक्रिया अनेगुण तेनागौरवप
णानुं स्थानकजाणवुं ॥ ३ ॥ वली ए लोकाकाश पुरुषमां यद्यपि रूपने धारणकर
नारुं एक पुञ्जलड्व्यठे तेषो नानाप्रकारना करेला एहवा किहांक मेरूना शिखरप्र
माणेउंचा सुवर्णमयपर्वतोठे वलीकिहांकतो गर्ता एटले स्वामाओठे ॥ ४ ॥

क्वचन तविषमणिमंदिरैरुदितोदितरूपं ॥ घोरतिमिरनरकादिनिः
क्वचनातिविरूपं ॥ वि० ॥ ५ ॥ क्वचिद्धत्सवमयमुज्वलं जयमंगल
नादं ॥ क्वचिदमंदहाहारवं ॥ पृथुशोकविषादं ॥ वि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ वली किहांक तो देवताओना सुवन तेनी सूर्यकांत मणीरत्ननी शोनाये
करी सुंदररूप पणाना उदयने पाम्योठे एटले उदितोदित रूपनेपाम्योठे वली
किहांक नयंकर अंधकार अने नरकादिकें अत्यंत विरूप एटले माठारूप पणाने पा
म्योठे ॥ ५ ॥ वली किहांकतो उत्सवमयठे एटले उज्वल जयमंगलना वाजित्र
ना नादेंकरी युक्तठे तथा किहांकतो अत्यंतशोक अने खेदे करीयुक्त जेमांथी महो
ठो हाहाकार शब्द निकलीरह्योठे एहबुं पुजल इव्यठे ॥ ६ ॥

बहुपरिचितमनंतशो निखिलैरपिसत्वैः जन्ममरणपरिवर्तिनिः कृ
तमुक्तममत्वैः ॥ वि० ७ ॥ इहपर्यटनपराङ्मुखाः ॥ प्रणमत नगवं
तं ॥ शांतिसुधारसपानतो धृतविनयमवंतं ॥ ८ ॥ इतिश्रीशांतिसु
धारसगेयकाव्ये लोकस्वरूपजावनाविजावनो नामैकादशः प्रकाशः

अर्थ ॥ वली लोकमां पुजलनो स्वरूप विशेषें कहेठे जेने जन्म मरणाना योगेंक
री फिरनारा प्राणी पूर्वपूर्व ममत्वनी परंपरायेंकरी अनंति अनंतिवार लेइलेइनेसू
क्योठे अनेजेनुं सर्वप्राणीओए अनंतिवार घणुंपरिचित कखुंठे एहबुंए पुजलइव्य
ठे ॥ ७ ॥ माटे हेजीव तुंजो आलोकरूप पुरुषमां फिरवानेविषे पराङ्मुख थयो
होय तो शांतिसुधारसना पानेकरी विनय धारण करनाराओनुं रक्षण करवा वाला
जे नगवंत परमात्मा तेने नमस्कारकर ॥ ८ ॥ इतिश्री शांतिसुधारस गेयकाव्ये लोक
स्वरूपजावनाविजावनो नाम एकादशः प्रकाशः

मंदाक्रांतावृत्तं ॥ यस्माद्विस्मापयितसुमनः स्वर्गसंपद्विलासप्राप्तोऽपि
साः पुनरपि जनिः सत्कुले नूरिनागे ॥ ब्रह्माद्वैतप्रगुणपदवीप्राप
कं निःसपत्नं तद्गुणप्रापं नृशमुरुधियः सेव्यतां बोधिरत्नं ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवेबारमी बोधिहुलन जावनाजावेठे जेनाथकी देवताओपण वि
स्मयपामे एहवो स्वर्गसंपत्तिनो विलास पामीने जीव आनंद पामनार थायठे व
लीजेनाथकी अनेकप्रकारना अत्यंत नोगेंकरी युक्त एहवा रूमाकुलमां पुनःपुनः ज

मथायत्ते तथा परंपरायें अद्वैत ब्रह्मपदवी पमाहवामां जेनेकोऽशत्रुनथी जेनीप्राप्ति
पामवी अत्यंतकठीणत्वे एहवुंजे बोधरूपरत्न तेनोद्देबुद्धिमंतो तमेसेवनकरो ॥ १ ॥

जुजंगप्रयातवृत्तत्रयं॥अनादौ निगोदांधकूपे स्थितानामजस्रं जनुर्मृ
त्युङ्गःस्वार्दितानां॥परीणामशुद्धिः कुतस्तादृशी स्याद्यथा हंत तस्माद्धि
निर्यीति जीवाः ॥ २ ॥ततो निर्गतानामपि स्थावरत्वं त्रसत्वं पुनर्दुर्लभं
देहजाजां ॥ त्रसत्वेपि पंचाक्षपर्याप्तसंज्ञिस्थिरायुष्कवत्वं दुर्लभं मानु
षत्वं ॥३॥ तदेतन्मनुष्यत्वमाप्यापि मूढो महामोहमिथ्यात्वमायोपगूढः॥
भ्रमन्दूरमग्नो जवागाधगर्ते पुनः क्व प्रपद्येत तद्बोधिरत्वं ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ पण अनादि कालना निगोदरूप अंधकार तद्रूप कुवामां रहेनारा निरं
तर जन्म मरणना दुःखेंकरी पीडायत्ना प्राणीश्रोने तेवी परिणामद्युद्धि केमथाय
केमके जेथकी महोटा आनंदे सहित जीव निगोद रूप अंधकार कुवामांथी बा
हेरपडेढे ॥ १ ॥ ते निगोदमांथी नीकलीने पण स्थावरमां उपजवुंथाय केमके
प्राणीने त्रसपणुं पामवुंतो दुर्लभत्वे वली त्रसपणामां पण पंचेंदियपणुं पामवुं दु
र्लभत्वे तेमां वलीपर्याप्तपणुं पामवुं दुर्लभत्वे तेमांपण संज्ञी पंचेंदियपणुं दीर्घायु अ
ने मनुष्यपणुं पामवुंतो परमदुर्लभत्वे ॥३॥महामोह मिथ्यात्व तथा माया एणेकरी
युक्तथको मूर्खप्राणी आ मनुष्यपणुं पामीने संसाररूप अगाध खाडामां फिरतो
फिरतो बुडयोथको रहेढे तेप्राणीने बोधिरत्न फरीने शरीरें प्राप्तथसे ॥ ४ ॥

शिखरिणीवृत्तं॥विजिन्नाः पंथानः प्रतिपदमनल्पाश्च मतिनः कुयुक्ति
व्यासंगैर्निजनिजमतोद्भासरसिकाः ॥ न देवाः सान्निध्यं विदधति न
वा कोप्यरसिकस्तदेवं कालेऽस्मिन् य इह दृढधर्मा स सुकृती॥५॥

अर्थ ॥ धर्मोना निन्ननिन्न मार्ग अने निन्ननिन्न स्थानकें कुयुक्तिना व्यासंगें ए
टले अन्यासें करीने पोतपोताना मतना उदयविषेरसिक एहवा घणामतवाला आ
कालमांढे अनेजो देवतानेपूढवाजइयेंतो देव कांइ कोइपासें आवतो नथी एमजएह
वो अतिशयवालोपण कोइनथीके जेने पूढि निर्णय करीयें तो एवा आ दुष्करकाल
मां जेप्राणी धर्मउपर दृढता राखेढे तेज प्राणी पुण्यवान जाणवो ॥ ५ ॥

शार्दूलविक्रीडितवृत्तं॥ यावद्देहमिदं गदैर्न मृदितं नोवा जराजर्जरं याव
त्वक्तकदंबकं स्वविषयज्ञानावगाहकमं॥ यावच्चायुरन्नंगुरं निजहिते ता
बहुधैर्यत्यतां कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पालिः कथं बध्यते ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जिहांसुधी आशरीर रोगाक्रांत ययोनथी तेमज जिहांसुधी आशरीर
जरायेंकरी जर्जरीनूतययोनथी तथा जिहांसुधी आ पांचेंडियनो समूह पोतपोता
ना विषयो लेवाने समर्थे अने जिहांसुधी आयुष्य ह्रीणययुंनथी तिहांसुधी
हेजीव तुं पोताना कव्याणविषे यत्नकर केमके तलोफुटीने पाणी बाहेर नीकली
जसे तोपडे पाजते केवी बांधीस ॥ ६ ॥

अनुष्टुप्वृत्तं ॥ विविधोपज्वं देहमायुश्च कृणन्नंगुरं ॥

कामालंब्य धृति मूढैः स्वश्रेयसि विलंब्यते ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ आशरीर नानाप्रकारना उपड्वेंकरी युक्तडे आयुष कृणन्नंगुरडे एमठता
कोणमूर्ख तेनाउपर संतोष राखी पोताना कव्याणयवाना कार्यमां विलंब करे॥७

॥ षादशजावनाष्टकं धनश्रीरागेणगीयते ॥ हीचरेहीचरेपीआहिंडोलडेएवेशी ॥

बुध्यतां बुध्यतां बोधिरतिडुर्लभा ॥ जलधिजलपतितसुररत्नयु
क्तया सम्यगाराध्यतां स्वहितमिह साध्यतां ॥ बाध्यताम
धरगतिरात्मशक्त्या ॥ बु० ॥ १ ॥ चक्रिन्नोज्यादिरिव न
रन्नवो डुर्लभो भ्राम्यतां घोरसंसारकहे ॥ बहुनिगोदादिका
यस्थितिव्यायते ॥ मोहमिथ्यात्वमुखचोरलहे ॥ बु० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ जेम समुडनापाणीमां पनीगयलुं चिंतामणीरत्न पाठोहायमां आवडुं
अतिडुर्लभे तेम बोधिपामवीपण अतिडुर्लभे माटेरुमीरीतें बोधिनुं आराधनकरी
पोतानुं हितसाधनुं अनेपोतानी शक्तीयेंकरी डुर्गतिनो बाधकरवो ॥ १ ॥ घणी नि
गोदादिक कायस्थितियें करी विशाल अने मोह मिथ्यात्वप्रमुख लाखोगमे चोरटा
यें युक्त एहवो आ घोर संसाररूप अरण्यमां फिरनारा जीवोने चक्रवर्तिना नोजन
सरखो मनुष्य जन्म पामवो डुर्लभे ॥ २ ॥

लब्ध इह नरन्नवो ऽनार्यदेशेषु यः स न्नवति प्रत्युतानर्थकारी ॥ जी
वहिंसादिपापाश्रवव्यसनिनां माघवत्यादिमार्गानुसारी ॥ बु० ॥ ३ ॥

आर्यदेशस्पृशामपि सुकुलजन्मनां ॥ दुर्लभा विविदिषा धर्मतत्त्वे ॥ र
तपरिग्रहज्ञयाहारसंज्ञावर्तिनि हंत मग्नं जगद्दुस्थितत्वे ॥ बु० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जो आ जगतमां प्राणी अनार्यदेशमां मनुष्यनव पाभ्योतो उलटो अन
र्थनुं कारणथायते केमके जीवहिंसादिक पापाश्रवना व्यसनवाला जीवोतो माधव
ति जे सातमी नरकादिकते तेना मार्गनुं कारण थायते ॥ ३ ॥ रूडाकुलमां जन्म
पामेलो होय अनेवली आर्यदेशमां रहेनार होय तेनेपण धर्मतत्व जाणवानी इहा
थवीदुर्जनते कारणके रतके० मैथुन परिग्रह नय अने अहार ए चार नामना छ
स्थितपणामां सर्वजगत ब्रूमोपडयोते ॥ ४ ॥

विविदिषायामपि श्रवणमतिदुर्लभं धर्मशास्त्रस्य गुरुसन्निधाने ॥ वित
थविकथादितत्तज्जसावेशतो विविधविक्लेषमलिनेऽवधाने ॥ बु० ॥
॥ ५ ॥ धर्ममाकर्ण्य संबुध्य तत्रोद्यमं कुर्वतो वैरिवर्गोऽतरंगः राग
द्वेषश्रमालस्यनिजादिको बाधते निहतसुकृतप्रसंगः ॥ बु० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ कदाचकोशने धर्मतत्व जाणवानी इहाहोय अने गुरुसंनिध बेगोहोय
तोपण वृथा विकथारसना आवेशधी नानाप्रकारना विक्लेषकरी जोतेनुं अंतःकरण
मलीन थयुं होयतो धर्मशास्त्रोनुं श्रवण दुर्लभहोय ॥ ५ ॥ वली जेप्राणी धर्मेने
सांजली धर्मेनेपाभ्यो अने धर्मेनेविषे उद्योगपण करवाबेगो तेवा प्राणीनेपण पुण्य
रूप प्रसंगना नाशकरनारा जे रागद्वेष श्रम आलस निजा इत्यादिक अंतरंग शत्रु
नो समूहते तेपीडाकरेते तेथीतेने धर्मपामनुं दुर्लभथायते ॥ ६ ॥

चतुरशीतावहो योनिलक्ष्णेष्वियं क्व लया कर्णिता धर्मवार्ता ॥ प्राय
शो जगति जनतां मिथो विवदते रुद्धिरसशातगुरुगौरवार्ता ॥ बु० ॥ ७ ॥
एवमतिदुर्लभात्प्राप्य दुर्लभतमं बोधिरत्नं सकलगुणनिधानं ॥ कुरु गुरु
प्राज्यविनयप्रसादोदितं ॥ शांतरससरसपीथूपपानं ॥ बु० ॥ ८ ॥

६० शांतसुधारसगेयकाव्ये बोधिजावनाविजावनो नाम द्वादशः प्रकाशः

अर्थ ॥ माटे अहोइति आश्चर्य हेजीव चोरासीलरू जीवा योनीमां किहां
पण तें धर्मनीवात सांजली हसेके अर्थात् नहीज सांजली हसे केमके घणुकरिने
आ जगतमां रुद्धिगारव रत्नगारव सातागारव एत्रण महोटा गारवेंकरी पीडापला
लोकोतो परस्पर एकबीजा साथे वादकरेते पणधर्मेनी वातोसांजली धर्ममार्गे प्रव

र्त्तानथी ॥७॥ एम अतिदुर्जन वस्तु करतां पण विशेष दुर्जन अने समस्त गुणनुं
निधानएवुं जे बोधिरत्न ते पामीने गुरुनो अत्यंत विनयकस्यो तेणेकरीने प्राप्तअयुं ए
हवुं जे शांतिसुधारस रूप जलोअमृत तेनु तुं पानकर एमांकर्त्तार्ये पोतानुंनाम पणसु
चय्युं ॥ ७ ॥ इतिश्री शांतसुधारस गेयकाव्ये बोधिजावनाविजावनोनाम षादशःप्र
काशः एरीते अनित्यादिक चारजावनाओनो अधिकार संपूर्णअयो ॥

अनुष्टुब्धुत्तं ॥ सधर्मध्यानसंध्यानहेतवः श्रीजिनेश्वरैः ॥ मैत्रीप्रचृतयः
प्रोक्ताश्चतस्रो जावनाः पराः ॥ १ ॥ तथाहुः॥मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्य
स्थानि नियोजयेत् ॥ धर्मध्यानमुपस्कर्तुं तद्धि तस्य रसायनं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवे मैत्र्यादिक चारजावनाओ जावेढे श्रीतीर्थिकरदेवें सत्यधर्मध्याननी
धारानी हेतुनूत मैत्रीआवेदेइने बीजी चारजावनाओ कहीढे ॥१॥ तेश्रीतीर्थिकरदेवें
कहीढे तेमज जावियेढेयें ? मैत्री १ प्रमोद २ कारुण्य अने ४ माध्यस्थ्य एचारजाव
नाते धर्मध्यानना नूषणार्थें एटले धर्मध्याननी शोचानेअर्थे योजना करीथकी ध्या
वनारने चारजावनायुक्त जे धर्म ते रसायन (अर्थधी) तुल्य थायढे ॥ २ ॥

उपजातिवृत्तां॥मैत्री परेषां हितचिंतनं यत् नवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः॥
कारुण्यमार्त्तांगिरुजां जिहीर्षित्युपेक्षां दुष्टधियामुपेक्षा ॥ ३ ॥ सर्वत्र
मैत्रीमुपकल्पयात्मन् चिंत्यो जगत्यत्र न कोपि शत्रुः ॥ कियद्दिन
स्थायिनि जीविते ऽस्मिन् किं खिद्यते वैरिधिया परस्मिन् ॥ ४ ॥
सर्वेप्यमी बंधुतया ऽनुचूताः सहस्रशोऽस्मिन्भवता नवाब्धौ ॥ जी
वास्ततो बंधव एव सर्वे न कोपि ते शत्रुरिति प्रतीहि ॥ ५ ॥
सर्वे पितृभ्रातृपितृव्यमातृपुत्रांगजास्त्रीनगिनीस्नुपात्वं ॥ जी
वाः प्रपन्नाबहुशस्तदेतत्कुटुंबमेवेति परो न कश्चित् ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जे बीजानाहितनुं चिंतनकरवुं ते मैत्रीजावना जाणवी गुणीनो पक्षपा
तकरवुं ते प्रमोदजावना जाणवी दुखीप्राणीना दुख डुरकरवानी इहाराखवी ते का
रुण्यजावना दुष्टदुःखीवंत प्राणीउपर उपेक्षाकरवी ते उपेक्षणाजावना ॥ ३ ॥ हेआ
त्मातुं सर्वत्र मैत्रीतापणुंकर एटले आजगतमां कोऽपण महारो शत्रुढे एहवो तुं
ताहरा मनमां बीजकुल जावीसनही केमके थोडादिवस रहेनारो अल्पमात्र ताह
रो जीवतव्यपणुढे तेमां बीजाउपर शत्रुबुद्धि राखीने सुं वृथा खिन्नथायढे ॥ ४ ॥

हेजीव आसंसारसमुद्धमां ए समस्तप्राणीसाथे हजारोवखत ते जाइपणो अनुज
व्यो तेमाटे एसर्व ताहरो जाइओजठे पण कोइ तहारो शत्रुनथी एवीरीते तुंजाण
॥ ५ ॥ सर्वजीवो मात्र, संसारमां माता पिता बंधु काको पुत्र पुत्री स्त्री, बहेन
ठोरानीस्त्री इत्यादिकरीते ताहरीसाथे शेकडो वखत सगपण करीचुकाठे तेमाटे
एसर्व ताहरो कुटुंबजठे पण एमांकोइ परकीयनथी एमविचारी सर्वजंतु उपर मै
त्रिता पणुं आदर ॥ ६ ॥

इंजवजावृत्तद्वयं॥ एकेंडियाद्या अपि हंत जीवा. पंचेंडियत्वाद्यधि
गत्य सम्यक् ॥ बोधि समाराध्य कदा लज्जते नूयो नवभ्रांतिनियां
विरामं॥ ७ ॥ या रागरोषादिरुजो जनानां शाम्यंतु वाक्काय
मनोऽहुहस्ताः॥ सर्वेषुदासीनरसंरसंतु सर्वत्र सर्वे सुखिनो नवंतु॥ ८ ॥

अर्थ ॥ फिरी हेजीव तुं एवो विचारकर के आ संसारमां जे एकेंडियादिक
जीवोठे तेपण रूडाप्रकारें पंचेंडियादिकपणु पामीने ज्ञानाराधनाकरी कोइकार्लेप
ए संसारमां नमवारूप नयनुं अंतकरसे एवुंजाणीने तेजीवोनी साथे पण मित्रता
कर ॥ ७ ॥ वलीजे प्राणीओने रागदेषादिरूप पीडा मन वचन कायाना शुनयो
गोनो डोहकरेठे तेसर्वप्राणी उदाशीनतापणुं पामीने सर्वलोक सुखीयाओ एवोमै
त्रीपणुं तुं सर्वजीवो उपर राख ॥ ८ ॥

॥ अथ त्रयोदशजावनाष्टकं देशास्वरागेणगीयते रेजीवजिनधर्मकीजियें एवेशी ॥
विनय विचिंतय मित्रतां ॥ त्रिजगति जनतासु ॥ कर्मविचित्रतया गतिं
विविधां गमितासु ॥ वि० ॥ १ ॥ सर्वेते प्रियबांधवा नहि रिपुरिह
कोपि ॥ माकुरु कलिकलुपं मनो निजसुकृतविलोपि ॥ विन० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हेविनय आ त्रयलोकमां कर्मनी विचित्रतायेंकरी नानाप्रकारनी तिर्य
चादिक गतिओने पामेलाप्राणी जे ठे तेसर्वप्राणीमात्रना समूहउपर तुं मित्र
ताजाव राख केमके एसर्व ताहरो परमप्रिय बांधवजठे पण एमांकोइ तहारोशत्रु
नथी माटे फोकट मनने क्लेशकरी कलुषता मकर कारणके क्रोधजेठे ते तहारा
पोतानाज पुण्यनो नाशकरनारोठे ॥ १ ॥ २ ॥ ए बेकाव्यनो अर्थएकठेठे.

यदि कोपं कुरुते परो निजकर्मवशेन ॥ अपि नवता किं नूयते
हृदि रोषवशेन ॥ वि० ॥ ३ ॥ अनुचितमिह कलहं सतां ॥ त्यज
समरसमीन ॥ नज विवेककलहंसतां ॥ गुणपरिचयपीना ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ माटे जो बीजोकोइ पोताना कर्माधीनपणाथकी ताहाराउपर क्रोधकरे
ढे तो तुंपण तहाराहृदयमां तेनाउपर क्रोध शावास्ते करेढे ॥ ३ ॥ अरेजीवतुं स
मतारूप पाणीना तलावतुं मत्सथइने सत्पुरुषोने अयोग्य एहवुंजे कलह तेनेमू
कीआप अनेगुणोतो परिचय करवाने पुष्टकारी एहवोजे विवेकरूप सरोवर तेमां
रमण करवाने हंस जेवो था ॥ ४ ॥

शत्रुजनाः सुखिनः समे मत्सरमपहाय ॥ संतु गंतुमनसोप्यमी
शिवसौख्यगृहाया॥वि०॥५॥सकृदपि यदि समतालवं हृदयेन लि
हंति ॥ विदितरसास्तत इह रतिं स्वत एव वहंति ॥ वि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हेजीवतुं समस्त शत्रुलोकोनी मंमलीउपर मत्सरतानावनो त्यागकरी
ने परमसुखीथा अने मोहूरूप सुखना घरने जाणवाने ताहरुं मनकर ॥ ५ ॥ जोए
कवारपण समताना लवतुं ताहारा हृदयमां आस्वादन करीस तो रसज्ञथइने सम्य
क्तउपर पोतानी मेलेज प्रीतिकरीस ॥ ६ ॥

किमुत कुमतमदमूर्च्छितां इरितेषु पतंति जिनवचनानि कथं ह हा
न रसाडुपयंति॥वि०॥७॥ परमात्मनि विमलात्मनां परिणम्य वसं
तु ॥विनय समाप्तपानतो जनता विलसंतु॥वि०॥८॥इतिश्रीशांत
सुधारसगेयकाव्ये मैत्रीजावनाविजावनोनाम त्रयोदशः प्रकाशः

अर्थ ॥ हे जीवतुं शावास्ते कुमतायेकरी मूर्च्छितथइने नरकमांपडेढे अने शांत
रसथीज नरेजा श्रीतीर्थेकरदेवना वचनोतुं केम संरक्षण करतोनी ॥ ७ ॥ निर्मे
लअंतःकरणवाजा जीवोनामन परमात्माना स्वरूपनेविषेज परिणत थइ रहो
अने लोकोनासमूह ते समतारूपी अमृतना पानेकरी विनयनो विलासपामो॥८॥
इतिश्री शांतसुधारस गेयकाव्ये मैत्रीजावनाविजावनो नाम त्रयोदशः प्रकाशः

स्त्रग्धरावृत्तां॥धन्यास्ते वीतरागाः क्लृपकपथ्यगतिक्लीणकर्मा
परागास्त्रैलोक्ये गंधनागाः सहजसमुदितज्ञानजाग्रद्विरा
गाः॥अथ्यारुह्यात्मशुध्या सकलशशिकलानिर्मलध्यानधा
रामारान्मुक्तेः प्रपन्नाः कृतसुकृतशतोपार्जिताहृत्यलक्ष्मीं
॥१॥तेषां कर्मक्षयोत्थैरतनुगुणगणैर्निर्मलात्मस्वभावैर्गायं

गायं पुनीमस्तवनपरिणतैरष्टवर्णास्पदानि ॥ धन्यां मन्ये र
सज्ञा जगति नवतस्तोत्रवाणीरसज्ञामज्ञां मन्ये तदन्यां
वितथजनकथाकार्यमौख्यमग्नां ॥ ७ ॥ निर्ग्रंथास्तेपि ध
न्या गिरिगहनगुहागव्हरांतर्निविष्टा धर्मध्यानावधानाः
समरससुहिताः पद्ममासोपवासाः ॥ येन्येपि ज्ञानवंतः
श्रुतविततधियो दत्तधर्मोपदेशाः शांता दांता जिताह्वा
जगति जिनपतेः शासनं चासयंति ॥ ३ ॥ दानं शीलं
तपो ये विदधति गृहिणो जावनां जावयंति धर्मं धन्या
श्रुतुर्धा श्रुतसमुपचितश्रद्धया राधयंति ॥ साध्व्यः श्राध्य
श्रु धन्याः श्रुतविदशधिया शीलमुज्जावयंत्यस्ता न्सर्वान्
मुक्तगर्वाः प्रतिदिनमसकृद्भाग्यजाजः स्तुवंति ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ हवे प्रमोद जावना जावेठे रूपकश्रेणीना मार्गमां प्रवेशकरवाने कर्म
रूपमलने जेणे हीणकखुंठे अने त्रणलोकमां गंधहस्तिसरखा स्वस्वजावमां रमण
करनारा सहजउदयने पामेला केवलज्ञानेकरी जागृतअयुंठे वैराग्यजेहनुं एहवा
श्रीवीतराण एटले तीर्थकरनेधन्यठे केमके जे आत्मशुद्धिकरीने पूर्ण चंद्रकलास
रिखी निर्मल जे ध्यानधारा तडूप अनंतपुण्यना समूहेंकरी संपादनकरेली तीर्थ
करनीलक्ष्मी तेनुं आराधनकरी मुक्तिनेप्राप्तथायठे ॥ १ ॥ श्रीविनयविजयजी उपा
ध्यायकदेठे के हुं ते तीर्थकरोना कर्मकृपयकी उत्पन्नथयाजे घणा गुणना समूह
तेनी स्तुतिकरवाविषे जेहना परिणामहोयठे एवा आत्माना निर्मलस्वजावें सहित
तीर्थकरनी स्तुति करीकरीने वरणना आवस्थानकोप्रतें पवित्रकरुंठुं अने आ जग
तमां तीर्थकरोनी स्तुतिना रसने जाणनारी जिव्हाने धन्यमानुंठुं तेविना बीजीजे
निष्फल लोकवार्ता अने कार्याना वाचालपणामां वर्तनारी जिव्हाने मूर्खतुल्य
मानुंठुं ॥ २ ॥ वली पर्वतमां अरण्यमां गुफागुहिरमां निवासकरीने धर्मध्यान उ
पर एकाग्रचित्त राखनारा तथा सम्यक्तरूप रसेकरी संतुष्टअयला वली पद्म मास
विगेरेना उपवास करनारा एहवा जे निर्ग्रंथसाधु तेनेपण धन्यठे तथा वली बी
जाजे ज्ञानीपुरुषो शास्त्रउपर पसरेली बुद्धियेंकरी धर्मोपदेशआपेठे अने शांतगुणी
दांतगुणी जितेंडिय एहवा महापुरुष जे जगतमां प्रवर्तताथका श्री तीर्थकरदेवना

शासनने प्रकाशितकरेढे तेनेपण धन्यढे ॥ ३ ॥ वलीजे गृहस्थावासमां रद्याथका पण सुपात्रने दानआपेढे शीलपालेढे तपकरेढे जावनाओ जावेढे तथा चारप्रकारें करी धर्मध्यानने आराधेढे अने पुष्टश्रद्धायें शास्त्रनुं आराधन करेढे तेनेपण धन्यढे वलीजे साध्वी तथा श्राविकाओ शास्त्रथकी स्वहृथयली बुद्धियें शीलपाले ढे तेनेपण धन्यढे एरीतें हे जाग्यवंत नव्यपुरुषो तमे सर्वथा गर्वमूकीने ए पूर्वोक्त समस्त उत्तमपुरुषोनी नित्यप्रतें निरंतर स्तुतिकरो के जेथकी तमारुं कव्याणथाय ॥ ४ ॥

उपजातिवृत्तं ॥ मिथ्यादृशामप्युपकारसारं संतोषसत्यादिगुणप्रसारं ॥ वदान्यतावैन यकप्रकारं मार्गानुसारीत्यनुमोदयामः ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ ए पूर्वोक्त सम्यक् दृष्टी जीवनी स्तुति करवी ते तो श्रेष्ठजढे परंतु अमें मिथ्यादृष्टीनो पण उत्तम उपकार जाणीयेंढेयें कारणके जो तेमनो संतोष सत्यादिक गुणनो प्रसार तथा दातारपणुं अने विनयना प्रकार एटलावाना मार्गानुं सारीढे तो एहवोजाणीने तेनीपण अनुमोदना करियेंढे ॥ ५ ॥

स्त्रग्धरावृत्तं ॥ जिव्हे प्रव्ही नव त्वं सुकृतिसुचरितोच्चारणे सुप्रसन्ना नूयास्तामन्यकीर्तिश्रुतिरसिकतया मेऽद्य कर्णौ सुकर्णौ ॥ वीक्ष्यान्यप्रौढलक्ष्मीं द्रुतमुपचिनुतं लोचने रोचनत्वं संसारेऽस्मिन्नसारे फलमिति नवतां जन्मनो मुख्यमेव ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हेजीवो जो तमे सरलढो अने पुण्यवान पुरुषोना पुण्यनो उच्चार करवाने प्रसन्नढो एटले आज अमारा कान बीजा पुण्यवान पुरुषोनी कीर्ति श्रवणना रसिकपणे करी सुकर्णरहो अने बीजानी प्रौढ ऐश्वर्यताजोऽने अमारी चक्षु प्रकाशपणाने धारणकरो एहवा जो तमारा विचारढे तो आ संसारमां एज तमारा जन्म सफल पणानो मुख्य फलढे ॥ ६ ॥

उपजातिवृत्तं ॥ प्रमोदमासाद्य गुणैः परेषां येषां मतिः सङ्गति सा म्यसिंधौ ॥ देदीप्यते तेषु मनःप्रसादे गुणास्तथैते विशदीभवन्ति ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ बीजाना गुणो सांजली संतोषपामिने जेनीबुद्धि समतारसरूप समुद्धी संद्वग्नाथायढे तेप्राणीना मननो प्रसाद देदीप्यमान थायढे तेमज तेना पोताना गुण पण सर्व स्वहृ थायढे ॥ ७ ॥

॥ अथ चतुर्विंश जावनाष्टकं टोडीरागेणगीयते ऋषभकीमेरेमनजगतिवशीरीएवेशी ॥

विनय विज्ञावय गुणपरितोषं ॥ ध्रुवपदं ॥ निजसुकृता

सवरेषु परेषु ॥ परिहर दूरं मत्सरदोषं ॥ वि० ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हेविनय तुं गुणीपुरुषनागुण उपर संतोष करतुं मनमालाव अने पोताना पुण्यप्राप्तिनावखते बीजाउपर मत्सरकरवापणाना दोषने दूरकर ॥ १ ॥

दिष्टायं वितरति बहुदानं वरमयमिह लज्जते बहुमानं ॥ किमिति

न विमृशसि परपरमागं ॥ यद्विजजसि तत्सुकृतविजागं वि० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ अमुक मनुष्य अत्यंत दानआपेठे एबहु कल्याणकारक कामकरेठे अथवा अमुकपुरुष अमुकस्थानके बहुमानपामेठे एणएणुजरुंठे एहवो रूडोविचार तुं केमकरतोनथी तेकाएठेकाणे लोकोना गुणोत्कर्ष करवा एहिज सुकृत विजागठे २

येषां मन इह विगतविकारं ॥ ये विदधति नुवि जगदुपकारं ॥

तेषां वयमुचिताचरितानां ॥ नाम जपामो वारंवारं ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ आ जगतमां जेना मननेविषे कोइप्रकारनो विकारनथी एटजे निर्विकारीठता पृथ्वीनेविषे लोकोनो उपकारकरेठे एहवा पवित्र सदाचारी पुरुषोना नाम अमें वारंवार जपियेठैयें ॥ ३ ॥

अहह तितिक्कागुणमसमानं ॥ पश्यत जगवति मुक्तिनिदानं ॥ येन

रुपा सह लसदज्जिमानं ॥ ऊटिति विघटते कर्मवितानं ॥ वि० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जेनीबराबरी करवाने कोई समर्थनथी एहवो मुक्तिनुं कारणजे हमा गुण ते श्रीतीर्थकरदेव नोजूओ के जेणेकरी क्रोधसहित अनिमानेकरी शोचना रो एहवोजे कर्मनो समूह ते तुरत नाशपामेठे ॥ ४ ॥

अदधुः केचन शीलमुदारं ॥ गृहिणोपि परिहतपरदारं ॥ यश इह

संप्रत्यपि शुचि तेषां ॥ विलसति फलिताफलसहकारं ॥ वि० ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ जेगृहस्थो परस्त्रीनुं त्यागकरी महोदुं शीलव्रतपाळेठे ते हमाणपण आ जगतमां पवित्र यशें फलीनूत थयाथका सफल आंबाना वृहसरिखाशोणेठे ॥ ५ ॥

या वनिता अपि यशसा साकं कुलयुगलं विदधति सुपताकं ॥

तासां सुचरितसंचितराकं ॥ दर्शनमपि कृतसुकृतविपाकं ॥ वि० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ वलीजे स्त्रीओपण शील पालीने पोताना मावित्र तथा ससरा बन्ने कु

लोने यशनी सुपत्ताकके० ध्वजाकरेढे एवीस्त्रीअोनो पुण्य परिपाके करी प्राप्तथ
येलुं जेदर्शन ते पण पुण्यरूप धननुंज संपादकढे ॥ ६ ॥

तात्विकसात्विकसुजनवतंसाः ॥ केचन युक्तिविवेचनहंसाः ॥ अलम
कृपत किल चुवनाचोगं ॥ स्मरणमनीषां कृतशुचयोगं ॥ वि० ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ खरेखरा सत्वगुणने धारणकरनारा सज्जनलोकोना मस्तकना नूपणस
मान अने जेम हंस दूध तथापाणीनो विवेचनकरेढे तेनीपरें युक्तियेकरी विवेचन
नाकरनारा एहवा जे सर्वोत्कृष्टप्राणीढे ते आ त्रणेचुवनने शोभायमान करवाने
तत्परढे तो तेवापुरुषोतुं स्मरणकरवुं ते पण शुचयोगनो करनारथाय ॥ ७ ॥

इति परगुणपरिज्ञावनसारं ॥ सफल्य सततं निजमवतारं ॥ कुरु
सुविहितगुणनिधिगुणगानां ॥ विरचय शांतसुधारसपानां ॥ वि० ॥ ८ ॥ इति
श्री शांतसुधारसगेयकाव्ये प्रमोदज्ञावनाविज्ञावनोनामचतुर्दशः प्रकाशः
अर्थ ॥ हे आत्मा एपूर्वोक्तरीतें परनागुणनो विचार करवुं एहिज जेमां सार
ढे एवं आ तहारो पोतानो अवतार तेने तुं निरंतर परनागुणो स्मरणकरीने सफ
लकर तथा शुद्धगुणोना निधि एहवाजे मनुष्यो तेना गुणोतुं गायनकर अने शां
तसुधारसनुं पानकर ॥ ८ ॥ इतिश्री शांतसुधारसगेयकाव्ये प्रमोदज्ञावना वि
ज्ञावनो नाम चतुर्दशः प्रकाशः ॥

मालिनीवृत्तं ॥ प्रथममशनपानप्राप्तिवांगविहस्ता स्तदनु वस
नवेशमालंकृतिव्यग्रचित्ताः ॥ परिणयनमपत्यावाप्तिमिष्टेंडि
यार्थान्सततमज्जिलषतंः स्वस्थतां कारुसुतीरन् ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हवे कारुण्यज्ञावना जावेढे प्रथमतो अशनपान प्राप्तिकरवानी इह्हा
यें व्याकुलथयजा तदनंतर वस्त्र घर अलंकार इत्यादिकोनी प्राप्ति करवाने विषे जे
मनुंचित्त व्यग्रथयुंढे तेवारपठि लग्नकरवानी इह्हा तेपठि पुत्रपुत्री प्राप्त करवानी
इह्हा अने इंडियार्थजे पांचइंडियोना त्रेवीस विषयोतेप्रतें इह्हनार एहवाजे संसार
वासी जीवो तेकेवीरीतें स्वस्थ थाय ॥ १ ॥

शिखरिणीवृत्तं ॥ उपायानां लक्ष्मैः कथमपि समासाद्य विज्वं चवा
न्यासात्तत्र ध्रुवमिति निवध्नाति हृदयं ॥ अथाकस्मादस्मिन्विकिर
ति रजः क्रुरहृदयो रिपु र्वा रोगो वा जयमुत जरा मृत्युरथवा ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हे प्राणी तुंच्या जगतमां लक्षावधि उपायोकरिने कोऽपणरीते ऐश्वर्य
ता मेलवी जन्मोजन्मना अन्यासंकरि तेहनाउपरज मनने स्थिर राखेणे पण एना
उपरतो एथीअनंतर जे अकस्मातिक क्रूर हृदयवंत शत्रु किंवा रोगप्राप्ति जय जरा
अथवा मृत्यु एटलावाना धुलनाखेणे ॥ २ ॥

स्त्रग्धरावृत्तं ॥ स्पर्धते केपि केचिद्वधति हृदि मिथो मत्सरं
क्रोधदग्धा युध्यते केरुप्यद्वा धनयुवतिपशुक्लेत्रपजादिहेतोः॥
केचिल्लोनाल्लज्जते विपदमनुपदं दूरदेशानटंतः ॥ किं कुर्मः
किं वदामो नृशमरतिशतैर्व्याकुलं विश्वमेतत् ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ कोऽ क्रोधेकरी दग्धयथाथका द्वेषकरेणे कोऽ परस्पर हृदयमां मत्सर
धरेणे केटलाक कोऽना रुंध्यानठता स्वढंदपणे इव्य स्त्री पशु खेत्र गाम इत्यादिकां ने
वास्ते लडेणे वली कोऽक जोनेकरी विपत्तिये जोगित यथाथका दूर देशांतरोमां रटन
करीकरीने व्यामूढथायणे तो हवे सुं करिये अने सुं बोलिये आ जगत तो अत्यंत
शोकडा दुःखेकरी व्याकुलणे ॥ ३ ॥

उपजातिवृत्तत्रयं ॥ स्वयं खनंतः स्वकरेण गर्तान्मध्ये स्वयं तत्र य
था पतंति ॥ तथा ततो निष्क्रमणं तु दूरे ऽधोदः प्रपाताद्विरमंति
नैव ॥ ४ ॥ प्रकल्पयन्नास्तिकतादिवादमिदं प्रमादं परिशीलयंतः
॥ मग्ना निगोदादिषु दोषदग्धा छरंतदुःखानि हहा सहंते ॥ ५ ॥
शृण्वन्ति ये नैव हितोपदेशं न धर्मलेशं मनसा स्पृशन्ति ॥ रुजः
कथंकारमथापनेयास्तेषामुपायस्त्वयमेक एव ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ प्राणीपोतें पोतानेहाथें खाडोखोदीने तेमां एवीरीते पडेणेके फरीकोऽ
प्रकारें तेमांथी नीकलवुंतो दूररसुं परंतु उलटो नीचेनीचें जइपडवुं तेनुं किवारे
अंतज आवनार नथी एटलो उंडोखाडो खोदेणे ॥ ४ ॥ जे नास्तिकादिक वादक
वपीने प्रमादनो अन्यासकरनारा दोषेकरी दग्धयथीने निगोदादिकमां बुमारहा
थका जेनोअंत घणुंजमाठो एहवा महा क्लेशकारी दुःखोने सोसेणे तो हाहा इतिखे
दे एवात केटली खेदजरेलीणे ॥ ५ ॥ जेप्राणीहितोपदेश सांजतोनथी अने धर्म
लेश्याने तो मनेकरीपण स्पर्श करतोनथी तेप्राणीना दुःखो सीरीते दूरकरीयें तेनो
आ एकज उपायणे तेआगजना श्लोकमां कहेणे ॥ ६ ॥

अनुष्टुप्वृत्तं ॥ परदुःखप्रतीकारमेवं ध्यायंति ये हृदि ॥

लज्जते निर्विकारं ते सुखमायतिसुंदरं ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ जेप्राणी पूर्वोक्तप्रकारें बीजाना दुःखोनो प्रतीकार हृदयमां धरेढे तेणे करी जेना परिणाम सुंदरथायढे तेने निर्विकारी सुख प्राप्तथाय ॥ ७ ॥

॥ पंचदशनावनाष्टकं रामकुलीरागेण गीयते ॥ हमारो अंबरदेहुमुरारी एदेशी ॥

सुजना जजत मुदा जगवंतं सुजनाजजत मुदा जगवंतं ॥ ध्रुवपदं ॥

शरणागतजनमिह निष्कारणकरुणावंतमवंतरे ॥ सुज० ॥ १ ॥

अर्थ ॥ हेसङ्गनो आ जगतमां कारणविना दयाना पालनारा अने जे पोताने शरणे आव्यो तेनीरक्षाना करनारा जे जगवंतढे तेने तुमे हर्षेकरी नजो ॥ १ ॥

कृणमुपधाय मनः स्थिरतायां पिबत जिनागमसारं ॥ का
पथघटनाविकृतविचारं त्यजत कृतांतमसारं रे ॥ सुज० ॥ २ ॥

अर्थ ॥ एककृणमात्र पोतानो मनस्थिरकरी जेनागमना सारनुं पानकरो अने जे कृत्योमां कुत्सित मार्गनी घटनायें करी आपणो विवेक विकारवंत थायढे एवा असार निंदनिक कृत्यनो त्यागकरो ॥ २ ॥

परिहरणीयो गुरुरविवेकी भ्रमयति यो मतिमंदं ॥ सुगुरुवचः
सकृदपि परिपीतं प्रथयति परमानंदं रे ॥ सुज० ॥ ३ ॥

अर्थ ॥ अविचारितगुरुनो संगमूको केमके जे गुरुओ मंदबुद्धिवंत पुरुषोने चांति सहि त करेढे अने सुगुरुना वचनो जो एक वखत सांजव्या तोपणपरमानंद उत्पन्नकरेढे ३ कुमततमोचरमीलितनयनं किमु पृच्छत पंध्यानं ॥ दधिबुध्या नर जलमंधन्यां किमु निदधत मंध्यानं रे ॥ सुज० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ कुमतरूपी अंधारेकरी जेनी आंखोढकांइ गयलीढे तेवाप्राणीने मोक्ष मार्गनो रस्तोसुं पूढवुं हेलोको तमे दहीनी बुद्धियें पाणीनेविषे मथनिकाने केम नाखोढो केमके ए पाणीमांथी कांइ माखण निकलवानुं नथी ॥ ४ ॥

अनिरुद्धं मन एव जनानां ॥ जनयति विविधातंकं ॥ सप

दि सुखानि तदेव विधत्ते ॥ आत्माराममशंकं रे ॥ सुज० ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ पोतानुंमन पोताने स्वाधीन न राख्यो ठता तेहिज पोताने नानाप्रकार

नाडुःखो उत्पन्नकरेढे अने तेहिज मनपोताने स्वाधीन राख्योढता आत्मरामने
निशंकपणे विविध प्रकारना सुखआपेढे ॥ ५ ॥

परिहरताश्रवविकथागौरवं मदनमनादिवयस्यं ॥ क्रियतां
सांवरसाप्तपदीनं ॥ ध्रुवमिदमेव रहस्यम् रे ॥ सुज० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हे सज्जनो तमे आश्रव अने विकथानुंजे गौरवपणुं तथा अनादिकालनुं
मित्रजे कामदेव तेनी साथें मित्रतानो त्याग जाव करीने संवररूप सन्मित्रकरो ए
हिज एक गुन तत्वढे ॥ ६ ॥

सह्यत इह किं जवकांतारे ॥ गदनिकुरंबमपारं ॥ अनुस
रताहितजगडुपकारं जिनपतिमगदंकारं रे ॥ सुज० ॥ ७ ॥

अर्थ ॥ हेजीव आ संसाररूप अरण्यमां रागदेषादिक अपाररोगना समूहने
तुं सोसेढे तेनो त्यागकरी ने जगतना उपकार करनार अने संसारीजीवोने राग
देष मद मत्सर इत्यादिक रोगोना निवारणकरी निरोगताना आपनार एहवा श्री
तीर्थंकरदेवरूप औषधनी सेवनाकर ॥ ७ ॥

शृणुतैकं विनयोदितवचनं नियतायतिहितरचनं ॥ रचयत सुकृत
सुखशतसंधानं शांतसुधारसपानं रे ॥ सुज० ॥ ८ ॥ इति श्रीशांतसु
धारसगेयकाव्ये कारुण्यजावनाविजावनो नाम पंचदशः प्रकाशः ॥

अर्थ ॥ माटेहे जव्यो विनयविजयजीना कहेला अथवा विनयेंकरीने कहेला
आ ग्रंथमांहेला वाक्यो तेने एक नियमें करी एटले तदाकार वृत्तियें करी बराबर
ध्यानराखीने सांजलो ए वचनो सांजलवाथी उत्तरफलनी प्राप्तियवाना कालनेविषे
हित रंजनना करनाराढे एहवुंजाणीने ए वाक्यो ते एकनियमथी सांजलो ॥ ८ ॥ इति
श्रीशांतसुधारस गेयकाव्ये कारुण्यजावनाविजावनो नाम पंचदशः प्रकाशः ॥

पंचापि शालिनीवृत्तानि ॥ श्रान्ता यस्मिन् विश्रमं संश्रयंते रुग्णाः प्री
तिं यत्समासाद्य सद्यः ॥ लज्यं रागदेषविद्वेषिरोधादौदासीन्यं सर्व
दा तत्प्रियं नः ॥ १ ॥ लोके लोका जिन्नजिन्नस्वरूपा जिन्नैर्जिन्नैः कर्म
जिर्मर्मजिज्जिः ॥ रम्यारम्यैश्चेष्टितैः कस्य कस्य तद्विद्विस्तूयते रुप्यते
वा ॥ २ ॥ मिथ्याशांसन्वीरतीर्थेश्वरेण रोद्धुं शोके न स्वशिष्यो जमा
लिः ॥ अन्यः कोवा रोत्स्यते केन पापात्तस्मादौदासीन्यमेवात्मनी

नं ॥ ३ ॥ अर्हंतोपि प्राज्यशक्तिस्पृशः किं धर्मोद्योगं कारयेयुः प्र
सह्य ॥ दद्युः शुद्धं किंतु धर्मोपदेशं यत्कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरंति ॥ ४
तस्मादौदासीन्यपीयूषसारं वारंवारं हंत संतो लिहंतु ॥ आनंदा
नामुत्तरंगतरंगैर्जीवन्निर्यद्भुज्यते मुक्तिसौख्यं ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ हवे सोलमी माथ्यस्थ जावना जावेढे जेमकोऽप्राणीने थाकचडेलो
होयते प्राणी विश्रांतिनास्थानकें विश्रांतिलेढे तेमज उदासीनता जेढेते संसार
रूप अरण्यमां त्रमणकरनारा प्राणीने विश्रांतिलेवानुं स्थानकढे अने जेनेजोऽ
रोगीपुरुष तत्काल प्रीतिवंतथायढे एटले गमेतेवा रोगेकरी पीडितहोय तथापि
जेने उदासीनता पणुं प्राप्तथयुं तो तेने ते रोगनी व्याधि कांऽपण जाणवामां न
आवता उलटो हर्षवधेढे वली जेनीप्राप्ति राग अने द्वेषरूप शत्रुनो रोधकरवाथी
थायढे एहवीजे उदासीनता ते अमाने सर्वकाल प्रियढे ॥ १ ॥ आजगतमांना
लोको अंतरना आशयेकरी मर्मनाचेदे निन्ननिन्न कर्मकरी अने रम्यारम्य व्या
पारेकरी निन्ननिन्न स्वरूपवंतढे पण बधाप्राणीनी एकप्रकृति तो नथीज तिवारें
हवे विद्वानपुरुषे केनीकेनी रम्यारम्य चेष्टा उपर संतुष्टथावुं किंवा रुष्टथावुं अर्था
तू विद्वान पुरुषेतो सर्वप्राणी उपर संतुष्ट अथवा रुष्टनथता समदृष्टीज राखवी
जलीढे ॥ २ ॥ जूओकेश्री वीरजगवान पोते तीर्थकर उता मिथ्यासहित बोलना
रो पोतानो शिष्य जमाली तेने रुंधीशक्यानही तो बीजो कोण कोऽने पण पाप
थकी रुंधीराखनारढे माटे उदासीनपणुं राखवुंतेहीज आत्मानुं हितकारीढे एम
जाणवुं ॥ ३ ॥ जूओके श्रीतीर्थकरदेव अस्यंत शक्तिना धरनारहता तथापिते
कोऽने बलात्कारेंकरी धर्मोद्योग करवाने प्रवर्ताविताहता केसुं ते तो जेणेकरी न
व्यपुरुषो दुस्तर संसार समुद्गमांथी तरी पारपामे एहवो केवल शुद्धधर्मनोज उपदेश
मात्र आपताहता ॥ ४ ॥ तेकारणे हेसत्पुरुषो तमेवारंवार हर्षेसहित औदासीन्य
तारूप सारजूत अमृतनो आस्वादनकरो के जेथकी जीव आनंदना वहेनारा मो
जायेंकरी सहित मोहसुख जोगवे ॥ ५ ॥

॥ षोडशजावनाष्टकं प्रजातिरागेण गीयते ॥ आदरजीवह्नुमागुणआदर ॥ एदेशी
अनुजव विनय सदासुखमनुजव ॥ औदासीन्यमुदारं रे ॥ कु
शलसमागममागमसारं ॥ कामितफलमंदारं रे ॥ अनु० ॥ १ ॥

परिहर परचिंतापरिवारं ॥ चिंतय निजमविकारं रे ॥ वदति को
पि चिनोति करीरं ॥ चिनुतेऽन्यः सहकारं रे ॥ अनु० ॥ १ ॥

अर्थ ॥ वली विशेषप्रकारें माध्यस्थपणं जावेढे हे विनयतुं सर्वकाल सुखनो
अनुभवकर जेम वांढित पदार्थो आपवामां कल्पवृक्षमुख्यते तेम वांढित मोक्षसु
खनी पमाडनारी अने सर्वशास्त्रोमां महोटी सारजूत एहवीजे उदासीनता तेनुंज
तुंसेवनकर ॥ १ ॥ अरेजीव तुं बीजा विकारीपदार्थोनी चिंतवनानो करावनारोजे
ताहरो परिवार तेनोत्यागकर अने पोताना अविकारि स्वरूपनुं चिंतनकर ॥ २ ॥

योपि न सहते हितमुपदेशं ॥ तडुपरि माकुरु कोपं रे ॥ निष्फ
लया किं परजनतप्त्या ॥ कुरुपे निजसुखलोपं रे ॥ अनु० ३ ॥ सूत्र
मपास्य जडा जापंते ॥ केचन मतमुत्सूत्रं रे ॥ किंकुर्मस्ते प
रिहतपयसो यदि पीयंते मूत्रं रे ॥ अनु० ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ जोपणकोऽ हितकारी उपदेश सांजलतो नथी तोपण तेनावपर क्रोधक
रीसनही निष्फल लोकोउपर संतापकरी पोताना सुखनो जोपकांकरेढे ॥ ३ ॥ केट
लाक मूर्ख सूत्र त्यजीने बोलेढे केटलाक उत्सूत्र जापणकरेढे एवीरीतना बोल
नारा जोनिर्मलपाणीनेमूकी लघुनीतनुं पान करवालागा तोतेने अमेसुंकरियें ॥ ४ ॥

पश्यति किं न मनःपरिणामं निजनिजगत्यनुसारं रे ॥ येन
जनेन यथा जवितव्यं तद्भवता ड्वारं रे ॥ अनु० ॥ ५ ॥

रमय हृदा हृदयंगमसमतां ॥ संवृणु मायाजालं रे ॥ वृथा
वहसि पुञ्जलपरवशतामायुःपरिमितकालं रे ॥ अनु० ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ हेजीव पोतपोतानी गत्यनुसारें सर्वजीवोनामननो परिणाम जूदोजूदो
ढे तेतुं केमजोतोनथी केमके जेप्राणीने जेवी जवितव्यताढे तेना मननो परिणाम
पण तेहवोजढे तो ते तहाराथी ड्वारढे एटले तहाराथी वारीशकाय तेमनथी ॥ ५ ॥
माटे हृदयने आनंद आपनारीएवीजे समतातेने मनमां धारणकरी आनंदनेपाम
अने मायाजालने त्यागकर व्यर्थ पुञ्जलने परवश कांथायढे केमके तहारोआयुष प
रिमितकालढे एटले प्रमाणसहितढे तेनेत्रूटतां वारलागसेनही ॥ ६ ॥

अनुपमतीर्थमिदं स्मर चेतनमंतस्थितमजिरामं रे ॥ चिरंजीव विश
दपरिणामं ॥ लजसे सुखमविरामं रे ॥ अनु० ॥ ७ ॥ परब्रह्मपरि

णामनिदानं ॥ स्फुटकेवलविज्ञानं रे ॥ विरचय विनय विवेचित
ज्ञानं ॥ शांतसुधारसपानं रे ॥ अनु० ॥८ ॥ इतिश्री शांतसुधार
स गेयकाव्ये माध्यस्थ्यज्ञावनाविज्ञावनो नाम षोडशः प्रकाशः ॥

अर्थ ॥ हेनव्यो तमे मनमां रहेनारुं आनंदनुं कारण एहवुं अनोपम उदा
सीनपणारूप तीर्थनुं स्मरणकरो अने जे कोइकालेपण विराम पामतानथी एहवा
मोहसुखपामि चिरकाल स्वहृपरिणामेरहो ॥ ७ ॥ अने परब्रह्मतरूप परिणामोनुं
जे निदान तडूप विज्ञानने जे प्रगटकरेढे एहवुं विवेचननुंकरनारुंजेमां ज्ञान
ढे एहवा शांतसुधारसनुं पान ते हे विनयतुं निरंतरकर ॥ ८ ॥ इति श्रीशांतसुधार
स गेयकाव्येमाध्यस्थ्यज्ञावनाविज्ञावनो नाम षोडशः प्रकाशः ॥

स्त्रग्धरावृत्तद्वयं ॥ एवं सज्ञावनाजिः सुरचितहृदयाः संशयाती
तगीतोन्नतस्फीतात्मतत्वास्त्वरितमपसरन्मोहनिजाममत्वाः ॥
गत्वा सत्त्वा ममत्वातिशयमनुपमां चक्रिशक्राधिकानां सौख्या
नां मंहु लक्ष्मीं परिचितविनयाः स्फारकीर्तिं श्रयंते ॥ १ ॥
दुर्ध्यानप्रेतपीडा प्रजवति न मनाक् काचिददंष्ट्रसौख्यस्फा
तिः प्रीणाति चित्तं प्रसरति परितः सौख्यसौहित्यसिंधुः ॥
क्षीयंते रागरोषप्रचृतिरिपुजटाः सिद्धिसाम्राज्यलक्ष्मीः स्याद्
श्या यन्महिम्ना विनयशुचिधियो ज्ञावनास्ताः श्रयध्वं ॥ २ ॥

अर्थ ॥ हवे श्रीविनयविजयजी उपाध्याय आग्रंथ समाप्तकरीने उपदेशरूप
पोताना आजिप्रायतनुं कथनकरेढे. आवीरीते पूर्वोक्तप्रकारें सज्ञावनाओनी सुगंधिये
जेनाहृदयमां संशयरहित गायनकरवाथी तार्किककखुंढे स्पष्ट आत्मतत्वजेणे अने जे
नामोह निडा अने ममत्व तुरत नाशपाम्या ढे एवाप्राणी ममतातुं अतिशय
पणुं मूकीने चक्रवर्ति तथा इंडादिकोनासुखोथकी पण अधिक एवा विनयधरनारा अ
नुपम सुखोनी पुष्कल कीर्तिवंत लक्ष्मीने पामेढे ॥ १ ॥ जेहना महिमायेकरी
दुर्ध्यानरूप प्रेतनीपीडा लगारमात्रपण थातीनथी पण कोइएक अपूर्व अदंष्ट्र सौ
ख्यनी वृद्धिथायढे अने चित्तप्रीतिवंतथायढे अने आत्माने चारे बाजुथी सौख्य तृ
प्तिनी नदीपसरेंढे वली रागदेषरूपशत्रु क्षीणथइजायढे सिद्धिरूप साम्राज्यलक्ष्मी

वशथायते एहवीजे नावनाओ तेने हे जव्य लोको तमारी विनयेंकरी पवित्रबु
द्विष्यइठता ते नावनाओनुं आश्रयकरो ॥ २ ॥

पथ्यावृत्तं ॥ श्रीहीरविजयसूरीश्वरशिष्यौ सोदरावचूतां
द्वौ ॥ श्रीसोमविजयवाचकवाचकवरकीर्तिविजयारूयौ ॥३॥

अर्थ ॥ श्रीहीरविजय सूरीश्वरना शिष्यबेनाइहता तेमां एक सोमविजयवाच
क अने बीजा कीर्तिविजयवाचक ॥ ३ ॥

गीतिद्वयं ॥ तत्र च कीर्तिविजयवाचकशिष्योपाध्यायविनय
विजयेनाशांतसुधारसनामा संदृष्टो नावनाप्रबोधो ऽयं ॥४॥
शिखिनयनसिंधुशशिमितवर्षे हर्षेण गंधपुरनगरे ॥ श्री
विजयप्रज्ञसूरिप्रसादतो यत्न एष सफलो ऽचूत् ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ तेमां कीर्तिविजय वाचकना शिष्य श्रीविनयविजयजी उपाध्याय तेणे आ
शांतसुधारस नामा नावनानो प्रबोधकख्यो ॥ ४ ॥ आ प्रयत्न संवत सतरसोने
त्रेवीसना वर्षे श्रीगांधार नगरमां श्रीविजयप्रज्ञसूरिना प्रसादयकी हर्षसहित
सफलथयुं ॥ ५ ॥

उपजातिवृत्तं ॥ यथा विधुः षोडशजिः कलाजिः संपूर्णतामेत्य जग
त्पुनीते ॥ ग्रंथस्तथा षोडशजिः प्रकाशौरयं समग्रैः शिवमातनोतु ॥ ६ ॥

अर्थ ॥ जेम चंडमा सोलेकलाये पूर्णतापामी जगतने पवित्रकरेठे तेम आ
ग्रंथपण सोलकलारूप सोलप्रकाशेंकरी जगतनुं कव्याएकरो एवो महारो आशीर्वादठे ६

इंजवजावृत्तं ॥ यावज्जगत्येष सहस्रज्ञानुः पीयूषज्ञानुश्च सदोदये
ते ॥ तावत्सतामेतदपि प्रमोदं ज्योतिः स्फुरद्वाङ्मयमातनोतु ॥७॥

अर्थ ॥ जेकालपर्यंत जगतमां चंडसूर्य उगेठे तिहांसुधी जेमांप्रकाशमान वा
णी मयरूप ज्योतिठे एहवो आ शास्त्र ते सत्पुरुषोने आनंद आपो ॥ ७ ॥

इति श्रीमन्महोपाध्याय श्री कीर्तिविजयगणेशिष्योपाध्याय श्री
विनयविजयगणिविरचिते शांतसुधारसग्रंथे प्रमोदः प्रकाशोऽर्थस
हितः समाप्तिमगमत्.

॥ अथ श्रीजिनप्रज्ञसूरिकृतचतुर्विंशतिजिनस्तवनं ॥

पात्वादिदेवो दशकल्पवृक्षा यस्मादधीत्येहितदानविद्याम् ॥ अपूपुजन् यच्चरणौ
नखान्निव्याजेन नूनं नवपल्लवैः स्वैः ॥ १ ॥ गत्या विजित्य द्विरदं स्वसेवां चिन्ह
ह्वलाह्वश्वदचीकरद्यः ॥ यस्योदये हव्यञ्जुजा नृणां वो बन्व नूमा भुवि सोऽजि
तोऽव्यात् ॥ २ ॥ सद्यः स जिद्याद्भवसंनवं वः श्रीशंनवो यस्य पितुर्जितारेः ॥ रा
जाधिराजत्वञ्जुषोपि सेनापतित्वमेवानिमतं बतानूत् ॥ ३ ॥ जातोपि यः संवरतः
स्वयं यदजीजनत् संवरमद्भुतं तत् ॥ स कीशकेतुर्जितमीनकेतुर्जितोऽजिनंद्यादजिनं
दनो वः ॥ ४ ॥ सुदुर्लेनं मेघनवस्य यस्य मुक्ताफलस्येव न दर्शनं कैः ॥ चंडाव
दातं सुमतिं तमार्याः सर्वश्रियामाश्रयमाश्रयध्वं ॥ ५ ॥ न जेजिवान् वक्रगतिं क
दाचित् नचातिचारं सततं च सौम्य ॥ पद्मप्रज्ञः शोणतनुप्रज्ञोपि नव्यश्रिये को
पि धरांगजन्मा ॥ ६ ॥ पृथ्व्यां प्रसूतः सुमनोनिर्ऋयः सुपर्णकांतिर्बहुकव्युपास्यः ॥
श्रेयःफलश्रीर्जयताडुदग्रस्कंधः सुपार्श्वदुरपास्ततापः ॥ ७ ॥ चंडप्रज्ञोऽव्यात् वपुरं
शुजालैरालिंगितांगीजनता यदीयैः ॥ प्रसेननिर्वाणरमाविमुक्तकटाहलहस्तपितेव
जाति ॥ ८ ॥ जावाह्वे पुष्पशरं विजित्य नश्यध्वजं यो मकरं गृहीत्वा ॥ आरोप
यद्भक्षपदे ध्रुवं स स्वनृत्यतां मे सुविधिर्विधेयात् ॥ ९ ॥ पितृंगदाहप्रशमेन जाव
दाहप्रमाथेपि खलु स्वशक्तिं ॥ अजिज्ञपर्जनगतोपि विज्ञान् यस्तं स्तुमः शीतलमह
शीलं ॥ १० ॥ श्रेयान् श्रिये दौहृदि मातृरुद्रात् गर्नस्थिते यत्र महार्हतव्यात् ॥
दुर्व्यतरिडाक् प्रणनाशमोहराजाय पूत्कर्तुमिवाहितोत्थः ॥ ११ ॥ नव्यांगिनां यस्य
रुचिप्रपंचैरंगानि चेतांसि च रंजितानि ॥ स वासुपूज्यो जगदेकपूज्यः संपूज्यतां नि
र्जितदुर्जघारिः ॥ १२ ॥ क्रमानरं धर्तुमशिक्षितांकठलेन सेवां प्रतिपद्य यस्मात् ॥
धत्ते ततस्तं स किलादिकोलः कांपिव्यजन्मा विमलः स जीयात् ॥ १३ ॥ अनंत
जिन्नंतुरनंतसौख्यप्रदोऽस्तु दोस्तंनितवैरिवारः ॥ यद्वांठनं श्येनमपि प्रदृश्य विश्व
स्य नश्यंत्यथ वर्तिकौघाः ॥ १४ ॥ पापाडिनिद्वज्जमुदीह्य दीप्रं यद्भ्रूणं नक्तिचिकीरु
पेतः ॥ तद्भ्रंशशंकी मुहुरालुलोके शक्रः स्वपाणिं स धिनोतु धर्मः ॥ १५ ॥ अरातिरम्ये
प्यनरातिरम्ये सन्नाजियोगेऽपि दृढानियोगे ॥ चक्रे स्थिता यस्य सुखं जयश्रीः स पातु
वः पंचमचक्रवर्ती ॥ १६ ॥ ठागं ध्वजं यस्य तनौ विलोक्य तत्प्रेमतो हव्यञ्जुजा
ध्रुवं यः ॥ सर्वांगमालिंगिसुवर्णवर्णजाः सुपूरदंजात्स मुदेऽस्तु कुंशुः ॥ १७ ॥ सुदर्शना

ज्ञात इति प्रसह्य ठेदं व्यधाद्यस्तमसः स्ववृत्तेः ॥ पितुः क्रमं पालयितुं किलासौ
 स्तान्नः कलासौष्टवकृत्स्नोरः ॥ १८ ॥ यस्य प्रिया नो विहितारिद्धोपामुडा नव
 द्यो न पपौ नदीनं ॥ निस्तारकात्मा नयमालयस्थो नव्यः श्रिये कुञ्जवः स मद्भिः
 ॥ १९ ॥ यस्यांगरोचिःपटलं समंतात्प्रसूत्रं नृगकुलाजिरामं ॥ उच्चाटनध्यानमि
 वास साक्षाद्भावद्विषां नंदतु सुव्रतोऽसौ ॥ २० ॥ यत्त्रोचनस्पर्द्धिविधेर्विदित्वा स्वं
 सापराधं जगदेकनाथः ॥ यो लक्ष्मलक्ष्म्याह्वरणं श्रितो इक् नीलोत्पलेनास्तु नमः
 स नूत्यै ॥ २१ ॥ यद्वक्रयोगात्सुनगं विदन् स्वं महाशयोत्पन्नतया कृतज्ञः ॥ यं कं
 बुरक्षांकमिषात्सिषेवे तं नेमिमथ्येमि यद्गुप्रकांडं ॥ २२ ॥ यद्देहदीप्तिं तुलितेऽनील
 प्रजां चिरं चारुनिजालयंतः ॥ नैर्मव्यकोटिं घटयंति दृष्टेः शिष्टा अनिष्टं स पिनष्टु
 पार्श्वः ॥ २३ ॥ प्राच्यं विमोच्यास्पदमुद्गवात्प्राक् स्थानांतरे रोपितवान् हरिर्यं ॥
 प्राचीकसत्सज्जुणशालिनूर्यं यस्याधमस्यान्नमतां स वीरः ॥ २४ ॥ जयंति गर्जागम
 जन्मदीक्षा ज्ञानापवर्गोत्सववासराणि ॥ जैनानि नाकायितनूतलानि त्रैलोक्य
 लोकप्रमदप्रदानि ॥ २५ ॥ यदाष्टवांचः शिरसाऽजिवंद्य सुमेरुरक्षाऽजनि गोत्रमुख्यः ॥
 तीर्थाधिनाथाः प्रथयंतु सेवाहेवाकिनां ते कुपथप्रमार्थं ॥ २६ ॥ कुवादिवक्राद्दिगु
 हांतरान्न प्रयोगधूकालिरलं निरेतुं ॥ यस्मिंस्तपत्यस्ततमःसमूहे श्रीवीरसिद्धांतरविः
 स जीयात् ॥ २७ ॥ व्यामोहनूपालवरं विजित्य तस्माद्गुपात्तं तु सितातपत्रं ॥ य
 स्याः करे राजति पुंमरीकं सा नारती यत्तु वांडितं वः ॥ २८ ॥ इति जिनप्रनसू
 रिजिरीडिता जिनवराश्वतुरुत्तरविंशतिः ॥ नरतवर्षनवा चुवनेश्वराः स्वरससिद्धिसु
 खं वितरंतु नः ॥ २९ ॥ इति श्रीचतुर्विंशतिजिनस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ इति श्रीचतुर्विंशतिजिनस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ श्री वीतरागायनमः ॥

॥ अथ श्री आस्तिक तथा नास्तिकनो संवाद प्रारंभः ॥

१ नास्तिकः—आ जगत अने तेमांना पदार्थो सर्व शून्यठे; एने ससलानां शींगडां, आकाशनां फूल तथा वांजणीना पुत्र वगैरे जे पदार्थोनी त्रणे कालमां सिद्ध ता थती नथी, तेवा पदार्थोनी उपमा देवाय. कदाच तमे कहेसो के, जेम शशशृं गादिक देखातां नथी, तेम ए पदार्थो पण देखाया न जोश्ये, तेम तो नथी. जग ततो प्रत्यक्ष देखायठे; तेने ए उपमा केम देवाय; प्रत्यक्ष प्रमाणवडे सिद्ध पदार्थो ने शून्य केम कहेवाय? एनो उत्तर ए के, जे ए पदार्थोने देखे ठे, ते त्रमिष्ट ठे. जे पुरुषने त्रम थयो होय, तेने एकतुं बीजुं जाशे; तेम तमने पण थयुं कहेवा शे. तमे ए दृष्टांतोनो मर्म समजी शकता नथी, त्यारे तमारा ध्यानमां सहेज आ वे एवो बीजो दृष्टांत कहुं ठुं ते सांजलो; आ जगत स्वप्नसमान ठे. जेम स्वप्न अस त्य ठे, तेम जगत पण असत्य ठे. अने स्वप्नना पदार्थोनी पठे आ जगतना पदार्थो पण असत्य ठे. जे देखाय ठे ते स्वप्ननी पठे त्रम मात्र ठे; एमां संशय नथी.

आस्तिकः—अरे नास्तिक, हुं तने एटलुंज पुहुं ठुं के तारा सिद्धांतनो कहेनार जीव ठे के अजीव ठे, एनो उत्तर ताराथी शुं देवाशे? जीव अथवा अजीव कख्याविना चाल शेज नही. जो तुं कहीश के ते त्रमरूप ठे, तो ते एक रीते व्यवहार दृष्टीए योग्य कहेवाशे खरुं, केम के जे पोते त्रमरूप होय तेने बधुं त्रमरूप जाशे. जो एम हो य तो अमारो कांई वांधो नथी; पण जो तारो सिद्धांती त्रमरूप उरशे नही, तो जेवो उरशे तेवा बीजा पदार्थो पण कबूल करवा पडशे; अने कबूल कख्याविना चालनार नथी; केम के, बीजुं बधुं त्रमरूप होय अने तारो सिद्धांतीज मात्र अत्रम होय एम संजवे नही. त्यारे एक सिद्धांती ने एक सिद्धांत ए बे पदार्थ मानवा जोश्ये ठे. ए बे पदार्थ जो तुं माने, तो जीव अने अजीवपणुं सिद्ध थाय ठे के नही! एवी रीते जगतमां पण घटपटादिक जे वस्तु ठे ते वस्तुज ठे अथवस्तु नथी. तेमज घट ते घट ठे, ने पट ते पट ठे. घट पट नथी, ने पट घट नथी. एक पदार्थमां बीजा पदार्थनो अजाव होय ठे, पण घट घटपणे जावरूपें ठे; ने पट पटपणे जा वरूपें ठे. इत्यादिक सर्व पदार्थोविषे जाणी जेवुं. जे जावरूप होय ते सत्यज होय ठे. ए रीतें आ जगत जावरूप होवाथी सत्य ठे. केम के सर्व वस्तु पोतपोताना रू

पैं अनादि सिद्ध ठे, अने जेना अंत नथी तेने शशजाना शिंगडां प्रमुखनी उपमा देवी ए केवी मूर्खता ठे वारु ! माटे ए बोलवुं बालकना जेवुं कहेवाय.

जो स्वप्नजेवुं जगत मानशो, तो तमारा पोताने महोडे पोते बंधाशो. स्वप्न जे ठे ते स्वप्नपणे जावरूप ठे अने जाग्रतपणे अजावरूप ठे; तेम जाग्रत जे ठे ते जाग्रतपणे जावरूप ठे अने स्वप्नपणे अजावरूप ठे; पण केवल अजावरूपें कोई पदार्थ कहेवाय नही. ज्यारे स्वप्नजावरूप ठे त्यारे तेना जेवो जे जगत तमे कहोठो ते केम अजावरूप कहेवाय, अने स्वप्नने जो अजावरूप कहेशो तो देखाय ठे केम ? जे अजावरूप ते तो देखाय नही; अने स्वप्न तो रात्रे दीतुं ते रात्रे दीतुं कहेवाय ठे. अने दिवसें दीतुं ते दिवसें दीतुं कहेवाय ठे; माटे जे वखते स्वप्न देखाय ठे ते वखते ते देखावारूपे अने संप्राप्तरूपें सत्य ठे. अने जाग्रत असत्य ठे. तेमज ज्यारे जाग्रत देखाय ठे त्यारे स्वप्न असत्य ठे एम जावाजावरूप पदार्थ होय ते साद्यंत होय ठे. वली विशेष एवुं समजवुं जोइ ये ठे के, यद्यपि स्वप्न तो साद्यंत ठे पण स्वप्ननो जे विकल्प ठे ते आद्यंतरहित शाश्वत ठे. तेमांथी कोईक समये स्वप्न उद्भव थाय ठे. माटे स्वप्ननुं देखवुं कोई काले ठे तेमज यद्यपि जगतमांना पदार्थोने पलटवापणे उत्पाद व्ययनी अपेक्षार्थे पर्यायपणे साद्यंत ठे. तथापि इव्यरूपे सदा शाश्वत ध्रुव ठे. केमके पर्यायपणे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव अने पुज्ज ए ठए इव्य शाश्वत ठे; जो पण ठेजा त्रण इव्यना पर्याय अशाश्वत कहेवाय ठे, तो पण स्वरूपें इव्यपर्याय सदा शाश्वतज ठे; तेने असत्य केम कहेवाय ?

अरे त्रिमिष्ट, तमे जीवने मानो ठो के नही ? जो ना कहेशो तो आ बोले ठे ते कोण ठे ? अने जगत असत्य कोण ठेरावे ठे ? जे पोतेज असत्य होय ते बीजाने गुं सत्यासत्य कहेवानोठे ? जे पोतेसत्य होय ते बीजाने सत्य अथवा असत्य कहेवाने समर्थ थाय. माटे जीव पदार्थ नथीज एम जो कहेशो तो तमे पोतेज कांईक पदार्थ ठो ए वात तमारार्थी ना कहेवाज्ञे नही. अने जगतने असत्य मानो ठो तेवारे तमें पोते तो सत्य ठरशोज; केमके जे पोताथी अतिरिक्त वस्तुने असत्य माने ते पोते ते ना जेवो असत्य होतो नथी, किंतु तेनाकरतां विपरीत स्वभाववालो सत्य होयठे. ते नो आ प्रत्यक्ष दाखलो ठे के, जगतने तमे स्वप्नजेवुं गणोठो, त्यारे तमे पोते जाग्रत ठो के नही ? केमके तमे पोते जाग्रत अवस्थामां न हो तो स्वप्नने स्वप्न कहो नही स्वप्नावस्थानो तमे पोते अनुभव करेलो ठे, त्यारेज तेनाविषे कथन करी शको ठो, ते

मज्ज जगतविषे पण तमे अनुभव करीने कथन करो ठो, तेथकी जगतथी जुदा अ
नुभव कर्ता ठो माटे जीव ठो.

अने जो जीव न होय तो गतागतजाग, जाव, जापा, कार्य तथा कारण इत्यादिक
विषयानो अनुभव करवो, पांच इंद्रियोनो नियंत्रण करवो, त्रणयोगे शरीरनी चाल
ना करवी इत्यादिक चेष्टा करनारो कोण ठे? ए चेष्टा चैतन्य शक्तिथी थाय ठे एथी
चेतना लक्षणवान जीव जाणवो. ज्यारे शरीरमांथी चेतना नीकली जाय ठे त्यारे
चेष्टा थती दीठामां आवती नथी; माटे ते अजीव कहिये. एवी रीते जीव अने
अजीव ए बन्ने पदार्थ ठे एम सिद्ध थाय ठे.

सर्व वस्तुना बे प्रकार थाय ठे, एक पद्वयने बीजो प्रतिपद्वय. जीव पद्वी ठे अने
अजीव प्रतिपद्वी ठे अथवा अजीव पद्वी ठे ने जीव प्रतिपद्वी ठे. अर्थात् जीव तथा
अजीव ए बे पदार्थो सदा शाश्वत अविनाशी ठे, एवुं केवलीनुं वचन ठे, ते अवश्य
मान्य करवुं जोये. दोहा, खरी शीख ए मानजो, मनमां राखी जाव; सदहाण जिन
वचननुं, करो धरी चित चाव. ?

१ नास्तिक:- जीव अने अजीव नही मननारा मूर्ख ठे. केमके, जीव तो पांच
महानूतोना संमेलनथी उत्पन्न थाय ठे. ज्यारे पांच महानूतोनुं प्रथककरण एटले
जुडंथवापणुं थाय ठे. त्यारे जीवनो नाश थाय ठे ए वात साची ठे.

आस्तिक:- पांच महानूतोथी तो तमारा मतप्रमाणे पांच जुदाजुदा पदार्थोनी
उत्पत्ति थाय ठे. ते आप्रमाणे:- पृथ्वीथी अस्थि, जलयकी रुधिर, अग्निथकी जठ
राग्नि, वायुथकी श्वासोश्वास अने आकाशथकी शून्यता थाय ठे. ए बधाथी जीव
तो जुदो ठे, ते शाथकी उत्पन्न थाय ठे वारु? चैतन्यने उत्पन्न करवानी शक्ति
कया नूतमां ठे? चैतन्य कयानूतना अंतथकी उत्पन्न थयुं? ते कहो. पांचे महा
नूत पोते जड ठे; ते चैतन्यने केम करी शकशे? माटे ए पांच महानूतनुं समेल
न जीवनी उत्पत्ति करे ठे एम तमे कथुं ठे ते पण संजवे नही; केमके, संमेलन
कोई एवो पदार्थ नथी के जेथी कोई पदार्थ उत्पन्न थई शके. माटे जीवनो उत्पन्न
करनारो कोई नथी, पण ए तो अनादि पंच महानूतथकी जुदोज ठे. दोहा, जिनवच
नामृत पान करि, पामो अमर स्वरूप; जीव अनादी अनुभवो, ए ठे शीख अनूप. २

३ नास्तिक:- सर्व जाणे ठे के जीव ते शाश्वत पदार्थ ठे, तेनी उत्पत्ति केम
संजवे! ज्यारे उत्पत्ति कहेशो त्यारे नाश पण थशे. अने चेतन तो उत्पत्ति. त

था नाश रहित ठे; तो चेतनलक्षणवंत जीवने नूतथी उपनो कहिये ते युक्त नथी केमके पांच महानूतना अंसथी तो मात्र शरीरनी उत्पत्ति थाय ठे.

आस्तिकः— ए वात पण कल्पित ठे. यद्यपि जीवविषे तो तारा सारा विचार ज णाय ठे, तथापि जहांशुधी जिनोक्त वचनजन्य ज्ञान नथी थयुं, तहांशुधी सर्व मि थ्या ठे. एक जीवने शाश्वत जाण्यो तेथी शुं थयुं! कोई अजाणना मुखयकी नव कार प्रमुख जेवा तादृश्य अहुरोनो अचानक उच्चर थाय तेथी शुं तेने तेना फ लनी प्राप्ति थाय ठे! तेम तें जीवने शाश्वत जाण्यो तेथी शुं सम्यक्त ज्ञानवान क हेवाशे! कदी नही. अने शरीर पंच महानूतोथकी उत्पन्न थाय ठे; एवं जे तें कह्युं ते असत्य ठे. शरीरनी उत्पत्ति तो पुज्जलथकी थाय ठे. बीजा संवादमां अस्थ्या दिकनी उत्पत्ति महानूतथी कही ठे ते पण मिथ्याठे; केमके, अस्थि जे ठे ते पृथ्वी नो अंश नथी, पण पृथ्वीना जेवा कठण ठे; रुधीर ठे तेजलनो अंस नथी, पण जल नी पठे प्रवाही बिंडुधारा थाय ठे; जठराग्नि जे ठे ते अग्निनो अंश नथी, पण अग्नीनीप ठे उष्ण ठे, शांथोश्वास जे ठे ते वायुनो अंश नथी, पण वायुनी पठे पुरुषनो विकार ठे; आकाश ते आकाश नाजन ठे. तेम ठतां शरीर पंचमहानूतोथकी उत्पन्न थाय ठे एम कहेशो तो ए पंचमहानूतोमांना पृथ्वी, अप, तेज अने वायु ए नां शरीर शायकी उत्पन्न थाय ठे? ए पृथ्व्यादिकपण जीवरूप ठे; अने तेथ्यो शरीर सहित ठे. जेम काची माटी सजीवन ठे माटेज तेमां वनस्पति उगे ठे; अने जे हार नूनि अजीव ठे तेमां वनस्पति उत्पन्न थती नथी. तेमज ए पंच महानूत ते सर्व सजीव तथा निर्जीव ए बन्ने रूपें ठे, माटे जो जगत उपजवानां कारण ए पांच महानूतने कहेशो तो पांचमहानूत शायकी पेदा थया कहेशो? माटे एनाथी शरीर अथवा जगतनी उत्पत्ति संजवे नही. जीव अने जड ए बन्ने पदार्थोथी जग तनी प्रवर्ति ठे एम जाणवुं. दोहा, आगम अगम अगाधकृत, ज्ञान लह्यो नर जे ह; बेशि वचन जिनकल्पतरु, लहे चाह फल तेह. ३

४ नास्तिकः-- जीव तो ईश्वरना अंशयकी उत्पन्न थायठे एम जणाय ठे.

आस्तिकः-- जो ईश्वरना अंशयकी जीव थाय ठे तो ईश्वर पोते अखंम रूप ठे ते घटघटप्रते खंडखंड नावने पामशे. ईश्वर निर्लेप ठे तो कर्मलेप सहित केमथाय ठे? जन्मरोग जरारोग अने मरणरोग रहित ठे ते जन्मादिक सहित केमथाय ठे? नि रावरण ठे ते सावरण केम थाय ठे? एहवां मूढतो जगतमां कोई नथी जे प्रधानपद मूकी अधमपद आदरे! माटे परमेश्वरने एवी बुद्धि केम थई जे परमेश्वरपद मूकी

ने जगत वाशी जीव अयो. केमके सर्व मतमतांतर वाला परमपदनी वांठनाये पो तपोताना मार्गनी क्रिया करे ठे. पोताना आत्माने निर्जेपपणुं चाहे ठे तो स्वमेव ईश्वरपद जन्म जरा मरण रहितपणुं पामीने वली जन्ममरण सहित उपाधिपणुं केमआदरे ठे? माटे ए तमारा वचन विरुद्ध जणाय ठे.

५ नास्तिकः-- काई नवी युक्ति कहाडीने बोले ठे. आ बीजाओनी मति तो मारी गई ठे माटे गमे तेम बके ठे. जीवने कोई शाश्वत कहे ठे, ने कोई अशाश्वत कहे ठे. वगैरे जेना मनमां जेम आवे ठे ते तेम महोडेथी बोले ठे. पण मर्म कोई जाणतो नथी आपणे प्रत्यक्ष अनुभव करेलुं ठे ने आंखे देखीए ठैए के जीव पदार्थ उत्पत्तिवान ठे, ने कोईक समये तेनो अंत पण आय ठे. स्त्रीपुरुषनो संयोग अयाथी ते ओना रज तथा वीर्यथी माताना उदरनेविषे शरीररूप एक पिंड बंधाय ठे, ने पढी नियमित समये तेमां चेतना शक्ति आवे ठे, तेने जीव कहे ठे. वली शरीर काई रो गादिकने वश मरण पामे ठे, त्यारे जीव पण तेनी शाये नाश आय ठे, ए प्रत्यक्ष वात ठे. हाथना कांकणने आरीशुं शासारु जोये. माटे जीव पदार्थ कोईकालें न वो पैदा आय ठे, तेथीजीवनी आदि ठे एम जणाय ठे.

आस्तिकः-- जाई, तुं तो वली बधाथी दाह्यो देखाय ठे! चेतननी उत्पत्ति तथा नाश संजवे नही. कर्मना वज्ञे जीवने जन्मांतर आय ठे, तेथी नवुं शरीर धारण करे ठे; पण जीव नवुं अतुं नथी. वली शरीरनो नाश अयाथी जीवनो नाश पण अतो नथी. जीव तो बीजा शरीरने धारण करे ठे. तेम ठतां जो वधारे आग्रह करी श, तो आ मारा प्रश्ननो उत्तर आप के, जीव कई वस्तु पलटीने तेमांथी उत्पन्न आय ठे? अथवा कई वस्तुनो परिणाम ठे? केमके कारण विना कार्यनी उत्पत्ति आय नही एवो नियम ठे; एटलुं समजाव्या ठतां पण जो नही मानीश, तो तुं पोते जीव नथी पण जड ठो एवुं ठरज्ञे. त्यारे जडनी साथे कोण माथाकूट करे !

६ नास्तिकः-- कदाच जड वस्तुनो परिणाम जीव अने जीवनो परिणाम जड आय ठे, एम कहीए तो काई दोष आवे के? अघटितघटनापटीयशी माया ठे, ते मां बहु संजवे ठे माटे अमे तो एम मानीए ठैए के, जड वस्तु बदलीने तेथी जीवनी उत्पत्ति आय ठे.

आस्तिकः-- जाई, ए तमारुं बोलवुं केवल अविचारतुं ठे, एम तो कोई अज्ञानी प ए माननार नथी जे जड वस्तुथी जीवनी उत्पत्ति आय; एक स्वभाववाला पदार्थ थी बीजा स्वभाववाला पदार्थोनी उत्पत्ति आय नही एवो नियम ठे. जेम के, मा

टीना पिंमथकी पट थाय नही अने तंतुना पुंजथकी घट थाय नही. तेम अजीवथी जीव उत्पन्न थाय नही अने जीवथी अजीव उत्पन्न थाय नही. जे अचेतन होय तेने जड कहे ठे अने जे चेतन होय तेने जीव कहे ठे. ए बन्ने पदार्थ परस्पर स्वजावे अमिलित ठे, तेम ठतां जड वस्तुथकी जीवनी उत्पत्ति कहेवी, एना जेवी बीजी मूर्ख ता कई ठे ! शुं कोईक एवो मसालो हरो के जो ते जड वस्तुमां पडे तो तेमांथी चेतन पेदा थाय ? एवी कांई चीज तमे शोधी कहाडी होय तो अमने देखमावो नी ! माटे ए अज्ञानरूप अंधारुं हृदयमांथी कहाडी नाखो, ने शुद्ध धर्मने अंगीकार करो. दोहा शुद्ध धर्म जन जे लहे, ते पामे पद मोक्ष; प्रगट वस्तुने मूकिने, कां जन त्रमे परोक्ष ४

४ नास्तिकः— स्वठंदीना जेवी मुखमुडा करीने बोलवा लाग्यो के, जीवने कर्म लागे ठे के नही ? ए विषे विचार करवो जोइये. अमारा मतप्रमाणे जी वने कर्म लागतां नथी.

आस्तिकः— तमे तो वली बधाना शिरताज थया जणाओ ठो ! पण कर्मविना कांई बनतुंज नथी; एम मान्याविना चालरो नही. कर्मने तो सर्व अंगीकार करे ठे, एमां कोई वांधो कहाडे एवुं नथी. जो कर्म न होय तो पापपुण्यतुं फल थवुं न जोइये; ते तो प्रत्यक्ष दीवामां आवे ठे; जेणे पाप कखुं ठे ते दुःखी ठे, ने जेणे पुण्य कखुं ठे ते सुखी ठे; वली जो एम होय तो, दान, ध्यान, स्नान तथा पूजा प्रमुख जे सत्कर्म ठे, ते सर्व मतवालाओ शासारु करे ठे ? तमारा क ह्याप्रमाणे तेनुं फल तो कांई अनार नथी; पण ते शुन कर्म जाणीने लोको आ दरे ठे. ज्यारे कर्म नथी ल्यारे जन्म धारण करवानुं शुं प्रयोजन ठे ? माटे जो ज न्ममरण तथा सुखदुःख ठे, तो कर्म पण होवां जोइये. कर्म ठे ते जीवने रज रूप ठे. रागादिकथी बंधाय ठे, ने जोगव्यापठी बुटे ठे. जहांलिक कर्म ठे तहांल गि संसारी जीव कहेवाय ठे, कर्मोनो कृत्य थवाथी मुक्त थयो कहेवाय ठे. माटे तमारे निश्चय मानवुं जोइये ठे के जीवने अवश्य कर्म लागे ठे. दोहा, कर्मथकी आ जीवने, सुख दुःख सधलां थाय; कृत्य शुनाशुन जेहथी, शफल थया कहेवाय.

७ नास्तिकः—तमे कहा ठो के, जीव नवांतर थकी आवीने आहिं उपजे ठे. ल्यारे एक नवनी वात बीजा नवमां केम करतो नथी ? जो नवांतर होय तो ते नी स्मृति जरूर थवी जोइये; ते तो कोईने पण थती नथी. ल्यारे नवांतर ठे एम शाउपरथी समजाय ?

आस्तिकः—आगला नवनी स्मृति थती नथी ते उपरथी नवांतरनो अनाव ठे ए

म जाएवुं नही. आगला जवनी वात तो रही, पण आ जवमांज मद्यादिक पदार्थना योगे, गया दिवसनी वात पूठवार्थी माणस बराबर कही शकतो नथी जु ओ के, कोई मनुष्य ताडनादिकना योगे मूर्खावान थयो होय, कोई पुरुषे सुरापान कछुं होय, अथवा निडावश थयो होय, त्यारे गया दिवसनी स्मृति रहेती नथी; तेनुं कारण मद्यादिक पदार्थानुं आवरण ठे तेम जीवने ज्ञानावरणी कर्मना उदयथी पूर्व जवना वातनी स्मृति थती नथी. वली जेम आ जवमांज माताना उ दरमां नाना प्रकारना दुःख सहन करेला होय, ते वात जन्म्यापठी कांई कही शक तो नथी; तो जवांतरनी वात केम कही शके ? माटे जवांतरनी वात तो विशेष ज्ञानीविना बीजो कोई जाणी शकेज नही, एम समजवुं. दोहा, ज्ञानावरणी कर्मथी न वविस्मृति थइ जाय; विशेष ज्ञानी कहि शके, पूर्व जन्म महिमाय ६

७ नास्तिकः—अनिमानयुक्त मुझ करीने बोले ठे-तमे एम मानो ठो, के जीवने कर्मनो लेप लागे ठे. ने वली एम पण कहो ठो के, जीव वास्तविक स्वरूपे शुद्ध ठे. त्यारे जे शुद्ध होय तेने लेप केम लागे? माटे जीव शुद्धज ठे; तेने कोई कर्मनो लेप लागतो नथी एम मानवुं जोइये.

आस्तिकः—टुंकामांज समाधान करे ठे के, यद्यपि जीवनुं वास्तविक स्वरूप शुद्ध ठे, तथापि गुणागुण कर्मने योगे तेने लेप लागे ठे; तेशीज जीव बंध कहेवाय ठे अने जेने कर्मनो लेप नथी, ते मुक्त कहेवाय ठे. मुक्ति तो सिद्धता पाम्याविना संज वेनही अने जहांसुधी मुक्तिनो अनाव ठे, तहांसुधी बंधनी कल्पना अवश्य कर वी जोइये. ते बंध जीवने अनादि कालथी चाब्यो आवे ठे. जेम धानने तूस लागेलाज होय ठे तेम जीवने कर्म अने कर्मजन्य शरीर लागेलुंज होय ठे. जेम धानने तूस लागवानुं कारण ठोतरां होय ठे. तेम जीवने कर्मबंध लागवानुं कारण मिथ्यात्व तथा रागद्वेषादिक होय ठे. जेम धान्यमांथी तूस तथा तत्संबंधी ठो तरारूप बंध हेतु पदार्थना अनावथी शुद्ध कण देखाय ठे; तेम जीवमांथी मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादिक कर्मबंध हेतुनो अनाव थयार्थी शुद्ध निर्मल थाय ठे. जेम अनाजनो शुद्ध थयलुं दाणुं उगे नही. तेम जीवपण शुद्ध निर्मल थयार्थी जन्ममरण पामे नही. दोहा, कर्म लेपना योगथी, बंध जीवने होय; कर्म स्वपे मुक्ती लहे, जन्म मरण नहि कोय. ७

१० नास्तिकः—उंमा विचारमां पडेला जेवी मुझार्थी बोलवा लागे ठे. कर्म पोते तो जड पदार्थ ठे. तेशोनो जीवनी साथे स्वतंत्र संबंध संजवे नही. कोई पण प्रेरक होवो

जोये. माटे ईश्वरेह्याची जीवने कर्म बंध थाय ठे; अने तेज प्रेरक ठे एम जाणवुं.

आस्तिकः— लगारेक हास्य करीने बोले ठे. ईश्वरे पोताना अंशरूप जीवने उत्पन्न कख्या ठे तेथी जीव ईश्वरनो अंश कहेवाय, ए उपरथी जीव तथा ईश्वरनो अंशांशीनाव संबंध तमारा कहेवा प्रमाणे ठरे ठे. जो ईश्वर अंश ठे एम मानीए,तो ईश्वरना जेवो जीव होवो जोये. केमके, अंशांअंशीमां जेद होतो नथी. तेथी ईश्वर नी पठे जीव पण निर्मज ठे, एम मानवुं जोये. त्यारे एवा निर्मलस्वरूपी जीवने कर्म लगाडीने मजसहित करवानुं कारण शुं हतु! आपणे कोई शुद्ध वस्तु वापरवाने अर्थे ज्यारे लावीए ठैये, त्यारे जहांसुधी बने तहांसुधी तेने मलीन करवा देता नथी; अने स्वह राखवानो घणो प्रयत्न कख्या करीये ठे. त्यारे पोताना अंशरूप जीवने जाणी जोईने मेल लगाडवुं ए ईश्वरनेविषे संजवे नही. एम तो कोई साधारण मूर्ख मनुष्य पण करे नही, त्यारे ईश्वर ते तेम करे! अने जे पोताना अंगनो तिरस्कार अथवा नाश करे ते आत्मघाती कहेवाय. तेम ईश्वरपण आत्मघाती कहेवाशे. कदाच तमे एम कदेशो के, ईश्वर पोते पण कर्मकलंकसहित ठे त्यारे जे पोते कलंकसहित होय, ते बीजानो कलंक शुं मटाडी शकवानो हतो! अने ते ईश्वर पण शानो! माटे गमे तेवी मनकल्पना करीने निर्दोषी ईश्वरने दोष लागु करवो ए केटली मूर्खता ठे! माटे ईश्वरनी इह्याची कांई पण थतुं नथी. जे थाय ठे ते कर्मथी थाय ठे एम जाणवुं. दोहा, कर्मबंध आ जीवने, ईश्वर इह्यारूप; कहे एम ते मूर्ख ठे, ईश अक्रिय अनूप. ८

११ नास्तिकः—आ जगतनी जे अजुत रचना देखाय ठे, तेनो कर्ता कोई पण होवो जोये. केमके, एवी कृति स्वाभाविक थई शके नही. तेम कर्मादिक जड पदार्थोथी पण जगतनी उत्पत्ति संजवे नही. माटे जे जगतने उत्पन्न करे ठे, तेनेज ईश्वर कहिये; अने एवी लोकवदंता पण ठे, के जगत सर्व ईश्वर कृत्य ठे.

आस्तिकः— जगतनो कर्ता ईश्वर होय, तो सर्व प्राणीमात्रनुं ईश्वर कारण थ युं. ने सर्व पदार्थो ईश्वरना कार्य थया. पिता जेम पुत्रनी उत्पत्ति करे ठे तेम ईश्वर सर्व प्राणी मात्रनी उत्पत्ति करे ठे. त्यारे ईश्वर पितारूप अने सर्व पदार्थो पुत्ररूप मानवा जोये. पुत्रनी उपर पितानो प्यार होय ए स्वाभाविक सिद्ध ठे. तेम ईश्वर नो पण सर्वनी उपर प्यार होवो जोये. जो एम होय तो सर्व प्राणीमात्र सुखी होवा जोये. तेम तो दीगामां आवतुं नथी. कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई पापी, कोई पुण्यवान, कोई नरकगामी, तथा कोई स्वर्गगामी वगैरे सर्व जीवो

नी वर्तणुक जुदी जुदी दीगमां आवे ठे. एम केम कीधुं ठे? वली जगतना जी वने प्रवर्त्तावनारो ईश्वर ठे, एम पण तमारा कह्या उपरथीज सिद्ध थाय ठे. त्यारे हिंडुए गायनी पूजा करवी, अने म्हेहे तेनो वध करवो, ए बुद्धि पण ईश्वरे आ पी कहेवाशे. जो एवी बुद्धि देनारो ईश्वर मानशो नही, तो बीजो कोई मानवो जोइशे. केमके तमारा मत प्रमाणे प्रेरणा करनारो कोई जुदोज होय ठे; अने जे प्रेरणा करे ठे ते ईश्वर ठे. त्यारे ते बीजो प्रेरणा करनारो ईश्वर मानवो पडशे. ईवी रीते ईश्वरनो ईश्वर तेनो ईश्वर इत्यादिक मानशो तो अनवस्था दोष प्राप्त थ गे. वली पोते पोताने दुःखी कोई पण करतो नथी. सर्व पोताने सुखनी चाहना करे ठे. तेमज पोताना संबंधीओविषे पण सुखनी चाहना करे ठे. तमारा केहेवा प्रमाणे तो जे जीव नरके जाय ठे तेपण ईश्वरनो अंश, अने जे स्वर्गे जायठे ते पण ईश्वर नोज अंश ठे. एटले सुखी तथा दुःखी थाय ते सर्व ईश्वर पोतेज ठे एम ठखुं. ए प्रमाणे ईश्वर पोतेज संसारमां परित्रमण करेठे. ते पोताना सेवकनां जन्म मरणादिक दुःख केम टाली शके! अने जीवोने नरकथी अथवा बीजी कुगतिथी केम बचावी शके? इत्यादिक विचार करतां जगतनो कर्त्ता ईश्वर नथी; किंतु स्वानाविक सिद्धठे. दोहा, ज ग कर्त्ता ईश्वर कहे, ते विद्वान न होय; ईश्वरने कर्त्तव्यनहि, स्वनाव सिद्धज जोय. ए

१२ नास्तिकः— जगतनी उत्पत्तिकर्त्ता नले ईश्वर न होय, एमां हुं कशो वांधो जेतो नथी. पण ईश्वर सर्वव्यापक ठे के नही?

आस्तिकः— जो ईश्वर सर्वव्यापक होय, तो जीव शिवाय बीजो कोई पदार्थ ज होवो न जोये. केमके, ईश्वरतो चेतनवंत ठे; ते सर्वमां व्यापक होय, तो चेतना विना कोई जगा खाली न जोइये, के जे ठेकाणे बीजो पदार्थ रही शके; अने जगतमां तो जीव अजीव पदार्थो जुदा जुदा दीगमां आवे ठे. एथी स्पष्ट सिद्ध थाय ठे के, ईश्वर सर्व व्यापक नथी. वली ब्राह्मण, कृत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ए चार वर्ण अनुक्रमे श्रेष्ठता तथा कनिष्ठता केम पाम्या ठे! जेम के, ब्राह्मण सर्वथी श्रेष्ठ, तेनाथी कृत्रिय कनिष्ठ, कृत्रियथी वैश्य, अने वैश्यथी शूद्र कनिष्ठ ठे, अने सर्वथी कनिष्ठ चंमालादिक जाति ठे; तेओमां श्रेष्ठ कनिष्ठता न थवी जोइये. के मके, ईश्वर तो सर्वमां एक अने समान ठे; तेमां उत्तम मध्यमता प्रमुख संजवे नही; अने उत्तम मध्यम तो प्रत्यह दीगमां आवे ठे. वली बीजा पण उदाहर ए अनेक ठे; जेम के, कोई पुरुष शुन कृत्य करे ठे, ने कोई पुरुष अशुन कृत्य करे ठे, एम न थवुं जोइये. ईश्वर तो बधामां व्यापक ठे, तेथी शुनाशुन कृत्य शासा

रु करे ठे? ए उपरथी एवो निश्चय थाय ठे के, ईश्वर सर्व व्यापक नथी. दोहा, व्यापक ईश्वर जे कहे, तेह न जाणे मर्म; नर्म नूढ्या सर्व मत, विना एक जिनधर्म. १०

१३ नास्तिक:- ईश्वर सर्व व्यापक हो के न हो, तेनी साथे अमारे जरूर नथी; पण आ जगतनो अधिपति ईश्वर ठे; अने जगतरूप तेनुं ऐश्वर्य ठे; तेथीज ईश्वरताने पाम्यो ठे. जे अश्वर्यवालो होय तेने ईश्वर कहिये.

आस्तिक:- जगतनुं आधिपत्य जेवानुं ईश्वरने शुं कारण हतुं! अने जगतरूप अश्वर्य पण तेने शासारु जोइतुं हतुं! शुं जगतनी उत्पत्तिनी पूर्वे ते अश्वर्यने पाम्यो न हतो! ऐश्वर्यविना ईश्वरता संजवे नही. ए उपरथी जे जगतनी उत्पत्तिनी पूर्वे अनीश्वर हतो, ते उत्पत्ति करीने ईश्वरताने पाम्यो ठे; एवो तमारो आशय जणाय ठे नही वारु! पण ए बंधुं खोटुं ठे. ईश्वरनेविषे एवी कल्पना करवीज नही जोये. जुओ के, तमारा कहेवा प्रमाणेज जेम प्रजानी अपेहाये राजा कहेवाय ठे, अथवा धननी अपेहाये धनाढ्य कहेवाय ठे; तेम जगतनी अपेहाये ईश्वर कहेवाय ठे. एटले जेवारे जगतने उपजावे तेवारे जगतनुं ईश्वर पणुं कहिये; एथी जगतनी पूर्वे ईश्वर न हतो एम थयुं; अने जेवारे जगतनो प्रलय थाय त्यारे ईश्वरनो पण अनाव थई जवो जोये. जो ए बात कबूल करशो तो जे कोई कालमां होय ने कोई कालमां न होय ते कृणिक कहेवाशे. जो कृणिक मानशो तो बीजा घणा दोष प्राप्त थशे; माटे ईश्वरने जगतनो एवी रीते अधिपति कहेवो ते योग्य नथी. दोहा, अधिपति जगतनो जे कहे, ईश्वरने मतवादि; ते एकांत कनिष्ठ ठे, उत्तम अनेक वादि. ११

१४ नास्तिक:- आटला संवाद थया, तेओमां ईश्वरनुं यथार्थ कारणपणुं कोइए कह्युं नथी. जगतनी उत्पत्तिनी पूर्वे ईश्वरने एवो संकल्प थयो के, मारुं सामर्थ्य प्रगट करुं; ए वात वेदमां कही ठे. ते आवी रीते:- 'एकोहं बहुष्यामि' एटले एक हुं बहु रूपे थाउं. एवा कारणथी जगतनी उत्पत्ति करी ठे; तेथी ईश्वरने कारण कह्यो ठे.

आस्तिक:- पोतानुं सामर्थ्य प्रगट करवानी इहा तो तेने थाय के, जेनेविषे अज्ञान होय. ईश्वरतो सर्वज्ञ ठे, ते शुं पोतानुं सामर्थ्य जाणतो नहोतो! मारामां केटलुं सामर्थ्य ठे, एवो जेने संशय होय, ते ईश्वर शानो! साधारण मनुष्य प्राणी पण पोतानुं सामर्थ्य जाणी शके ठे, तो ईश्वर केम न जाणी शके!

માટે એમ કહેવું તે મૂર્ખતા છે. દોહા, નિજ સમર્થને જાણવા, કશું ઈશ જગ
એહ; કારણ વાદી જે કહે, શતમૂર્ખ છે તેહ. ૧૨

૧૫ નાસ્તિક:-- ઈશ્વરે પોતાનું સામર્થ્ય બતાવવા સારુ જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે;
એમ જાણવું જોઈયે.

આસ્તિક:-- કોને બતાવવા સારુ જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે? જીવ અને જડ પ
પાર્થો તો ઈશ્વરેજ ઉત્પન્ન કયા છે, એમ તમે કહો છો. ત્યારે બીજો કોણ જગતની
પૂર્વે હતો કે, જેને દેખાડવા સારુ ઈશ્વરે આ જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે! માટે એ
વાત પણ અસત્ય છે. દોહા, બીજાને દેખાડવા, પોતાનું સામર્થ્ય; જગ ઉપજા
વ્યું ઈશ્વરે, એમ કહે તે વ્યર્થ. ૧૩

૧૬ નાસ્તિક:-- જેમ માણસ સવારમાં ઊઠી વસ્ત્રાદિક પહેરીને આરીસામાં પોતાનું
સ્વરૂપ દેખે છે; તે સારું દેખાય તો આનંદિત થાય છે, તેમ ઈશ્વર પણ પોતે પોતાનું
સ્વરૂપ જોવાસારુ આ જગતરૂપ શૃંગાર કરી પોતાનું રૂપ વિસ્તારીને દેખે છે; એમ
જાણવું જોઈયે.

આસ્તિક:-- માણસ પોતાનું રૂપ આરીસામાં જુવે છે, તેનું કારણ એ કે, મારું રૂપ
સારું દેખાડો નહી, તો લોકો હાશી કરશે; અથવા કોઈ ઘોડા કાઢાડશે; તેમ ઈશ્વરે
બીજા કોના નયથી પોતાના રૂપનો વિસ્તાર કયો છે? ઈશ્વરના જેવો બીજો ઈશ્વર
કોઈ છે નહી; ત્યારે જોનારો કોણ! માટે એ વાત પણ જૂઠી છે. દોહા, પોતે જોવા
આપને, રચ્યો જગત આ ઈશ; કોના નયથી તે કહો, મતવાદી તજી રીશ. ૧૪

૧૭ નાસ્તિક:-- “એક એવહિ નૂતાત્મા, નૂતે નૂતે વ્યવસ્થિત:; એકથા બહુથા ચેવ,
દૃશ્યંતે જલ ચંડવત્” એવી રીતે આત્મા એક ઠતાં સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં જુદો જુદો દી
ઠામાં આવે છે; જેમ ચંડમા એક ઠતાં અનેક જલસ્થાનકોમાં પ્રતિબિંબ રૂપે જુદો
જુદો દીઠામાં આવે છે; તેમ ઈશ્વર એકજ છે પણ ઘટ ઘટમાં જુદો જુદો દેખાય છે
એટલે ઈશ્વર બિંબ છે ને સર્વ જીવ પ્રતિબિંબ છે; એમ જાણવું.

આસ્તિક:-- જેમ એક ચંડમાના અનેક પ્રતિબિંબો હોય છે, તે જેવો ચંડમાં
હોય તેવા દેખાય છે. તથા કાચના જીવનમાં એક મનુષ્ય ઠતાં અનેક પ્રતિબિંબ
રૂપે દીઠામાં આવે છે. તેમાં મૂલ આકૃતિથી જુદી આકૃતિ દેખાતી નથી.
જેમકે, બીજથી તે પૂર્ણિમાશુધી ગમે તેવી ચંડમાની આકૃતિ હોય, તેવો પ્રતિબિંબ
દેખાય છે; તથા કાચ જીવનમાં મનુષ્યની જેવી આકૃતિ હોય તેવીજ તાદૃશ્ય દે
ખાય છે. કાણો હોય તો કાણો દેખાય, આંધલો હોય તો આંધલો દેખાય; વગેરે

બિંબના જેવોજ પ્રતિબિંબ દેખાય છે. તેમ ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓમાં સરખો દેખાતો નથી. કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ પાપી, કોઈ પુણ્યવાન વગેરે અનેક પ્રકારે દેખાય છે. ત્યારે ઈશ્વરના પ્રતિબિંબ કેમ સંજવે? જે પ્રતિબિંબ હોય, તે બિંબના જેવોજ હોય છે? તેમ તો એ નથી. વલી જેમ ચંડમાનો ઉદય થતાં પ્રતિબિંબ પણ તેજ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ચંડમાં અસ્ત થયાથી પ્રતિબિંબ પણ મટી જાય છે. તેમ ઈશ્વર અને જીવોનેવિષે થતું નથી. ઈશ્વર ઉત્પત્તિ નાશ રહિત છે; તેમ જીવ પણ હોવા જોયે. ઈશ્વર જેમ અક્રિય છે, તેમ જીવ પણ કર્મવિના હોવા જોયે. જેવો બિંબ તેવા પ્રતિબિંબ હોવા જોયે. તેમ તો ઈશ્વર અને જીવ નથી; માટે ચંડબિંબ નો દૃષ્ટાંત સર્વથા અસત્ય છે; કેમકે સર્વ જીવ પોતાના કર્મોદયથી ઉત્તમ મધ્યમ પણ પામે છે. દોહા, બિંબ અને પ્રતિબિંબતા, ઈશ્વર જીવ પ્રમાણ; ચંડ બિંબવત એ નહીં, તેથી સત્ય ન જાણ. ૧૫

૧૬ નાસ્તિક:- જીવ વર્ણાદિકે કરી સહિત છે; એમ માનવું જોયે.

આસ્તિક:- જીવ વર્ણાદિકે કરી રહિત છે, અને ચેતન લક્ષણવંત છે; અને કાલું, રાતું, નીલું, પીલું, તથા ધોલું એ પાંચ વર્ણ; સુગંધિ તથા દુર્ગંધ એ બે ગંધ; તીર્ણું, કડવું, કશાયલું, સ્વાદું તથા મીઠું એ પાંચ રસ; શીત, ઉષ્ણ, શ્લિષ્ઠ, તૂલું, કરકશ, મૃદુ, ગુરુ, તથા લઘુ એ આઠ ફરસ; અને પરિમંદલ, વ્રત, ત્રયાંશ, ચતુરંસ તથા આયતન એ સંસ્થાન પ્રમુખ સર્વ જડ પદાર્થના ગુણ છે; તે ચૈતન્યમાં નથી. ચેતન નો આકાર શરીરને આશ્રયે છે. જેમ પાણીનો આકાર જલાશયથી જણાય છે તેમ ચેતનનો આકાર પુજ્જલથી જણાય છે.

૧૭ નાસ્તિક:- જીવ કર્મોને કેમ ગ્રહણ કરતો હશે વારુ?

આસ્તિક:- જેમ વસ્ત્રના તંતુ તે વસ્ત્રના અંશ છે; તેમ જીવના પ્રદેશ તે જીવના અંશ છે; જેમ વસ્ત્રાંતર્ગત તંતુના સૂક્ષ્મ તંતુ છે. તેમ જીવના પર્યાય છે. જેમ વસ્ત્રનો વરણ તેમ જીવનું સદ્લક્ષણ છે. જેમ વસ્ત્રને મેલ લાગવાનું કારણ, તેમ જીવને મિથ્યા ત્વાદિક હેતુએ રાગદ્વેષ આશ્રવે કર્મરૂપ મેલ લાગવાનું કારણ છે. જેમ વસ્ત્રનો મલ ટાલનાર ધોવી તેમ પોતાના અંતરનો મલ ટાલનાર આત્મા પોતે છે. જેમ વસ્ત્રને સાબુએ કરી મલ ટાલે છે, તેમ જીવને શુનથ્યાનેકરી કર્મરૂપ મલ ટાલે છે. જેમ વસ્ત્રને અગ્નિ, તેમ જીવને તપસ્યા છે. ઇત્યાદિક કહ્યાથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. જે જીવ કર્મ સહિત હોય તેને કર્મ લાગે, પણ કર્મરહિત હોય, તેને નવાં કર્મ લાગે નહીં. જેમ સૂત્રકાતનારી નાડી કાતે, તેમાંથી થોડી બાકી રહે, ત્યારે તેની સાથે બીજી વલગા

डे, पण पहेली होयज नही, तो तेनीसाथे बीजो संबंध साथी करे! तेम जीव प ए अनादिनो कर्मसहित ठे, अनादि जीवनुं एहवुंज स्वरूप चाळ्युं आवे ठे; माटे जहांशुधी कर्म सहित ठे तहांशुधी नवां कर्म पण ग्रहण करे ठे; पण प्रथमथी अमुक वखतेज जीव नवां कर्म ग्रहण करी कर्ममल सहित थयो; एवी आदि नथी.

१० नास्तिकः--जीवने कर्म क्यारे लागं ठे? कर्म लागवानी कोई पण आद्य जोयें जे पदार्थनो अंत थतो होय, तेनी आदि पण होवी जोये. ज्ञाने करी कर्मो नो अंत थाय ठे. एम तमेज कहो ठो. ल्यारे आद्य पण कबुल करवी पडशो; ते आदिनो समय कह्यो ठेरवशो? केम के, जीव प्रथम निर्मल होय तोज तेने कर्मरूप मल लाग्यो कहेवाय.

आस्तिकः--ए वचन दूषण सहित ठे. केमके, जीव प्रथम ज्यारे निर्मल हतो ल्यारे तेने कर्म लागवाना परिणाम केम थया? जे निर्मल होय ते पोताने मल सहित थवानी इह्ठा करे नही. तेम ठतां जीवे कर्मोनी वांठा केम करी? माटे जीव अनादिनो कर्म सहित ठे. जीवनेविषे कर्म स्वभावे अनादिसिद्ध ठे. दोहा, आदि जीव निर्मल हतो, पठि वलग्यां ठे कर्म; एम कहे ते ना लहे, जिन वचनो नो मर्म. १६

११ नास्तिकः--सर्वमां व्यापक आत्मा एक ठे; अने शरीरो जुदां जुदां ठे; एम मानवुं जोइये.

आस्तिकः--जो बधामां आत्मा एक होय तो माता, पिता, स्त्री, पुरुष, चाई, बेन, पुत्र, राजा, प्रजा, चोर, साहुकार, चंमाल, कृत्रिय, उंच, नीच, नरक, देवता, पुण्यवान, तथा पापी इत्यादिक जिन जिन केम देखाय ठे? सर्वमां आत्मा एक होवार्थी तेज देखायुं जोइये; अने एके कीधेलुं पाप सर्वने लागवुं जोइये; ते मज एके कीधेला पुण्यना सर्व जागीदार थवा जोइये; एकना मुक्त थयार्थी सर्व मुक्त थवा जोइये; प्रत्येक माणसनुं जुडं जुडं अनुष्ठान निष्फल थवुं जोइये; तेम तो थतुं नथी. जे करे ठे ते जोगवे ठे; ए कहेवत प्रमाणे बधा आत्मा जिन जिन देखाय ठे. माटे सर्वमां एक आत्मा व्यापकपणुं कहेवुं ते समीचीन नथी; एम जाणवुं. दोहा, आत्म सर्वमां एक ठे, जिन जिन आ देह; एम कहे एकांत मत; असत कहीजे तेह. १७

१२ नास्तिकः--सर्व कार्य अने अकार्य ईश्वरनी इह्ठारूप ठे; अने ईश्वरनी इह्ठार्थीज सर्व थाय ठे; एम जाणवुं जोइये.

आस्तिकः--जो एम होय, तो जन्म धारण करवामां मातापितानुं शुं काम ठे ? अने विष खाधाथी मरण थाय ठे, तेमां विषनुं सु वांक ठे ? तेमज जो जनथी हुधानी निवृत्ति, पाणीथी तृषानी निवृत्ति, अग्निथी शीतनिवृत्ति, वली तापथी खेदोत्पत्ति, वर्षाथी धान्योत्पत्ति, द्वेषथी वैरोत्पत्ति, नम्रताथी स्नेहोत्पत्ति, चोरी कखाथी ताडन, यारी थकी निर्लज्ज, पापथकी नरक, पुण्यथकी स्वर्ग, इत्यादि सर्व कारणो अने कार्यो व्यर्थ थजे. अने सर्व वस्तुओ स्वगुण रहित कहेवी जोइजे. राग करनारो स्नेही नही, तेम द्वेष करनारो वैरी नही कहेवाजे. उपकार प्रति उपकार करवानी कांई जरूर रहेजे नही. अने पाप पुण्य फलरहित थजे. केम के, सर्व कार्य करवानुं मूल कारण एक ईश्वर इहा थई; माटे सर्व ईश्वर इहारूप ठे, एम कहेवुं ते समीचीन नथी. तमारा कहेवा प्रमाणे पुण्य पापनुं कर्ता पण ईश्वर अने जोक्ता पण ईश्वर थयो. दोहा, ईश्वर इहारूप आ, कृत्य सर्व जगमांहि; एम कहे गुणता टले, सारासार न कांहि १८

१३ नास्तिकः--आत्मा पंच नूतो थकी थयो ठे; ए वात असत्य नथी, किंतु साचो ठे, एवुं अमने जणाय ठे.

आस्तिकः - नूत शब्दनो अर्थ त्रणे कालमां अस्तित्व थाय ठे. एटले जे ठे ठे ने ठे, तेने नूत कहिये. नूतनो तो कोई काले ठेद थतो नथी; माटे ए अस्तित्वरूप नूतनो अंश तो संजवे नही; तेम आकाशादिक पंच महानूतनो अंश पण कही शकय नही. वली पांच नूतना अंशे करी शरीरनी उत्पत्ति थाय ठे, त्यारे ज्ञान अने चेतना कह्या अंशथी उत्पन्न थयां ? माटे नूत शब्द ए त्रमजाल ठे. अने चिदानंद ज्ञानरूप आत्मा तो शाश्वत ठे. ते कोई समये जूनो तथा नवो थतो नथी. ते जीव पूर्वोपार्जित कर्मे करी शरीर बांधे ठे. ते जल पुद्गलनुं ग्रहण ठे. तेमां नूतनुं कांई प्रयोजन नथी; नूत केवी वस्तु ठे ? जीव ठे के जड ठे ? रूपी ठे के अरूपी ठे ? ईश्वराश्रित ठे के नवा प्रगट थाय ठे ? ठता रूप ठे. के संयोगे थाय ठे ? ए विषे कांई विचार करी शकतो नथी; माटे नूत ए शब्दज व्यर्थ ठे. ते नाथी जीवनी उत्पत्ति केम मनाय ! दोहा, जीव ऊपजे नूतथी, ए मत ठे त्रम रूप; जीव चिदानंद सत्य ठे, अनादि जाव अनूप. १९

१४ नास्तिकः--तमारा कह्या प्रमाणे जीवने नवांतर थाय ठे. नवनी प्राप्ति कर्मानुसार ठे. जेवां कर्मां कखां होय तेवा नवनी प्राप्ति थाय ठे. शुच कर्मनुं फल सारो नव ठे, अने अशुच कर्मनुं फल नरशो नव ठे. ते वात सत्य ठे, परंतु को

ई जीवने एक खंडमां शरीर मूकीने बीजा खंडमां बीजुं शरीर धारण करवुं पमे. तो एटलो दूर जतां तेने केटलो वखत लागतो हरो ! अने कोई जीवने एक शरीर मूकी तरत तेज गाममां उपजवुं होय, तेने कांई दूर जवुं पडतुं नथी, तेथी कांई वधारे वखत लागतो नही हरो, पण जेने दूर जवुं पडतुं हरो तेने रस्तामां चालता वधारे कखत लागतो हरो नी !

आस्तिकः— नजीक अथवा दूर नवांतर करवामां वधारे वखत लागतो नथी; सरखोज वखत लागे ठे. जेम घाणी, रहेंटीओ अथवा बारणुं इत्यादिक ज्यारे फरे ठे, त्यारे तेओना माहेला तथा बाहेरना जागने फरतां सरखोज वखत लागे ठे. यद्यपि अंदरनो क्षेत्र थोडो होय ठे, ने बाहेरनो घणो होय ठे; तथापि फरतां वखतमां वधघट थती तथी. वली जेम दीपकने शजगावीए ते कृणमांज प्रकाश करेठे. वचमां कांई अंतर पडतो नथी; तेम जे वखते एक नव मूके के लागलोज बीजो नव पामे ठे; तेमां लगार पण अवकाश रहेतो नथी. ते नव पढी दूर देश धारण करवो होय, के नजीक देशमां धारण करवो होय, गमे त्यां नव धारण कर मांवामां वखतनो वार फेर थतो नथी.

१५ नास्तिकः—जीवने कर्म केवी रीते लागे ठे.

आस्तिकः—आत्माना शुजाशुज परिणामथी जीवने कर्म लागे ठे. जो शुज परिणाम होय, तो सारा कर्म लागे ठे; अने अशुज परिणाम होय, तो नरशां कर्म लागे ठे. अने तेनां फल पण तेवां थाय ठे. कर्मने कांई ज्ञान नथी, जे आ जीवे पाप कखुं माटे हुं एने पापरूप कर्म थई लागुं.

१६ नास्तिकः—कर्म तो जड ठे. तेथी तेओमां ज्ञान शक्ति नथी त्यारे जीवे नरशां अथवा सारां कर्मो कखाथी पाप अथवा पुण्यरूप परिणाम केम थाय ठे ? ए परिणाम तो ज्ञानविना थाय नही. तेथी एवुं जणाय ठे के कर्म लागवामां ईश्वर हेतु ठे. कर्म करवापणुं जीवने ठे; ने तेनुं फल देवुं ईश्वरने ठे.

आस्तिकः—कर्म लागवामां ईश्वरनुं कांई काम नथी. कर्मोनों एवो स्वजावज ठे के परिणामने पामवुं. जेम कोई पुरुष विषमिश्रित नोजन करे, ते मरण पामे ठे मरवुं ए विषनो परिणाम ठे; पण विष जड पदार्थ होवाथी तेने एवुं ज्ञान नथी के मने जे खाय ठे, ते मरीजायठे; तेम ठतां तेथी तेवो परिणाम थायठे के नही ! वली जेम कोई पुरुष मिष्टान्न नोजन करे, तेथी पुष्ट थाय ठे पण ते नोजन एम नथी जाणतुं के, माराथकी आ शरीरनी पुष्टी थाय ठे. तेम ठतां तेनो परिणाम

तेवो थाय ठे. एतो एनो स्वनाव ठे. तेम शुनाशुन कर्मोने यद्यपि ज्ञान नथो, तोपण तेओनो एवो स्वनावज ठे, के फलरूपे पोते परिणामने पामवुं. कर्मो नो एवो स्वनावज ठे के शुन कस्याथी पुण्यकर्म बंधाईने उत्तम गतिनी प्राप्ति थाय ठे, तेमज अशुनविषे पण जाणी लेवुं. एवो कर्मोनी अनंत कालनो स्वनाव ठे. वली जेम चमक पाहाण लोहने पोतानी तरफ खेंची लिये ठे, तेनुं चमकने कांई पण ज्ञान नथी, के हुं लोहनुं आकर्षण करुंनुं; परंतु ते क्रिया स्वानाविक थाय ठे. तेम जीव शुनाशुन परिणामना उपयोगे शुनाशुन कर्म आकर्षण करी आत्मापणे लोलीनूत करे ठे; एवो अनादि कालनो स्वनावज ठे. एमां ईश्वरनुं कांई काम नथी.

१७ नास्तिक:- जीव एवो कोई पदार्थज नथी; बंधुं शून्यज ठे. त्यारे शुनाशुन कर्मो ते कोने लागवाना हता! ए बंधो नर्म ठे. जीव कोई ठेज नही.

आस्तिक:- जाई, तूं पाको बुद्धिनो देखाय ठे. जीवनेज उराडी नाख्यो एटले बधी खटपट चूकी गई के नही वारु! अरे मूढमति विचार तो कर, के जो शरीरमां जीव न होय, तो शरीरनी चेष्टा केम थई शके? शरीर तो जम ठे, तेमां चेतन शक्ति न होय तो क्रिया केम थाय? जो आत्मा न होय तो आ शरीर, हाथ, पग, कान, नाक, जीन, आंख, मन, बुद्धि, धन, धान्य, राज्य, तथा संपत्ति प्रमुख सर्व पोताथी जुदा पदार्थोमां शरीर मारुं ठे, धन मारुं ठे, वगैरे एवो बोजनार कोण ठे! मारुं ठे, एवं कहेनार पदार्थथी जुदो होय ठे. एम तो कोई पण कहे तो नथी के हुं शरीर बुं, हुं मन बुं वगैरे, माटे शरीरादिक सर्व वस्तुनो जिन व्यवहार होवाथी जीव ठे एवं ठरे ठे. शरीरमांथी जीव निकली गया पठी विचार करवुं, बोलवुं, तथा चालवुं वगैरे कांई पण क्रिया थई शकती नथी. तेथी शरीर थकी जीव जुदो कोईक ठे एम नकी जाएजे. वली शरीरमां ज्यारे जीव ठे त्यारे बोले ठे, ने घट पटादिक पदार्थोमां जीव नथी त्यारे बोलता नथी. तेथी जीवइ व्य ते शरीर थकी जिन ठे एवं शिइ थयुं. तेने ठेज नही एम तूं केम माने ठे? जो जीव न होय तो व्यवहार केम चाले? माटे जीव अवर्य ठे एम जाएवुं.

१८ नास्तिक:- जीव समय समयनेविषे नवो थाय ठे. हमेश एक जीव रहे तो नथी.

आस्तिक:- ए वात तदन जूठी ठे. जीवत्व नहुं कोई समये थतुंज नथी. जीवना पर्याय इव्य, क्षेत्र, काल, जाव, तथा उदय नावाश्रित तो जुदा जुदा

होय ठे, पण जीवपणुं नवुं होतुं नथी. जीव समय समय प्रत्ये जो नवो थ तो होय, तो बालपणनी वात यौवनावस्थामां शान्तलवी न जोये. तथा गत सम यनुं शान्तलेलुं, दीतेलुं, नोगवेलुं, लीधेलु, तथा दीधेलुं प्रमुख काई पण स्मरणमां आव्युं न जोये. तेनी स्मृति तो थाय ठे. तेथी जीव तेहिज ठे. जो जीव नवो थतो होय तो एक जीवनुं करेलुं कार्य बीजो जीव केम जाणी शके ? ए तो प्रसिद्ध वात ठे. तेथी जीव इव्य सदा सरखुं ठे; एमां कोई काले पण फेर पडतो नथी, एम जाणवुं.

२९ नास्तिक:- जीव जे नाना प्रकारनां कर्मां करे ठे, तेअोनो करावनार ईश्वर ठे. ईश्वरनी प्रेरणा विना जीव थकी कर्म थाय नही, एम जाणवुं.

आस्तिक:- जो जीवने कर्म ईश्वर करावतो होय, तो कर्मनो कर्त्ताज ईश्वर ठरओ; केमके जे क्रीयानो प्रेरक होय ठे, तेज कर्त्ता होय ठे. जो ईश्वर कर्त्ता ठेरा वगुं तो जे कर्त्ता होय ठे, तेज जोक्ता होय ठे. ए रीतथी ईश्वरने जोक्तापणुं पण आवओ. जोक्ता ईश्वर थयाथी पापपुण्य ईश्वरनेज लागे ठे, एम मानवुं पडओ. जेम कोई पुरुष पोताना हाथमां खड्ग लईने बीजाने मारे, तेनुं पाप खडगने लागतुं नथी, पण ते खडगना मारनारने लागे ठे. तेम पुरुषे कीधेलुं पाप पण ईश्वरने लागनार ठे. कर्मनो करनार तो खडगना जेवो ठे; तेने कर्म लागवा न जोईए. तेथी कर्म ईश्वरने लागे ठे एम सिद्ध थयुं. एम माननारने एटलुंज पूढवुं जोये के, कर्मनो कर्त्ता तुं नथी, तेम कर्मनो जोक्ता पण तूं नथी; कर्त्ता जोक्ता ईश्वर ठे. त्यारे सर्व मनुष्यो पोतपोताना मत प्रमाणे क्रिया करवानी बुद्धि केम करेठे ? मद्य मांशनो त्याग, अने स्नान, संध्या, स्रोत्र, तप, जप, वगैरे शासारु करेठे ? पोताने काई पाप प्रमुख लाग्युंहोय तो तेनुं निवारण शासारु करे ठे ? अकार्य शासा रु करता नथी ? पाप थकी शासारुं बीहेठे ! कर्त्ता शो जोक्ता एम शासारुं कहे ठे ? पोते करे ठे, ते नोगवे ठे; तेम ठतां वली कहे ठे के हे प्रभु, मारां पाप टालो. प ए एम नथी कहेतो के प्रभु तमारां पाप टालो. जे चोरी करे तेने दंड थाय ने जे ठेद करे तेनां प्राण जाय. अने हिंसा करे ते अवश्य नरक गामी थाय. वगैरे ए सर्व व्यर्थ मानवा जोइओ. माटे कर्त्ता जीव ठे ईश्वर नथी एम मानवुं जोये.

३० नास्तिक:- अमे मान्य करेलुं ईश्वर सर्वज्ञ ठे एम जाणवुं. अने शास्त्रोमां पण "सर्वज्ञो ईश्वर." एवां घणां वाक्यो दीठामां आवे ठे; माटे ईश्वर बधुं जाणे ठे.

आस्तिक—यद्यपि तमे कहोठो के ईश्वर सर्वज्ञ ठे, ए वात सत्य ठे. तथापि ते सर्वज्ञतानी रीत कांईक जूदीज ठे. जे तमे मानो ठो ते ईश्वर सर्वज्ञ नथी. अ मे एटलुंज पूठीए ठैए के, ज्यारे ईश्वर सर्वज्ञ ठे, त्यारे पोताने दुःख देनारा रावणादिकने तेणे शा सारु उत्पन्न कखा ! ज्यारे ए राक्षसोनी उत्पत्ति पोते कीधी त्यारे पोतानेज युद्ध करवुं पड्युं. ए उपरथीज विचार करो के जो ईश्वर सर्वज्ञ जाणतो होय, तो एवी जूल केम करे ? जो एम कहिये, के राक्षसादिक प्राणी ओ ईश्वर थकी अजाणमां उत्पन्न थया जणाय ठे; तो ईश्वरनेविषे अज्ञानरूप दूषण प्राप्त थरो. अने जो एम कहीशुं के जाणी जोईने उत्पन्न कखा ठे; तो ईश्वरना जकने पण संग्राम उचित नथी; तो ईश्वरने ते केम संग्राम कार्य उचित थयो ? माटे एम कहेवुं तदन असंजवित ठे.

३१ नास्तिकः—ईश्वर ज्यारे जगतनो संहार करेठे, त्यारे पोते प्रागवदनं पांडुं डांपर पडोठे ठे; अने ज्यारे जगतनी उत्पत्ति करवानो संजव होय, त्यारे जागृत थाय ठे; ए वात तो साची ठे के नी ?

आस्तिक.—ए वात ते वली जूठी होय ! पण हुं तमने पूडुं हुं के ते प्रागवड अधर आकाशमां रहे ठे के, पृथ्वी उपर होय ठे ? तेमां अधर रहे ठे, एम तो तमे कबूल करशो नही, केम के तमे वली एम पण मानो ठो के, बधुं जलमय थई जाय ठे; ने तेनी उपर मात्र प्रागवद देखाय ठे; त्यारे पृथ्वी पण कबूल करवी पमरो. जो पाणी, पृथ्वी, तथा प्रागवद ए बधा पदार्थ महा प्रलय थया पठी पण रहे ठे, त्यारे संहार ते शानो कखो कहेवाय ? जो एम होय तो सर्व पदार्थो शाश्वत थया एम जणाय ठे. फरी ज्यारे ईश्वरे सृष्टि उत्पन्न करी, ते पहेलां कखा प्रमाणे पांच महा जूत तथा, प्रागवड हतो त्यारे नवुं ते शुं कीधुं ए वगैरे विचार कखाथी एम जणाय ठे के, ए बधा गपाटा ठे. जेना मनमां जेम आव्युं, तेणे तेम शास्त्रोमां लखी नाख्युं जणाय ठे.

३२ नास्तिकः—ब्रह्मा, विष्णु, अने महेश ए त्रणे सर्वज्ञ ईश्वर ठे; एम अमे मानिये ठैये.

आस्तिकः—तमे गमे तेम मानो तेमां अमारुं शुं गयुं ! अमे तो जेम हरो ते म मानशु. तमे कखा ते त्रणे जो सर्वज्ञ होय तो अज्ञानने केम अंगीकार करे ! जुवो के, महादेवे पोताना पुत्र गणेशनुं माथुं कापी नाख्युं तेनी खबर पोताने केम न पडी ? रावण सीतानुं हरण करी गयो ते वखते राम सर्वज्ञ ठतां

पशु, पक्षी, तथा वृक्ष प्रमुखने केम पूठतो हतो ? अने ब्रह्मा पासेथी राहसो वेद केम चोरी लई गया ? ए रीते ब्रह्मा, विष्णु अने शिव अज्ञानी ठरे ठे. एवा अज्ञानी तेने ईश्वर केम कहिये ?

३३ नास्तिकः—सर्व योनिओमां मनुष्य योनि उत्तम ठे. एवं शास्त्रोमां कहुं ठे ते सत्य ठे. अने वली अनुभव सिद्ध पण ठे.

आस्तिकः—ना कोणे कहुं ठे ? मनुष्य योनि तो उत्तमज ठे. परंतु तमे तेम अंतःकरण पूर्वक मानता नथी देखाता. महोडाधीज मात्र कहो ठो. केम के तमारे तो एथकी पण बीजी उत्तम योनिओ मानवी जोइये ठे. जे योनिने ईश्वरे अंगीकार करी ठे, ते योनि तमारे पण सर्वोत्कृष्ट मानवी जोइये. मह, कबु, तथा वराह, प्रमुख योनिओमां ईश्वरे अवतार लीधो ठे; ते योनिओ मनुष्य योनिकरतां उत्तम मानवी जोइये. जो मनुष्य योनिज उत्तम होय तो ईश्वर पोते बीजी योनि केम धारण करे ? माटे तमारा बोलवा प्रमाणे तो मनुष्य योनि करतां वराहादिक योनि उत्तम जणाय ठे. ईश्वर ज्यारे पशुमां अवतार लिये ठे, त्यारे पशुमुखी, पशुवाही, तथा पशुरूपी होय ठे. तेने देव मानवो ते अयोग्य ठे. आहार, अस्ति, आयुध, असवारी, तथा आवाश ए पांच पदार्थ ईश्वरना नकने पण त्याग करवा कहुं ठे; तो ईश्वर पोते तेनुं केम ग्रहण करे ? माटे वराहादि योनि धारण करनारो ईश्वर मानो, तो मनुष्य योनि करतां ते योनि उत्तम कहेवी जोइये; जो तेम नही कहेसो तो ईश्वरने अपमान लागसो.

३४ नास्तिकः—शरीरनो त्याग करीने जीव परलोके गया पठीपाठो आ लोक मां केम आवतो नथी ? जे ठे तेने तो आव्युं जोइये.

आस्तिकः—आ संसारनो संबंध मटी गया पठी जीवनुं फरी आवबुं थतुं नथी; तेनुं कारण कर्म ठे. जीवनुं आवबुं जवुं कर्माधीन ठे. ज्यां कर्म लई जाय त्यां जीव जाय ठे. अने जे जे नव पामे ठे ते ते नवना कार्य करे ठे. आ नवमां पण हमेश एक रीत रहेती नथी जेम के बालपणानी प्रीति होय ते कोई काले मटी जाय ठे. घणा काल लक्ष्मीनो संबंध उतां कोई काले तूटी जाय ठे. त्यारे दारिद्र्य आवे ठे. कोई कर्मना योगे प्राणी बंदीखानामां पडे, ते वारे तेनो अत्यंत स्नेही होय ते पण पासे आवतो नथी. कोई पुरुष एक स्त्रीउपर बीजी करे त्यारे प्रथम स्त्रीनी उपर प्रीति रहेती नथी; अने पूर्वनो संबंध पण तूटी गया जे वुं थाय ठे. तो पूर्व जन्मना संबंध ते केम याद आवे ? ज्ञानावरणी कर्मना यो

गे बीजा जवनुं स्मरण पण थतुं नथी. ए विषयने मजती प्रदेशी राजा अने के शी गुरुगी प्रश्नोत्तररूप चर्चा ठे ते कहुं बुं.

प्रदेशी राजा:— मारो अधर्मी दादो नरकमां गयो ठे, ते तमारा मतप्रमाणे त्यांथी आवीने मने अधर्म करतो वारे त्यारे हुं मानुं, के वात साची ठे.

केशी गुरु:— तारी स्त्रीनी साथे कोई पुरुषने कामजोग करतो तने दीठामां आवे, ने ते तारा हाथमां आव्या पठी ते तारी चीनती करे के, मने थोडीक वार रजा आपो, तो हुं मारा कुटंबने कही आवुं के, कामजोग कखाथी आवुं डुं:ख थाय ठे तो ते वात कबूल करीने तेने तूं रजा आपीश ?

राजा:— ना तेने एक रूप पण बुटो मूकुं नही.

गुरु:— तेमज तारो दादो पण पापसंची, गुनेहगार थई, नरकमां गया पठी, परमाधामी तेने केम मूके ? तेथी ते आवी शके नही.

राजा:— मारी दादी स्वेच्छाचारी थई, जैनधर्मने अंगीकार करीने स्वर्गे गई, ते पाठी केम कहेवा आवी नही; ने आवे तो तेने गुं हरकत ठे ?

गुरु:— कोई पुरुष स्नानकरी, कुशुम तथा धूप प्रमुख जई देवनी पूजा करवा जेतो होय, तेने कोई चांमाल संमाशमां जवाने कहे तो ते त्यां जाय के ? एवी क दी इत्था पण करे ?

राजा:— ना ते एवा खराब स्थले केम जाय ? कदी पण जाय नही.

गुरु:— तेम तारी दादी स्वर्गलोकमां गई ठे, ते सेतखाना तुव्य आ मनुष्य लो कमां केम आवे ! आ लोकमां आववानी इत्था पण थाय नही.

राजा:— एक चोरे चोरी करी, तेनो इन्साफ करीने तेने लोहानी कोठीमां घा ली दीधो. तेनुं मुख बंध करीने उपर सारी रीते कजई करावी. तेमां पवन पण प्रवेश करी शके नही एवुं कथुं. पठी ते चोर कोठीमां मरी गयो. तेनो जीव ते कोठीना क्या रस्तेथी नोकली गयो ? तेमां तो कोई बिड् दीठामां आव्यो नही. हवे जीव ते केम मनाय ?

गुरु:— मोटी शालामां एक पुरुषने जेरी सहित घालीने तेने चोतरफ बंध क री लीधी होय, तेमां ते जेरी वगाड्याथी तेनो अवाज बाहार शंजलाय ठे. ते बि ड्विना बाहार केम आवे ठे ? तेम जीव पण बिड्विना बाहार निकली जाय ठे.

राजा:— एक चोरना कटका करी एक कुंजमां में जरी राख्याहता. तेनुं महोडुं उ परथी सारी रीते बांधी लीधुं हतुं, के जेमां पवन पण प्रवेश करी शके नही. ते

केटलाक काल पठी उघाडी जोयुं, तो तेमां अनेक क्रम पडेजा देखायां. ते ढिड् विना क्यांथी आव्यां ?

गुरु:- अग्निमां लोहनो गोलो नाख्यो होय तेमां ढिड् विना अग्नि केम प्रवेश करेडे! जे वस्तु अग्निमां नाखीए तेमां ढिड् नहोय, तो पण अग्नि प्रवेश करे डे. तेम जीवनी प्रवेश थवामां ढिड्नुं कांई काम नथी.

राजा:- एक चोरने में ते जीवतो हतो त्यारे तोव्यो, अने मरी गया पठी पण तोव्यो; त्यारे जीव नीकली गयो ठतां नारमां कांई फेर पडयो नही. तेनुं शु कारण होवुं जोये ?

गुरु:- जेम खाली मशक तथा पवनथी नरेली मशक तोली जोतां वजनमां फेरफार थतो नथी. तेम जीव वायुरूप होवाथी ते शरीरमांथी नीकली गया प ठी कांई तोलमां फेर पडतो नथी.

राजा:- बालक अने यौवनना शरीरमां फेर डे पण जीवमां कांई फेर नथी. बन्ने वाणी सरखी बोले डे ने तेनुं शब्द पणे कानमां सरखी रीते स्वर जाय डे; तेम ठतां उपयोग सरखो केम थतो नथी? युवान जे क्रिया करी शके डे ते बाल कथी थती नथी तेनुं कारण शुं ते कहो.

गुरु:- जेम जूनुं धनुष्य होय तेथी बाणनो उपयोग जुदी रीते थाय डे ने न वुं धनुष्य होय तो तेथी बाणनो उपयोग जुदी रीते थाय डे; धनुष्यमां फेर होवा थी बाणनी क्रियामां फेर पडे डे. तेम बालक अने युवानना शरीरमां फेर होवा थी जीवनी क्रिया सरखी थाय नही. एटले बल वीर्य प्रमुखमां पण फेर फारथाय डे.

राजा:- युवान अने वृद्ध माणशना शरीरमां जीव सरखो ठतां युवाननी पठे वृद्ध केम नार उपाडी शकतो नथी?

गुरु:- जेम कावडवडे नार उपाडनारो पुरुष सारी नवी कावड होय तो वधा रे नार उपाडी शके डे, ने जूनी कावड होय तो कांईक थोडो नार उपाडी शके डे. तेम जीव तो तेज डे पण युवान शरीरं होय तो वधारे नार उपाडी शके, ने वृद्ध शरीर थाय तो थोमो नार उपाडी शके डे.

राजा:- एक चोरने मारीने तेना अनेक खंम कीथां, पण जीव तथा जीवना रहेवानुं ठेकाणुं दीगामां आव्युं नही; माटे जीव कोई ठेज नही.

गुरु:- जेम काष्ठमां अग्नि रही डे, तेम शरीरमां जीव रह्यो डे, ते देखाय केम? जो काष्ठमां अग्नि देखाय तो शरीरमां जीव देखाय. काठीआरो हमेश लाकमा

कापे ठे पण तेने अग्नि कोई वखते पण दीठामां आवती नथी. ने ते अग्निनुं र हेवानुं ठेकाणुं पण दीठामां आवतुं नथी तेम जाणी लेवुं.

राजा:—मने प्रत्यक्ष जीव देखामी आपो के जेथी हुं जीवने जाणुं.

गुरु:—तमे बादर वायु कायना जीवने जोई शकशो के? तेने पण जोई शक शो नही तो जे अरूपी जीव ठे तेने केम जोई शकशो?

राजा:—हाथीमां अने कीमीमां जीव केम सरखो होय ठे?

गुरु:—हाथीनुं तथा कीमीनुं शरीर महोठुं नांनुं ठे, पण जीवमां अधिक न्यून ता नथी जीव बनेमां सरखो ठे.

राजा:—लोकमां जीव अने जड एक क्षेत्र अवगाही निरंतरपणे निराबाध केम रह्या ठे?

गुरु:—जेम दूधनी जरेली कडाईमां साकर, एलची, अने केशर नाखी होय ते केम समाई जाय ठे? दूधशुद्धां चारे वस्तु एक क्षेत्र अवगाही निरंतरपणे केम रहे ठे? एकज ठेकाणे चारे वस्तु अनिन्न नावे रहेली ठे. एना वर्ण, गंध, रस, फरश निरंतर निराबाधपणे ठे. तेम जीव अने जड जगतमां निरंतर एक क्षेत्र अवगाही निराबाधपणे रह्या ठे.

३५ नास्तिक:—सर्व लोकमां जीव जरपूर ठे त्यारे देखाता केम नथी?

आस्तिक:—जेम सूक्ष्म जीव सर्वत्र पूर्ण ठे. ते ज्यारे दिवशे तडको पडे त्यारे घरमांना कोई ठिड्दारायें थोडोएक तडको घरमां आवे ठे. ते तडका तरफ जोतां केटला एक परमाणु जेवा दीठामां आवे ठे, ते बधा सूक्ष्म जीवो ठे. ते ठायमा मां तडको आवे त्यारे उडता देखाय ठे, बीजी रीते देखाता नथी. तेम जीव अ ने जड सर्व लोकमां जरपूर ठतां ठद्वस्थने देखाय नही; किंतु केवल ज्ञानरूप आ तपना योगे देखायठे. अर्थात् केवल ज्ञानीज जाणी शकेठे.

३६ नास्तिक:—चंद्र, सूर्य, ढाया, आतप, माता, पिता, स्वर्ग, नरक, जीव, जड, घट, पट, स्तंन, तथा कुंच प्रमुख सर्व त्रममात्र ठे; वस्तुरूप कंईजनथी.

आस्तिक:—जेम अंधकारमां आकाशनेविषे कोई पुरुष चाट्यो जाय, ते निरा बाधपणे जई शके ठे; पण वचमां जो जित आवीजाय तो आगल चलातुं नथी ने ते कार्यमां अपराबाधक थायठे. ए प्रत्यक्ष त्रम के सत्यठे? तथा कोई कोईने मारे, कूटे, दानदिये, ए वस्तु गत्ये सत्यठे; असत्य अने त्रमजाल तो स्वप्न अने संकल्पने कहिये.

३७ नास्तिकः—सर्व जगतमां एकज ईश्वर ठे. इश्वर विना बीजुं काई नथी, ए म जाणवुं जोये.

आस्तिकः— जो सर्व जगतमां एक ईश्वर होय, तो दाननो देनार पण ईश्वर, अने लेनार पण ईश्वर कहिये. लेनार अने देनारमां काई जेद थयो नही. ईश्वरे पोते पोतानी पात्रोथी दान लिधुं ल्यारे दान दीधानुं पुण्य कोने थयुं ? एथी दान तथा पुण्य व्यर्थ गयां. वली मारनार पण ईश्वर ने मरनार पण ईश्वर कहेवो जोये; तो ईश्वरे ईश्वरने माखो तेनुं पाप कोने लागुं ? धणी पण ईश्वर ने चोर पण ईश्वर; तो ईश्वरनो माल ईश्वरे चोखो कहेवाय, ल्यारे चोरीनी तपाश शासार्ह करवी जोयेठे ? पुण्ये करी स्वर्गमां गयो ते पण ईश्वर, तथा पापे करी नरकमां गयो ते पण ईश्वर; ल्यारे स्वर्गमां पुण्यवान जाय अने नरकमां पापी जाय; एम कहेवुं व्यर्थ ठे. ए उपरथी तमारुं बोलवुं असंजवित ठे. जगतमां एकज ईश्वर ठे एम जे कहेवुं ते असत्य ठे. घटघटप्रत्ये जीव जुदा जुदा ठे, अने तेओनी करणी पण जुदी जुदी जाणवी.

३८ नास्तिकः— घट पटादिक सर्व पदार्थोमां ईश्वर एकज ठे, एम जाणवुं जोये.

आस्तिकः— जो सर्वमां एक ईश्वर होय तो जात, कुल, राजा, तथा चंडा लनी जिनता कही न जोये; कोई श्रेष्ठ तथा नष्ट कहेवाय नही. एक पुण्य करे तेनुं फल सर्वने थवुं जोये, तेभज कोईएक पाप करे तेनुं फल पण सर्वने थवुं जोये. एके नोजन कखाथी सर्वनी तृप्ति थवी जोये; एक नरकगामी थयाथी सगला नरके जवाजोये; एक स्वर्गगामी थयाथी सर्व स्वर्गमां जवा जोये; एकनो नोग सर्वने नोगव्यो जोये; कर्म जुदां जुदां नोगववां न जोये; तेम तो देखातुं नथी; जे करे ते नोगवे एवुं स्पष्ट देखाय ठे. ल्यारे सर्वमां एक ईश्वर केम कहेवाय ? माटे एम कहेवुं ते समीचीन नथी; बधा जीव जुदा जुदा ठे, एम कहेवुं योग्य ठे.

३९ नास्तिकः—स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, चंद्र, सूर्य, नदी, समुद्र, द्वीप, नर, नारी, नगर, ग्राम, तथा माता, पिता इत्यादिक चोराशी लहू जीवयोनि प्रमुख सर्व असत्य ठे; एओमां सत्य पदार्थ कोई नथी.

आस्तिकः—सर्व पदार्थ सत्य ठे. जलनी बुंद पण असत्य कहेवाय नही, तो स्वर्गादिक पदार्थो केम असत्य कहेवाय ? जे वस्तु थाय ल्यारे थई कहेवायठे,

અને વણે ત્યારે નાશ થઈ કહેવાય છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે સિદ્ધ છે; તે મૂઠ પળ જાય છે તો હે નાસ્તિક તું કેમ જાણતો નથી !

૪૦ નાસ્તિક:—જગત ઈશ્વર રચિત છે.

આસ્તિક:—જો જગત ઈશ્વરકૃત હોય, તો જેટલા ઈશ્વરના નક્ક છે, તે બધા સુખી હોવા જોયે; તેમ તો દીઠામાં આવતું નથી. હિંદુ તથા મુસલમાન બધા સુખી તથા ડુઃખી દેખાય છે; તેને પણ પૂંઠિયે તેવારે એમ કહે જે સદુ પોતપોતાની કરણી પ્રમાણે પામે છે, એમ કહી શકે; ત્યારે તમારા કહેવા પ્રમાણે તો સુખ તથા ડુઃખનો દેનાર કર્મવિના કોઈ બીજો હોવો જોયે તેનો તો વિચાર થઈ શકે નહી, માટે હે મૂર્ખબુદ્ધિ આ જગતનો કોઈ કરતા નથી; એ તો સ્વનાવ સિદ્ધ છે. અને જીવ જીવી કરણી કરે, તે પ્રમાણે સુખ તથા ડુઃખ જોગવે છે.

૪૧ નાસ્તિક:—સુખ ડુઃખનો દેનારો ઈશ્વર છે, એમ માનવું જોયે.

આસ્તિક:—સુખ ડુઃખનો કર્તા આપણો આત્મા છે, તેજ સુખ ડુઃખનો જોક્તા જાણવો. માટે સુખ ડુઃખનો દેનારો બીજો કોઈ સમજવો નહી.

૪૨ નાસ્તિક:—(પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વાદી) પુણ્યથકી સારું થાય છે, ને પાપ થકી નરશું થાય છે; તે અમને પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિ દેખાડો તો માનીએ.

આસ્તિક:—પુણ્યપાપ તો સૂક્ષ્મ પુન્ન સમૂહરૂપ છે. જેમ શબ્દના પુન્ન કાનપ્રત્યે આ વેત્યારે શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે; માટે તે સત્ય છે. પણ આવતા દેખાતા નથી. તેમ સુગંધ, ડુર્ગંધ, પ્રમુખના પુન્ન ઈન્દ્રિયો પ્રત્યે આવતા દેખાતા નથી; પણ તેનું જ્ઞાન થાય છે; તેથી અનુમાન પ્રમાણ વડે જણાય છે કે એ સત્ય છે. તથા શરીરમાં વાયુ અને ગરમી પ્રમુખ જે થાય છે, તે રોગના ઉદયથી જાણ્યામાં આવે છે, પણ પ્રત્યક્ષ દીઠામાં આવતાં નથી. તેમ પુણ્ય તથા પાપ પણ ફલ જોગવ્યાથકી જાણ્યામાં આવે છે. તેઓના પુન્ન ઠગ્ગથ દૃષ્ટિ આવે નહી.

૪૩ નાસ્તિક:—બાલ્યાવસ્થા તથા તરુણાવસ્થામાં જીવ સરખો છે. તો તે બન્ને અવસ્થામાં વિજ્ઞાન, વિદ્યા, જ્ઞાપા, તથા પરાક્રમ સરખાં કેમ નથી દેખાતાં ?

આસ્તિક:—જેમ વૃક્ષના બીમાં અનેક વૃક્ષ, ફલ, ફૂલ પ્રમુખ રહેલાં છે; પરંતુ જેવા સાધનો મલે છે, તેવી ઉદ્ભવતાને પામે છે. જેમ કે, ક્ષેત્રની જૂમિ સારી હોય ને પાણીની પણ બરાબર સાહ્યતા હોય, તો કૃષિ ફલરૂપ ધાન્યની ઉત્પત્તિ સારી થાય છે. તેમ સારા સાધનોવડે જેમ જેમ શરીરની વૃદ્ધિ થતી જાય, તેમ તેમ જ્ઞાપા પણ પ્રૌઢ તાને પામતી જાય છે; પણ અવસ્થાંતર થયાથી બુદ્ધિ બાહેરથી આવતી નથી. કિંતુ

शरीरनी पठे बुद्धिनुं अवस्थांतर आयठे. सर्व आत्मगुण आत्माने विषे सदा न खाज ठे. पण योग्य समयमां उद्भव मात्र आयठे. कांई बाहेरची नवा आवता नथी. जेम मयूरना शरीरमां अनेक रंग रहेलाठे, पण समय पामे प्रगट आयठे. तेम बाव्यावस्थामां पण सर्व गुण सत्वनावे ठे, परंतु जेवी रीते पुरुष बलवान ठ तां धनुष्यविना बाण चलाववामां समर्थ आय नही; गजोला, गोफण, तथा खड्ग प्रमुख बधा शस्त्र तेओना उपकरणची उपयोगी आयठे, ते विना आय नही; तेम जीव पण शरीरोपकरण अवस्थारूप सामग्री थकी सर्व कार्य साधी शकेठे. चेत नमां कांई फेर नथी, चेतन सदासर्वदा सरखुंज ठे.

४४ नास्तिकः—जगत सर्व ईश्वरकृत होवाची सर्व पदार्थमां तथा सर्व जीवमां ईश्वरनी कला ठे.

आस्तिकः—जो एम होय तो घट, पट, स्तंन, कुंन, शास्त्र तथा नाषा इत्यादिक अनेक वस्तुनुं ज्ञान कोई एक जीवने ठे, ने कोईएक जीवने नथी. जे जीवने द्वेय पदार्थनुं ज्ञान ठे, तेने तो हे मूढमति, तूं ईश्वरनो अंश मानेठे, त्यारे श्वान, शूकर, रासज, मांजर, व्याघ्र, प्रमुख श्वापद चौपद जीवोने घटादिक पदार्थोनुं ज्ञान नथी तेथी तेओमां गुं ईश्वरनो अंश नथी? तमे तो जीवमात्रने ईश्वरनो अंश मानो ठो तेने बाध आवशे. जे ईश्वरनो अंश होय ते अज्ञानी केम होय? एथी जगत नो कर्ता ईश्वर अविवेकी ठरेठे. अने सर्वमां ईश्वरनी कला ठे, ए बोलवुं पण अ सत्य ठे; केमके जो एम होय तो सर्व सरखा ज्ञानी होवा जोये. तेम तो देखातुं नथी; माटे ए वात पण मिथ्या ठे. तेम सर्व जीव ईश्वरना अंशरूप ठे, एम जे तमे मानो ठो, ते पण अज्ञानी होवाने लीधे मानोठो माटे संजवे नही.

४५ नास्तिकः—ईश्वर नक्तवत्सल ठे, अने स्वेच्छाची जन्मधारण करेठे.

आस्तिकः—जो एम होय, तो नक्तोने शरीर मूकतां वेदना केम आय ठे? अ ने स्वजनादिकना कोलाहल शब्दो सांजलीने नक्तने वत्सलनावकारी आयुष्यवृद्धि केम नथी करतो? मरणादिक क्रिया तो सर्व ईश्वरना स्वाधीन ठे. ए आदि विचार करतां तमारुं बोलवुं बंधुं पोकल ठे. जीव तो कर्मने आधीन ठे. जेम के फ लीधेलो प्राणी तेनी जहेरने स्वाधीन थई जायठे, तेम जीवविषे पण जाणी लेवुं. जन्ममरण पण कर्माधीन ठे; तेने जे धारण करे ते ईश्वर शानो! ते तो संसारीज कहेवाय. ईश्वर तो कर्मची मुक्त होयठे, माटे तमारुं बोलवुं बंधुं व्यर्थठे.

४६ नास्तिकः—आ पंच महानूतोची उत्पन्न थएलुं जे विश्व, ते महा प्रलयना

समये पोताना कारण पंच महानूतोमां लीन यशे; ने पंच महानूतो ईश्वरमां लीन यशे.

आस्तिकः—जो एम होय तो ईश्वर जड मिश्रित थाय. अने ते समज तथा निर्मल ए बे अवस्थावालो कहेवाशे. ल्यारे केवल ज्योतिस्वरूपपणुं क्यां गयुं ? जे पंच महानूतोथकी जगतनी उत्पत्ति यई कहोडो ते तो सदा शाश्वत ठे. ते ओमां पृथ्वी, आप, तेज तथा वायु; ए चारे नूतो पोतपोतानी क्रिया करेडे, के म के, वनस्पति अने जंगम त्रसनी उत्पत्ति करेडे ते क्रियाविना थाय नही. एवी रीते तो जीवनी ठ खान शाश्वत सदा काल ठे, ल्यारे प्रलय ते शानो थयो ? जो एम कदेशो, के पंच महानूतो जगत विनिर्मित क्रिया करता नथी, ल्यारे तो ते नूतड्व्यरूप कथन मात्रज ठरशे. अने हरेक वस्तु पोतपोताना गुणविना रहे नही एवो नियम ठे. वली जो कदेशो के नूत तो अनंत कालना ठे. ल्यारे तो संसार पण अनंत कालनो ठरशे. तेनी उत्पत्ति तथा प्रलय केम कहेवाय ? ए तो जेम ठे तेम ठे. वली ईश्वर मनसा वाचा कर्मणा करि रहित ठे, अने एक थी अनेक थाउं एवी मननी इहा यई ल्यारे जगतनी उत्पत्ति करी. ए बे वाक्यो नो परस्पर विरोध ठे; केम के, प्रथम वाक्यप्रमाणे ईश्वर इहारहित ठरे ठे; ने बीजा वाक्यमां इहासहित कहो डो; एवो पूर्वापर वचनविरोध होवाथी तमारुं बोलवुं सर्व असमीचीन ठे.

४७ नास्तिकः— सर्व वस्तुनो ईश्वर अधिष्ठान ठे. ईश्वरनी इहाथी कृत तथा अकृत सर्वे थायठे.

आस्तिकः— जो एमठे तो घट ते पट केम थतो नथी ? पण तेम थाय नही; केमके, घटनुं कारण मृत्तिकानुं पिंम ठे, तेमांथी घटज थायठे. पण पटादि कार्य नथी थता. तेमज पटनुं कारण तंतु ठे, तेथकी पटज थायठे; पण घटादि क बीजा कार्यनी उत्पत्ति थायनही. जो एम थतुं न होय तो कारणथी कार्य थायठे, ए प्रवृत्ति मिथ्या थाय. माटे ईश्वरना अधिष्ठितपणातजे ईश्वरनी इहाथी कृत तथा अकृत सर्वे थायठे ए तमारुं कहेवुं सर्व व्यर्थ ठे.

४८ नास्तिकः— जीवने नवांतर थाय ठे खरुं, पण वेदनो वेद थतो नथी. पुरुष वेद ते स्त्री वेद न थाय, स्त्रीवेद ते पुरुषवेद न थाय ; तेम स्त्री तथा पुरुष ते नपुंस क वेद न थाय ; अने नपुंसकवेद ते पुरुष तथा स्त्री वेद न थाय. एम जाणवुं जोये

आस्तिकः—पुजलना परिणामनो नियम नथी. एना पुनः पुनः रूपांतर थया क

रेठे. मात्र अवस्तुपणुं पामता नथी, वस्तुपणे गमे ते रूपे थई जायठे. जेम जेंस ना शिंगमांथी केल थायठे; काशयकी सेरडी थायठे, माखीना हिंगारथकी कद लीनी नाजी थायठे. एवी रीते कर्मना परिणामे गत्यंतर थायठे. आगामिक जव नेविषे कायवेद पलटाईने ते नवा जवरूपे परिणामेठे. जेम सोनीना योगे सुव र्ण नाना प्रकारना आकाररूपे परिणामने पामेठे. तेम जीव कर्मना योगे नाना विध गतिओ पामेठे. ते तो रहुं, आ जवमां पण एकसरखी स्थिति रहेती न थी. जेम के, राजा ते रंक थई जायठे, ने, रंक ते राजा बनी जायठे, सुखी ते दुः खी, तथा दुःखी ते सुखवान थई जायठे. इत्यादिक आ जवमां पण पर्याय पलटाई जायठे; तो जवांतरमां केम एकरूपे रहे ? कर्मना बंध सादि ठे, माटे जेवो कर्म नो उदय तेवा फलनी प्राप्ति थायठे, एविषे कोई नियम थई शके नही. गमे ते वेद बदली ने गमे ते वेद कर्मना योगे थायठे एम जाणवुं.

४ए नास्तिकः—एम कहुं ठे के ब्रह्माना मुखमांथी ब्राह्मणो उत्पन्न थया, जुज थकी कृत्रिय थया, तथा जंधा थकी वैश्य थया, माटे ए त्रणे वर्ण उत्तम ठे, अ ने पादथकी शूद्र उत्पन्न थया माटे अधम ठे, एम जाणवुं.

आस्तिकः— ए वात संजवित नथी. जुवो के, उबराना वृद्धमां पेड, दाल, तथा पत्रनेविषे सरखां फल लागेठे. ते सर्व फलोनुं रूप सरखुं होयठे; तथा ते ओमां रस पण सरखोज होयठे. तेश्रोमां कोई प्रकारे उत्तम तथा अधमता क हेवाय नही. तेमज ब्रह्माना शरीर थकी उत्पन्न थया जे चार वर्ण, ते सर्व चेतन रूप होवाथी सर्व जीव सरखा जाणवा. उत्तम मध्यम वर्गरे सर्व लौकिक कार्य थकी कहेवायठे. पण चेतनपणे तो सर्व सरखा ठे. एना उपर एक दृष्टांत कहुं ठे. चारे वर्णना मनुष्य एक तलावने कांठे बेशीने पाणी पिथे ठे; तेशी कोई वट लतो नथी. पण ते तलावमांथी पाणी नरीने पोतपोताना वासणोमां लीधा पढी हलका वर्णना वासणनुं पाणी उंचा वरणवालो माणस पीए तो वटले ठे. फरी चारे वर्णना नरेला पाणीना वासणो मानुं पाणी ते तलावमां नाखीने पी तां कोई वटलतुं नथी तेनुं कारण शुं ? माटे पाणीमां वटलवापणुं नथी. ने वा सण तो सर्वनां सरखा ठे. माटे वटलवुं ए मननी मानीता ठे; अने एवीलोक म र्यादा ठे. ज्यां सुधी मननो मिथ्याजाव ठे, त्यां सुधी निन्न पणुं ठे एम जाणवुं.

५० नास्तिकः— समदृष्टीने विषे मिथ्याजाव होतो नथी, तेम ठतां ते निन्न जाव केम राखेठे ?

आस्तिकः—लोक मर्यादा लोपवी नहीं ए नीति ठे तेनो लोप करवो नहीं. जे कार्यनी जगत निंदा करे ते कार्य करवो नहीं एवं श्रेष्ठोतुं वचन ठे तेनो पण लोप करवो नहीं. तेषीज समदृष्टि पण तेवुं आचरण करे ठे पण मनयकी स म दृष्टिने कांइ नथी.

५१ नास्तिकः— सर्व कार्यनो कर्ता ईश्वर ठे, एम मानवुं जोये के नहीं ?

आस्तिकः— एम मानवुं नहीं जोये. ए वचन प्रलाप ठे. ईश्वरविषे कर्तृत्व होयज नहीं. घट, पट, कृषि, संग्राम, खान, पान, दान, मान, स्नान, तप क्रिया, विनय तथा व्यावच इत्यादिक सर्व पदार्थानां कारण काल, स्वभाव, नियत, पूर्वकृत कर्म, तथा पराक्रम ए पांच ठे. जेम के, तंतुना पुंजमांथी पटनी उत्पत्ति थवानो जे समय ते काल समजवो; तंतुना पुंजने पटनी उत्पत्ति करवानीजे योग्यता ते स्वभाव जाणवो; तंतुना पुंजमांथी पटनी उत्पत्तिनुं जे निमित्त थवुं ते पूर्व कर्म समजवुं, अने तंतुना पुंजमांथी पटनी उत्पत्ति करवानो जे उद्यम करवो ते पराक्रम जाणवो; ए पांचमाथी एक ओतुं होय तो वस्तुनी उत्पत्ति थई शके नहीं. ए पांचनां समुदायथी घटपटादिक सर्व कार्योंनी उत्पत्ति थायठे; एणुछ मत जाणवुं.

५२ नास्तिकः— जो कुठ होता है, सो अल्लाहुतालाके दुकमसें होता है; और किसीका किया कुठ होता नहीं; यही बात रास्त है.

आस्तिकः— जो ऐसे होवै, तो अल्लाहुतालाने पैदा किये हुये. इमामे हसन और हुसन, काफिरोंके हातसें कैसे मारे गये ? वे तौ खुदाके प्यारे बंदे थे, तिनकुं काफिरोंने मारे, ये बड़ी अजायबकी बात है. तिनकुं बचानेके वास्ते खुदा ना कौवत था ? इमाम किसीके गुनेहगारजी नहीं थे; वे क्युं मारे गये ? इसवास्ते जो होता है, सो तकदीरसें होता है. जो जैसा करता है, सो तैसा पावता है, तामें अल्लाहुतालाका कुठ वास्ता नहीं है. यही बात रास्त है.

५३ नास्तिकः— अल्लाहुतालाने इमामोंका दिल देखनेके वास्ते आजाब दियाथा.

आस्तिकः— आजाब दिये शिवाय तिनोंके दिलकी बात खुदा नहीं जाणता था ! जो कहोगे की नहीं जाणताथा, तौ खुदामें खुदापना क्या रहा ! खुदा तो सब जानता है, ऐसे तुमारे कुरानेशरीफमें कहा है. एसै होके नी इमामोंकुं मारनेकी दयानत जो काफरोंने करीथी सो खुदा जानके नी कैसे चुप रहा ! इ सवास्ते ये बात नी गलत है.

५४ नास्तिकः— आदमी मरगये बाद जीकूं फिरस्त लेजाते हैं ये बात तो सच्च है की नहीं ?

आस्तिकः— इस बातकूं कौन फूठ कहता है ? लेकिन समजमें कुछ फरक है. तुम कहते हो की कीयामततक जीकूं एक ठिकानेमें रखते हैं, पीठे खुदाके पाश ले जाके इन्साफ करवाते हैं; ऐसे नहीं होवै है. लेकिन उसीवस्तु जी अपनी त गदीरके जिये अठा या बुरा फल पावता है. तुमनी सुख, दुःख, नेहेस्त औं दोज क तो मानते हो ! सो जैसी जीने करनी करी होवै तेसी गति उसकु मलती है.

५५ नास्तिकः— अद्वाहुताजाने ऐसे फरमाया है की जो किसीकूं इजा देता है सो मारने लायक है.

आस्तिकः— कबू माबाप ठोकरेकूं इजा देते हैं, आ कबु ठोकरा माबापकूं इजा देता है; कबू पीर मुर्विदकूं इजा देता है, औं कबू मुर्विद पीरकूं इजा देता है; कबू नोकर खाविंदकूं इजा देता है, कबू खाविंद नोकरकूं इजा देता है; ऐसे खुदाकी खलकतमें जहांतके जी हैं, वे सब इजा देनेवाले होनेते जो सब मारने लायक हो वै तो खैर महिर कैसे रहेगी ! औं रहम करने लायक कोई जी नहीं रहेगां और इमामोकूं जब काफरोने इजा दी, तब तिनोकूं कायके वास्ते इमामोने मारे नहीं इस वास्ते जो होवै है सो तगदिरसें होवे एसे जानना चाहिये.

५६ नास्तिकः—मांसाश्वाहारी पापिष्ठ कहे ठे. आ इनीआमां जलचर, स्थलचर, तथा खेचर प्रमुख जे नाना प्रकारना जीव ठे, तेओने बेशक मारी नाखवा, अने तेओनुं मांस नरुण करवुं. एम अमने साहेबे फरमाव्युं ठे, ते प्रमाणे करवामां शुं गुनाह तथा पाप ठे ?

आस्तिकः—तमारा कह्या प्रमाणे जीवने मारवुं ए खुदानो हुकम ठे, ते कोई ए फेरववो जोये नहीं. जो फेरवीए तो गुनेहगार ठरीए, एम सिद्ध थायठे ; त्यारे कोई वाघ अथवा सिंह प्रमुख मनुष्यनो आहार करनार जीव, तमने मारवा आ वेठे, तेथी मरीने तमे केम नाशी जाओठो ? अने ते प्राणीने नाना प्रकारना ह थीअार वगैरेनी सहायता वमे केम मारवा तैयार थाओठो ? अने जो ते जीव तमारा दावमां आवी जाए तो केम मारीनाखो ठो ? जेम खुदाए तमने जीव मारवाने फरमाव्युं ठे तेम तेओने एण मनुष्य मारवाने फरमाव्युं ठे ! ते प्रमाणे तेओ पोतानुं कृत्य करेठे ; तेओने मारवुं लायक नथी. जो तेओने मारवानुं त मने लायक दीशतुं होय, तो जे जीवोने तमे मारोठो, तेओए अथवा तेओने वा

स्ते कोई बीजा प्राणीए तमने मारवुं पण नाजायक नथी; लायकज ठे. माटे जेम वाध वगैरे प्राणीओ जीव घातक होवाथी मारवा योग्य ठे. तेम तमे पण जीव घातक होवाथी मारवा योग्य ठो. एम तमारे कबूल करवुं जोइशे. जो कबूल नही करशो, तो खुदाना गुनेहगार ठरशो माटे हे महामदीयन मुसलमीनो वगैरे, जीव मारवामां खुदानोहुकम होयज नही. जो एम होय तो खुदा रहम विनानो ठरे. खुदा तो रहमदिल ठे, एवुं तमारा रसूलिह्वाए कुरानेशरीफमां फरमाव्युं ठे. तेने बाध आवशे. ए उपरथी एवुं जणाय ठे के, कोई एक पुरुषने कोई कारणने लीथे अचानक मांसनो आहार मली गयाथी, तेने तेनो स्वाद लागो तेथी, व्यसन पडी गयुं, ने पढी लोकापवादसारु खुदाए फरमाव्युं ठे, एम कहीने बचारा खुदाने हिंसक ठेरव्यो जणाय ठे. तेमां केटलो गुनाह ठे ! एनो विचारतो करो ! ते प्राणीओने मारवाने खुदा फरमावे त्यारे बीजी अन्नादिक वस्तुओ पेदा शावास्ते करे ? ए उपरथी साफ जणायठे के, अन्नादिक वस्तु खावायोग्य ठे, पण मांस खावायोग्य नथी. ते म ठतां जे जीनना स्वादने अर्थे खायठे ते राहसतुव्य जाणवा.

वली मुसलमीन प्रमुखने बीजुं युक्तिथी समजावे ठे के, तमारा किताबोमां आबने पाक वस्तु कहीठे, अने पिशाबने नापाक वस्तु कहीठे, पाक वस्तुथी जे पेदाश थायठे, ते पाक कहेवायठे, अने नापाक वस्तुथी जे पेदाश थायठे ते नापाक कहेवायठे. जेम के, अन्न वगैरे पदार्थो जे पाणी थी पेदा थायठे, ते पाक ठे; अने पिशाबथी जे कीटकादिक पेदा थायठे, ते नापाक ठे. एवुं तमे पण मानो ठो. परंतु तेम चालता नथी. केमके मांसाहार करो ठो. जुओके प्राणिमात्र पिशाबनी पेदाश ठे. ते पिशाब ज्यारे नापाक त्यारे तेथी पेदा थयेला प्राणीओ केम पाक होय ! ते ओना मांसने तमे पाक मानो ठो, ए केटली बेवकूफी ठे वारु ! जो मांसने पाक मानशो तो पिशाबने नापाक कहेवाशे नही; ने जो पिशाबने नापाक मानशो तो मांसने पाक मानशे नही. जेवुं कारण तेवो कार्य एवो डुनीयामां नियम ठे. ज्यारे पिशाब जेवो मांस ठे, त्यारे तेनो आहार कखाथी दोजकमां गयाविना केम रहेशो ! एनो पाको विचार करीने मांस नहूण मूकी द्यो; अने पाक पाणीनी पेदाश अन्न फल, तथा फूल वगैरे अनेक स्वादिष्ट पदार्थोनो आहार करीने ! परंतु तमे मानशे नही. केमके एतो जन्मनी आदत पडीगई ठे. कसुं ठे के, तहाड जाए रुएने आदत जाय मुए; तेम तमारी आदत हमणा जनार नथी; पण याद राखजो के किया मतने दहाडे जबाब देवो पडशे त्यारे आंखो, फाटीने पडोला थशे हो !

५७ नास्तिकः— याज्ञिक नास्तिको प्रश्न करे ठे के, यज्ञनेविषे होम करवासारु जी वने मारवुं योग्य ठे. केमके ए कृत्य शास्त्रविहित ठे; माटे एमां पाप नथी; पण पुण्य ठे. यज्ञनेअर्थे जे जीव मरे ठे. ते स्वर्गमां जायठे; माटे ते केम न करवुं ?

आस्तिकः— यज्ञादिकने अर्थे जे जीवनी हिंसा करवी ते योग्य नथी. केमके, हिंसानो परिणाम ते पुण्य होयज नही; किंतु पाप होयठे. एवो नियम ठे. जे शास्त्रोमां पशु होमवानुं कहुं ठे, ते शास्त्र नही पण कुशास्त्र ठे. अने तेनी रचना कर नारा मनुष्य नही पण मनुष्यरूपे राक्षस ठे; एम निश्चय जाणवुं. जे पापने पुण्य माने तेना करतां बीजो पापी कोण ! यज्ञमां होमायवुं जीव जो स्वर्गमां जतुं होय तो यज्ञ करनारा तथा करावनारा पोते होमाईने केम स्वर्गमां जता नथी ! पोते एम करता नथी तेथीज जणाय ठे के, ए कल्पित वचन ठे; यज्ञमां पश्वादिकनो होम शिव, ब्रह्मा, अने विष्णु आदिक देवताअोने अर्थे करेठे. अने तेनो बली नोग ते देवताअो लियेठे. ए वात जो साची होय, तो ते देवताअो मांसाहारी ठरठे. देवताअोने जो मांस नरूपण करवानी आदत होय, तो तेअो मनुष्यना हाथे शासारु लीये ! गुं तेअो पोते आहारने अर्थे मांस मेलवी शकता नथी ? तेअो तो मोटा सामर्थ्यवान कहेवायठे. ते सामर्थ्य केम फोरवता नथी ! जे जीवना मांसनो बलिदान तेअोने आपेठे, ते जीवोनी उत्पत्ति पण तेअो पोतेज करेठे; एम तमे मानो ठे. पोते जीवोने उत्पन्न करी तेने मनुष्यना हाथे मरावीने तेनो बलिदान पोते जेवो ए गुं देवताअोने योग्य ठे ! एम तो कोई साधारण माणस पण करे नही, ते कृत्य देवताअोने केम संजवे ? जो ते देवताअोने मांस नरूपण करवानी होंस होय, तो पोताने माटे जुदीज जातना कोई जीव विनाना एवाज स्वादवाला पदार्थनी उत्पत्ति करी, ते पदार्थनो आहार करवाने गुं हरकत ठे ? माटे ए बधी वात मनकल्पित ठे, उत्तम देवताअोनेविषे एवी कल्पना करवी योग्य नथी. जो ए वात तमारा कह्या प्रमाणे साची होय, तो ते उत्तम देव नही, पण अधम कहेवाय. याज्ञिक लोको होमादिकने अर्थे जीवघात करी, तेनो बलिदान दीधाथी पोताने नक्त समजे ठे. पण एहवुं नक्तनुं लक्षण होय नही; देवनक्तनुं अंतःकरण शुद्ध होयठे. तेमां मलिन वासना उत्पन्न थायज नही. जो मलिन वासनावालाने नक्त कहिये, तो अनक्त कोने कहीगुं ! माटे एवुं हिंसारूप कृत्य करनारने नक्त मानवो नही; पण अजक्त मानवो. अने ते निश्चय नरकगामी ठे, एमां रंचमात्र संशय आणवो नही.

५८ नास्तिकः— कोइ वेदधर्मी प्रश्न करे ठे के, तमारा जैनमतमां जीवना स्वरूपा दिक्नेविषे केवीरीते वर्णन करेलुंठे ? तेने उत्तर दिये ठे के, सर्वज्ञ केवलीए आबी रीते कह्युं ठेः—सर्व लोकनेविषे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय तथा पुज्जास्तिकाय ए ठ इव्य नरपूर ठे. ए ठ ए इव्य पोतपोताना गुण तथा पर्याये करी पूर्ण ठे. सदा नावरूप ठे. जगतनी स्थिति जेम वर्तमान कालमां ठे, ते मज नूत कालमां हती, अने नविष्य कालमां पण एवी रीतेज जाणवी. ते मध्ये जीव अने पुद्गल अनंत काल लोलुपनूत ठे. एटले जेम हीर तथा पाणी अने मृत्तिका तथा धातुनुं मिश्रण थयाथी एक रूप बनी जाय ठे. तेम जीव तथा पुज्जलोपण एकरूपे रहे ठे. समय समयने विषे नवां कर्म जीवबांधे ठे. अने समय समयने विषे पूर्व कर्म निर्जरीने बूटी पण जाय ठे. कर्मोनी उत्पत्ति तथा नाशमां ईश्वरनुं कांइ कारण पणुं नथी ईश्वर तो अकर्ता ठे, तेने विषे कर्ता पणुं कल्पाय नही. माटे ईश्वर कोइनुं कारण नथी. काल, स्वभाव, नियत, पूर्व कर्म, तथा पु रुषाकार ए पांच कारणो उत्पत्तिना कहां ठे. एणे करीनेज पुण्य पाप जन्य स्वर्ग नरकने विषे गमनागमन थाय ठे. अने दंभकमां जे नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देवतानी चोवीश गतिओ कही ठे. ते प्रमाणे नवपरंपराने पामेठे. अने पोताना उपार्जेला शुभाशुभ कर्म जोगवे ठे. ते ते नवने विषे ज्ञानावरणादिक आठ कर्मने अनुसारे वर्ते ठे. जेम माटीनी नरेली तूंबी जलमां नाखीए तो ते माटीना नारने लीधे मूंबी जाय ठे. पढी जेम जेम ते माटी, तेमांथी ओढी थती जाय तेम तेम ते तूंबी उपर आवती जाय ठे. ज्यारे बधी माटी नीकली जाय त्यारे पाणीनी उपर तरती रहे ठे. पण पाणीथी उपर जाय नही तेवी रीते जीव पाप कर्मथी लेपायो थको अधोगतिने पामे ठे. पढी जेम जेम ते कर्मनी न्यूनता थती जाय तेम तेम ते ऊर्ध्व गतिने पामतो जाय ठे, ज्यारे बधा कर्मानी नाश थई जाय ठे. त्यारे ते जीव लोकाग्रने विषे प्राप्त थाय ठे; पण तेनी उपर अलोकमां गमन करतो नथी, जेवी रीते तूंबी जलना योगे उंची आवे ठे, तेम जीव धर्मास्तिकायना योगे लोकांत रूप ऊर्ध्व गति पामेठे.

वादी आशंका करे ठे के, मनुष्य शाना बलथी सात राज लोक सुधी ऊर्ध्व गमन करे ठे ? जीव तो चौदमे गुणवाणे अयोगी थाय ठे. एनो उत्तर दिये ठे के, जेम धनुष्यथी जे बाण बूटे ठे. ते पूर्व जोरना बलथी चालेठे. तेने वचमां बीजो कोई चलावनारो जोई तो नथी. ज्यारे धनुष्यमांथी बाण बूटे ठे, ते कृणने विषेज नि

यमित ठेकाणे पहोतो एम समजवुं. ए विषय उपर बीजा पण त्रण दृष्टांतो ठे. कुंजकारनो चक्र, अग्निनो धूमाडो, तथा एरंडीओ ए चार दृष्टांत वडे जाणी लेवुं.

५९ नास्तिकः—कर्मकृत्य थया पठी जीव अलोकनेविषे केम जतो नथी! जो जायतो वचमां तेने कोण रोकनारो ठे?

आस्तिकः—चलन शक्तिने सहाय आपनारुं जे धर्मास्तिकाय इव्य, तेनुं त्यां आजंबन नथी. धर्मास्तिकाय इव्य लोक प्रमाणोज ठे. ते थकी अधिक नथी. तेथी अलोकमां जवाने जीव तथा पुजलनी गति थती नथी.

६० नास्तिकः—कर्मोनो कृत्य करीने सिद्धावस्थाने पामेजां जे सिद्ध जीवो ते सिद्धक्षेत्रे समश्रेणीए जायठे. पण स्थानांतरनेविषे जता नथी तेनुं कारण शुं?

आस्तिकः—ते समयनेविषे कोई प्रेरक नथी. प्रेरणाविना चक्रत्रमण थाय नही, तेथी सिद्धना जीवो समश्रेणीए सिद्धसिला उपर जायठे.

६१ नास्तिकः—सिद्धने शरीरनो अनाव थायठे. त्यारे अवगाहना केम कही ठे?

आस्तिकः—जेम ढारानुं वासण बनाववाने अर्थे प्रथम तेना जेवो मेणनो आकार करवो पडेठे. तेमां ते रस ओल्याथी ते धातुनो तेवो आकार थायठे. ते वासण मेणथी बूटूं कखा पठी पण मेणनो आकार थायठे. कदाच मेण गाली नाखीए तो पण ते आकारपणुं जतुं नथी, केमके वासणनो आकार जे कायम रहेठे. ते पण ते मेणना आकार जेवोज ठे; तेथी आकारपणुं कायम रहेठे. तेम जीव जे शरीराकारे थयोठे. ते शरीरनो अनाव थया पठी पण सिद्ध पुरुषनो आत्मा ते शरीरनी अवगाहनारूपे रहेठे. एटले आउखाने अंते जेवो सिद्धना शरीरनो आकार रहेठे. तेवोज जीवना प्रदेशोनो अरूपी आकार रहेठे.

६२ नास्तिकः—जेम जलमां जल मले ते एकरूपे थई जायठे. निन्नता देखा ती नथी, तेम अनंत सिद्ध एकरूपे थई रहेठे के चेतन इव्यपणुं जुडं जुडं ठे.

आस्तिकः—ज्यारे जलना बिंडुओ मलीने एक जलनो पिंम थाय; त्यारे एक ज जल कहेवायठे. पण ज्यारे जलना बिंडु जुदा जुदा होय त्यारे बिंडु कहेवायठे. एक जल कहेवाय नही. तेम सिद्ध पणे सर्व एकज ठे; परंतु चेतन इव्ये करी सर्व निन्न निन्न ठे. ते उपर दृष्टांत; जेम अनेक शीपीओथकी उत्पन्न थएला अनेक मोतीओ जुदा जुदा होयठे, तेओमांता केटलाएक जईने एक मोटो ढगलो करिये. ने पठी तेओ विषे विचार करिये के ए ढगलामां एकता अनेकता शुं ठे? तो तरत जणाओ के ते मोतीओ उज्वलता गुणरूपे सर्व एक ठे. पण

आकाररूपे सर्व जुदा ठे. तेम सिद्धो सर्व सिद्धतारूपे तो एक ठे. पण चेतन इव्य रूपे जुदा ठे, एविषे धान्यना पुंज वगैरे घणा दृष्टांतो ठे तेथी विचारी लेवुं. वली सर्व सिद्धोनुं सिद्धरूपपणुं एक सरखुं होवार्थी जाति वाचकपणे तेथी एकज कहेवाय; पण इव्यपणे अनंता कहेवायठे, माटेज जगतमां एवी वदंता ठे के, “प्रभु एकमां अनेक ठे, अने अनेकमां एक ठे” कोई सिद्धमां मोटा नाहनापणुं नथी, सर्व समान ठे. मोटामां मोटापणुं तेनी पोतानी अपेक्षा ए नथी थतुं पण बीजा नाहनानी अपेक्षा ए थायठे, मोटो पोताना स्वरूपे करी शुं मोटापणुं पामेठे, जो मोटो कहेशुं तो कोई काले नाहानो थवानो संजव थरो ! अने नहानो थयार्थी स्वरूपमां अपूर्णता थरो, माटे सिद्ध बधा सरखा ठे. एम जाणवुं. अने सिद्ध जनना कर्मना अंश सर्व क्य थई गयार्थी पुनरपि जगतमां आगमन थतुं नथी. जेम चुंजेजा अनाजना दाणाने पृथ्वीमां वावीए तो ते उगे नही; तेम सिद्ध पणपाठा संसारीजीव थायनही. केमके संसारमां आववुं कर्म विना थतुं नथी.

६३ नास्तिकः— ईश्वर पृथ्वीनो नार उतारवाने अर्थे अवतार धारण करेठे ए वात सत्य ठे के मिथ्या ?

आस्तिकः— ईश्वरने तो कोई शत्रु मित्र नाव नथी. तेम ठतां दानवने मार वासारु तथा देवताथोने निर्णय सुखी करवासारु अवतार धारण करे तो दानव शत्रु अने देवता मित्र ठखा के नी ! जेने शत्रु मित्र नाव होय तो ते ईश्वर शानो ! अने दानवोने प्रथम उत्पन्न शासारु कखा के जेथोने मारवासारु पोताने माताना उदरमां आवी नाना प्रकारनी वेदनाथो सहन करी संग्रामादिक आपत्ति वेठवी पडी ! वली दानव अने देवताथोनो ईश्वर तो एकज ठे, सर्वमां तेज ईश्वरनी कला ठे. तेम ठतां दानवनी उत्पत्ति करी तेथी ईश्वरमां अज्ञानपणुं आवरो संसारमां त्रण प्रकारना जीव होय ठे. एक धर्मी, बीजा पापी, त्रीजा महापापी. जे कोईने मारे नही ते धर्मी कहेवायठे. जे बीजा जीवने मारे ते पापी कहेवायठे ने जे पोताना जीवना घात करे ते महापापी कहेवायठे. ईश्वरे देव तथा दानव वगैरेनी उत्पत्ति करी तेमां पोते अंशरूपे प्रवेश कखो ठतां तेथोने माखार्थी आत्मघाती ठरो ने तेम ठखाथी महापापी कहेवाशे.

६४ नास्तिकः—स्नाने करीने शुद्ध थवुं ए मुक्तिनुं अंग ठे.

आस्तिकः—पेटमां रोग होय ने शरीरनी बाहेर लेप लगाडीए तो ते रोग कदी मटे नही. तेम आत्माना कर्म विकार ते शरीर शुचिथी कोई काले जाय नही. ए

उपर दृष्टांत कहुं तुं. जेम कोई मोटी हवेलीमां बालक मृतखो होय ते शुद्ध करवा ने जेटली नूमि बगमी होय तेटलीज धोवी जाइये. तेम शरीररूप हवेली कर्म करी मलीन थई होय तेटलीज तपसायें करी शुद्ध करवी. पण आखा शरीरने स्नान, मज्जन, स्वह्न वस्त्रादिक, तथा सुगंध्यादिक करवानुं कांई काम नथी; स्नान तो सोल शृंगारमांनो प्रथम शृंगार ठे. ते सर्व शृंगारनो त्याग करे त्यारे ब्रह्मचारी कहेवाय. कर्म निर्जराने अर्थे मुनिने ब्रह्मचर्य व्रत पालवो कह्यो तेथी पण स्नान करवुं नही एवुं सिद्ध थाय ठे.

६५ नास्तिकः—यह दुनिया सब खुदाने पैदा करी है.

आस्तिकः—यह दुनिया सब खुदाकी करी होवै तो जो खुदाका बंदा हरवखत खुदाकी बंदगी करै, कुरान बांचै, नमाज करे, औ रोजा रखै, तिसीकूं दुनियांकी नियामते जैसेकी आल औलाद औ पैसा वगैरा मिलना चाहिये; औ हिंडु व गैरा सब फकीरके माफक होना चाहिये. तैसे तौ नही होता है. दूसरे जी अ ठी सल्तीनत वाले आंखोके सामने मौजूद है. इस वास्ते ये बात रास्त नही है जो होवै है सो सब तकदीरसैं होवै है.

६६ नास्तिकः—आ संसार रामे उत्पन्न कह्यो ठे.

आस्तिकः—जो आ जगत रामनुं उपजावेळुं होय. तो जेओ हमेश रामनी जक्ति करेठे. पुराण वांचेठे. वंदना करेठे. तथा एकादशी आदिक व्रत राखेठे तेओने सर्व इव्यादिक संपत्ति मलवी जोये. बीजाओने विपत्ति होवी जोये. ते म तो दीठामां आवतुं नथी. बीजा मुसलमानादिक पण महा संपत्तिवान दीठामां आवे ठे तेथी बंधुं कर्माधीन ठे.

६७ नास्तिकः—अंगदान (कन्यादान) दीधायी पुण्य थाय ठे. केमके. स्त्रीपु रुष हलीमली मैथुन क्रियाना सुखने पामे ठे. तेनुं फल दानदेनाराने थायठे.

आस्तिकः—नाई, तारा जेवो पूर्वपक्की तो एके मत्स्यो नथी. तें तो आडो आंक वाव्यो. पण नाई, मैथुन क्रिया तो सर्व थकी अशुद्ध ठे; यवन लोको पण इमाम ना दशरानी क्रिया करेठे; त्यारे मैथुन सेव्याना वस्त्र पहरेरीने करता नथी केमके ते वस्त्रने तेओ नापाक कहेठे. तेमज हिंडुओ देवपूजामां, व्रतने दिवशे तथा तीर्थयात्रामां मैथुननो त्याग करेठे. जे मुमुक्षु (मुक्तिनी इच्छा करतो होय) तेणे प्रथम मैथुननो त्याग करवो. ए कृत्य नरकनो हेतु होवाथी सर्वथा निंदनीक ठे.

इति श्री आस्तिक नास्तिकनो संवाद संक्षिप्त रूपें समाप्तः

॥ ॐ श्री जिनाय नमः ॥

अथ श्रीयशोविजयजी उपाध्यायकृत सम्यक्तना
सडसठ बोलनी सजाय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ ॥ सुकृत वह्निकादंबिनी । समरी सरसति मात ॥ समकित सड
सठ बोलनी । कहिशूं मधुरी वात ॥ १ ॥ समकित दायक गुरुतणो । पञ्चुवयार
न थाय ॥ जव कोडाकोडे करी । करतां सर्व उपाय ॥ २ ॥ दानादिक किरिया न
दिये । समकित विण शिवशर्म ॥ तेमाटे समकित वडूं । जाणो प्रवचन मर्म ॥ ३ ॥
दर्शन मोह विनाशथी । जे निर्मल गुणठाण ॥ ते निश्चय समकित कह्यो । तेहना
ए अहिठाण ॥ ४ ॥ ॥ ढाल ॥ देइ देइ दरसण आपणू, एदेशी ॥ ॥ चउ सदहणा
तिलिंग ठे । दशविध विनय विचारोरे ॥ त्रिण शुद्धि पण दूषण । आठ प्रजाविक
धारोरे ॥ ५ ॥ त्रूटक ॥ प्रजाविक अड पंच नूषण । पंच लक्षण जाणियें ॥ षट् जयण षट्
आगार जावन । ठव्दिहा मन आणियें ॥ ५ ॥ षट् ठाण समकित तणा सडसठ ।
जेद एह उदार ए ॥ एहनो तत्व विचार करतां । लहीजे जवपार ए ॥ ६ ॥ ढाल ॥
चडु विह सदहणा तिहां । जीवादिक परमठोरे ॥ प्रवचनमां जे नाषिया । लीजे ते
नो अठोरे ॥ ७ ॥ त्रूटक ॥ तेहनो अर्थ विचार करिये । प्रथम सदहणा खरी ॥ बीजी
सदहणा तेहना जे । जाण मुनिगुण जवहरी ॥ संवेग रंग तरंग लीजे । मार्ग शुद्ध
कहे बुधा ॥ तेहनी सेवा कीजिये जिम । पीजिये समता सुधा ॥ ८ ॥ ढाल ॥ सम
केत जेणे ग्रही वमिकं । निन्हव ने अहठंदारे ॥ पासडाने कुशीलिया ते । वेष
विमंबक मंदारे ॥ ९ ॥ त्रूटक ॥ मंदा अनाणी दूर ठंगो । त्रीजी सदहणा ग्रही ॥ परद
शीनीनो संग तजिये । चौथी सदहणा कही ॥ हीणातणो जे संग न तजे ।
तेहनो गुण नवि रहे ॥ ज्यूं जलधि जलमां नब्यूं गंगा । नीर लूणपणू लहे ॥ १० ॥
॥ ढाल ॥ कपूर होवे अति कजजूंरे; एदेशी ॥ ॥ त्रण लिंग समकित तणारे ।
पहिलो श्रुतअजिलाष ॥ जेहथि श्रोता रस लहेरे । जेवो साकर डाखरे । प्राणी, धरियें
समकित रंग । जिम लहिये सुख अचंग रे । प्राणी, टेक ॥ ११ ॥ तरुण सुखी
स्त्री परिवखोरे चतुर सुणे सुरगीत ॥ तेहथि रागे अति घणो रे । धर्म सुण्यानी री
त रे । प्राणी ० ॥ १२ ॥ नूख्यो अटवी कतखो रे । जिम द्विज घेवर चंग ॥ इठे
तिम जे धर्मेने रे । तेहज बीजूं लिंग रे । प्राणी ० ॥ १३ ॥ वैयावच्च गुरु देवनूं

रे । त्रीजुं लिंग उदार ॥ विद्या साधक तणि परे रे । आजस नविथ लगार रे ।
 प्राणी० ॥ १४ ॥ ॥ ढाल ॥ प्रथम गोवालातणे नवेजी, ए देशी ॥ ॥ अरिहंत ते जि
 न विचरता जी ॥ कर्म स्वपी दुआ सिद्ध ॥ चेइय जिण पडिमा कही जी । सूत्र
 सिद्धांत प्रसिद्ध । चतुर नर, समजो विनय प्रकार । जिम लहिसे समकित सार ।
 चतुर० ॥ १५ ॥ धर्म खिमादिक नाखेओ जी । साधु तेहना गेह ॥ आचारय आ
 चारना जी । दायक नायक जेह । चतुर० ॥ १६ ॥ उपाध्याय ते शिष्यने जी ।
 सूत्र जणावण हार ॥ प्रवचन संघ वखाणिये जी । दरसण समकित सार । च
 तुर० ॥ १७ ॥ जगति बाह्य प्रतिपत्तिथी जी । हृदय प्रेम बहुमान ॥ गुण शुति
 अवगुण ढांकवा जी । आशातननी हाण । चतुर० ॥ १८ ॥ पांच जेद ए दश त
 णो जी । विनय करे अनुकूल ॥ सीचे तेह सुधारसें जी । धर्म वृद्धनं मूल । चतुर० ॥
 १९ ॥ ढाल ॥ ॥ धोबीडा तूं धोए मननूं धोतीयू रे ॥ ॥ एदेशी ॥ ॥ त्रण शुद्धि सम
 किततणी रे । तिहाँ पहिली मन शुद्धि रे ॥ श्री जिनने जिनमत विना रे । ऊठ स
 कल ए बुद्धि रे ॥ चतुर विचारो चित्तमां रे । टेक ॥ २० ॥ जिन जगतें जे नवि थयुं
 रे । तेबीजाथि नवि थाय रे ॥ एवुं जे मुख नाखिये रे । ते वचन शुद्धि कहिवाय रे । च
 तुर० ॥ २१ ॥ ठेद्यो जेद्यो वेदना रे । जे सहतो अनेक प्रकारे ॥ जिण विण पर सुर
 नवि नमे रे । तेहनी काया शुद्ध उदाररे । चतुर० ॥ २२ ॥ ॥ ढाल ॥ मुनि जन मारगनी,
 ए देशी ॥ ॥ समकित दूषण परिहरो । तेमां पहिली ठे शंका रे ॥ ते जिन वचन
 मां मत करो ॥ जेहने समनूप रंका रे । समकित दूषण परि हरो ॥ टेक ॥ २३ ॥
 कंखा कुमतनी वांठना । बीजूं दूषण तजिये ॥ पामी सुरतरु परगडो । किमबाऊल
 जजिये ॥ समकित ० ॥ २४ ॥ संशय धर्मना फलतणो । वित्तिगिह्वा नामे ॥ त्रीजुं दूषण
 परिहरो । निज शुज परिणामे ॥ समकित ० ॥ २५ ॥ मिथ्यामति गुण वर्णनो ।
 टालो चोथो दोष ॥ उन्मारगि शुणतां दुवे । उन्मारग पोष ॥ समकित ० ॥ २६ ॥
 पांचमो दोष मिथ्यामती । परिचय नवि कीजे ॥ इम शुज मति अरविंदनी । न
 ली वासना लीजे ॥ समकित ० ॥ २७ ॥ ॥ ढाल ॥ जोलिडा हंसारे विषय न रा
 चीये, ए देशी ॥ आठ प्रनाविक प्रवचनना कहा । पावयणी धुरि जाण ॥ व
 र्तमान श्रुतना जे अर्थनो । पार लहे गुण खाण ॥ धन धन शासन मंजन सु
 निवरा । टेक ० ॥ २८ ॥ धर्म कथी ते बीजो जाणिये । नदिखेण परि जेह ॥ नि
 ज उपदेशेरे रंजे लोकने । जंजे हृदय संदेह । धन धन ० ॥ २९ ॥ वादी त्रीजोरे त
 र्क निपुण जण्यो । मल्लवादी परि जेह ॥ राजदारेरे जयकमला वरे । गाजंतो जिम

मेह । धन धन० ॥ ३० ॥ जडबाहु परि जेह निमित्त कहे । परमत जीपण का
 ज ॥ तेह निमित्तीरे चोथो जाणिये । श्री जिनशासन राज । धन धन० ॥ ३१ ॥
 तप गुण ऊपर रोपे धर्मने । गोपे नवि जिन आण ॥ आश्रव लोपेरे नविकोपे क
 दा । पंचम तपसी जाण । धन धन० ॥ ३२ ॥ ठठो विद्यारे मंत्र तणो बलि । जिम
 श्रीवयर मुण्डि ॥ सिद्ध सातमोरे अंजन योगथी । जिम कालिक मुनि चंद । धन
 धन० ॥ ३३ ॥ काव्य सुधारस मधुर अर्थ नखा । धर्म हेतु करि जेह ॥ सिद्धसेन
 परि नरपति रीजवे । अछम वर कवि तेह । धन धन० ॥ ३४ ॥ जव नवि होवे प्र
 नाविक एहवा । तव विधि पूरव अनेक ॥ जात्रा पूजादिक करणी करे । तेह प्रनावि
 क ठेक । धन धन० ॥ ३५ ॥ ढाल ॥ सतीथ सुनझानी । ए देशी ॥ ॥ सोहे समकित
 जेहथी । सखि जिम आनरणे देह ॥ नूषण पांच ते मन वस्यां । सखी मन व
 स्यां । तेमां नही संदेह । मुऊ समकित रंग अचल होयो । टेक० ॥ ३६ ॥ पहि
 लुं कुशलपणुं तिहां । सखी वंदन ने पञ्चखाण ॥ किरियानो विधि अति घणो ।
 सखी आचरे तेह सुजाण । मुऊ० ॥ ३७ ॥ बीजूं तीरथ सेवना । सखी तीरथ
 तारे जेह ॥ ते गीतारथ मुनिवरा । सखी तेहसूं कीजे नेह । मुऊ० ॥ ३८ ॥ न
 गति करे गुरु देवनी । सखी त्रीजूं नूषण होय ॥ किएहि चलाव्यो नवि चले ।
 सखि चोथुं नूषण जोय । मुऊ० ॥ ३९ ॥ जिनशासन अनुमोदना । सखी जेह
 थी बहु जन हुंत ॥ कीजे तेह प्रनावना । सखी पांच नूषणनी खंत । मुऊ०
 ॥ ४० ॥ ॥ ढाल ॥ इम नवि कीजे हो, ए देशी ॥ ॥ लहण पांच कहां स
 मकित तणा । धुर उपशम अनुकूल । सुगुण नर ॥ अपराधी सूं पण नवि चि
 तथकी । चिंतविये प्रतिकूल । सुगुण नर । श्री जिननाषित वचन विचारिये । टेक०
 ॥ ४१ ॥ सुरनर सुख जे इःख करि लेखवे । वंठे शिवसुख एक ॥ सु० ॥ बीजूं
 लहण ते अंगीकरे । तार संवेग सुंटेक । सु० । श्रीजिन० ॥ ४२ ॥ नारक चारक स
 मनव ऊनग्यो । तारक जाणने धर्म । सु० ॥ चाहे निकलवुं निर्वेद ते । त्रीजूं ल
 हण मर्म । सु० । श्री जिन० ॥ ४३ ॥ इव्यथकी इःखियानी जे दया । धर्मही
 णानी नाव । सु० ॥ चोथुं लहण अनुकंपा कही । निज शकते मनव्याव ।
 सु० श्रीजिन० ४४ ॥ जे जिन नाखुं ते नहि अन्यथा । एहवो जे दृढ रंग । सु०
 ते आस्तिकता लहण पांचमुं । करे कुमतिनो ए जंग । सु० । श्रीजिन० ॥ ४५ ॥
 ॥ ढाल ॥ जिन जिन प्रति वंदन दिसे, ए देशी ॥ पर तीर्थी परना सुर तेणे । चै
 त्य ग्रह्यां वलि जेह ॥ वंदन प्रमुख तिहां नवि करवुं । ते जयणा षट जेय रे ।

नविका, समकित यतना कीजे । टेक० ॥ ४६ ॥ वंदन ते कर जोडन कहिये । न
 मन ते शीस नमाडे । दान इष्ट अन्नादिक देवूं । गौरव जगति देखाडेरे । नवि
 का० ॥ ४७ ॥ अनुप्रदान ते तेहने कहिये । वार वार जे दान ॥ दोष कुपात्रे पात्र
 मतिये । नहि अनुकंपा मान रे । नविका० ॥ ४८ ॥ अण बोलावे जेह ना
 खवूं । ते कहिये आलाप ॥ वार वार आलाप जे करवो । ते कहिये संलाप रे ।
 नविका० ॥ ४९ ॥ ए जयणार्थी समकित दीपे । बलि दीपे व्यवहार ॥ एमां पण
 कारणार्थी जयणा । तेना अनेक प्रकार रे । नविका० ॥ ५० ॥ ढाल ॥ ललना
 नीदेशी ॥ शुद्ध धरमार्थी नवि चले । अति दृढ गुण आधार ललना ॥ तो पण
 जे नवि तेहवा । तेहने एह आगार । ललना ॥ ५१ ॥ बोळ्युं तेहवुं पालिये ।
 दंति दंत सम बोल । ललना ॥ सङ्गनना दुर्जन तणा । कञ्चप कोटिने तोल । ल
 लना ॥ बो० ॥ ५२ ॥ राजा नगरादिक धणी । तस शासन अजियोग । ललना । तेहथी
 कार्त्तिकनी परे । नहि मिथ्यात संयोग । ललना ॥ बो० ॥ ५३ ॥ मेलो जननो घण कह्यो ।
 बल चोरादिक जाण । ललना ॥ पेत्रपालादिक देवता । तातादिक गुरु ठाण । ल
 लना ॥ बो० ॥ ५४ ॥ वृत्ति दुर्जन आजिविका । ते जीखण कंतार । ललना ॥ ते हेते दू
 षण नही । करतां अन्य आचार । ललना ॥ बो० ॥ ५५ ॥ ढाल ॥ राग मद्दहार ॥ नाविजे
 रे समकित जेहथी रूअडूं ॥ ते नावनारे नावो मनकरि परवडूं ॥ जो समकित रे ताजूं
 साजूं मूल रे ॥ तो व्रत तरु रे दीपे शिवपद अनुकूल रे ॥ ५६ ॥ त्रूटका ॥ अनुकूल मू
 ल रसाल समकित । तेहविण मति अंध रे ॥ जे करे किरिया गर्व जरिया । तेह
 फूवो धंध रे ॥ ए प्रथम नावना गुणो रूअडी । सुणो बीजी नावना ॥ बारणुं समकि
 त धर्मपुरनुं । एहवोते पावना ॥ ५७ ॥ ढाल ॥ त्रीजी नावना रे समकित पीठ जो दृढ स
 ही ॥ तो मोटो रे धर्म प्रासाद मगे नही ॥ पाइये खोटे रे मोटो मंमाण न शोनी
 ये ॥ तेह कारण रे समकितसूं चित थोनीये ॥ ५८ ॥ त्रूटका ॥ थोनीये चित नित एम
 नावी । चोथी नावना नाविये ॥ समकित निधान समस्त गुणनुं । एहवुं मन ला
 विये ॥ तेह विण बूटा रत्न सरिखा । मूल उत्तर गुण सवे ॥ किम रहे ताके जेह
 हरवा । चोर जोर नवे नवे ॥ ५९ ॥ ढाल ॥ नावो पंचमी रे नावना सम दम सार रे
 पृथवी परे रे समकित तस आधार रे ॥ ठवी नावना रे नाजन समकित जो मि
 ले ॥ श्रुत शीलनो रे तो रस तेहमां नवि ढले ॥ ६० ॥ त्रूटका ॥ नवि ढले समकित नाव
 ना रस । अमियसम संवरतणो ॥ षट नावना ए कही एहमां । करो आदर अ
 ति घणो ॥ इम नावता परमार्थ जलनिधि । होइ निनु ऊकजोल ए ॥ घन पवन

पुण्य प्रमाण प्रगटे । चिदानंद कलोल ए ॥ ६१ ॥ ढाला जे मुनिवेष सके नवी ठंमी ए देशी ॥
 ठरे जिहां समकित ते थानक । तेहना षट विध कहिये रे ॥ तिहां पहिलुं थानक
 क ठे चेतन । लक्ष्ण आतम लहिये रे ॥ खीर नीर परें पुजल मिश्रित । पण
 एहथी ठे अलगो रे ॥ अनुभव हंस चंच जो लागे । तो नवि दीसे वलगो रे ॥ ६२ ॥
 बीजूं थानक नित्य आतमा । जे अनुनूत संजारे रे ॥ बालकने स्तन पान वासना
 । पूरव जब अनुसारे रे ॥ देव मनुज नरकादिक तेहना । ठे अनित्य पर्याय रे ॥
 इव्यथकी अविचलित अखंडित । निज गुण आतमराय रे ॥ ६३ ॥ त्रीजूं थान
 क चेतन कर्ता । कर्मतणे ठे योगे रे ॥ कुंजकार जिम कुंजतणो जे । दंमादि
 क संयोगे रे ॥ निश्चयथी निज गुणनो कर्ता । अनुपचरित व्यवहारे रे ॥ इव्य
 कर्मनो नगरादिकनो । ते उपचार प्रकारे रे ॥ ६४ ॥ चोथूं थानक ठे ते जोक्ता ।
 पुण्य पाप फल केरो रे ॥ व्यवहारे निश्चय नय दृष्टें । जुंजे निज गुण नेरो रे ॥ पं
 चम थानक ठे परम पद । अचल अनंत सुख वासो रे ॥ आधि व्याधितन म
 नथी लहिये । तसु अजावे सुख खासो रे ॥ ६५ ॥ ठतुं थानक मोह्तणू ठे । सं
 यम ज्ञान उपायो रे ॥ जोसहिजे लहिये तो सयले । कारण निःफलथायो रे ॥
 कहे ज्ञान नय ज्ञानज साचूं । ते विण फूठीकिरिया रे ॥ न लहे रूपू रूपू जाणी
 । सीप जणी जे फिरियारे ॥ ६६ ॥ कहे किरियानय किरियाविण जे । ज्ञान तेह
 सूं करशे रे ॥ जल पेसी कर पद न हलावे । तारू ते किम तरसे रे ॥ दूषण नूषण
 ठे इहां बहुला । नय एकेकने वादे रे ॥ सिंहांति ते बेहु नय साधे । ज्ञानवंत अ
 प्रमादे रे ॥ ६७ ॥ इण परे सडसठ बोल विचारी । जे समकित आराहे रे ॥
 राग द्वेष टाली मन वाली । ते समसुख अवगाहे रे ॥ जेहनो मन समकितमां
 निश्चल । कोइ नही तस तोले रे ॥ श्री नय विजय विबुध पय सेवक । वाचक ज
 स इम बोले रे ॥ ६८ ॥

॥ इति श्री सम्यक्त सडसठबोल सजाय समाप्तः

ॐ श्री जिनाय नमः

अथ श्री शृंगारवैराग्यतरंगिणीप्रारंभः

संस्कृतटीकाना कर्ता आरंभमां मंगलाचरण करेते.

उपजातिवृत्तं ॥ श्रीपार्श्वनाथं प्रणिपत्य चक्षुष्या पुरि
स्थितं श्रीफलवर्धिकायां ॥ शृंगारवैराग्यतरंगिणी या
व्याख्याननाव्या क्रियते मया सा ॥ १ ॥

अर्थः— श्रीफलवर्धिकानामनी पुरीनेविषे स्थित श्रीपार्श्वनाथ जगवानने ज
क्त्विडे प्रणाम करीने शृंगारवैराग्यतरंगिणी नदीनी नाविकारूप व्याख्या हुं करुंहुं.
अवतरण—श्रीसोमप्रज्ञाचार्य, वैराग्यनी वासनावडे शृंगारने दूषित करनार ठ
तां आ शृंगारवैराग्यतरंगिणी नामनो ग्रंथ करवानी कामनाएकरी स्त्रीनुं रूप निं
दा करवा योग्य ठे एवुं प्रतिपादन करेते. ॥ १ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ धर्मरामदवाग्निधूमलहरीलावण्य
लीलाजुष स्तन्वंग्या यमितान्विलोक्य तदहो वालान्किमु
त्कंठसे ॥ व्यालान् दर्शनतोपि मुक्तिनगरप्रस्थानविघ्नह
मान् मत्वा दूरममून् विमुंच कुशलं यद्यात्मनो वांछसि ॥ १ ॥

अर्थः—अहो ! आ धर्मरूप वननेविषे दावाग्निना धुमाडानी पंक्तिना जेवा श्या
मवर्णवाला, सूक्ष्मअंगयुक्त शरीरवाली स्त्रीओना बांधेला जे वालो ठे, तेने जोई
ने तूं केम आनंदने पामेते ? जो तूं पोतानुं सारुं थवानी इत्ता करतो हो तो, जे
ना दर्शनेकरी मुक्तिरूप नगरीना मार्गमां विघ्न थायते, एवा वालोने व्याल (स
र्प) रूप मानीने दूरथी त्याग कर. एणेकरी वैराग्यरस दर्शावीने शृंगारने दूषित
कखोते; जेम सर्प लांबा अने काला होयते, तेमज स्त्रीना वाल पण लांबा
अने काला होवाथी, तेओनुं सादृश्यपणुं कखुंते; जेम सर्पने जोतांज आपणे
दूर नाशी जैथे बैथे, तेम ते वालोने जोतांज तेओनो तिरस्कार करवो जोइथे.
शकुनशास्त्रमां कखुंते के, कोई बाहेर गाम कामे जतो होय ते वखते जो मा
र्गमां साप मले तो ते काममां विघ्न पडतां ते कार्यनी सिद्धि थाय नही; तेमज

मुक्तिरूप नगरीना मार्गमां स्त्रीना बालरूप सर्प जो आडे आवे एटले तेओमां मोह उत्पन्न थाय तो मोटो विघ्न थायठे, माटे ए सर्वथा त्याग करवा योग्य ठे. उपर कहुं के, स्त्रीओना बांधेला बालने बालरूप जाण; ए ठेकाणे कविए च मत्कार राख्यो ठे के, बालशब्दमां यकार मढ्याथी बालशब्द थायठे; माटे बालने बाल कहेवुं योग्य ठे. एने श्लेषालंकार कहेठे.

आ वृत्तमां, सर्प चालती वखते जेम बांकोचूको थई जायठे; तेम स्त्रीना के श विंढडीआला होय तेने कविलोको श्रेष्ठ कहेठे. अने जेम सर्पनो रंग अति कालो होयठे, तेम स्त्रीना अति काला रंगवाला बाल होय, तो ते श्रेष्ठ कहेवाय ठे. एवी रीते बालनी जे श्रेष्ठता ठे, ते विषयक शृंगार रस दर्शाव्योठे, अने जेम मार्गमां सर्प आमो आवे तो कार्यसिद्धि थाय नही; तेम गुणस्थानक निसर एणी चडतां पुरुषने वचमां स्त्रीना केशनो मोह उत्पन्न थयो तो तेथी श्रेणी आरोहनी सिद्धि थती नथी; एवी रीते बालनी जे निर्जर्तना कीधीठे ते विषयक वैराग्य रस दर्शाव्योठे. ॥ १ ॥

ये केशा लसिताः सरोरुहदृशां चारित्रचंडप्रनाभ्रंशां
जोदसहोदरास्तव सखे चेतश्चमत्कारिणः ॥ क्लेशान्मूर्तिमतोऽवगम्य नियतं दूरेण तानुत्सृजेर्नोचेत् कष्टपरंपरापरिचितः शौच्यां दशामिष्यसि ॥ ९ ॥

अर्थः— हे सखा, कमलपत्रना जेवां नेत्रोवाली स्त्रीना देदीप्यमान केश, चारित्ररूप चंडनी ज्योतिनो नाश करवाविषे मेघजेवा ठे; अने जे तारा अंतःकरणमां चमत्कार उत्पन्न करेठे, तेओ मूर्तिमान चक्षुरिंद्रियगम्य क्लेश ठे; एम निश्चय जाणीने दूर नाखी दे. जो एओनो तुं त्याग करीश नही, तो तुं कष्टपरंपराए युक्त थयोथको शोक करवायोग्य अवस्थाने पामीश. आ श्लोकमां स्त्रीना केशने क्लेशतुं सादृश्य कहुंठे, ते आवीरीते “लसित” ए शब्द मूलमां ठे, एनो अर्थ लकारे करी सित केहेतां युक्त, केशशब्दनो क्लेश शब्द थायठे.

आ वृत्तमां, मेघना वर्षणी साथे स्त्रीना केशनी बराबरी करीठे. जेम आ काशने विषे मेघ अति शोचयमान दीगमां आवेठे, तेम स्त्रीना मस्तकनेविषे केश अति लसित एटले देदीप्यमान दीगमां आवेठे. स्त्रीनां केश जे चलकता होय ते श्रेष्ठ कहेवायठे. ए मुख्य केशनी श्रेष्ठतानो विषय कहेतां अंतरगत ते केश

धारण करनारी स्त्रीनां नेत्रोने कमलपत्र जेवां कल्यांते ; ए बधो शृंगार रस जाण वो. अने स्त्रीना एवा केश जोईने पुरुषना अंतःकरणमां मदनादि विकाररूप चमत्कार उत्पन्न थायते, माटे ते क्लेशरूप कल्यांते; केमके, कामादि विकारो क्लेशरूप कल्यांते, क्लेशो अंतरना विषय होवाथी चहुना विषय नथी, तेओएज जाणे केश रूप मूर्ति धारण करी होय नी ! एवी उत्प्रेक्षा थायते. ए कारणथी स्त्रीना देदीप्य मान केशने क्लेशरूप जाणीने तेनो तुं त्याग कर; एवडे वैराग्य रस दर्शाव्योते. ॥१॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ ये शुद्धबोधशशिखंडनराहुचंद्राश्रितं
हरंति तव वक्रकचा दृशांग्याः ॥ ते निश्चितं सुकृतमर्त्य
विवेकदेहनिर्दारणे ननु नवक्रकचाः स्फुरंति ॥ ३ ॥

अर्थः— हे पुरुष, निर्मल ज्ञानरूप चंद्रनुं ग्रासन करवाविषे, स्त्रीना वांका केश, राहु जेवा कूर ठे. ते तारा अंतःकरणमां चमत्कार उत्पन्न करेते. अर्थात् राहु जेम चंद्रनो ग्रास करेते, तेम ए वांका केश तारा ज्ञाननो नाश करनारा ठे. अने ते जाणे सुकृतरूप मनुष्यना विवेकरूप देहनुं विदारण करवाने नवी कर्वत ज होयनी ! ए उत्प्रेक्षा ठे. एमां “वक्र कच” एटले वांका केश ते “नवक्रक च” एटले नवी करवतना जेवा ठे. एमकल्याथी श्लेषरूप चमत्कार जाणवो.

आ वृत्तमां, स्त्रीना वांका केश होय ते श्रेष्ठ कल्यांते. स्त्रीना वक्रकेश पुरुषना मनने मोहित करेते, एथीज अंतःकरणमां चमत्कार उत्पन्न करेते एम कल्यांते, माटे ए शृंगार रस ठे ; अने स्त्रीना वांका केशनुं दर्शन थतांज पुरुषनुं मन विवहल थायते, देहनी पण शुद्धि रहेती नथी. अने ज्ञाननो नाश थई जायते तेथी तेओने राहुरूप कल्यांते. तेमज विवेकरूप शरीरने कापवाने नवी कर्वत जेवा कल्यांते, एवा जाणीने तेओनो तुं त्याग कर. ए वैराग्य रस जाणवो. ॥३॥

उपजातिवृत्तम् ॥ अलंकृतं कुंतलचारमस्या विलोक्य लोकः कुरुते
प्रमोदम् ॥ वैराग्यवीरच्छिञ्चुरं छुरंत ममुं न किं पश्यसि कुंतलचारम् ॥ ४ ॥

अर्थः— हे पुरुष, पुष्पादिकेकरी गुंधेला स्त्रीना बांधेला केशोनो समूह एटले आंबोडो जोईने लोक आनंदने पामेते ; परंतु ए वैराग्यरूप वीरनुं बेदन करणा रुं प्राप्त नामक छुःसह शस्त्र ठे. एम तूं कां जोतो तथी ? अर्थात् स्त्रीना अलंकृत “कुंतलचार” एटले जे शणगारीने बांधेला केश ठे, ते कुंतलचार एटले प्राप्त नाम

क शस्त्रज ठे एम जाणवुं. आ ठेकाणे अलं एटले लकाररहित, कृत एटले करे लो, जे कुंतलजार शब्द, तेनो कुंतलजार एवो शब्द थाय; ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, पुष्पादिकेकरी शृंगारेलो स्त्रीना केशोनो अंबोमो पुरुषने एवो रमणीय लागेठे के, ते जोईने वैराग्यवान पुरुषनो वैराग्य पण मगी जायठे; एवी श्रेष्ठता कहीठे, ते शृंगाररस ठे. अने ते दुःखे करीने पण सहन न थाय एवा प्राप्त नामक शस्त्ररूप ठतां वैराग्यनो नाशकरनारो ठे; माटे तेनो त्याग कर; ए वैराग्य रस ठे. ॥ ४ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ कस्तूरिकातिलकितं तुलिताष्टमीं
चित्ते विचिंतयसि सौख्यनिमित्तमेकम् ॥ वामभ्रुवां यदलिकं
तदहो अलीकमित्यारव्ययैव परया प्रवदंति रूपम् ॥ ५ ॥

अर्थः—हे पुरुष, जेमां कस्तूरीनो तिलक कखोठे, तेथी अष्टमीना चंद्र जेवी जेनी सुंदर चुकुटी देखाय ठे, ते अद्वितीय सौख्यनुं कारण ठे, एवुं तुं अंतःकरण मां चिंतन करेठे, ते व्यर्थ ठे. अहो इत्याश्चर्ये! ते स्त्रीओनुं अलिक एटले जे ललाट ठे, तेने पंडित लोको अलीक एटले मिथ्या कहेठे. अर्थात् अलिक एवां बे रूप ललाट वाचक ठे; तेओमांना पहेला रूपने बीजा रूपे करी जाण, एटले ललाटने मिथ्या जाण; ए पण श्लेषज ठे.

आ वृत्तमां, अष्टमीनो चंद्र अर्धगोलाकार ठतां बन्ने खूणाए सरखो देखायठे, तेना वचमां श्याम वर्णना चांदलाना जेवुं देखायठे, तेथी ते अति शोणित लागेठे, तेम स्त्रीनुं पण वांकुं ललाट ठतां तेमां कस्तूरीनो तिलक कखो होय, तो अति मनोहर देखायठे, ते जोईने पुरुषना मननेविषे घणो आनंद थायठे; ते शृंगाररस ठे. अने ए जे कस्तूरीना तिलक सहित स्त्रीनुं ललाट अति शोणायमान देखायठे, तेमां काई अर्थ नथी, किंतु व्यर्थ ठे; माटे तेनो त्याग करवो ए वैराग्यरस ठे. ॥ ५ ॥

उपजातिवृत्तम् ॥ न भूरियं पंकजलोचनायाश्चकास्ति शृंगाररसै
कपात्रम् ॥ नूः किलसौ साधुतरा प्रसूते निबंधनं मोहविषडुमस्य ॥ ६ ॥

अर्थः—हे पुरुष, कमलपत्रना जेवां लोचनवाली स्त्रीनी शोणायमान चुकुटी ठे, ते जाण शृंगाररसनुं एक पात्रज ठे; ते अतिशय श्रेष्ठ नूमि ठे; केमके, एधकी मोह रूपविषना वृह्णो प्राडुर्नाव उत्पन्न थायठे; अर्थात् नू एटले चुकुटी, ते साधुतरा

नू एटले नूमि थायडे, एम कसुं; तेमां आवी रीते श्लेष डे:- सा एटले प्रसिद्ध, धुतरा एटले रेफरहित एवो, नू शब्द नूमिवाचक शब्द थयो ते योग्य डे.

आ वृत्तमां, स्त्रीनी जे शोजायमान चुकुटि, तेने शृंगार रसना पात्ररूपे कही डे; केमके, एने जोतांज पुरुषने मोह उत्पन्न थायडे, माटे ए शृंगार रस डे; अ ने ए चुकुटि नथी पण मोहरूप विपना वृद्धने उत्पन्न करनारी सारी नूमि डे, एम कहेवाथी वैराग्य रस जाणवो. ॥ ६ ॥

मालिनीवृत्तम् ॥ नवकुवलयदामश्यामलान् दृष्टिपातान् कृत
परमदनाशान् विक्षिपत्यायताह्नी ॥ इति वहसि मुदं किं मोह
राजप्रयुक्तान् प्रशमन्नटवधार्थं विद्यमूनृष्टिपातान् ॥ ७ ॥

अर्थ:- हे पुरुष, विस्तीर्ण नेत्रोवाली स्त्रीना कुवलयनी माला जेवा श्यामवर्णवाला, अन्यमदना नाश करनारा जे कटाह, ते मारा उपर नाखेडे, एम जाणीने तुं शासारु हर्षित थायडे? अरे, ए जे दृष्टिपात (कटाह) डे ते प्रशम रूप शूरवीरनो वध करवा सारु मोह राजाए प्रेरणा करेला कृष्टिपात एटले तलवारना पात (घा) डे; एम जाण; अंही दृष्टिपातनो कृष्टिपात आवी रीते थयो डे:- दृष्टिपात शब्दतुं विशेषण मूलमां “ कृतपरमदनाशान् ” डे; एनो श्लेष करी आवो अर्थ थाय डे:- कृत एटले कस्यो, परम एटले अत्यंत, दनाश एटले दकारनो नाश थयार्थी कृष्टिपात शब्द थाय डे ते योग्य डे.

आ वृत्तमां, विस्तीर्ण नेत्रोवाली स्त्री कही डे, एथी स्त्रीना विशाल नेत्रोने कवीओ ए उत्तम कह्या डे, एम जाणवुं, एवा विशाल नेत्रोना जे कटाह, ते कुवलयनी माला जेवा, अने अन्य मदना नाश करनारा कह्या डे; एटले जे पुरुष उपर कुवलयनी मालाना जेवा कटाह पडे ते पुरुष बीजा गमे तेवा मदवालो होय तो पण तरत ते स्त्रीनी उपर मोहित थईने तेना किंकर जेवो थई रहेडे, अने ते पोतानी उपर स्त्रीना कटाह पड्या जोइने अति आनंदित थायडे, माटे ए शृंगार रस डे; अने एवो लुब्ध थएलो पुरुष मोहरूप राजाने वश थयो थको दुःखी थायडे; केमके, नेत्रकटाहरूप तलवारना घाएकरी तेना प्रशमरूप शूरवीरपणानो वध थायडे. तेनो तुं त्याग कर, ए वैराग्य रस डे. ॥ ७ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ तस्याः कोपपदं यदाननमहोरा
त्रं स्मरन्नात्मनः संतापं वितनोषि काननमहो ज्ञात्वा स

खे तत्त्यजेः ॥ एतस्मिन् वसता मनोज्ञवमहासर्पेण दष्टः
पुमान् कार्याकार्यविवेकशून्यहृदयः कस्को न संजायते ॥८॥

अर्थः—हे सखा, कोपनुं स्थान जे स्त्रीनुं आनन एटले मुख, तेनुं रात्रदिवस स्मरण करीने तूं पोताने संताप करीले ठे, अहो इति खेदे ! ते आनन नथी पण कानन एटले वन ठे; एम जाणीने मूकी दे, केमके, ए वनमां रहेनारो जे कामरूप सर्प, ते जे पुरुषने दंश करेठे, ते पुरुषनो हृदय कार्याकार्य विवेकथी शून्य थई जायठे, एवो कोण ठे, के जे उक्त विवेकशून्य न थाय ! किंतु सर्व थायज ठे. सामान्य सर्पनाविषे करीने मूर्खित थएलो पुरुष पण शून्य हृदयवालो थई जायठे, तो जेने सर्पे दंश कखो होय तेनुं शुं कहेवुं ! अहीं कोपपद आनन कानन ठे, एम कहुंठे, तेथी कोपपद एटले ककार ठे उपपद एटले समीपपद जेनो एवो आनन शब्द कानन शब्द थाय ठे ते योग्य ठे, एश्लेष ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीनुं मुख कोपायमान कहुं ठे तेनुं कारण एके, स्त्रीनी मुखमुद्रा यत्किंचित् कोपायमान पुरुषने दीर्घां आवे तो तेने कामविकार उत्पन्न थायठे अथवा कोई कारणने लोभे स्त्रीने रीश आवीने पुरुषने पोतानी मुखमुद्रा कोपायमान करी देखाड्याथी तेने प्रीति उत्पन्न थायठे, अने विविध प्रकारे तेने सम ज्याव्यानी आतुरताने लोभे कामविकार उत्पन्न थायठे ते अहीं शृंगाररस जाणवो, अने स्त्रीना मुखने वन जेवुं कहुं ठे, ने तेमां कामरूप सर्प रहे ठे ते दंश करीने पुरुषना हृदयने शून्य करे ठे एटले सारासार विवेकरहित करे ठे; अर्थात् मृतकतुल्य करे ठे, तेथी तेनो तुं त्याग कर. ए वैराग्यरस जाणवो. ॥ ८ ॥

उपजातिवृत्तम् ॥ साकारमालोक्य मुखं तरुण्यः किं मुग्धबुद्धे मुद
मादधासि ॥ इदं हि चित्तभ्रमनाटकस्य विचक्षणैरामुखमाचचक्षे ॥९॥

अर्थः— हेरूडीबुद्धिवान पुरुष, तरुण स्त्रीनुं साकार एटले सुंदर मुख जोईने तुं शासार आनंदित थायठे ! ए मुखने विद्वान पुरुष निश्चये करी चित्त भ्रमरूप नाटकनुं आमुख एटले आचारंन कहेठे. अहीं साकार एटले आकार सहित जे मुख होय ते आमुख ठे, ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, तरुण स्त्रीनुं सुंदर मुख कहुं ठे, तेनुं कारण एके मुखनी सुंदरता तारुण्यपणामां होयठे. ते गमे तेवी सारीबुद्धिवाला पुरुषनी बुद्धिने विचम करे ठे. एटले मोहित करेठे. ए शृंगार रस ठे. अने तरुण स्त्रीनुं मुख चित्तविचमरूप

नाटकनो आद्यारंज ठे. एटले स्त्रीनुं मुख जोईने मोहनो आरंज थाय ठे. जेम नाटकनो आद्यारंज सूत्रधार अने नटीप्रमुखना गायनद्वारा थायठे, ते जोनारा पुरुषना चित्तने मोह उत्पन्न करेठे. तेम ए पण जाणवुं. तेनो तुं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ ९ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ कामज्वरातुरमते तव सर्वदाऽऽस्यं वा
मभ्रुवां यदि कथंचिदवाप्तुमिच्छा ॥ यत्नं विनाप्यखिलज
न्मपरंपरासु तज्जातमेव ज्वतो ननु सर्वदास्यम् ॥ १० ॥

अर्थः— हे कामरूपज्वरथी पीडायमान थएली मतिवाला पुरुष, जो सर्वदा एटले सर्व काल सुंदर चुकुटिवाली स्त्रीनुं आस्य एटले मुख, कोई पण प्रकारेकरि तने प्राप्त थवानी इच्छा होय, तो निश्चयेकरि यत्नशिवाय संपूर्ण जन्मपरंपराने विषे सर्वदास्य एटले सर्वतुं दासपणुं तने थयलुंज ठे, एम जाणवुं. आश्लोकमां बे ठेकाणे “ सर्वदास्य ” ए शब्द आवेलो ठे. ते बनेनो अर्थ निन्न निन्न थाय ठे. तेथी अहिं यमक जाणवो.

आ वृत्तमां, सुंदर चुकुटीवालुं स्त्रीनुं मुख कथुं ठे, एथी जे स्त्रीनी चुकुटि सारी होय, ते सुरूप दीगमां आवेठे. तेनुं मुख कामी पुरुषने अति प्रिय लागेठे. अने तेने जोतांज कामीपुरुषनी मति कामज्वरथी पीडायमान थायठे, एज इहां शृंगार रस ठे. अने एवा स्त्रीना मुखनी प्राप्तिनी इच्छा जे पुरुष करेठे ते जन्मो जन्मने विषे पराधीन रहेठे. माटे तेनो तुं त्याग कर ए वैराग्य रस जाणवो. ॥ १० ॥

शार्दूलविक्रीदितं वृत्तम् ॥ तस्याः साधुरदं विलोक्य वद
नं यः संश्रयत्यंजसा मुक्त्वा मुक्तिपथं ह्वा प्रविशति भ्रां
त्या स दुर्गं वनम् ॥ तच्चात्यंतमचारुबद्धवसतिर्येनात्र रा
गादिनिश्चोरैर्धर्मधनापहारकरणात्कष्टं न किं प्राप्यते ॥ ११ ॥

अर्थः— ते स्त्रीनुं “ साधु रदं ” एटले सारा दांतवालुं वदनं एटले मुख जो इने जे पुरुष वेगे करी तेनो आश्रय करेठे, एटले तेमां लुब्ध थायठे ते पुरुष, हा हा इति खेदे ! मुक्तिमार्गने मूकीने, वसतिने अरम्य करीने दुःखेकरि ए ए गमन न थाय एवा वननेविषे चांतिए करि प्रवेश करेठे. ते वन मर्यादारहित ठे, तेमां गमन करनारा पुरुषनुं धर्मरूप धन रागादिक चोरो हरण करी जाय ठे तेथी शुं कष्टनी प्राप्ति थती नथी ? अहिं साधुरदं वदन जे ठे ते वन ठे ए

म कस्युं ठे. ते आमः— साधुरदं ए शब्दनो पदभेद करिये तो साधुः अदं ए बे पद जुदा थायठे. एमांना अदं पदथकी इकार रहितपणुं थायठे, एम वदननुं वन थायठे, ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, सारा दांतवाली स्त्रीनुं मुख जोतांज पुरुषनुं मन लुब्ध थई जा यठे. मुक्तिनो मार्ग जे धर्मध्यानादिक तेने ते सूकी दे ठे. जेने वसति सारी ला गती नथी, मदनने वश थयो थको वनादिक एकांत स्थलमां ते स्त्रीसहित अथवा स्त्रीना आगमननी इहावान थयो थको वास करेठे, अने तेथी महाकष्ट सहन करेठे, एवो स्त्रीना मुख दर्शननो जे प्रभाव ते अहिं शृंगार रस ठे. अने स्त्रीना मुखरूप जे वन तेमां जे पुरुष प्रवेश करेठे तेनुं धर्मरूप धन रागादिक चोर लूटी लिये ठे. माटे तेमां लुब्ध थवुं नही. ए अहिं वैराग्य रस ठे. ॥ ११ ॥

पृथ्वीवृत्तम् ॥ यियाससि नवोद्धेयदितटं तदेणीदृशामहीनमधरं
धरं परिहरैः परं दूरतः ॥ इहास्फुलनतोऽन्यथाविशदवासनानौ
स्तव व्रजिष्यति विशीर्णतां न नविता ततो वांञ्जितम् ॥ १२ ॥

अर्थः—हे पुरुष, जो तुं आ संसार समुद्रनो पार लेबानी इहा करतो हो, तो हरिणी जेवां नेत्रोवाली स्त्रीओना अहीन एटले अमृतादिवडे परिपूर्ण, अधर एटले ओष्ठरूप धर एटले पर्वत जे ठे तेने तुं दूर नाखी दे. ते जो तुं नही सूकीश तो ते पर्वतना संघट्टनना योगे तारी निर्मल वासनारूप नौका जांगी जशे. तेथी तारुं इहे लुं पार पडशे नही. जेम समुद्रमां पर्वतना लागवाथी वहाण जांगी जाय तो जवा आववादिक इष्टसिद्धि थती नथी. ते प्रमाणे तुं पण आ नव समुद्रने पहेले पार पडोची शकीश नही. अहीं अहीन अधर जे ठे ते धर एटले पर्वतज ठे, एम कस्युं ठे, ते आमः— जे अहीन एटले अकारे करि हीन एटले रहित अधर शब्द ते धर शब्द थाय ठे, ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीनां नेत्रोने हरिणीनां नेत्रोनी बराबरी करीठे, एटले हरिणी नां नेत्रो अति विशाल अने सुशोणित होयठे तेम स्त्रीना नेत्रो पण अति विशाल तथा सुशोणित होवाथी पुरुषनुं मन खेंची लियेठे, तथा जे कामी पुरुष ठे तेने स्त्रीना अधरामृतनेविषे घणी प्रीति होयठे, माटे अमृतेकरी पूर्ण अधर कस्यां ठे, ते शृंगार रस ठे. अने ते अधर ठे ते पर्वतज ठे, केमके, जे पुरुष ते अधरनेविषे लुब्ध थायठे ते संसारथी हूटी शकतो नथी. ए वैराग्य रस ठे. ॥ १२ ॥

शिखरिणीवृत्तम् ॥ न ज्ञातीदं ध्यातः स्फुरदरुणरत्नौघकिरणप्रता
नं तन्वंग्यास्तरलतरलं कुंडलयुगम् ॥ दमं दुग्धं पुंसामिह विरहसं
योगदशयोर्ज्वलढोकानंगज्वलनयुगिदं कुंडयुगलम् ॥ १३ ॥

अर्थः— हे जाई, देदीप्यमान रक्तवर्ण रत्नो नो किरणसमूह ठे जेनाविषे, तथा
“ तरल तरलं ” एटले जे अत्यंत चंचल ठे, एवा रुशांगी एटले पातला आंगवाली स्त्री
ना जे “ कुंडलयुगं ” एटले जे बे कानना कुंडल ठे ते शोजता नथी; किंतु विरहदशा
अने संयोगदशामां शोक तथा कामाग्निएकरी युक्त ठे एटले विरहावस्थामां शोकावि
र्जाव, तथा स्त्रीपुरुषनी संयोगावस्थामां कामाग्निनो आविर्जाव थायठे. अने आ
संसारनेविषे पुरुषना शांतिरूप दूधने बालवावाला ए कुंडयुगल एटले बेकुंडले एम
जाण. अही कुंडलयुग ते कुंडयुगल थाय ठे. ते आवीरीतेः—कुंडलयुग शब्दनुं वि
शेषण तरलतरलं एवुं ठे. एनो श्लेषार्थ आम ठेः— तरलतर एटले चंचल ठे. ल
एटले लकार जेमां एवो जे कुंडलयुग शब्द; तेमांनो लकार कहाडी नाखिये तो
कुंडयुग शब्द थायठे; अने युग शब्द थया पठी तेना अंतमां लकार जोडीये तो
कुंडयुगल शब्द थायठे. ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीना काननेविषे देदीप्यमान रत्नजडित जे बे कुंडल होयठे, ते
स्त्रीना रूपमां अति वृद्धि करेठे. अने चंचल होवाथी अति सुशोजित देखायठे
तेमां पण रुशांगी एटले पातला आंगवाली स्त्रीने अति शोजेठे. ए शृंगार ठे. अ
ने ए जे बे कुंडल ठे ते शोकाकारक नथी पण विरहदशा तथा संयोगदशामां शो
क तथा कामाग्निना उत्पन्न करनारा ठे, ए पुरुषनी शांतिरूप दूधनो नाश करना
रा ठे तेथी कुंडरूप ठे, तेनो तूं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ १३ ॥

अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ ताडकं सस्पृहं तस्याः पश्यन् मूढः परे
जवे ॥ नरो नरकपालेन्यस्ताडं कं न सहिष्यते ॥ १४ ॥

अर्थः— हे मूर्ख पुरुष, ते स्त्रीनुं साजिलाष “ ताडकं ” एटले कर्णनूषण अथ
लोकन करतां आगल आवनारा जवमध्ये नरक पालन करनारा अधम परमाधा
मी पुरुषोनी पाशेथी “ कंताडं ” एटले कोण आघात सहन करनार नथी? अ
पितु सर्व आघात सहन करजे. अही “ ताडकं ” ए शब्द बे वार आब्योठे, तेओ
नो अर्थ जिन जिन ठे. ए यमकालंकार ठे.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીના કાનના કુંડલ જોતાંજ પુરુષને એવી અનિલાષા થાયઠે કે એ કુંડલેકરી શોજાયમાન સ્ત્રી મને પ્રાપ્ત થાય તો સારું. એ શૃંગાર રસ ઠે; અને અનિલાષા કરી સ્ત્રીનાં કુંડલોને જે પુરુષ જુવે ઠે તે આવતા જવમાં નરકના પાલન કરનારા પરમાધામી દેવતાઓની માર સ્વાયઠે; માટે એનો ત્યાગ કરવો એ વૈરાગ્ય રસ ઠે. ॥ ૧૪ ॥

વસંતતિલકાવૃત્તમ્ ॥ સારં ગલં યમરવિંદવિલોચનાના
માલોક્ય ચેતસિ મુદં કલયંતિ મૂઢાઃ ॥ હા નિશ્ચિતં રચિ
તમુક્તિપુરપ્રવેશવ્યાપેધમર્ગલમમું ન વિચારયંતિ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ:-- હે મૂઢ, કમલના જેવાં નેત્રોવાલી સ્ત્રીઓનો જે સાર એટલે શ્રેષ્ઠ, ગલ એટલે કંઠ અવલોકન કરીને પુરુષો અંતઃકરણમાં હર્ષ પામેઠે. પરંતુ હા! ઇતિ શ્લોકે! એ જે ગલ ઠે તે મુક્તિનગરીમાં પ્રવેશ કરવાનેવિષે પ્રતિબંધ કરનાર હોવાથી અર્ગલ ઠે, એવો વિચાર કરતા નથી. અહીં સાર એટલે અરસહિત ગલ શબ્દ તે અર્ગલ શબ્દ થાયઠે. તે યોગ્ય ઠે.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીના કંઠની શ્રેષ્ઠતા કહીઠે. જો સ્ત્રીનો કંઠ સારો હોય તો તેને જોતાંજ પુરુષ આનંદિત થાયઠે; અર્થાત્ કામની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાયઠે, તે અહીં શૃંગાર રસ ઠે; અને એવા અનિલાષી પુરુષોનો મુક્તિરૂપ નગરીમાં પ્રવેશ થતો નથી. માટે તેનો ત્યાગ કરવો એ વૈરાગ્ય રસ ઠે. ॥ ૧૫ ॥

શિશ્વરિણીવૃત્તમ્ ॥ અલં પ્રાપ્ય સ્પર્શં કુચકલશયોઃ પંકજદૃશાં
પરાં પ્રીતિં શ્વાતઃ કલયસિ સુધામગ્નૈવ કિમ્ ॥ અવસ્કંદં ધર્મક્ષિતિપ
પકટકે દાતુમનસા પ્રયુક્તં જાનીયાઃ કલુપવરટેન સ્પશમિમ્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:-- હે શ્વાત, જેના કમલનાં પત્ર જેવાં નેત્ર ઠે, એવી સ્ત્રીઓના સ્તનરૂપ જે કુંજ ઠે, તેને અલં એટલે અત્યંત સ્પર્શ પામીને અમૃતમાં મગ્ન થઈ જનારાના જેવો જે તું તે શું ઉત્કૃષ્ટ પ્રીતિને પામેઠે? એ સ્પર્શ, ધર્મરૂપ રાજાની સૈન્યને પ્રહાર કરવાતું ઠે જેના મનમાં, એવા કલુષ એટલે પાપરૂપ જીલે મોકલેલો સ્પશ એટલે આસૂદ ઠે; એમ તું જાણ. અહીં અલં સ્પર્શ જે ઠે તે સ્પશ ઠે; એમ કલુ. રેફ અને લકાર એકજ હોયઠે; એવો નિયમ ઠે. માટે અલં એટલે જેમાં રેફ નથી એવો સ્પર્શ શબ્દ જે ઠે તે સ્પશ શબ્દ થાયઠે તે યોગ્ય ઠે.

आ वृत्तमां, स्त्रीना स्तननी उत्कृष्टता कहीठे, एटले पुरुषने स्त्रीना स्तननो स्प
शी यतांज अमृतनेविषे मग्न थई गएला पुरुषनी पठे आनंद उत्पन्न थायठे; ए
शृंगार रस ठे; अने ए स्तन जे ठे ते धर्मनो नाश करवाने अर्थे पापनो एक ठा
नो जासूद ठे, माटे तेनो तुं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ १६ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ पीनोन्नतं स्तनतटं मृगलोचनाया आ
लोकसे नरहितं यदपूर्वमेतत् ॥ मोहांधकारनिकरक्ष्य
कारणस्य विद्यास्तदस्ततटमेव विवेकज्ञानो. ॥ १७ ॥

अर्थ:- मृगना जेवां लोचनवाली स्त्रीनां जे पुष्ट अने उन्नत स्तनतट एटले
बे स्तनो ठे, ते नरहित एटले पुरुषने हितकारक जासेठे, अने अपूर्व एटले प्र
तिक्षण पुरुषने चमत्कार उत्पन्न करे ठे; तेनुं तुं अवलोकन करेठे; पण ते मोह
रूप अंधकारनो ह्य करवानुं कारण विवेकरूप सूर्यना अस्ततट ठे. अर्थात् ए
थकी ज्ञानरूप सूर्यनो अस्त थायठे. आ पद्यमां स्तनतट जे ठे तेने तुं अस्ततट
जाण एम कहुं, केमके, नरहित अने अपूर्व ए बे स्तनतटनां विशेषणो ठे, तेओ
मांथी आबो अर्थ निकले ठे:- नरहित एटले नकारेकरी रहित अने अपूर्व एटले
जेनी आद्यमां अकार ठे, एम कख्याथी स्तनतटनो अस्ततट शब्द थायठे ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, मृगना जेवां लोचनवाली स्त्रीना मांसथी जरेला अने उंचा रहेला
जे बे स्तन ठे, ते पुरुषने अति सुख करनारा लागेठे; अने पुरुषना मनमां कामवि
कार उत्पन्न करेठे माटे ए शृंगार रस ठे. अने एज स्तनोनुं विलोकन करनारा पुरु
षनो विवेकनाश थई जायठे, एटले कामविह्वल थयो थको तेने कांई सृजतूं न
थी तेथी एनो त्याग कर ए वैराग्य रस ठे. ॥ १७ ॥

शार्दूलविक्रीणितं वृत्तम् ॥ कंदर्पघ्निकुञ्जरुणि कुचबंधे मृ
गाह्वया मया न्यस्तो हस्त इति प्रमोदमदिरामाद्यन्मना मा
स्मज्जुः ॥ किंवाजन्म यदर्जितं बहुविधामन्यस्य कष्टक्रियां
हस्तोऽयं मुकृतस्य तस्य सहसाऽदार्यीति संचितयेः ॥ १८ ॥

अर्थ ॥ हे सखा, कामरूप हस्तिना गंदस्थल जेवा मनोज्ञ जे मृगाह्वी स्त्रीना बे
स्तन ठे, तेनेविषे में हस्तस्थापन कख्यां ठे, एम जाणीने हर्षरूप मदिराएकरी मदी
न्मत्त अंतःकरणवालो तुं नही था. केमके, नाना प्रकारनी तपोनुष्ठानादिरूप जे क
ष्टसाध्य क्रिया ठे, तेनो अन्यास करीने जन्मेकरी संपादन करेलां जे मुकृत एटले

पुण्य, तेने तें आडुं हाथ दीधुं. जेमके, कोई बाहेरथी आवनारा पुरुषने हस्तप्रदानसंज्ञाएकरी निषेध करे, तेम कुचदंढनेविषे हस्तप्रदानेकरीने सुकृतनो तें निषेध कस्योळे. एवो जे तुं ते मनमां विचार कर. आ पद्यमां स्तन उपर हाथ राख्युं अने सुकृतने हाथ दीधुं एज चमत्कार ठे.

आ वृत्तमां, कामरूप हस्ती कस्योळे ने तेना गंदस्थलरूप स्त्रीना बे स्तन कस्योळे. ते ज्यारे पुरुष हाथनेविषे ग्रहण करेळे त्यारे मदनातुर थयोथको म हाहर्षने पामेळे; ए शृंगार रस ठे; अने नाना प्रकारे कष्ट करीने संपादन करेलां सुकृतनो निषेध करेळे; माटे तेनो त्यागकर ए वैराग्य रस ठे. ॥ १८ ॥

इजवंशावृत्तम् ॥ कंठोपकंठे लुलितं विजावयेर्जुजं युवत्या
जुजगं गराजितम् ॥ एतस्य संस्पर्शवशादपि कृणाद
शेषचैतन्यमुपैति संक्षयम् ॥ १९ ॥

अर्थः—कंठनी पाशे वळेला गर एटले विषे करीने अजित एवा जे तरुण स्त्रीना जुज एटले बाहु, ते जुजग एटले सर्पज ठे; एम तुं जाण. ए सर्पना स्पर्शमात्रेकरी संपूर्णचैतन्य कृणमात्रमां नाशने पामेळे. जेम सर्पना स्पर्शेकरी चैतन्यनो नाश थायळे; तेमज तरुण स्त्रीना जुजस्पर्शेथी चैतन्यनाश थायळे. जुजनो जुजग आवी रीते थायळे:—जुज शब्दतुं विशेषण गराजित ठे, तेनो अर्थ गकार अक्षरेकरी राजित एटले युक्तथयाथी जुजग शब्द थायळे; ते युक्त ठे.

आ वृत्तमां, कंठनी पाशे वांका वळेला स्त्रीना बे हाथ पुरुषने अडकतांज पुरुष अति मोहित थयोथको पोताना शरीरनी शुद्धि पण रहेती नथी. ए शृंगार रस ठे; अने ए बे स्त्रीना हाथ ठे ते साक्षात सर्परूप ठे, केमके, एनो स्पर्श थयाथी पुरुष बेगुद थई जायळे, माटे तेनो तुं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ १९ ॥

नपजातिवृत्तम् ॥ कंठावसक्ते कुपिते नवाहौ वरं बहिः प्राणहरे प्रमो
दः ॥ विध्यस्तधर्मांतरजीविते नुः स्त्रैणे न वाहौ विडुषां स युक्तः २०

अर्थः—बाह्य प्राणनो नाश करनारो क्रोधायमान जे नवाहौ एटले नवीन सर्प, ते पुरुषना गलामां संलग्न थाय ते सारुं; परंतु धर्मरूप अच्यंतर जीवित नाश करनारा जे स्त्रीसंबंधी वाहौ एटले जुज, ते पुरुषना गलामां संलग्न थयाथी जे हर्ष थायळे, ते पंथित पुरुषने योग्य नथी; केमके, सर्प, कंठसंलग्न ठतां बाह्य प्राणनो नाश करेळे; पण स्त्रीओना जे बाहुं ठे, ते कंठसंलग्न थयाथी अंतर प्राण

नो नाश करेते ; माटे स्त्रीए पोताना हाथथी करेलुं आलिंगन सर्प करतां पण अ
धिक दुःख देनारुं ते. आ श्लोकमां नवाहौ शब्द बे वखत आव्योते तेनो अर्थ जुदो ते.

आ वृत्तमां, स्त्री ज्यारे पोतानी चुजावडे पुरुषने आलिंगन करेते, त्यारे पुरुष
पोताना प्राणनी पण परवा राखतो नथी, एवो कामातुर थायते ; ए शृंगाररसते.
अने सर्प गलामां बाजी प्राण लिये ते सारुं, पण स्त्रीतुं आलिंगन नलुं नही ; के
मके, तेथी माठा कर्म बंधाईने अंतरात्मानो नाश थायते. माटे तेनो त्याग कर
वो उचित ते ए वैराग्यरस ते. ॥ १० ॥

इज्वंशावृत्तम् ॥ कोयं विवेकस्तव यन्नतच्छुवां दोषावगूढः प्रमदं वि
गाहसे ॥ यतः स्मरातंकपरीतचेतसां किं सुंदरासुंदरयोर्विवेचनं ॥ ११ ॥

अर्थः— हे साधो, आ तारो कयो विवेक ते के, नघ ते चुकुटि जेअनी एवी
स्त्रीना दोषावगूढ एटले चुजाए आलिंगित थयो थको तूं उत्कृष्ट मदनने पामेते !
केमके, कामरूप रोमेकरीने जेना अंतःकरण व्याप्त थायते, एवा पुरुषने सारा
तथा नरसानुं विवेचन थतुं नथी. जेम अपस्मारादि (मरी) रोगवाला पुरुषने शु
नाशुन ज्ञान होतुं नथी, तेम तने पण थयुंते. अथवा तारो विवेक दोषावगूढ
एटले दोषेकरीने युक्त ते एवो अर्थ पण थायते, माटे ए तारो केवो विवेक
ते एम कहेवुं योग्यज ते.

आ वृत्तमां, पुरुषने स्त्रीए आलिंगन कखुंढतां, ते गमे तेवो विवेकी होय तो
पण ते एक कोरे रहीने कामातुर थयोथको हर्षित थायते ; ए शृंगार रस ते ;
अने स्त्रीना आलिंगनथी पुरुषना विवेकनो नाश थायते, अने अंतःकरणमां अ
विवेक आवेते, माटे तेनो तूं त्याग कर ए वैराग्य रस ते. ॥ ११ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ हंहो विलोक्य परमंगदमंगनाना
मानंदमुद्धसि किं मदनांधबुद्धे ॥ सत्यं विवेकनिधनै
कनिमित्तमेतत् मेधाविनो हि परमं गदमुजृणंति ॥ १२ ॥

अर्थः— हे कामेकरी अंधबुद्धिवाला पुरुष, स्त्रीअनी परमंगदं एटले उत्कृष्ट
बाजूबंध जोईने शुं आनंद करेते ? पंमित लोको जे ते ते ए बाजूबंधने ज्ञाननोनाश
करनारो परम एटले उत्कृष्ट गद एटले रोग कहेते ; ते सत्य ते. केमके, जेम रोग जीव
ना नाशनो हेतु ते, तेम स्त्रीनो बाहुनूषण पण ज्ञानना नाशनो हेतु ते. ए पद्यमां
परमंगदं ए बे वखत आव्योते, तेनो अर्थ जुदो जुदो ते, एवो यमकरूप चमत्कार ते.

आ वृत्तमां, स्त्रीना बाहुनुं नूषण जे बाजूबंध ठे, ते पुरुषना मनने एवो मोहित करी लियेठे के पुरुष कामांध थयोथको महादर्षने पामेठे. ए शृंगार रस ठे; अने ए जे बाजूबंध ठे ते आनंद करनारो नथी, पण जीवनो नाश करनारो मोटो रोग ठे; एम जाणीने तेनो तूं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ २२ ॥

अयं जनो बलयजरं विलोकते मृगीदृशामधिभुजवह्निबालिशः॥
न बुध्यते सुकृतचमूं जिगीपतः समुद्यतं बलयरमेनमेनसः ॥२३॥

अर्थः— अयं एटले आ प्रत्यक्ष मूर्ख जन जे ठे, ते हरिणाह्नी स्त्रीओना भुजलतानेविषे बलयजरं एटले जे कंकणसमूह ठे ते जुवेठे. परंतु ए बलय जे ठे ते सुकृत जे शीलादिक, तेओने जीतवानी इहावालो एवो पापनो सावधानीनूत बलयजर एटले सेनासमूह ठे; एम जाण. आ पद्यमां बलयजर जे ठे, ते बलयजर ठे एम कह्युंठे; बकार अने वकारनुं ऐक्यठे बलयजर शब्दनुं विशेषण अयं ए शब्द ठे. एनो अर्थ अ रहित यं थायठे; तेथी बलयजर शब्द, बलयजर थयो ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीओना हाथमां जे कंकण होयठे, तेने जोईने जे मूर्ख जन ठे ते आनंदने पामेठे, ए शृंगार रस ठे; अने ए जे कंकणनो समूह ठे, ते शीलादिकनो नाश करनारो ठे, माटे तेनो तूं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ २३ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ ये दृक्पथे तव पतंति नितंबिनीनां
कांताः करा जग्मिपद्मवनप्रवीणाः॥नो वेत्सि तान् किमपव
र्गपुरप्रयाणप्रत्यूहकारणतथा करकानवश्यम् ॥ २४ ॥

अर्थः— हे जन्ताना प्रकटीकरण करवाविषे निपुण पुरुष, नितंबिनी स्त्रीओना कांत एटले मनोझ कर एटले हाथ तारी दृष्टिरूप मार्गमां आवेठे, तेओने मोहुरूप नगरी प्रते जतां करक एटले करानी पेठे विघ्न करनारा केम जाणतो नथी! बाहेर जतां जो मार्गमां करानी दृष्टि थाय तो इहेला कार्यनी सिद्धि थाय नही, एवुं शकुनशास्त्रमां कह्युंठे. आ पद्यमां स्त्रीना कर जे ठे ते करकज एम कह्युं ठे. ते आ वी रीतेः—करशब्दनुं विशेषण कांत शब्द ठे, एनो अर्थ क ठे जेना अंतनेविषे एवो थायठे; अर्थात् कर शब्दना अंतने ककार राखिये तो करक थाय ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, जडतानुं प्रकटीकरण करवाविषे स्त्रीना हाथ निपुण ठे, एटले स्त्रीना हाथवती पुरुषने स्पर्शादि थतांज ते गमे तेवो धर्मादिकनेविषे सावध होय तो

पण दिग्मूढ एटले कामने वश थई जाय ठे, ने तेमां ते पोताने परमानंद माने ठे; ए शृंगार रस ठे. अने स्त्रीना करस्पर्शादिकेकरी स्तब्ध बनी गएला पुरुषने मोहनो मार्ग जे धर्म, ते सूजतो नथी, माटे तेनो तुं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे.

उपजातिवृत्तम् ॥ नीव्याप्तमस्या हरिणेक्षणाया यंवीक्ष्य हारं हृदि ह
र्षमेषि ॥ विवेकपंकेरुहकाननस्य तमेव नीहारमुदाहरंति ॥ २५ ॥

अर्थः--नीवी एटले वस्त्र, तेनी गांठ पर्यंत हरिणाक्षी स्त्रीनो जे लंबायमान हार, तेने जोईने तूं पोताना मनमां आनंदने पामेठे, ते हारने पंक्तिलोक, ज्ञानरूप कमलना वनने नीहार एटले हिम कहेठे. जेम हिम, कमलना वनने नाश कर नारो ठे, तेम स्त्रीना हृदय ऊपरनो जे हार ते ज्ञानने नाश करनारो ठे. आ पद्यमां हारने नीहार कह्योठे, ते आमः--हारशब्दनुं विशेषण नीव्याप्त ठे. एनो अर्थ आ ठेः--नीशब्देकरी व्याप्त एटले जे युक्त हारशब्द ते नीहारशब्द थायठे ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीना हृदयनो जे लांबो हार ते जोतांज पुरुषने अति आनंद उत्पन्न थायठे; ए शृंगाररस ठे; अने ते हार जे ठे ते ज्ञानरूप कमलना वनने बालवामां हिम जेवो ठे, एटले ते हारमां लुब्ध थएला पुरुषनुं ज्ञान नाश थई जाय ठे, माटे तेनो तूं त्याग कर. ए वैराग्य रस ठे. ॥ २५ ॥

वंशस्थवृत्तम् ॥ विलोक्य किं सुंदरमंगनोदरं करोपि मोहं मदनज्वरा
तुराानो ईक्ष्मसे छुर्गतिपातसंज्ञवं चवांतरे चाविनमंगनोदरम् ॥ २६ ॥

अर्थः--कामज्वरवडे पीडाने पामेला हे पुरुष, सुंदर अंगना एटले स्त्रीनुं उदर जोईने तूं कां मोहने पामेठे? अंग एटले हे पुरुष, ए उदर नथी पण जन्मांतरने विषे अने नरकने विषे पड्याथी उत्पन्न अनारा जे दर एटले जय; तेज ठे; एवो कां विचार करतो नथी? आ पद्यमां अंगनोदर ए पद बे वस्वत ठे; तेओनो पद विजागेकरी जिन अर्थ ठे, ते अहिं यमकरूप चमत्कार जाणवो.

आ वृत्तमां, स्त्रीनुं उदर जोई पुरुष मोहने पामीने कामज्वरनी पीडाने पामेठे ए शृंगाररसठे; अने ए उदर नथी पण जन्मांतर तथा नरकमां अनारो जय ठे, एम जाणीने तेनो तूं त्याग कर ए वैराग्य रस ठे. ॥ २६ ॥

वसंततिलकावृत्तम् ॥ स्फूर्जन्मनोजवज्जुजंगमपाशनाञ्जी नाञ्जी
कुरंगकटशां दृशि यस्य लग्ना ॥ नाञ्जीमयं जगदशेषमुदी
क्षतेऽसौ यो यत्र रज्यति स तन्मयमेव पश्येत् ॥ २७ ॥

અર્થ:- દેદીપ્યમાન કામરૂપ સર્પનું પાશનાત્તી એટલે રહેવાનું સ્થાન જે હરિ
 ણાહ્ની સ્ત્રીઓની નાત્તી એટલે અવયવવિશેષ; તેનેવિષે જે પુરુષની દૃષ્ટિ લગ્ન એટલે
 લાગેલીઠે, તે પુરુષ અત્તીમય એટલે નિર્જન્ય અવલોકન કરતો નથી, જે પુરુષ જે
 ઠેકાણે અનુરક્ત થાયઠે તે પુરુષ સંપૂર્ણ તડૂપ થાયઠે. આ પદ્યમાં દૃષ્ટિ સંલગ્ન
 નાત્તી, નાત્તીમય સંપૂર્ણ જુએઠે. એ શબ્દશ્લેષ ચમત્કારઠે.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીની જે નાત્તી ઠે તે કામને રહેવાનું સ્થાન ઠે, એટલે તે નાત્તીને જો
 તાંજ પુરુષને કામવિકાર ઉત્પન્ન થાયઠે, એ શૃંગાર ઠે; અને જે પુરુષ એ નાત્તીનેવિ
 શે આસક્ત થાયઠે, તે અનેક જયને પામેઠે; માટે એનો તું ત્યાગ કર; એ વૈરાગ્ય ઠે ॥ ૨ ॥

उपेज्जवज्जावृत्तम् ॥ जडोपयुक्तं जघनं मृगाह्वयाः समीक्ष्य किं तोषन्न
 रं तनोषि ॥ अमुं विशुंक्ष्वाध्यवसायहंसप्रवासहेतुं घनमेव विद्याः ॥ १८ ॥

અર્થ:- હે સસ્વા, જડ એટલે મૂર્ખ, તેઓને ઉપયુક્ત એટલે યોગ્ય, એવા હરિ
 ણાહ્ની સ્ત્રીના જે જઘન એટલે જાંઘ, જોઈને તું કાં આનંદ પામેઠે ? એ જઘન જે
 ઠે તે નિર્મલ ચિત્તાનિપ્રાયરૂપ હંસના પ્રવાસ ને કારણ જૂત ઘન એટલે મેઘ ઠે; એ
 મ તું જાણ. અર્થાત્ જ્યારે વર્ષા પડેઠે ત્યારે હંસ પોતાનું સ્થાન મૂકીને માનસસ
 રોવર કપર જાયઠે. એપ્રસિદ્ધ ઠે. તેમ મનુષ્યની દૃષ્ટિને વિષે સ્ત્રીની જંઘા આવેઠે,
 ત્યારે ચિત્તના નિર્મલ અનિપ્રાય મટી જાયઠે. આ પદ્યમાં જડોપયુક્ત જઘન જે ઠે
 તે ઘન ઠે, એમ કહ્યું ઠે, મકાર અને લકારનું સાવર્ણ્ય હોવાથી જડોપયુક્ત શબ્દ
 નો જડોપયુક્ત શબ્દ કરવો એટલે મકારના લોપ સહિત જે જઘન તે ઘન થાય
 ઠે, તે યોગ્યઠે. ॥ ૧૮ ॥

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીની જાંઘ મૂર્ખ કામી પુરુષોને અતિ પ્રિય લાગે ઠે ને તે તેમાં
 લુબ્ધ હોયઠે એ શૃંગાર રસ ઠે; અને નિર્મલ ચિત્તના અનિપ્રાયનો નાશ કરેઠે,
 અર્થાત્ સ્ત્રીની જંઘા નિરચ્છાથી પુરુષનું ચિત્ત મલિન થાયઠે, માટે ત્યાગ કરવા
 યોગ્ય ઠે એ વૈરાગ્ય રસ ઠે. ॥ ૧૮ ॥

उपजातिवृत्तम् ॥ नितंबमुद्ग्रासिततापनोदं दिदृक्षसे यत्कमलेक्षणाना
 म् ॥ सर्वात्मनाऽत्यंतकटुं विदित्वा तं निंबमेव त्यज दूरतोपि ॥ १९ ॥

અર્થ:- સંતાપની પ્રેરણા કરનારા કમલનયના સ્ત્રીના જે નિતંબ, એટલે કટિ
 નો પાઠ્ઠલો નાગ, જોવાની તું ઇચ્છા કરેઠે; તે નિતંબ, પત્ર, પુષ્પ તથા ફલ ઇત્યા
 દિના સમૂહકરી અત્યંત કડુવા જાડના જેવા ઠે, એમ જાણીને દૂર નાસ્વીઠે. અર્થા

तु निंबनुं जाड सर्व प्रकारे कडवुं होयठे, तेम स्त्रीना नितंब सर्व प्रकारे ग्लानि करवा योग्य ठे, तेनो तुं त्याग कर. आ पद्यमां उल्लसित तापनो देनार जे नितंब ते निंबवृक्ष ज ठे, एम कह्युं, ते आमः—उल्लसित एटले विकसित ठे तकारनो अप नोद एटले नाश जेने विषे, एवो नितंब शब्द निंबशब्द थायठे ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, कमलना जेवां नेत्रोवाली स्त्रीना जे बे नितंब ठे, ते संतापनी प्रेर णा करनाराठे, एटले स्त्रीनी कटिनो पाठलो जाग जोयाथी अत्यंत मदन विकार उत्पन्न थायठे, ते इहा पूर्ण न थयाथी तेना मनमां संताप थायठे, एवो ते नि तंबोनो जे प्रजाव ठे, ते शृंगार रस ठे; अने स्त्रीओना नितंब निंबडाना जाडजेवा कडवा ठे, माटे एनो तुं त्याग कर; ए वैराग्य रस ठे. ॥ २९ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ नूनं नूपुरमेतदायतदृशो रागादि
विद्वेषिणां क्रीडार्थं पुरमित्यवेत्य न दृशाप्यालोकनीयं क
चित् ॥ येनास्मिन् मुखमात्रचंगिमगुणैराकृष्य तैरुल्बणै
र्बद्धस्य प्रसन्नं चिरादपि सखे मुक्तिर्नवित्री न ते ॥ ३० ॥

अर्थः— हे सखा, नूनं एटले निश्चयेकरी विशालनेत्रोवाली स्त्रीओनां जे आ नूपुर एटले चरणनूपण, रागादिशत्रुने क्रीडा करवानुं पुर एटले नगर ठे; एम जाणीने क्यारे पण नजरेकरी जोईश नही. जेने पोतानुं सारुं थवानी इहा हो य, तेणे क्यारे पण शत्रुनुं नगर जोवुं नही. केमके, ए नगर प्रसिद्ध, उदार, त था मुख्यत्वे श्रेष्ठ गुणे आकर्षण करी बलात्कारेकरी तने बांधीलेशे, तेथी फरी तूं बूटी शकनार नथी. अर्थात् ते नूपुरमां जो तुं आसक्त थशे तो, फसाई पड शे; आ पद्यमां स्त्रीओना नूपुरने शत्रुनुं नगर कह्युंठे, ते आमः—नूपुरशब्दनुं विशेष पण जे नून ठे, तेनो अर्थ न शब्देकरि ऊन एटले जे रहित ठे, एवुं नूपुर ठे, एम जाणवुं.

आ वृत्तमां स्त्रीओना पगनां नूपुर पुरुषना मननुं हरण करी लिएठे. ए शृंगाररस ठे; अने ते नूपुर शत्रुनुं नगर ठे एम जाणीने तेनो त्याग करवो, ए वैराग्य रस ठे. ३०

उपजाति वृत्तम् ॥ यास्त्रीतिनाम्ना विनृते शमादौ शस्त्री प्रबुद्धैरवबुध्यतां
सा ॥ एनां पुरस्कृत्य जगत्यनंगजटां यतः पुण्यजटं त्रिभ्रति ॥ ३१ ॥

अर्थः—जे स्त्री एवुं नाम तुं अंतःकरणमां धारण करेठे, ते शमादौ एटले उपश मादि धर्म कर्मने विषे शस्त्री एटले एक आयुधविशेष ठे, एम सुजाण पुरुषोए जा

ણબું. આ સંસારનેવિષે કામરૂપ યોદ્ધો, એ સ્ત્રીરૂપ શસ્ત્રીને આગલ કરીને ધર્મરૂપ યોદ્ધાનું નેદન કરેલે. જેમ સંગ્રામનેવિષે એક મોટો યોદ્ધો, પોતાના શસ્ત્રેકરીને પ્રતિ યોદ્ધાનું નેદન કરેલે; તેમ કામરૂપ યોદ્ધો સ્ત્રીરૂપ શસ્ત્રીએ કરી ધર્મરૂપ યોદ્ધાનું નેદન કરેલે. આ પદ્યમાં સ્ત્રીને શસ્ત્રી કહીલે, તે આમ:—યા સ્ત્રી શમાદૌ વિનૃતે, એટલે જે સ્ત્રી પ્રથમ શકાર ધારેલે, અર્થાત્ સ્ત્રીશબ્દની આથે શકાર આવ્યાથી શસ્ત્રી શબ્દ થાયલે તે યોગ્ય લે.

આ વૃત્તમાં, પ્રસિદ્ધ શૃંગારરસ નથી, પરંતુ સ્ત્રીની નિર્નેત્સના દ્વારા વૈરાગ્યાંતર ગત શૃંગારની પણ સૂચના કરીલે. ॥ ૩૧ ॥

વસંતતિલકાવૃત્તમ્ ॥ યેયં વધૂરવસિતા હૃદયે પ્રમોદસંપા
દનવ્યતિકરૈકનિબંધનં તે ॥ સા ડુર્ગડુર્ગતિપથેન જગન્નિ
નીષેધૂરેવ મન્મથરથસ્ય વિજ્ઞાવનીયા ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:— હે પુરુષ, તારાહૃદયનેવિષે હર્ષસમૂહ ઉત્પાદન કરવાનું કારણ જે વધૂ એટલે સ્ત્રી, અવસિતા એટલે આવીને રહીલે, તે સ્ત્રીને તું જે હૃદયને હર્ષ ઉત્પન્ન કરનારી માનેલે, તે વધૂ, અત્યંત ડુર્ગમ નરકના માર્ગેકરી લેઈ જવાવિષે ડહા કારનારા કામરથની ધૂ એટલે ધુરી લે; એમ તું જાણ. અર્થાત્ એ સ્ત્રી નથી, કિંતુ નરકના માર્ગેકરી સંસારનેવિષે લઈજનારો જે કામરથ, તેની ધુરી લે. આ પદ્યમાં વધૂ કામરથની ધુરી લે, એમ કહ્યું; મૂળમાં વધૂ શબ્દનું વિશેષણ અવસિતા શબ્દ લે, એનો અર્થ વકારેકરિ સિત એટલે રહિત થયાથી વધૂ શબ્દનો ધૂ શબ્દ થાયલે તે યોગ્ય લે.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીને હર્ષસમૂહ ઉત્પાદન કરનારી, અને પુરુષના મનનેવિષે રમણ કરનારી કહીલે, એ શૃંગાર રસ લે; અને એ વધૂ નથી પણ કામદેવના રથની ધુરી લે, એમ જાણીને તું ત્યાગ કર, એ વૈરાગ્ય રસ લે. ॥ ૩૨ ॥

મંદાક્રાંતાવૃત્તમ્ ॥ પ્રીતિં તન્વંત્યનલસદૃશો યાસ્તરુણ
સ્તવૈતા દેહ્યુત્યા કનકનિજયા યોતિતાશા વિવેકિન્ ॥
સત્યં તાસામનલસદૃશાં સંયમારામરાજ્યાં માનૂઃ પા
શ્વેષ્યસિ યદિ શિવાવાપ્તયે વદ્ધુબુદ્ધિઃ ॥ ૩૩ ॥

અર્થ:— હે વિવેકવાન્ પુરુષ, જેની અનલસ એટલે આલસ્ય રહિત દૃષ્ટિ લે, અને

जेनी सुवर्णना जेवी शरीरनी कांतीए दिशाओ प्रकाशित करीठे, एवी तरुण स्त्रीओ तने हर्ष उत्पन्न करेठे, ते अनलसदृश एटले अग्निना जेवी स्त्रीओनी सत्ता संयम एटले चारित्ररूप वनपरंपराविषे ठे, एम जाण. अर्थात् जेम अग्निसंपर्केकरी वन दग्ध थायठे, तेम स्त्रीसंपर्केकरी चारित्र दग्ध थायठे. जो मोक्षप्राप्तिनी बुद्धि तने थई होय, तो स्त्रीओनी समीप पण जतो नही, आ पद्यमां अनलसदृश पद बे वार आव्योठे, तेनो अर्थे नोखो नोखो ठे, ए चमत्कार जाणवो.

आ वृत्तमां, चंचलदृष्टिवाली स्त्रीना शरीरनो वर्ण सोना जेवो होय, तो पुरुषना मनमां अति आनंद उत्पन्न करेठे. ए शृंगार रस ठे; अने स्त्री अग्नि जेवी ठे, ते संयमादिक वनपरंपराने वाली जस्म करनारी ठे, माटे एनो तुं त्याग कर, ए वैराग्य रस ठे ॥ ३३ ॥

मालिनीवृत्तम् ॥ क इह विषयज्ञोगं पुण्यकर्मायशून्यं स्पृह्यति
विषयज्ञोगं जावयेस्तत्त्वतस्त्वम् ॥ स्मरति न करणीयं मूर्ध्नि
तो येन जंतुः पतति कुगतिगते नैहते मोक्षमार्गम् ॥ ३४ ॥

अर्थः— आ संसारनेविषे कयो पुरुष पुण्यकर्मनो आय एटले लाज, एणेकरी शून्य एटले रहित जे विषय जोग एटले पांच इंद्रियना सुखनी इहा करेठे, केमके ए जे विषयजोग ठे, ते विषयजोग एटले विषयनहण ठे, जे विषयजोगना योगे मोहने पामेलो प्राणी, स्मरण करवायोग्य ते करतो नथी, तेथी नरकरूप खाडामां पडेठे. ते फरी मोक्षमार्गने पामतो नथी, जेम विषय खानारा पुरुषने स्मरणादि रहेतां नथी, तेम विषयोपजोग करनाराने पण स्मरणादिक रहेतां नथी. आ पद्यमां विषय जोग जे ठे ते विषयजोग ठे, एम कह्युं; ते आम.— विषयोपजोगी पदनुं यशून्यं ए विशेषण ठे, एनो अर्थे यकारेकरी शून्य एटले रहित थायठे; एम यकाररहित जे विषयजोग ते विषयजोग ठे, ते योग्य ठे.

आ वृत्तमां, पांचे विषयोनो तिरस्कार कखो ठे, तेओनुं मूल कारण स्त्री विषय सुख शास्त्रोमां कह्युंठे, ते आश्लोकमां यद्यपि प्रगट कह्युं नथी तथापि अर्थात् सिद्ध थायठे, तेथी ए शृंगार रस ठे; अने विषयजोगने विषयजोग कह्याठे ए वैराग्य रस ठे. ॥ ३४ ॥

उपजातिवृत्तम् ॥ सखे सुखं वैषयिकं यदेतदाज्ञासते तन्नरकां
तमंतः ॥ सत्यं तद्भुत्सर्पदघप्रबंधनिबंधनत्वान्नरकांतमेव ॥ ३५ ॥

અર્થ:- હે સરવા, આ જે વિષયસુખ છે તે તારા અંતઃકરણમાં કાંત એટલે મનોહર લાગે છે, તે સત્ય છે, મિથ્યા નથી, પરંતુ વિસ્તારને પામનારી જે પાપ પરંપરા, તેનું એ કારણ છે, માટે જેનો અંત નરક છે, એટલે નરકને દેનારા છે; એમ જાણ. આ પદ્યમાં પ્રથમના નર કાંત એ બે શબ્દ નિન્ન છે, અને પાઠલના નરકાંત એ બે પદ એકસરખા છે, એ કાવ્યચમત્કાર જાણવો.

આ વૃત્તમાં, વિષયસુખ જે છે, તે પુરુષના મનને ઘણા સારા લાગે છે, એમ કહ્યું છે, તે શૃંગાર રસ છે; અને એ વિષયસુખથી પાપપરંપરા વિસ્તારને પામે છે, માટે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એ વૈરાગ્ય રસ છે. ॥ ૩૫ ॥

શિખરિણીવૃત્તમ્ ॥ સ્મરક્રીડાવાપ્યાં વદનકમલે પદ્મલલટ્ટાં દૃઢાઽ
સક્તિર્યેપામધરમધુપાનં વિદધતામ્ ॥ અદૂરસ્થા બંધવ્યસનઘટના
ક્લેશમહતી વિદગ્ધાનાં તેપામિદ્ મધુકરાણામિવ નૃણામ્ ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:- કામની ક્રીડારૂપ જે વાપી એટલે કુચો છે, તેને વિષે સ્ત્રીના અધરોષ્ટરૂપ મધુપુષ્પરસ પાન કરનારા જે પુરુષ છે, જેઓની સ્ત્રીના મુખકમલને વિષે દૃઢ આ સક્તિ છે; એવા મોહ પામનારા જે પુરુષ છે, તેઓને આ સ્ત્રીના મુખકમલને વિષે જમરાની પથે ક્લેશકરી હુઃસહ એવા બંધનોએ વ્યસન ઘટના એટલે કષ્ટરચના સમીપ વર્તિની છે; જેમ મધુપાન કરનારા જમરાઓની કમલોને વિષે દૃઢાશક્તિ બંધને કરી કષ્ટ દેનારી છે, તેમ અધરરસપાન કરનારા પુરુષોને સ્ત્રીના મુખકમલને વિષે દૃઢ જે આસક્તિ તે પ્રેમબંધને કરી કષ્ટ દેનારી છે.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીનો અધરામૃત જમરાઓની પથે પુરુષોને અતિ પ્રેમ ઉત્પન્ન કરનારો છે, એ શૃંગાર રસ છે, અને તેથી તે જમરાની પથે બંધનને પામે છે, માટે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, એ વૈરાગ્ય રસ છે. ॥ ૩૬ ॥

સરખે સંતોષાંજઃ પિત્ર ચપલતામુત્સૃજ નિજાં શમારામે કામં વિર
ચય રુચિં ચિત્તહરિણ ॥ હરંત્યેતાં તૃષ્ણાં ન યુવતિનિતંબસ્થલનુ
વો વિમુક્તા નીરાગૌર્વિપમશરસંપાતવિષમાઃ ॥ ૩૭ ॥

અર્થ:- હે સરવા, આ ચિત્ત હરિણના જેવો છે, કેમકે, જેમ હરિણ અતિચંચલ હોય છે, તેમ ચિત્ત પણ મહાચંચલ હોય છે; માટે મૃગ અને ચિત્તનું સાદૃશ્યત્વ કહ્યું છે; એવી ચપલતાને ત્યાગ કરીને સંતોષરૂપ જલનું પાન કર; અને અત્યંત શમરૂપ વનની પ્રીતિ કર. આ જે યુવતી એટલે તરુણ સ્ત્રીઓ છે, તેઓના નિતંબ એટલે

जे केडनी पाठलनो जाग ठे, ते स्थलनूमिना जेवो ठे, त्यां तारी तृषा मटनार न थी. ए स्थलनूमि केवी ठे, नीर एटले पाणी अने अग एटले वृद्ध, एणेकरी रहि त ठे. जल अथवा वृद्धनी ढायावडे तृषा निवारण थायठे, ए बन्नेमांनो कोई ए स्थलनूमिने विषे नथी. अने ए नूमिनेविषे व्याध्यादिक इष्ट पुरुष बाण नाखेठे, ते वाग्धात्री घणो संताप पामोने तारुं मरण थरो; पण तृषा मटवानी नथी. व ली ते नितंब नूमि केवी ठे? के रागरहित पुरुषोए जेनो त्याग कस्योठे, अने वि षमशर जे कामदेव, तेना बाणना संपातना योगे बिहामणी ठे. माटे युवतीना नितंबनी इहा तुं नही कर. एवो चित्त प्रत्ये उपदेश ठे.

आ वृत्तमां, स्त्रीना नितंबतुं वर्णन कस्युं ठे; ए शृंगाररस ठे; अने ते स्थलनूमि नी पठे चित्तरूप चमरने पीडा करेठे, ए वैराग्यरस ठे. ॥ ३७ ॥

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ चेतश्चापलमाकलय्य कुटिलाका
रां कुरंगीदृशो दृष्ट्वा कुंतलराजिमंजनघनश्यामां किमुत्ता
म्यसि ॥ धर्मध्यानमहानिधानमधुना स्वीकर्तुकामस्य मे
प्रत्यूहार्थमुपस्थितेयमुरगश्रेणीति संचितयेः ॥ ३८ ॥

अर्थ:- हे चित्त, कुटिल एटले वक्र आकारवाला मेघना जेवा काला अथवा काजलना जेवा अत्यंत श्यामवर्ण, जे हरिणाक्षी स्त्रीना केशनी पंक्ति ठे. तेने जोई ने तुं शासारु व्याकुल थायठे? ए स्त्रीना केशनी पंक्ति जे ठे ते धर्मचिंतनरूप म हानिधान स्वीकार करनारो तुं तेने सांप्रत कालनेविषे विघ्न करवासारु तैयार थई ठे. एवी उरगश्रेणि एटले सर्पपंक्ति ठे; एम जाण. कोई कार्य करवासारु उद्युक्त पुरुषने सर्पदर्शन निषिद्ध ठे; अने निधान ग्रहणना समये तो अत्यंत अनिष्ट ठे. माटे स्त्रीकेशपंक्तिरूप सर्पिणीतुं दर्शन तुं नही कर. केमके, एम कस्यथी धर्म चिंतनरूप निधानना ग्रहण समये तने विघ्न आवरो नही.

आ वृत्तमां, स्त्रीना केशनी पंक्तिने सर्पपंक्ति कहीठे. अने तेनी श्यामताने मे घनी तथा काजलनी उपमा दीधीठे; ए शृंगाररस ठे; अने ते सर्पनी पठे विघ्नकारी होवाथी सर्वथा त्याग करवा योग्य ठे; ए वैराग्यरस ठे. ॥ ३८ ॥

यातुं यद्यनुरुच्यते शिवपुरीं रामानितंबस्थलीं मुंचेदूरमिमामनं
गकलचक्रीडाविहारोचिताम् ॥ नोचेद्यौवनचंडवातविततव्यामो
हधूलीकण्ठाम्यदृष्टिरदृष्टशाश्वतपथः प्राप्तोसि जन्माटवीम् ॥३९॥

અર્થ:- હે પુરુષ, જો તને મુક્તિરૂપ નગરી પ્રત્યે જવાની અનિરુચિ હોય, તો તું કામરૂપ ગજશિશુને ક્રીડાને અર્થે, વિહારવિષે યોગ્ય એવા આ સ્ત્રી નિતંબરૂપ સ્થલી એટલે ચૂમિ, તેને તું દૂર મૂકીદે. જો તું એ ચૂમિને મુકીશ નહી, તો યૌવનરૂપ પ્રબલ વાયુએ કરી વિસ્તારને પામેલા વ્યામોહરૂપ રજ:કણો તારાં નેત્રોમાં પદ્મશે તેથી માર્ગ સૂઝનાર નથી. અર્થાત્ મોહમાર્ગ મલનાર નથી. આંખોમાં ધૂલ ગયાથી માર્ગને જોઈ શકાતું નથી. એ પ્રસિદ્ધ છે; એમ સંસારરૂપ અરણ્યમાં ત્રમણ કરીશ.

આ વૃત્તમાં, કામને હસ્તિનાબાલક જેવો કહ્યો છે. તેને ક્રીડા કરવાને સ્ત્રી નિતંબરૂપ પૃથવી છે, અર્થાત્ કામક્રીડાનું સ્થાન જે સ્ત્રીના નિતંબ કહ્યા છે. એ શૃંગારરસ છે; અને એ પૃથવીનેવિષે યૌવનના યોગે નેત્રોનેવિષે રજ:કણો પદ્મયાથી માર્ગ સૂઝતો નથી; અર્થાત્ સ્ત્રી નિતંબરૂપ ચૂમિનેવિષે જે પુરુષ આવી જાય છે તે વિષયરૂપ રજ:કણોએકરી હૃદયાંધ થઈ જાય છે. માટે એ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એ વૈરાગ્યરસ છે. ॥ ૩૯ ॥

માલિનીવૃત્તમ્ ॥ શમધનમપહર્તુ કામચૌરપ્રચારં વિરચયતિ
નિકામં કામિની યામિનીયમ્ ॥ સપદિ વિદધતી યા મોહ
નિજાસમુજાં જનયતિ જનમંતઃ સર્વચૈતન્યશૂન્યમ્ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:-આ કામિનીરૂપ યામિની એટલે રાત્રિ, ઉપશમરૂપ ધન હરણ કરવાને સારૂ કામરૂપ ચોરનો અત્યંત પ્રચાર પ્રગટ કરે છે; તથા મોહરૂપ નિજાની સમૃદ્ધિ કરનારી જે એ રાત્રિ, તે જન એટલે મનુષ્યોને અંત:કરણનેવિષે સર્વ ચૈતન્ય થકી રહિત કરે છે. જેમ રાત્રિનેવિષે સર્વ મનુષ્ય નિદ્રિત થતાં ઇવ્ય હરણ કરવાસારૂ ચોર ફિરે છે તેની પઠે જાણી લેવું.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીને મોહ ઉત્પન્ન કરનારી રાત્રિ કહી છે, ને કામને ચોર કહ્યો છે. અર્થાત્ સ્ત્રી કામોત્પત્તિ કરનારી છે, એ શૃંગારરસ છે; અને એ રાત્રિનેવિષે મનુષ્ય ત્રમણ કરે તો કામરૂપ ચોરના સપાટામાં આવી પોતાની સંપત્તિ તથા પ્રાણ પ્રમુખ સર્વે સ્વોઈ દિયે છે, માટે એનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે એ વૈરાગ્ય રસ છે. ॥ ૪૦ ॥

ઉપજાતિવૃત્તમ્ ॥ મૃગેક્ષ્ણા નૂનમસાવસીમા ઝીમાટવી બુદ્ધિમતામતી
ત્યા ॥ યદ્વાહુવહ્નીનિરનંગનિહ્નો બધ્વા નરાન્ લંજયતે ન મુક્તિમ્ ॥૪૧॥

અર્થ:-જે બુદ્ધિમાન પુરુષોને અતિક્રમણ કરવા યોગ્ય નથી, જેને મર્યાદા નથી, જેના મૃગના જેવાં નેત્ર છે, એવી આ સ્ત્રી તે જયંકર વન છે; જેની બાહુજતાએ કરી,

कामरूप नील, मनुष्योने बांधिने फरी ठोडी मूकतो नथी, अर्थात् बांधेलोने बांधेलो ज रहेवा दियेढे. जेम अरण्यमां मार्गे चालनारा लोकोने चोर, वेजिवडे बांधिने तेओनुं सर्वस्व हरण करी लीयेढे, तेमज मृगेरूपा स्त्री पोतानी बाहुलताए कंठने विषे बंधन कखा पठी पुरुषने मूकती नथी.

आ वृत्तमां, स्त्रीने मर्यादारहित कही, तेथी हावजाव सूचव्या ठे, स्त्रीने वनरूप कही ने तेनी चुजाने लतारूप कही, एमां कोई पुरुष सपडाय तो फसी पडेढे, अर्थात् स्त्रीए चुजावडे आलिंगन कखुंढतां तेथी पुरुष बूटी शकतो नथी, ए शृंगार रस ठे, अने ए वनमां कामरूप चोरटा वशेढे ते मोहमार्गे जनारा पुरुषनुं धर्म धन प्रमुख हरण करी लेनार ठे, माटे त्याग करवा योग्य ठे, ए वैराग्य रस ठे. ॥४१॥

शिखरिणीवृत्तम् ॥ इयं वारं वारं द्युतितुलितरोलंबवलयं न वक्रं
भ्रूचक्रं चलयति मृगाह्नी मम पुरः ॥ कुधीकारागारापसरणमतिं
मां स्वलयितुं प्रपंचत्पंचेषोर्वहति निवडं लोहनिगडम् ॥ ४२ ॥

अर्थ:- आ मृगलोचना जे स्त्री ठे, तेनुं जे वांकुं चुकुटिचक्र ठे, ते नमराओना जेवुं कांतिवाळुं ठे, ते मारी सांबे वारंवार चंचल करेढे, एम नथी; पण नरशी बुद्धिरूप काराग्रहथी दूर नाशी जवानी इह्वावालो जे हुं बुं, तेमने नाशी जवा न देतां कामना प्रपंच युक्त दुःसह जे लोखंमनी बेडी धारण करेली ठे, अर्थात् जेम चोरने बेडी नाखीने बंदीखानामां नाखेढे, तेमज मने पण वश करवा सारु आ स्त्री चुकुटी चक्ररूप कामदेवनी लोखंमनी बेडी धारण करेढे.

आ वृत्तमां, स्त्रीनुं चुकुटिचक्र एवुं ठे के जे पुरुष तेना फासामां आवे ते फरी बूटी शकतो नथी, अर्थात् अति मोह उत्पन्न करनारुं ठे; ए शृंगार रस ठे; अने स्त्रीनुं चुकुटिचक्र काम देवनी लोहनी बेडी ठे, माटे तेनो त्याग करवा जोये ए वैराग्य रस ठे. ॥ ४२ ॥

मंदाक्रांता वृत्तम् ॥ यामोन्यत्र द्रुततरमितो मित्र यत्कंठपीठे नायं
हारश्चकितहरिणीलोचनाया चकास्ति ॥ नाजीरंध्रे विहितवसति
योस्ति कंदर्पसर्पस्तन्मुक्तोयं स्फुरति रुचिरः किंतु निर्मोकपट्टः ॥४३॥

अर्थ:- हे मित्र, आ आपणे स्थानकने मूकीने जलदी बीजे ठेकाणे जवुं जोये. के मके तृषावान थएली हरिणीना नेत्रना जेवां जेनां नेत्र ठे, एवी स्त्रीओना कंठमां जे

આ હાર શોને છે, તે હાર નથી; કિંતુ નાનિરૂપ રંધનેવિષે રહેનારો જે કામરૂપ સર્પ, તેણે મૂકેલું આ મનોહર નિર્મોકપટ્ટ એટલે કંચુક કીઠામાં આવેલે, તેજ આ ઠેકાણું મૂકીને બીજે ઠેકાણે જાગી જવાની સૂચના કરેલે. સર્પનું કંચુક જયનો હેતુ છે, માટે નાનીરૂપ જે કામરૂપ સર્પને રહેવાનું રાફડું, અને આ હારરૂપ સર્પનું કંચુક છે, એમ જાણીને નાશી જવું યોગ્ય છે.

આ વૃત્તમાં, સ્ત્રીઓના કંઠના હારની શોના કહીલે, તથા નાનિનું વર્ણન કરેલું છે, એ શૃંગારરસ છે; અને એ બન્ને ડુઃખના સાધન હોવાથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એ વૈરાગ્યરસ છે. ॥ ૪૩ ॥

વસંતતિલકા વૃત્તમ્ ॥ યઃ કામકામલવિલુપ્તવિવેકચક્તુઃ
સ્વર્ગાપવર્ગપુરમાર્ગમવીહ્યમાણઃ ॥ જ્ઞાનાંજનં પ્રતિ નિરા
દરતામુપૈતિ ભ્રાતઃ પતિષ્યતિ સ ત્રીમન્નવાંધુકૂપે ॥ ૪૪ ॥

અર્થ:- જે પુરુષના વિવેકરૂપ ચક્તુ કામરૂપ કામલ એટલે નેત્ર રોગેકરી ગ્રસ્ત છે; તે સ્વર્ગ અને અપવર્ગ એટલે મોહરૂપ નગરનો માર્ગ જોઈ શકતો નથી; એમઠતાં જે પુરુષ જ્ઞાનરૂપ અંજનનો આદર કરતો નથી, તે પુરુષ જયંકર સંસારરૂપ અંધકૂપમાં પડેલે; જેમ કમલાના રોગેકરીને જેનાં નેત્રો ગ્રસ્ત થયલાં હોય, તે જો આંચોનેવિષે અંજન નાચવાનો અનાદર કરે તો અંધ કૂપમાં પડી જાય, તેમ જ્ઞાનાં જનનો જે નિરાદર કરેલે, તે આ સંસારરૂપ અંધલા કૂવામાં પડેલે.

આ વૃત્તમાં, કામને નેત્ર રોગના જેવો કહ્યોલે, એટલે જેને કામલો પ્રમુખ નેત્રરોગ થાયલે, તે કાંઈ જોઈ શકતો નથી, તેમ કામરૂપ નેત્ર રોગના યોગે પુરુષ નિર્લક્ષ થાયલે, એવી કામની મહિમા છે, તે શૃંગારરસ છે; અને કામાંધ પુરુષ આ સંસારરૂપ અંધલા કૂવામાં પડેલે, માટે ત્યાગ કરવાયોગ્ય છે, એ વૈરાગ્યરસ છે. ॥૪૪॥

શિખરિણી વૃત્તમ્ ॥ નવારણ્યં મુક્ત્વા યદિ જિગમિષુર્મુક્તિનગરીં ત
દાર્ણીં માકાર્ષીર્વિષયવિષવૃક્ષેષુ વસતિમ્ ॥ યતશ્ચાપ્યેષાં પ્રથય
તિ મહામોહમચિરાદયં જંતુર્યસ્માત્પદમપિ ન ગંતું પ્રચવતિ ॥૪૫॥

અર્થ:- હે પુરુષ, જો તું નવાટવીને મૂકીને મુક્તિ નગરીપ્રતે જાવાની ઇચ્છા કરતો હો, તો વિષયરૂપ વિષવૃક્ષનેવિષે વસતિ નહીં કર. કેમકે, આ વૃક્ષની ઠાયા પણ મહામોહના વિસ્તારને પમાડેલે. એ વિષયવૃક્ષની ઠાયાનો સ્પર્શ પણ મો

ह्कारक ठे. ए कारण माटे आ प्राणी एक पगळुं पण चालवाने समर्थ थतो नथी. जेम वननेविषे विषवृद्धनी नीचे बेतेलो पुरुष, मत्त थयेलो होयठे, ते वस्वते ते वन मूकीने नगरमां जवानी इह्ठा करे तो एक पगळुं, पण नाखी शकातुं नथी. मा टे मोद्धनी इह्ठा करनारा पुरुषे विषयसेवन करवानी बुद्धि करवी नही.

आ वृत्तमां, विषयना सेवन थकी पुरुष कामांध थई जाय ठे, एम कहुंठे ते शृंगाररस ठे, अने ते सर्वथा त्याग करवा योग्य ठे एम कहुंठे ते वैराग्यरस ठे.

उपजातिवृत्तम्॥सोमप्रजाचार्यमजा च यन्न पुंसां तमःपंकमपाकरोति॥

तदप्यमुष्मिन्नुपदेशलेशे निशम्यमानेऽनिशमेति नाशम् ॥ ४६ ॥

इति श्रीशतार्थवृत्तिकारश्रीसोमप्रजाचार्यविरचिता

शृंगारवैराग्यतरंगिणी समाप्ता.

अर्थः—सोमप्रजा एटलेचंडकांति, अने अर्थमजा एटले सूर्यकांति जे मनुष्यो नो तमःपंक एटले अज्ञानांधकारसमूह दूर करता नथी, ते पण आ अल्प उप देश श्रवण कखो ठतां नाशने पामेठे, अर्थात् चंडकांति तथा सूर्यकांति अज्ञानरूप अंधकारनो नाश करवाने समर्थ थती नथी, अने आ उपदेश अंतरनो अंधकार मटाडवाने समर्थ ठे. एथी आ उपदेश अति उत्कृष्ट ठे. आ पद्यमां ग्रंथकर्ता ए पोतानुं सोमप्रजाचार्य एवुं नाम चातुर्ये करी गोपन करेलुंठे, ते ज्ञाताओए जाणी लेवुं. ॥ ४६ ॥

आ ग्रंथनुं नाम ग्रंथकर्ताए शृंगारवैराग्यतरंगिणी राखुंठे, एनोअर्थ शृंगार अने वैराग्यरूप तरंगोवाली नदी, एवो आयठे. ते नदीना बने प्रकार नंदलाल नामना टीकाकर्ताए स्पष्टरीते दर्शाव्या ठे, तेनोज जाव लईने आ अमे अर्थ कखो ठे. ग्रंथना अंतमां टीकाकर्ताए त्रण श्लोक राख्या ठे ते आप्रमाणेः—

संवत्सरद्विपमुनीं डमितस्य मासे मार्गे त्रयोदशमिते दिवसे जृगो चं ॥ स्वल्पा तरी विरचिता सुखबोधिकाख्या श्लेषौघडुस्तरतरंगिणिकासुशास्त्रे ॥ १ ॥ आगारानाम्नि नगरे नंदलाक्षेन धीमता ॥ दानविशालशिष्यानुरोधेन कृपया गुरोः ॥ ३ ॥ युग्मम् ॥ सोमप्रजाचार्यकृतिं सुडुर्गमां विवृण्वता स्वल्पधिया मयाऽत्र यत् ॥ न्यूनाधिकोऽंकन मल्पबुद्धितः कृतं विशोध्यं कृतिनिः कृपालुनिः ॥ ३ ॥

इति श्रीशृंगारवैराग्यतरंगिणीनार्षांतरं समाप्तं

॥ अथ श्रीवीरस्तवनप्रारंभः ॥

स्वःश्रेयससरसीरुह, सूरं श्रीवीरं ऋषिवरं सेव ॥ सविशेषहर्षरसवश, सुरासुर
 व्यूहसेव्याऽन्दिं ॥ १ ॥ अश्वोवसीयससरः, शोषसहस्रांशुराश्रयः सहसां ॥ संसार
 लालसां वो, नूयाद्धवशो वशी वीरः ॥ २ ॥ विषयाशीविषवीश्वर, हिंसारस सरसवा
 रिरुहशिशिर ॥ विश्वस्य रोषशर्वर, संहाररवे शिवाय स्याः ॥ ३ ॥ आशंसवः शि
 वश्री, विलासलीलां विहाय सुरयोषाः ॥ यं शिश्रियुः स्वरीशाः श्रीवीरः श्रेयसेऽसौ
 वः ॥ ४ ॥ हरहासहंसशशिहा, रहारियशसोः शिवैषिसंश्रययोः ॥ ईहे वरिवस्यायै,
 वीरेशस्यांन्दिंसारसयोः ॥ ५ ॥ शीलसरोवरलहरी, विहारशिशिरा असंवरीयो वः ॥
 वीरस्य व्याहारा, न्हियासुरशरीरशौर्यहरा ॥ ६ ॥ उरुसंशयज्ञेनस्वरु, ररिहा वीराब्ह
 यो वरवृषांसः ॥ अवसेयाद्धौढ्यं वा, वर्षारुहवारिवाहरवः ॥ ७ ॥ सरलाशयाः सुशी
 ला, रिसंसवः श्रायसश्रिया सह ये ॥ येषां श्रीवीरेश्वर, सेवारस एव हर्षाय ॥ ८ ॥ वीर
 शिवालयसरसी, वरलावर सर्वविषयविलास्य ॥ संवरसारसवासर, सर्वेषां लोलवीष्यवृ
 षं ॥ ९ ॥ शीलश्रियो विवाहावसरे विश्वाश्रयो रसावलये ॥ आवर्ष वसुवर्षा, वि
 शां विशालैरयैरासीः ॥ १० ॥ आशंसे सहसाहं, वासवसेवार्ह शिवरसाज हरे ॥ रु
 हविश्रसावसाय, अवसायायासविरहवरं ॥ ११ ॥ अहरुषयोर्विशरारु, श्रीसर्वस्वं
 हि शशिसरोरुहयोः ॥ अशरारुस्वास्थ्यश्री, लास्यविलासैर्विलोलयसि ॥ १२ ॥ संसा
 रसलिलराशेः, शोषे ऋषिरौर्वशेयश्च वीरः ॥ सर्वाशालासियशो, राशिरहिंसारहःशा
 ला ॥ १३ ॥ उरसिशयालुः श्रेयः, श्रिया असंवरसरोरुहशशीव ॥ रायाद्धयं शि
 वावह, रसाविहारः स्वसेवायां ॥ १४ ॥ संदानिकं ॥ अविषह्यशिरःशूलं, विश्व
 लिहो विषयवैरिवारस्य ॥ व्याहरसि वृषरहस्यं, शस्याय शरीरिविसराय ॥ १५ ॥ शैश
 व एव सुसारः, स्वरहार्यशिरोविलोलसेव्यांन्हे ॥ संहरसि हेजयांहः, सिंहश्च वशेश्वरं
 सहसा ॥ १६ ॥ शिशिरांशुशिशिरलेद्यै, रार्यव्यवहारलालसैरुषैः ॥ संश्रीयसे ऋ
 षीशै, रीर्ष्यावल्लीलवासिवरैः ॥ १७ ॥ उद्धासय स्वसेवारसशीले विशि शिवावलीं वी
 र ॥ अविरलविषयहलाहल, लहरीसंहारसुशिरीष ॥ १८ ॥ श्रवसी वशयसि सौवै,
 व्याहाररसैः सुरासुराहिविशां ॥ यैः सह रसाजयाऽहा, सि हारदूरारसानरस ॥ १९ ॥
 रैहारिशरीरश्रीः, सुरासुरावार्यवीर्यशाली यः ॥ संवरवैरियशःशशि, रादुरशोषश्रियां
 वासः ॥ २० ॥ वरिवस्यः सूरिवरै, विहाय आशारसाविहारियशाः ॥ अंहोऽसुरवंश

हरिः, सुरशैलशिलाविशालोराः ॥ ११ ॥ शुभ्रूषुशिष्यविसर,श्रवःसुहर्षरसवर्षिसंरा
वः ॥ अविलयवार्यैश्वर्य, श्रीयोषाश्लेषरसविवशः ॥ १२ ॥ सैषोऽसहायवीरः, शिवा
रिवाराहवेष्वसुसहेषु ॥ विश्वस्य सुरोर्वीरुह, आयुष्यः श्रेयसां वीरः ॥ १३ ॥ संसारो
रुविपालय, वारिविशोषौर्वहव्यवाहो वः ॥ अव्याह्वीलाऽलससुर, विलयाहावाऽविषय
शीलः ॥ १४ ॥ पंचनिः कुलकं ॥ अन्हियोऽलसस्य शिष्या, वयवलवस्याऽयविरहवि
रसस्य ॥ श्रीवीर वीरयया, लेश्या अश्रेयसीरस्य ॥ १५ ॥ यः पंचवर्गपरिहारमनो
इमेतच्चेतश्चमत्कृतिकरं गुणकीर्तनं ते ॥ जिह्वाग्रवर्ति वितनोति विपदितानाः श्री
वीरनाग्ययुजि न प्रनवंति तस्मिन् ॥ १६ ॥ इति पंचवर्गपरिहारेण श्रीजिनप्रनसू
रिक्तश्रीवीरस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीगौतमस्तवनं ॥

श्रीमंतं मगधेषु गौर्वर इति ग्रामो निरामोऽस्ति यस्तत्रोत्पन्नमसन्नचित्तमनिशं श्री
वीरसेवाविधौ ॥ ज्योतिःसंश्रयगौतमान्वयवियत्प्रद्योतनद्योमणिं तापोत्तीर्णसुव
र्णवर्णवपुषं जक्तयेऽनूतिं स्तुवे ॥ १ ॥ के नाम नाजंगुरनाग्यसृष्ट्यै दृष्ट्यै सुराणां
स्पृहयंति संतः ॥ निमेषविघ्नोश्चितमाननेऽज्योत्स्नां मनोहृत्य तवापिबद्या ॥ २ ॥
निर्जित्य नूनं निजरूपलक्ष्म्यात् एकीकृतः पंचशरस्त्वया सः ॥ इत्थं न चेत्तर्हि कुतस्त्रिने
त्रनेत्रानलस्तं सहसा ददाह ॥ ३ ॥ पीत्वा गिरं ते गलितामृतेढाः सुराश्विरं चकुरनो
ज्यमिंडुं ॥ सुधान्ददे तत्र मुनीश मन्ये लक्ष्मणलात् शैवलमीदृश्यतेऽतः ॥ ४ ॥ सौ
नाग्यजंग्यापि समाधिदाने प्रत्येति लोकः कथमेतदङ्गः ॥ यत्त्वां समग्राश्चपि लब्धिकां
ताः समालिङ्गिगुः समकालमेव ॥ ५ ॥ त्वत्पादपीठे विलुठंत्यमर्त्यास्तकेहृत्तयाः
किल कल्पवृक्षाः ॥ तैरप्यमाहंत तवोपमानोपमेयजावः कथमस्तु वस्तु ॥ ६ ॥ पदो
र्नखाली तव रोहिणीयं मुदे न कस्याद्भुतकृच्चरित्रा ॥ वंदारुपुंसां वदनेऽुरंतःप्रविष्टवि
बोपि शिवाय यस्याः ॥ ७ ॥ यत्केवलज्ञानमविद्यमानमथात्मनि स्वांतिषदामदा
स्त्वं ॥ लोकोत्तरत्वे ननु तावकानां दिङ्मात्रमेतच्चरिताद्भुतानां ॥ ८ ॥ नवजुणानां
स्तुतयो गुणज्ञैर्विधीयमाना विबुधाधिपादैः ॥ स्तुत्यांतरस्तोत्रकथामणस्य समाप्त
ये वृत्करणीज्वन्ति ॥ ९ ॥ न रागवान्नो नजसेतिचारं नालंबसे वक्रगतिं कदाचित्
॥ पुरस्कृते नोपि घनाघनाशी तथापि पृथ्वीतनयोसि रूढः ॥ १० ॥ प्रनो महावीर
मुपास्य सम्यक् त्वयार्जितं यत्तूझकलारहस्यं ॥ गूढे यतित्वेप्यनिरूपरत्नत्रयीजुषा
कीर्तिरतानि तेन ॥ ११ ॥ त्वदाणिमाधुर्यजिता पलाय्य सितोपजा काचघटीं विवे

श ॥ तत्रापि ज्ञीतिं दधती शलाकाव्याजेन जग्राह तृणं नु वक्रे ॥ १२ ॥ श्रीवीरसेवा
 रसलालसत्वात् तद्वाधिनीं केवलबोधजङ्गीं ॥ अप्यायतामादरिणीं वरीतुं तृणा
 य मत्वा त्वमिव त्वमस्थाः ॥ १३ ॥ अपोढपंके कविनिर्निषेव्ये निरस्ततापे बहु
 जंगजाले ॥ विज्ञो नवद्वादमुखगंगपुरे दुर्वादिपूगास्तृणवत्तरंति ॥ १४ ॥ राका
 मये दिग्बलये समंतात् यशःशशांकेन कृते ध्रुवं ते ॥ कुहूध्वनिः केवलमेव कंठदेशं
 पिकानां शरणीचकार ॥ १५ ॥ जगत्रयोज्ञासि यशस्तवेतत् क स्पर्द्धतां सार्द्धमनेन चं
 ङः ॥ यस्यापराद्धेपि तृणस्य नैव प्रजाप्रजावो जनतेऽवकाशं ॥ १६ ॥ ठत्रेण्डुपद्मादिषु
 रूढिमात्रं त्वन्नाम्नि तु श्रीर्वसतीति मुष्टिः ॥ कुतो न्यथा तद्गुणदीहितानां पुरःपुरो नृत्य
 ति नित्यमृद्धिः ॥ १७ ॥ वसुनूतिसुतोपि कौतुकं वसुनूतेर्जनकः प्रणमुषां ॥ जगव
 न्ननवोपि वर्तसे कथमंगीकृतसर्वमंगलः ॥ १८ ॥ नाथःकरोषि वृषमीश गणाधिपोपि
 धत्से सदा स यमपाशमपि प्रचेताः ॥ श्रीदोपि सूत्रितयमालयवासकेजिस्त्वं पावकोपि
 हरसे हरहेतिपातं ॥ १९ ॥ यत्तपत्यपि कलौ जिनप्रजाचार्यमंत्रमनुशीलतां स्फुरेत्
 ॥ हेतुताऽत्र खलु तत्त्वदेकताध्यानपारमितयैव गृह्यते ॥ २० ॥ मयैवं दुर्दैवं शमयितुमजं
 नूष्णमहिमा सुतस्त्वं लेशेन श्रुतरथधुरा गौतमगुरो ॥ कुरुद्योतं क्वीवद्दिनपतिसुधा गौत
 मसिमे प्रज्ञो विद्यामंत्र प्रजव नवतो गौतम नमः ॥ २१ ॥ इति श्रीगौतमस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ नेमिस्तवनं क्रियागुप्तं ॥

श्रीहरिकुलहीराकर, वज्रमणिर्वज्रपाणिना प्रणतः ॥ त्वमवद्यमुक्त नेमे, प्रणमुषां
 शेमुषीमशुजां ॥ १ ॥ अवद्य ॥ मयि प्रसादप्रवणं कृपानिधे विधेहि शैवेय निजं मनस्त
 या ॥ यथा जगन्नाथ मधुव्रत व्रतं नवे नवे तारकपादपद्मयोः ॥ १ ॥ नयेन नेमे यद्
 वंशमौक्तिक श्रियानिवासस्तव पादपंकजं ॥ दुःखोर्मिसंघट्टविघट्टितात्मना तेनाति
 गंजीरतमे नवांबुधौ ॥ ३ ॥ आति ॥ दुर्नयार्णवमहातरीनिजाः स्यात्पदोपहितवस्तु
 विस्तराः ॥ पातकानि नवदीरितागिराऽजंतु जातशिवदानलालसाः ॥ ४ ॥ अजंतु ॥
 प्रेखन्नखश्रेणिमयूखलेखा निर्वासिताशावजयांधकारं ॥ अवार्यसौंदर्यविलास गेऽहं
 तवांध्रियुग्मं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥ गे ॥ यस्त्वया कञ्जुपथः सतां मतो देवखंडितकुतीर्थि
 कवर्गः ॥ तं प्रपद्य निरवद्यमुद्यता नेदयंति ननु मुक्तिपुरीं डाक् ॥ ६ ॥ ऊदे ॥ वरिवस्या
 विधौ यस्ते सद्दिवेकविनाकृतः ॥ तस्यानिमुखमीक्षंते न जातु सुखसंपदः ॥ ७ ॥ असत् ॥
 कर्मकक्षावलीपावकं तावकं दुर्नयाहं कृतित्रासनं शासनं ॥ ये प्रपन्ना गुणस्नेहिनो
 देहिनस्ते सुराराध्यदुःखानि सुश्रियां ॥ ८ ॥ असुः ॥ विजवराज्यकलासुररा
 जतांवरमणीरमणीनिरलं मम ॥ हृदि पदांबुरुहस्मरणं चते गिरि च तथ्यगुणस्तव

नं तव ॥ ए ॥ चते ॥ जगद्गुणभ्रवणपुटामृतहृदां तमोपहां सुजलितरा
 गपेशलां ॥ उदीरयन् गिरमिलदेशनावनावरा गतामयसुखसंपदां सतां ॥
 ॥ १० ॥ अराः ॥ जव्यान् जवत्रमणजीरुकचित्तवृत्तीन् सदेशनानिरनितस्त्वमुरुप्र
 नावः ॥ दोषासमागमनिमीलितमज्जखंडमाश्वासयेन्न किमुश्मिजिरंशुमाली ॥ ११ ॥
 व्यावः ॥ नूत्यानिनूतपुरुहूतपुरानिरामतां कुर्वति संततमहोत्सवजाजमुर्वरां ॥
 स्वहृदंनंदंशुमयानि महाहृतानि ते कल्याणकानि नुवनेश विजाव्य चेतसा ॥ १२ ॥
 अयानि ॥ नास्त्वया त्रमरवित्रमवर्णां हे मुनींश्च वपुषि प्रचरिषुः ॥ पापशात्रवनिब
 र्हेणकृष्ण ध्यानसंततिरिवाश्रितमूर्तिः ॥ १३ ॥ ऊहे ॥ दुर्बोधं मे सपदि पदकीनूत
 वास्तोः पते सद्गुणश्रेणीकुवलयवनश्यामलहायकाय ॥ आकौमाराद्भुवनजयिनि
 र्यस्य ते ब्रह्मवर्म स्वैः कादंबैर्न खलु मदनः स्प्रष्टुमप्यहमीष्ट ॥ १४ ॥ इय ॥ नाडांजो
 दनिनादयादवकुलश्रीकंवपीठीजुवन् मुक्ताहारमहारथं रतिपतिं निर्जित्य जैनाजिरे
 ॥ कीर्तिं कैरवकोमलामधिगतं त्वामेव देव प्रभुं श्रीमन्नेमिजिनेंश्चंश्च शरणं नीरुर्न
 वारातितः ॥ १५ ॥ एमि ॥ सेवाहेवाकिनः स्युस्तव पदयुगले येऽत्र नकिप्रयुक्तास्तेषां
 देवाः सदा पिप्रति हतविपदः संपदः सुप्रसन्नाः ॥ चिंतारत्नं प्रयत्नात् करतलकलि
 तं कुर्वतां सर्वकालं कालं नेतर्नराणामटति सुघटतां नो मनोराज्यसिद्धिः ॥ १६ ॥ पि
 प्रति ॥ जवताऽऽरि जयोद्दुरैर्यशःप्रसरैः शुक्लतया जगत्रयं ॥ जिनसिद्धिरिति प्रसिद्धिजा
 क् सुखसाम्राज्यमयी महापुरी ॥ १७ ॥ आरि ॥ अवगहतरां स्वसेवकं मां जगवन्
 यां च शिवस्य वर्तिनीं त्वं ॥ करुणाईमनाः कुरु प्रसादं मयि तस्याः सपदि प्रकाश
 नेन ॥ १८ ॥ अवक् ॥ मरकतकमनीयकांतिकाय त्वमजिनतेंश्च किरीटघट्टितांहे ॥
 चिरमिन मम चंचरीकचर्यां हृदय कुशेशयकोशमन्वजस्रं ॥ १९ ॥ अय ॥ निखिलज
 गतां गोप्ता गुप्तक्रियास्तवसूत्रणादिति कृतनुतिः सानंदं श्रीजिनप्रजसूरीनिः ॥ जव
 तु जवतां जेतुं नूयो जवत्रमसंजवं जयमजयदो जीमः श्रीमञ्जिवातनयः प्रभुः ॥ २० ॥
 इति श्रीनेमिजिनस्तवनं क्रियागुप्तं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीवर्धमानस्तवनप्रारंभः ॥

कंसारिक्रमनिर्घदापगाधाराशुर्विराट्ठदठविं ॥ ठंदोर्निर्विविधैरधीरधीः स्तोष्येऽहं
 चरमं जिनेश्वरं ॥ १ ॥ त्रैलोक्यनेतस्तव दुर्नयालीनिर्नाशनं शासनमाश्रितो यः ॥ त
 स्येऽवजायुधमाविरस्ति दुःकर्मशैलेऽनिदाविधाने ॥ २ ॥ किमेकमाश्रयकरं न ते यत्
 पुढपंधयोप्येष विशेषविज्ञः ॥ त्यक्तोपजातित्रमणानिजापस्त्वदंगसौगंध्यमनुप्रयाति
 ॥ ३ ॥ यः सृजत्यजर सौरजसारैरंबुजैस्तव पदांबुजपूजां ॥ प्रेत्य तस्य दिवि देवम्

गाह्यः स्वागतानि निगदन्ति सरागं ॥ ४ ॥ वाजिवारणरशोऽताजटैरुद्गटा सुजग
 नोगजंगिचृत् ॥ राज्यक्रुदिरुपनन्नमीति तं नन्नमीति तव यः पदौ मुदा ॥ ५ ॥ ना
 किनिकायकरप्रहतानां संप्रसरन् गगने मरुजानां ॥ जन्ममहे तव कस्य न जज्ञे
 दत्तमदो धकधोऽकृतिनादः ॥ ६ ॥ ये जत्तयात्तत्रमरविलसिता जङ्घुः पादांबुरुहि तव
 विजो ॥ तैः श्रेयः श्रीर्मधुरमधुरसास्वादो सादात् समजनि कृतिजिः ॥ ७ ॥ तत्वा
 तत्वारोपलोपप्रवीणां प्रवहप्राणित्राणसंस्थाधुरीणां ॥ आज्ञां धत्ते मौलिना जव्यजं
 तुश्रेणिः श्रद्धाशालिनी तावकीनां ॥ ८ ॥ वसुधाम सुधामयवक्र विधो तव जाषित
 माडियते शुवि यः ॥ स सुखानि सुखानिरिवोद्यमणीन् विचृते परितोऽटककीर्ति
 चरः ॥ ९ ॥ स्रग्विणी कुंडलत्राजिगह्नस्थला तारहारद्युतिद्योतिवहस्तटा ॥ राजि
 राखंमलानामखंडादरा पादपीठे लुवत्तावके पावके ॥ १० ॥ हृणादेव तेषां शिव
 श्रीजुजंगप्रघातं विवृद्धिं शुचं कर्म पुसां ॥ जवन्नाममंत्रस्य वर्णानुपूर्वी रसज्ञाग्रव
 र्तिभुरापादिता यैः ॥ ११ ॥ द्रुतविलंबितमथ्यरवध्वनद् विविधतूर्यमनेकमणीमयं
 ॥ कुसुमवर्षचित्तं तव देशनावनितलं कड्वैत्य न मोदते ॥ १२ ॥ मुकुरोज्वले ग
 एनृतां हृदये प्रमिताहुरापि बत वाक् जवतः ॥ अनियत्तया प्रतिपफाल जिनध्व
 नितोऽर्धतश्च जगदर्च्यधियां ॥ १३ ॥ जगत्प्रजो जक्तिचरादनुद्दिजा द्विजातिवंशाद
 पहृत्य कृत्यवित् ॥ नरेऽवंशस्थमचीकरह्वचीपतिर्जवंतं हरिनैगमेषिणा ॥ १४ ॥ वाचां
 ते निखिलनयाविरोधिनीनां दुर्बोधद्रुमदलने कुठारिकाणां ॥ माहात्म्यं सुवनमनः
 प्रहर्षिणीनां निर्वक्तुं कड्वं यथावदस्तु शक्रः ॥ १५ ॥ सिद्धार्थराजकुलनंदनपारिजा
 त न चाम्यति क तव कीर्तिरपारिजात ॥ वर्णेन दुग्धमधुरेण मतो जनागसिंहो
 ऽता स्थिरतया सुमनोजनाऽग ॥ १६ ॥ अति महति जवोर्मीमालिनीह च्रमंतो
 जननमरणवीच्या घातदोदूयमानाः ॥ कथमपि पृथुपुण्याः प्राणिनः प्राप्नुवंति प्रव
 हणमिव केचिह्वासनं तावकीनं ॥ १७ ॥ लवणमतर्जितस्मरपुरंधिरूपदर्पा घटितक
 टाहूलकशरविऽकामिमर्मा ॥ कनकमणीमयाजरणरश्मिरंजितांगी व्यजयत्त वाणि
 नी न जवतः समाधिमुडां ॥ १८ ॥ प्रबोधं जव्यांजोरुहवनमधीशाधिगमयन् ह
 रन् मोहध्वांतं परसमयताराः कवलयन् ॥ निविष्टः सिंहासन्यलममलजामंडलयु
 तो जवानाजातिस्मोदयशिखरिणीव द्युतिपतिः ॥ १९ ॥ अमितदमितस्त्रोतो मा
 द्यत्तुरंगमसंगमत्रिदशहरणीनेत्रो नेत्रत्रिजागविलोकितैः ॥ तव जिन मनः शेके कर्तुं
 मनागपि न स्वसाञ्चलयितुमलं किं हेमादिं युगांतमहाबलाः ॥ २० ॥ दारिद्र्यापत्प
 रिजवजनुर्विस्त्रसामृत्युडुःखैरार्ताः के के न तव बलवदेवसेवां प्रपन्नाः ॥ किं स्याद्गो

प्रशमनपटोरोषधस्योपयुक्तौ मंदाक्रांता जगति जनता दुःसहेनामयेन ॥ २१ ॥ श
रद्वितनिशाकरांशुप्रना जैत्रकीर्तिहृदाधवलितनिखिलत्रिलोकीतलं श्रद्धयोपासते
॥ सरजसविनमत्सुराधीशचूडामणिज्योतिषामरुणितपदपीठमूर्मिनिरेष्यञ्चविस्त्वां
प्रनो ॥ २२ ॥ बिन्नाणो नखविक्रियां नयकरिं धूतोन्नसद्दालधीरौडं शब्दम
नीचकैः प्रकटयन् नूयोवनीकादृतः ॥ त्वद्भक्त्या नृतकोप्यवाप्य नृपतां मांसादरं
वर्धयन् धत्तेऽनेकपराजिदर्पदलने शार्दूलविक्रीडितं ॥ २३ ॥ विद्यामंत्रैर्न कार्यं सुर
तरुनिरलं विचेन च मृतं पर्याप्तं राज्यलक्ष्म्या कृतममरतया ह्यास्तां सुवदना ॥ स्फु
र्जत्वेका तु नक्तिस्त्वयि मम मनसि ध्वस्ताखिलमला कैवलयश्रीर्यया स्यात् करतलनिल
या साऽन्हाय जगवन् ॥ २४ ॥ श्रीवीरः सर्वदिकैः कनकरुचितनूरोचिरुद्दीप्रदीपैर्मग
व्यः सोस्तु दीपोत्सव इव जगदानंदसंदर्नकंदः ॥ सूक्तिर्जैनप्रनीयं मृदुविशदपदा स्वग्ध
राधीयमाना नव्यानां नव्यनूत्यै नवतु नवतुदे नावनाजावितानां ॥ २५ ॥ इति
श्रीवर्द्धमान स्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ चतुर्विंशतिजिनस्तवनं ॥

कनककांतिधनुः शतपंचकोत्रितवृषांकितदेहमुपास्महे ॥ रतिपतेर्जयिनं प्रथ
मं जिनं नृवृषचं वृषचं वृषचंजिनः ॥ १ ॥ विरदलांबित वांबितदायक क्रमखुठत्रि
दशासुरनायक ॥ स्तुतिपरः पुरुषो नवति क्खिता वजित राजितरा जितराग ते ॥ २ ॥ तुरग
लांबनसंजव संजवत्यहरिदं जिन यत्र रसादहं ॥ हृदि दधे नणितीर्गुणनूरुहां
शमहिता महितामहि तावकीः ॥ ३ ॥ नवमहार्णवनिस्तरणोह्वया त्वमजिनंदन
देव निषेव्यसे ॥ व्रतनृतां कुगतेः स्मरनिग्रहप्रसजया सजया सजयात्मना ॥ ४ ॥
त्रिभुवनामितकामितपूरणे सुरतरोरुपमामतिगामुक्तौ ॥ तव विनो नजते नवतः
क्रमावसुमते सुमते सुमतेर्दद ॥ ५ ॥ धरनृपात्मज षष्ठ जिनेश्वर त्वयि कृतप्रण
यः क्रियते पतिः ॥ रजसतः प्रथितार्थिदरिड् तोपरमया रमया रमयान्वितः ॥ ६ ॥
प्रभुसुपार्धजगत्रितयाङ्गनुः पवितकाशिपुरीकवील्लक्षणः ॥ सुकृतिनः कृतिनश्चरितं वि
दुःशुनवतो नवतो नवतोदनं ॥ ७ ॥ कुनयकाननचंजनकुंजराः शशिरुचे महसेन
सुत प्रनो ॥ निखिलजीवनिकायहितोक्तिनिः शुनवदा नवदा नवदागमाः ॥ ८ ॥
युधि विजित्य मनोनवमग्रहीन्मकरमंकमिषाद्ध्वजमस्य यः ॥ स्तुतजनाः सविधिं
कुदृशां सुरस्तुतमसंतमसं तमसंस्तुतं ॥ ९ ॥ दृढरथांगजशीतल शीतलद्युतिकलावि
मला तव जारती ॥ मनसि कस्य न दर्षसनाथतां जिन ततान ततानततायिनी ॥ १० ॥

जयति गंडकलङ्कतनुर्जिनः शशिमुखोबुजदृक् दशमोत्तरः ॥ कनकदीप्तिरमर्षितहीर
कस्तवरदो वरदो वरदोर्युगं ॥ ११ ॥ शुभमयी वसुपूज्यसुत प्रनो शुवननेत्रमहो महि
षांकिता ॥ तव तनुर्वितनोतु सुखं सतामरुचिरं रुचिरं रुचिरंजिता ॥ १२ ॥ सकलस
त्वसरोजविकासने रविरुचिर्विमल त्रिजगत्पते ॥ अपि शमं नयते तव गीर्जिनामृत
रसा तरसा तरसा तृषं ॥ १३ ॥ निजयशोन्नरनिन्दुतजान्द्वीजलवलक्ष्मिकार्तिरनं
तजित् ॥ दिशतु वः कुमतासुरनिग्रहे नृशमनःशमनं शमनश्वरं ॥ १४ ॥ नवजयं
तव धर्म धुनोतु वाक्श्रुतिपथाऽतिथितां गमिता सती ॥ किमु करोति न पितरजः शमं
वरसिता रसिता रसिताजुषा ॥ १५ ॥ जयति शांतिजिनः स्म जगंति या नटचमूर्यु
धि मोहमहीपतेः ॥ रणकथामपि नकिजरेण ते ससहसा सहसा सहसाऽमुचत्
॥ १६ ॥ अरति कुंशुजिनाधिपराज्यमाहिमवत स्वयि चक्रहताहितं ॥ त्रिदिवतोऽन्य
धिका जनिरुद्धिर्निर्धनरसा नरसानरसारके ॥ १७ ॥ जगदधीश सुदर्शन नूमिपान्वयपयः
सरिदीश निशामणे ॥ प्रणिदधेऽतिषदो विशदव्रता वनरतानरता नरतावकान् ॥ १८ ॥
हृदि नरस्तवमद्विजिनस्मरन्नपि हि मूर्तिमुपैति महत्फलं ॥ निशमयन् समताकरु
णांचितां किमुदिता मुदिता मुदितादरः ॥ १९ ॥ त्वमिन सुव्रत कल्पलांठनो जनरुचि
र्हरिवंशविनूषणः ॥ शिवसुखाय तपःपरशुद्धिताऽशुभवनो नवनो नवनोधियां ॥ २० ॥
विरतिवर्म तटाहतिकुंठितस्मरशरः शरणीक्रियतां त्वया ॥ गुणगणस्य नमिर्बुधवर्ह
ण ब्रजनजा जनजाजन नावजक् ॥ २१ ॥ अनुमितं खलु नेमिविनो नवत्रमणतो
मयका यदि यच्चिरं ॥ महितपादजवान् नवतः कृपानवनमानवमा वनमालिना
॥ २२ ॥ कमठशासन पार्श्वशिवंकरे रमतएव मनः प्रियधर्मणां ॥ अपि कुतीर्ष्यज
नेन दुरात्मना तव मतेऽवमतेऽवमतेजसः ॥ २३ ॥ त्रिजगदीक्षण केसरिलक्षण कृ
णमपि प्रचुवीर मनोगिरौ ॥ गुणगणान् मम मास्म विरज्यतामुदयिता दयितादयि
तावकान् ॥ २४ ॥ च्युतिजनुव्रत केवलनिर्वृतिरुणदिनाददतां मुदमार्हताः ॥ व्यरचि
यैरुपयत्रिदशैर्दृशां नवसुधा वसुधा वसुधामनिः ॥ २५ ॥ इति जिनप्रनवोमयकांऽति
मक्रमगतैर्यमकाऽवयवैर्नुताः ॥ बलममी वितरंतु धुरिस्थिताः शुभवतां नवतां नवतां
तिजित् ॥ २६ ॥ सङ्गपदेशकर प्रसरहिताऽखिलतमस्कतया तपनोपमाः ॥ ददतु तीर्थ
कृतो मम निर्ममाः शमरमा मरमाऽमरमानिताः ॥ २७ ॥ जयति दुर्नयपंकजिनीवने
हिमततिर्मतिकैरवकौमुदी ॥ शमयितुं तिमिराणि जते महावृजिनजाजि न जाजिनजार
ती ॥ २८ ॥ करकृताम्रफला पृणती जिनप्रनवतीर्थमिजारिमधिश्रिता ॥ हरतु हेमरु
चिः सुदृशां सुखव्युपरमं परमं परमंबिका ॥ २९ ॥ इति चतुर्विंशतिजिनस्तवनं समाप्तं ॥

अथ श्रीमहावीरस्तवनप्रारंभः

पराक्रमेणैव पराजितोऽयं सिंहः सिषेवे धृतजङ्घदंनः ॥ सुखानि वः स्वानिरयं र
 माणां दैमातुरस्तीर्थकरः करोतु ॥ १ ॥ सप्तश्वतेजाः करसप्तकोञ्चः कर्मधसप्ता
 विरसप्तनीतिः ॥ प्रणीतवान् सप्तशतीं नयानां वीरः श्रिये व्यंजितसप्ततत्वः ॥ २ ॥
 शक्रानत प्राणतकल्पपुष्योत्तरात्वमाषाढवलरूषष्टयां ॥ देवाधिदेव द्विजदारदेवा
 नंदोदरेऽञ्जुर्विहितावतारः ॥ ३ ॥ इषस्य नंद्यादसिता त्रयोदशी षडशीत्यहानंत
 तरमीशितस्ततः ॥ सुरेशसेनापतिदेशिताध्वना द्वात्रं कुलं यत्र पवित्रितं त्वया
 ॥ ४ ॥ प्रनूतनूतियुजवद्भुवा नवङ्गनुर्महे नोऽजनि हेजिन ध्रुवम् ॥ जगत्रयीजंतु
 षु हर्षवर्षिणी निरूढरूढिर्मदनत्रयोदशी ॥ ५ ॥ त्वया स्वदेहदुतिसंविनागसंजावि
 तं हेम सुवर्णमासीत् ॥ तारंतु हीनं त्वदनुग्रहेण दुर्वर्णमित्यापदवर्णवादं ॥ ६ ॥
 बाव्ये विबोधाय हरेः सुराडिः पादाग्रनुन्नस्तव यच्चकंपे ॥ चित्रीयता त्वत्तरसा रसात
 न्मूर्धानमाधूनयतिस्म नूनं ॥ ७ ॥ बचूव नाग्यातिशयप्रजावात् गुरुस्तवापि त्रिजग
 जुरोयः ॥ युक्तयैव तं मेरुगिरेर्गिरिष्ठं सिद्धार्थमप्यार्यगणा गृणंति ॥ ८ ॥ कथं गु
 णैः प्राप्तयशःपताका नारीषु नास्तु त्रिशलाशलाका ॥ यत्कुक्षिचुक्तौ विमलः सुवृ
 त्तो मौक्तिक्यनूस्त्वं गुणयुक्तिहृद्यः ॥ ९ ॥ दिवि प्रवृद्धं सुरमीश मुष्टिघातेन यद्वाम
 नतामनैषीः ॥ गर्वाडिस्वर्वाकरणश्रमं तु चकर्ष तीर्थेश्वर शैशवेन तत् ॥ १० ॥ मो
 हं गमी यः खलु तद्भवेपि गंतुं कथं सोर्हति लेखशालां ॥ इतीव शक्रोऽपजलाप
 पित्रोरनौचितिं ते विनयेन धीमान् ॥ ११ ॥ व्याकुर्वतस्ते हरये यदागमं संगृह्य बु
 ध्या कतिचित् गिरां लवान् ॥ अथ्यापको यदिदधे तदुच्चकैरैडं सुवि व्याकरणं प्र
 थामगात् ॥ १२ ॥ यस्या न कस्योदितमुक्तिमार्गमार्गस्य कृष्णा दशमी शमीश ॥ प्रा
 ज्यं प्रनो यत्र विसृज्य राज्यं श्रमण्यसाम्राज्यमुपायंथास्त्वं ॥ १३ ॥ शिवालये प्रो
 ज्जितविग्रहं यत् त्वत्पादमूले चमरं निलीनं ॥ जंनारिदंजोलियमः प्रचंडो नस्प्र
 ष्टुमाप्यैष्ट किमत्र चित्रं ॥ १४ ॥ न बाधितुं जातु दधुः समर्थतां मुनींश्च धातोरि
 व नान्ववर्त्तिषुः ॥ समाधिरूढां प्रकृतार्थसंपदं तवोपसर्गा व्यशिषंस्तु केवलं ॥ १५ ॥
 न कौशिके रागमुपासनापरे करोषि रोषं स्म न चंमकौशिके ॥ अहो उदासीनत
 यैव निर्जिता चमूस्त्वया दुर्विषहापि कर्मणां ॥ १६ ॥ निर्बाहितुंगां सुर
 नर्तुरुद्यतस्तथा तथा यो डुरचेष्टत त्वयि ॥ बहिः कृतः स्वर्गिसमाजसंगमा

त् ससंगमः स्यान्नकथं जनंगमः ॥ १७ ॥ एकाग्रपद्मत्रिशतावसाने श्रीवीरती
 रे ऋजुवालिकायाः ॥ तवोदगात् केवलरुद्धिरस्ताऽपराधराधस्य शुचौ दशम्यां
 ॥ १८ ॥ एकाहमाहुर्मुनयः कथं मामितीव कोपात् त्वदुपर्यशोकः ॥ अदीदृशत् षट्
 पदगर्जपुष्पव्याजस्फुरत्तारकदृक्सहस्रं ॥ १९ ॥ सुरैर्विकीर्णास्तव देशनावना बभुः
 प्रसूनप्रकराः समंततः ॥ नयश्नथीचूतकरात्परिच्युताः शराश्वानंगजटस्य कौसुमाः
 ॥ २० ॥ स्फुटीनवन्मालककौशिकीमुखप्रशस्तरागस्तवसंस्तवोचितः ॥ प्रविश्य दि
 व्यः श्रवणाध्वनि ध्वनिर्मुदे न केषां रजयन् मृगानपि ॥ २१ ॥ स्थातुं चलञ्चामर
 युग्मकैतवात् त्वदीयदंतद्युतिजान्हवीजले ॥ ध्रुवं त्वदास्यांबुजवासिजारती युग्ये
 उपेतां कलहंसदंपती ॥ २२ ॥ स्थैर्यं हृतं यद्भवता शिद्युत्वे तद्याचनाय स्फुटमे
 प मेरुः ॥ स्वयंसमागादिति तुंगहेमसिंहासने ते करवन्ति तर्कं ॥ २३ ॥ हंतुं ह्रमो
 हं तम एकमेव तद्देहि मेसर्वतमोपहृत्वं ॥ इतीव विज्ञापयितुं सिषेवे नामंडलहृद्भ
 धरो रविस्त्वां ॥ २४ ॥ दूराङ्गराजन्मनिदे नवजीः सुधासपीत्यै त्रिजगद्गनौधं ॥
 नूनं नदन् संसदि देवदेवैर्दिव्याहतो हुंहुनिराजुहाव ॥ २५ ॥ मेदं प्रमाणांतरद
 शितं सन्नमंस्यते सर्वे इतीव पुंसां ॥ सितातपत्रत्रितयहृत्लेन रत्नत्रयं दर्शयतिस्म सा
 ह्यात् ॥ २६ ॥ सुपर्वसंचारितहेमपंकजापदेशतश्चक्रमणकूपे किल ॥ गतस्पृहस्या
 पि गुणैर्वशंवदाः पदोस्तले ते निधयो नवालुठन् ॥ २७ ॥ त्रैलोक्यसंयुक्तनिरंकुशश्चि
 प्राकाररेखात्रयवेष्टितांगं ॥ नैहंत धन्याः कतिनाम रक्षायंत्रोपमं त्वां सुमनोर्चनीयं
 ॥ २८ ॥ त्वत्प्रातिहार्यश्रियमित्यवेद्म्य चेतो न यस्येश चमञ्चकार ॥ स केवली चेन्न
 तदा ऽस्तु तस्य नरब्रुवस्याजननिर्जगत्यां ॥ २९ ॥ अनिन्दविद्यावदनेन्दुदर्पणा गणा
 धिपास्ते यदसूत्रयन् श्रुतं ॥ गिरस्तवैव त्रिपदीसुधाकिरः सतां मनःस्वप्रथितेन गौ
 रवं ॥ ३० ॥ अशेषजापापरिणाममञ्जुलं विचित्रसंदेहविषांतवक्त्रं ॥ स्तुवे वच
 स्ते नयनिर्विरोधता विधायि संबोधविधौ निबंधनं ॥ ३१ ॥ तत्त्वा तपः षष्ठमपास्तज
 व्यलोकार्तिकः कार्तिकदर्शरात्रौ ॥ अपापमापुः पदमीश पापा पुण्यां द्वियुग्संस्त
 तिवत्सरायुः ॥ ३२ ॥ स्वे यत्र बुद्धे सति फल्गुनीषु जाले स्मरोऽनून्मृतकल्पमानी
 तद्विश्ववंद्योत्तरफल्गुनीषु बभूव कव्याणकपंचकं ते ॥ ३३ ॥ जुवनाधिपतेरनंतया
 नवतः स्वातिगतेऽत्र नाधिपे ॥ उदयाद्युचितं घनाघनोदकयोगान्नवमौक्तिकश्रि
 या ॥ ३४ ॥ ज्ञातेद्दवाकुक्कुलप्रदीप जगवन् वंदारुवृदारकश्रेणीरत्नकिरीटकांतिलहरी
 संस्त्राप्यमानान्हृये ॥ मोहोर्वीपतिगर्वपर्वतनिदि व्याधामधामश्रियामश्रांतं जिनसिं
 हसूरिमहितं श्रीवीर तुच्यं नमः ॥ ३५ ॥ इतिस्तुतिपरायणो त्रिजगदेकचूडामणो प्रसीद

परमेश्वर स्वरसज्जितिनघ्ने मयि ॥ नवेन्मम नवेनवे नवडुपासनावासना जिनप्रजवसं
विंदां वरद पूर्णमेतावता ॥३६॥ इति पंचकल्याणिकमयं श्रीमहावीरस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीमंत्रस्तवनप्रारंभः ॥

स्वःश्रियं श्रीमदहंतः सिद्धाः सिद्धिपुरीपदं ॥ आचार्याः पंचधाऽऽचारं वाचका
वाचनां वरां ॥ १ ॥ साधवः सिद्धिसाहाय्यं वितन्वन्तु विवेकिनां ॥ मंगलानां च सर्वेषा
मायं जवति मंगलं ॥ २ ॥ अर्हमित्यह्वरं माया बीजं च प्रणवाह्वरं ॥ एनं नानास्व
रूपं च ध्येयं ध्यायन्ति योगिनः ॥ ३ ॥ हृत्पद्मषोडशदलस्थापितं षोडशाह्वरं ॥ पर
मेष्टिस्तुतेर्बीजं ध्यायेदह्वरदं मुदा ॥ ४ ॥ मंत्राणामादिमं मंत्रं तंत्रं विघ्नौघनिग्रहे ॥
ये स्मरन्ति सदैवेन ते जवन्ति जिनप्रजाः ॥ ५ ॥ इति श्रीजिनप्रजविरचितं मंत्रस्तवनं
समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीवर्द्धमानस्तवनप्रारंभः ॥

श्रीवर्द्धमानः सुखसृष्टयेऽस्तु यशःप्रतापैरजिवर्द्धमानः ॥ सिद्धायिका रक्षति यस्य
तीर्थं विघ्नौघतः संततमेव देवी ॥ १ ॥ जिनेऽ न्नेऽ अपि तावकीनां स्तोतुं गुणान्
शक्तिजुषस्तथापि ॥ नक्तयेरितस्तान् कतिचिन्नवीमि नाङ्गः स्वमात्रां विविनक्ति वीर
॥ २ ॥ नयाध्वनां नाथ कृतैकमत्यैरश्रान्तमेकांतहितोपदेशैः ॥ करैरिवोष्मद्युति
ना तमिस्रास्त्वया नतानां नवनीर्निरासि ॥ ३ ॥ प्रणीयतेऽस्माद्भुतरत्नचित्रैः स
मं विमानैस्त्रिदशागमेन ॥ कल्याणकैर्नूवलयं त्वदीयैस्त्रिविष्टपान्यूनमनूनरुद्धि ॥ ४ ॥
जवंतमीशं नजतोऽनुजातु दुःखान्यलं कानि च नापि तापैः ॥ पाणिस्थचिंतामणिमंग
नाजं का निर्कृतिः पीडयितुं शशाक ॥ ५ ॥ सूर्यप्रजा मोहतमःसमूहव्यापादने संशयव
ह्निदात्री ॥ त्वदेशनावाग् जयति त्रिलोकीलोकस्य कर्णामृतवृष्टितुल्या ॥ ६ ॥ रिपून्
विजित्यांतरगानगाधवीर्येण सत्ज्ञानरमां निवेश्य ॥ ऊर्यकार्षीरिन् मुक्तिपुर्याः सा
न्नाज्यमज्यानि सुखोत्करेण ॥ ७ ॥ निस्सेव पीयूषजुजा जनस्य मथ्नाति मिष्यात्व
विषोर्मिपूरं ॥ तव प्रजा नेत्रपुटैर्निपीता कृतस्थितिर्वर्ष्मणि निःकलंके ॥ ८ ॥ वृत्ताष्ट
कायह्वरनामधेयैस्तदंत्यवर्णाहितनामकेऽन्दि ॥ इयं स्तुतिर्वीरजिनस्य दृष्टा करोतु क
ल्याणमनुत्तरं वः ॥ ९ ॥ इति जिनप्रजसूरिकृत श्रीवर्द्धमानस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीपार्श्वस्तवनप्रारंभः ॥

पार्श्वं प्रभुं शश्वदकोपमानं दकोपमानं नववन्दिशांतौ ॥ आराधतां दत्तनिरंतरा
यं निरंतरायं पदमाप्तुमीडे ॥ १ ॥ वीक्षे जगन्नेत्र महाज यत्र महाजयत्रस्य तवांद्दि

युग्मं ॥ पुण्यः स एवाऽवसरोऽमराली सरो मरालीव निषेवते यत् ॥ २ ॥ प्रणेमुषां
 पूर्णसमस्तकामं समस्तकामं सखदप्यधीश ॥ जवंतमानस्य विमानमाया विमानमा
 याः प्रनवो जवंति ॥ ३ ॥ नयाढ्यमुद्यजमजंगमाल मजंगमालकृतसर्वजावं ॥ कैर्ना
 म धीमद्भिरमानि शांतं रमानिशांतं न वचस्त्वदीयं ॥ ४ ॥ नित्यं प्रमादेनविना शि
 तामं विनाशितामंगलमंगजाजां ॥ त्वन्नाम धन्यः स्मरतीश सारं रतीशसारंगमृगेंड
 नादं ॥ ५ ॥ नृत्योपि योत्राऽवृजिनप्रजावे जिनप्रजावैकरसस्त्वयि स्यात् ॥ सरूपवा
 न्नीरगजाश्वसेने गजाश्वसेनेश्वरताभुपैति ॥ ६ ॥ नूयान्नमो नीलतमाऽलकाय तमाल
 कायप्रज तुन्यमेव ॥ नवात्त्वदन्यः कतमोऽवितान तमोवितानह्विडुरोऽर्क एव ॥ ७ ॥
 त्वडुककृत्येष्वविरामवामे विराम वामेय मयि प्रसीद ॥ नव्यान् स्तवः पातु जिन प्रजोऽयं
 जिनप्रजो यं विदधे यतीऽः ॥ ८ ॥ इति जिनप्रजसूरिविरचितं श्रीपार्श्वस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीपार्श्वनाथस्तवनप्रारंभः ॥

श्रीपार्श्वपादानतनागराज प्रोत्सर्पदेनःकफनागराज ॥ सतां हताऽसत्परिणामरामं
 त्वां संस्तुमः स्थैर्यगुणाऽमराऽगं ॥ १ ॥ ये मर्त्यदेवासुरमाननीयं पश्यन्ति ते श्रीन
 रमाननीयं ॥ सद्यस्त्रिलोकीतिलकाऽमितानि सिध्यन्ति तेषामिह कामितानि ॥ २ ॥
 दृशोर्दयं पद्मदलानुकारं नाशिश्रयत्ते कमलानुकाऽरं ॥ कुतोऽन्यथा त्वन्नतिदीहितेषु स
 र्वश्रियां प्रेम तदीहितेषु ॥ ३ ॥ अन्यर्हितं नव्यकदंबकानां हर्षप्रकर्षाद्वसदंबकानां ॥
 सेवन्ति ये त्वां विधिवद्वज्रंते निर्वाणसौर्यं बुधवद्वज्रं ते ॥ ४ ॥ रतेरहंकृत्यपनायिका
 नि र्वपुःश्रिया ते सुरनायिकानिः ॥ नाहोन्नि चेतः परजावलीनमर्चित्यविस्तारि शु
 चावलीनं ॥ ५ ॥ प्रजो तवाऽस्तस्मरराजमाने नखांशुजालेन विराजमाने ॥ क्रमांबु
 जे लक्ष्मिगृहे रसेनशक्रार्चनीय स्तुमहे रसेन ॥ ६ ॥ आकांक्षिता बहुविधं जनतानि
 रामाऽसृष्टामहोदयपुरी ध्रुवतानिरामा ॥ अप्यध्वरश्रुतितपःसवनादृते न पुंसाऽऽ
 प्यते जिन तव स्तवनादृतेन ॥ ७ ॥ इत्थं फणीऽ सततश्रितपार्श्व नाऽथ स्त्री वा स्तवं
 पठति यस्तव पार्श्वनाथ ॥ तस्मै सृष्टहामवृजिनप्रजवाय नव्या लक्ष्मी विंजति सुमनःस
 मवायनव्या ॥ ८ ॥ इति जिनप्रजसूरिविरचितं श्रीपार्श्वनाथस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीनंदीश्वरकल्पप्रारंभः ॥

आराध्य श्रीजिनाधीशान् सुराधीशार्चितक्रमान् ॥ कल्पं नंदीश्वर द्वीपस्याचक्षेवि
 श्वपावनं ॥ १ ॥ अस्ति नंदीश्वरोनाम्नाऽष्टमोद्वीपो द्युसंनिजः ॥ तत्परिक्षेपिणा नं
 दीश्वरेणांजोधिना युतः ॥ २ ॥ एत दलयविष्कंजे लक्षाशीतिश्रुतुरुयुता ॥ योजना

नां त्रिषष्टिश्च कोटयः कोटीशतं तथा ॥ ३ ॥ असौ विविधविन्यासोद्यानवान् देव
नोग्नूः ॥ जिनेन्द्रपूजासंसक्तसुरसंपातसुंदरः ॥ ४ ॥ अस्य मध्यप्रदेशे तु क्रमात्
पूर्वादिदिक् च ॥ अंजनवर्णाश्रित्वारस्तिष्ठंत्यंजनपर्वताः ॥ ५ ॥ दशयोजनसहस्रा
तिरिक्तविस्तृतास्तले ॥ सहस्रयोजनाश्चार्धं कुड्मेरूब्रूयाश्च ते ॥ ६ ॥ तत्र प्राक्
देवरमणो नित्योद्योतश्च दक्षिणः ॥ स्वयंप्रजः प्रतीच्यस्तु रमणीय उदक्स्थितः ॥ ७ ॥
शतयोजनायतानि तदर्थं विस्तृतानि च ॥ द्विसप्ततियोजनोच्चान्यर्हच्चैत्यानि तेषु च ॥
॥ ८ ॥ पृथक् द्वाराणि चत्वार्युच्चानि षोडश योजनीं ॥ प्रवेशे योजनान्यष्ट विस्ता
रेष्यष्ट तेषु तु ॥ ९ ॥ तानि देवासुरनागसुपर्णानां दिवोकसां ॥ समाश्रयादेव तेषां
नामनिर्विश्रुतानि च ॥ १० ॥ षोडशयोजनायामा स्तावन्मात्राश्च विस्तृतौ ॥ अष्ट
योजनकोत्सेधास्तन्मध्ये मणिपीठिकाः ॥ ११ ॥ सर्वरत्नमया देवहृदकाः पीठिकोप
रि ॥ पीठिकान्योऽधिकायामोब्रूयजाजस्तु तेषु च ॥ १२ ॥ रूषजा वर्धमाना च त
था चंडाननापि च ॥ वारिषेणाचेति नाम्ना पर्यकासनसंस्थिता ॥ १३ ॥ रत्नमद्योयु
ताः स्वस्वपरिवारेण हारिणा ॥ शाश्वतार्हत्प्रतिमाः प्रत्येकमष्टोत्तरं शतं ॥ १४ ॥
दे दे नागनूतकुंडनृत् प्रतिमे पृथक् पृथक् ॥ प्रतिमानां पृष्टतस्तु उत्रनृत् प्रतिमैकिका
॥ १५ ॥ तेषु धूपघटीदामघंटाष्टमंगलध्वजाः ॥ उत्रतोरणचंगेर्यः पटलान्यास
नानि च ॥ १६ ॥ षोडश पूर्णकलशादीन्यलंकरणानि च ॥ सुवर्णरुचिररजो वालु
कास्तत्र नूमयः ॥ १७ ॥ आयतनप्रमाणेन रुचिरा सुखमंडपाः ॥ प्रेक्षार्थमंडपा
अरुवाटिकामणिपीठिकाः ॥ १८ ॥ रम्याश्च स्तूपप्रतिमाश्चैत्यवृक्षाश्च सुंदराः ॥ इ
न्द्रध्वजाः पुष्करिण्यो दिव्याः संति यथाक्रमं ॥ १९ ॥ प्रतिमाः षोडश चतुर्द्वारस्तू
पेषु सर्वतः ॥ शतं चतुर्विंशमेवं ताः साष्टशततद्युताः ॥ २० ॥ प्रत्येकमंजनाडीणां
ककुब्जु चतसृष्वपि ॥ गते लङ्के योजनानां निर्मत्स्यस्वह्वारयः ॥ २१ ॥ सहस्र
योजनो देधा विष्कंजे लङ्कयोजनाः ॥ पुष्करिण्यः संति तासां क्रमानामानि षो
डश ॥ २२ ॥ नंदिषेणा चाप्यमोघा गोस्तूपाऽथ सुदर्शना ॥ तथा नंदोत्तरानंदा सु
नंदा नंदिवर्धना ॥ २३ ॥ नडा विशाला कुमुदा पुंडरीकिणिका तथा ॥ विजया वै
जयंती च जयंती चापराजिता ॥ २४ ॥ प्रत्येकं योजनं पंच पंचशत्या परत्र च ॥ यो
जनानां पंचशतिं यावद्विस्तारजांजि तु ॥ २५ ॥ लङ्कयोजनदीर्घाणि महो
द्यानानि तानि तु ॥ अशोकसप्तहृदक चूत चंपकसंज्ञया ॥ २६ ॥ मध्ये पुं
ष्करिणीनां च स्फटिकाः पत्यमूर्तयः ॥ ललामवोद्दुद्यानादिचिन्हा दधिमुखाइ
यः ॥ २७ ॥ चतुःषष्टिसहस्रोच्चाः सहस्रं चावगाहिनः ॥ सहस्राणि दशा

धस्ताडुपरिष्ठाच्च विस्तृताः ॥ १७ ॥ अंतरे पुष्करिणीनां द्वौ द्वौ रतिकराचलौ ॥ त
तो नवंति द्वात्रिंशदेते रतिकराचलाः ॥ १८ ॥ शैलेषु दधिमुखेषु तथा रतिकरादि
षु ॥ तद्वाश्वतार्हचैत्यानि संत्यंजनगिरिष्विव ॥ १९ ॥ चत्वारो द्वीपविदिकु तथा
रतिकराचलाः ॥ दशयोजनसहस्रायामविष्कंजशालिनः ॥ २० ॥ योजनानां स
हस्रं तु यावदुभयशोनिताः ॥ सर्वरत्नमयादिव्या ऊर्ध्वर्याकारधारिणः ॥ २१ ॥ त
त्र दशो रतिकराचलयोर्दक्षिणस्थयोः ॥ शक्रस्थेशानस्य पुनरुत्तरस्थितयोः पृथक्
॥ २२ ॥ अष्टानां महादेवीनां राजधान्योऽष्टदिक् ताः ॥ लक्षाबाधा लक्ष्मणा जिना
यतननूषिताः ॥ २३ ॥ सुजाता सौमनसा चार्चिमाली च प्रजाकरा ॥ पद्मा शिवा तथा
शुच्यंजने नूतावर्तसिका ॥ २४ ॥ गोस्तूपासुदर्शने अप्यमलाप्सरसौ तथा ॥ रोहिणी
नवमी चाथ रत्ना रत्नोच्चयापि च ॥ २५ ॥ सर्वरत्नसंचया च सुवसुर्वसुमित्रिका ॥ व
सुजागादि च वसुंधरानंदोत्तरे अपि ॥ २६ ॥ नंदोत्तरकुरुर्देवकुरुः कृष्णा ततो
पि च ॥ कृष्णराजी रामरामा रक्षिता प्राक् क्रमादमूः २७ ॥ सर्वैर्दयस्तासु देवाः कुर्व
ते सपरिहृदाः ॥ चैत्येष्वष्टाहिकापुण्यतिथिषु श्रीमदर्हतां ॥ २८ ॥ प्राच्येऽजन
गिरौ शक्रः कुरुतेऽष्टाहिकोत्सवं ॥ प्रतिमानां शाश्वतीनां चतुर्दशैः जिनालये ॥ २९ ॥
तस्य चादेश्वर्तुर्दिकूस्थमहावापीवितर्दिषु ॥ स्फाटिकेषु दधिमुखपरितेषु चतुर्ष्वपि
॥ ३० ॥ चैत्येष्वर्हत्प्रतिमानां शाश्वतीनां यथाविधि ॥ चत्वारः शक्रदिग्पालाः कुर्वते
ष्टाहिकोत्सवं ॥ ३१ ॥ ईशानेऽस्त्वोत्तरार्हेऽजनाद्द्वौ विदधाति तं ॥ तन्नोकपालास्त द्वापी
दध्यास्यादिषु कुर्वते ॥ ३२ ॥ चमरेऽंशो दाक्षिणात्येऽजनाद्भावुत्सवं सृजेत् ॥ तद्वाप्यंत
र्दधिमुखेष्वस्य दिग्पतयः पुनः ॥ ३३ ॥ पश्चिमेऽजनशैलेतु बलींशः कुरुते महं ॥ तद्दि
ग्पालास्तु तद्वाप्यंतर्नाग्दधिमुखादिषु ॥ ३४ ॥ वर्षेदीपदिनारब्धानुपवासान् कुहू
तिथौ ॥ कुर्वन्नंदीश्वरोपास्त्यै श्रायसीं श्रियमाश्रयेत् ॥ ३५ ॥ नक्तया चैत्यानि वंदा
रुस्तत्स्तोत्रस्तुतिपाठनाक् ॥ नंदीश्वरमुपासीनोऽनुपूर्वाहस्तरेत्तरां ॥ ३६ ॥ प्रायःपू
र्वाचार्य ग्रथितैरेवायमाचितः श्लोकैः ॥ श्रीनंदीश्वरकल्पो लिखित इति श्रीजिन
प्रजाचार्यैः ॥ ३७ ॥ इति श्रीजिनप्रजाचार्यविरचितनंदीश्वरकल्पः समाप्तः ॥

॥ अथ श्रीशारदास्तवनप्रारंभः ॥

वाग्देवते नक्तिमतां स्वशक्तिकलापवित्रासितविग्रहा मे ॥ बोधं विशुद्धं नवती
विधत्तां कलापवित्रासितविग्रहा मे ॥ १ ॥ अकंप्रवीणाकलहंसपत्राकृतस्मरणानमतां
निहंतुं ॥ अकंप्रवीणा कलहंसपत्रा सरस्वती शश्वदपोहता ६ः ॥ २ ॥ ब्राह्मी विजे

षीष्ट विनिष्कुंदप्रजावदाता घनगर्जितस्य ॥ स्वरेण जैत्री ऋतुना स्वकीयप्रजा
वदाता घनगर्जितस्य ॥ ३ ॥ मुक्ताह्मालालसदौषधीशाऽनिशूज्वला जाति करे त्व
दीये ॥ मुक्ताह्माला लसदौषधीशा यां प्रेक्ष्य जेजे मुनयोपि हर्ष ॥ ४ ॥ ज्ञानं
प्रदातुं प्रवणा ममातिशया लुनाना जवपातकानि ॥ त्वं नेमुषां चारति पुंडरीक
शयालुनानाजवपातकानि ॥ ५ ॥ प्रौढप्रजावा समपुस्तके न ध्याता सि येनांबि विरा
जिहस्ता ॥ प्रौढप्रजावा समपुस्तकेन विद्या सुधापूरमदूरदुःखा ॥ ६ ॥ तुभ्यं प्र
णामः क्रियते नयेन मरालयेन प्रमदेन मातः ॥ कीर्तिप्रतापौ जुवि तस्य नम्रमरालयेन
प्रमदेन मातः ॥ ७ ॥ रुच्यारविंदत्रमदं करोति वेलं यदीयोर्चति तेंऽहियुग्मं ॥ रु
च्यारविं दत्रमदं करोति स स्वस्य गोष्ठीं विडुषां प्रविश्य ॥ ८ ॥ पादप्रसादात्तव रू
पसंपत् लेखानिरामोदितमानवेशः ॥ जवेन्नरः सूक्तिजिखंब चित्रोद्धेखानिरासीदि
तमानवेशः ॥ ९ ॥ सितांशुकां ते नयनानिरामां मूर्तिं समाराथ्य जवेन्मनुष्यः ॥
सितांशुकांते नयनानिरामांधकारसूर्यः क्तिपावतंसः ॥ १० ॥ येन स्थितं त्वामनु
सर्वतीर्थैःसजाजिता मानतमस्तकेन ॥ दुर्वादिनां निर्दलितं नरेंऽसजाजितामानत
मस्तकेन ॥ ११ ॥ सर्वज्ञ वक्रवरतामरसांकलीनामालीं घ्रती प्रणयमंथरया दृशै
व ॥ सर्वज्ञवक्रवरतामरसांकलीना प्रीणातु विश्रुतयशाः श्रुतदेवता नः ॥ १२ ॥
क्वमस्तुतिर्निबिडनक्तिजमत्वष्टकैर्गुंफैर्गिरामिति गिरामधिदेवता सा ॥ बालोऽनुकंप्य इ
ति रोपयतु प्रसादस्मेरां दृशं मयि जिनप्रजसूरिवर्णा ॥ १३ ॥ इति श्रीजिनप्रजसूरि
कृतश्रीशारदास्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीजिनसिंहसूरिस्तवनप्रारंभः ॥

प्रभुः प्रदद्यान्मुनिपक्षिपंक्तेर्नागारिरागोपचितिं सदानः ॥ समुद्रहन् श्रीजिनसिंह
सूरिर्नागारिरागोपचितिं सदा नः ॥ १ ॥ कव्याण गोत्रायितमोहरेणौ चंदानिलेन
स्थिरतागुणेन ॥ कव्याणगोत्रायि तमोहरेणौन्नत्यं त्वयैवार्हतशासनस्य ॥ २ ॥ स्वा
मिन् मनोन्वेति न ते मृगाहीं मनोजवानां चतुरंगमानां ॥ बोधेन कृद्दीर्न कुलं गजा
नां मनोजवानां च तुरंगमानां ॥ ३ ॥ कंदर्पकांतारविजावसूनां प्राप्ते त्वयीशान्यमृ
षिं तपःश्रीः ॥ कंदर्पकांतारविजावसूनां निधिर्गुणानां जुवि यत्त्वमेव ॥ ४ ॥ ज
गङ्गानांजोजवने गुणौघवक्रारविंदं जविना कृतोहं ॥ वंदे त्वदीयं सकलोरुपस्य व
क्रारविंदं जविनाकृतोहं ॥ ५ ॥ सर्व कषायानलमेघवारिमोहाय सूक्तं शृणु तं विजेतुं ॥ स
र्वं कषायानलमेघवारिवृत्तं स्मर श्रीजिनसिंहसूरेः ॥ ६ ॥ मुदे न कस्यास्तु धुरि स्थि

ता ते सरस्वती कृद्वशीकराणां ॥ माधुर्यशैत्याङ्गयिनी तरिर्नी सरस्वती कृद्वशीक
 राणां ॥ ७ ॥ सदोदिताबोधमपुरुषा अप्यानदितावागमृतं श्रवोन्त्यां ॥ सदोदिताबो
 धमपुरुषा अप्युपाशमंस्तेन मुनीषु तेषां ॥ ८ ॥ व्यामोहबाणासुरदर्पमाथ पद्मावरो
 दीर्घतमोवितानः ॥ त्वमेधि सन्मंत्रजपाजिराद् पद्मावरो दीर्घतमोवितानः ॥ ९ ॥
 योगेन धीरोचित माननीय श्रियस्तवोचे शशिनोपमानं ॥ योगेनधीरोचित माननीय
 प्रख्यातमूर्खं तमुदाहरामः ॥ १० ॥ स्मराशुगानां हृदि मंगिमर्माविधामरेशास्त्र निधेहि
 तानि ॥ तत्वानि सूरींश्च मदांश्चिद्देविधाऽमरेशाऽस्त्रनिधे हितानि ॥ ११ ॥ जिनप्र
 नाचार्यमनासमानावबोधमव्याः कविमात्मशिष्यं ॥ जिनप्रजा चार्यमनासमाना प्र
 जो स्फुरत्वस्य तव प्रसादात् ॥ १२ ॥ श्रीमङ्गलेश्वरयतीश्वरपादपद्मशृंगारचुंगकरणि
 जिंसिंहसूरिः ॥ इत्थं स्तुतोस्तु यमकैः शमकैरवेंडुरानंदकंदजनकुर्तुजितो नतानां
 ॥ १३ ॥ इति श्रीजिनप्रजसूरिकृतयमकस्तबकितश्रीजिनसिंहसूरिस्तवनं समाप्तं ॥

॥ अथ श्रीपंचनमस्कृतिस्तवनप्रारंभः ॥

प्रतिष्ठितं तमः पारे पारेवाग्वर्तिवैजवं ॥ प्रपंचं वेदसः पंच नमस्कारमजिष्ठुमः
 ॥ १ ॥ अहो पंचनमस्कारः कोप्युदारो जगत्सु यः ॥ संपदोऽष्टौ स्वयं धत्ते दत्तेऽनंता
 स्तु ताः सतां ॥ २ ॥ दत्तेऽनुकूलएवान्यो बुक्तिमात्रमपि प्रभुः ॥ एष पंच नमस्कारः प्रा
 तिलोम्येपि मुक्तिदः ॥ ३ ॥ नमस्कारनरेंद्रस्य किमपि प्राजवं स्तुमः ॥ यदीयफूत्कृतेना
 पि विद्वंति द्विषः कृणात् ॥ ४ ॥ सिद्धयोप्यणिमाद्यास्ता नमस्कारमधिष्ठिताः ॥
 अष्टाषष्ट्यह्वरात्मापि यदसौ प्रणवेऽविशत् ॥ ५ ॥ शिरःकादिधियाधीरैः स्वांगदेशनि
 वेशिता ॥ नमस्कृतेर्नवपदी कटरे वज्रपंजरः ॥ ६ ॥ वर्ण्यतां श्रीनमस्कारान् कार्मणं
 किमतोधिकं ॥ यत्संप्रयोगतःपांशुरपि संवनयेज्जगत् ॥ ७ ॥ नमस्कारं नुमः सिद्ध
 यत्पदस्पर्शपूतया ॥ पद्माब्जादितसर्वांगः शांतिमासादयेऽऽवरी ॥ ८ ॥ नववर्णी नम
 स्कृत्याः कृती प्रतिपदं जपन् ॥ विधत्ते विविधानिघ्नविघ्नावग्रहनियदं ॥ ९ ॥ कर्णिका
 ष्टदलाढये हृत्पुंडरीके निवेश्य यः ॥ ध्यायेत्पंच नमस्कारं संसारं स तरेत्तरां ॥ १० ॥ अष्टौ
 कोष्ठे पदेष्वस्य वर्णानानिख्य तावतः ॥ कुड्यादावर्चयन् सम्यगेति शांतेर्निशांततां
 ॥ ११ ॥ आद्याह्वराप्यपीष्टार्थसिध्दयैः स्युः परमेष्ठिनां ॥ बिंदुरप्यामृतः किं न नाशयेद्विषवि
 क्रियां ॥ १२ ॥ करांगुलीषु विन्यस्यार्हदादीन् ध्यानमानयन् ॥ प्रत्यूहपन्नगव्यूहव्यपोहे
 वैनतेयति ॥ १३ ॥ गुरुन् पंच क्रमात् ध्यायन् मुड्या परमेष्ठिनां ॥ गूढप्ररूढ मचिरात्
 कर्मग्रंथि विमोक्षयेत् ॥ १४ ॥ षोडशाह्वरगान् श्रद्धापरमः परमेष्ठिनः ॥ प्राणी प्रणि

दधानोप्यौपवस्तुफलमेधते ॥ १५ ॥ विद्युङ्गलाग्निचूपाजव्याजचौरारिमारिजं ॥
 नयं वंचयते पंच नमस्कारस्य संस्मरन् ॥ १६ ॥ आराध्य विधिवत्पंच नमस्कारमु
 दारधीः ॥ लङ्कापापेन पापेन मुक्तमार्हत्यमश्रुते ॥ १७ ॥ ऐहिकं फलमीप्सूनामष्ट
 कर्मप्रसाधिनी ॥ मुक्तयर्थिनां च स्यादेषैवाष्टकर्मनिषेधिनी ॥ १८ ॥ विषदामनि
 चारस्योपादानस्याखिलश्रियां ॥ स्मर्ता नमस्कृतेः स्वर्गिवर्गेण वरिवस्यते ॥ १९ ॥
 चतुर्दशानां पूर्वाणामेषैवोपनिषत्परा ॥ आद्या सकलविद्यानां बीजानां प्रकृतिः
 परा ॥ २० ॥ इयं पथ्योदनं पथ्यं परलोकाध्वयाधिनां ॥ परमास्त्रं नृणां मोहुराज
 युधाय सङ्गतां ॥ २१ ॥ प्राणी प्राणप्रयाणस्य कृणे ध्यायन्नमस्क्रियां ॥ लजते सु
 गतिं नैकान् पाप्मनः कृतपूर्व्यपि ॥ २२ ॥ नमस्कृतिं कृपावित्तैः श्रोत्रयोः प्राञ्जती
 कृतां ॥ स्वीकृत्य पुण्यसध्यंचस्तिर्यचोपि यद्युर्दिवं ॥ २३ ॥ त्रिदंडिनं निगृह्याऽस्य
 ष्टिना श्रेष्ठिनंदनः ॥ नमस्कारस्य महसाऽसाधय त्वर्णपूरुषं ॥ २४ ॥ स्मृत्वा पंच
 नमस्कारं प्रविष्टायास्तमोगृहं ॥ घटन्यस्तो महासत्याः पन्नगः पुष्पमाव्यचूत् ॥ २५ ॥
 नमस्कारेण संबोध्य मातुलिंगवनामरं ॥ प्राणत्राणं स्वपरयोर्व्यधत्त श्राद्धपुंगवः ॥
 २६ ॥ यद्गतां हुंडिकः प्रापत् सुकुलं चंडपिंगलः ॥ इतस्तादृक् गुणस्फीतिं सुदर्श
 नः सुदर्शने ॥ २७ ॥ एष माता पिता स्वामी गुरुर्नेत्रं निषक् सखा ॥ प्राणत्राणं
 गतिर्दीपः शांतिः पुष्टिर्महन्महः ॥ २८ ॥ निधयः संनिधौ कामधेनुरप्यनुगामिका ॥
 जूनृतो नृतकास्तस्य यस्य नैष हृदो हिरुक् ॥ २९ ॥ नास्येयतां प्रजावाणां क्रमवर्ति
 तथा गिरां ॥ मितायुष्वाच्च सर्वापि न्यक्तेण जणितुं क्लमः ॥ ३० ॥ सर्वावस्थोचितं
 सर्वश्रुतसारं सनातनं ॥ परमेष्ठिमहामंत्रं जक्तितंत्रमुपास्महे ॥ ३१ ॥ उच्चैर्योजन
 लङ्कमानविदितो विचित्रसुवर्णात्मतां नव्यानंदनजडशालमहिमा रोचिष्मचूलांचि
 तः ॥ अस्तु श्रीजिनगेहजास्वररुचिस्थानं जसन्निर्जरः सोयं वः परमेष्ठिपंचकनम
 स्कारः सुमेरुःश्रिये ॥ ३२ ॥ साम्नायावयवां जिनप्रजगुरुयां सूत्रयामासिवान् दि
 व्यां पंचनमस्कृतिस्तुतिमिमामानंदनंदनमनाः ॥ यस्यैषांचति कंठसीमनि सदा मुक्ता
 जताविच्रमं तं मुंचत्यचिरेण विघ्ननिचयाः श्लिष्यंति च श्रीजराः ॥ ३३ ॥ इति
 श्रीपंचनमस्कृतिस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीवीरस्तवनप्रारंभः ॥

श्रीवर्द्धमान परिपूरितनम्रकाम चामीकरप्रज जिनप्रजसूरिरेतं ॥ सोसूत्रयते त
 व जगज्जनहर्षवर्षदीपोत्सवस्तवजवं यमकावदातं ॥ १ ॥ श्रितास्त्वां कमलाह

म्य कल्पपाद पयोज ये ॥ करौ तान् प्रति विश्वैककल्पपादपयोजये ॥ १ ॥ क
 स्ते नति न सद्बोधसिंधुरारातिलक्षणो ॥ रंके च तुल्यचित्ताय सिंधुरारातिलक्षणे
 ॥ ३ ॥ हित्वेश देहं दर्शे त्वां शिवशंकार्तिके विदः ॥ नान्यतीर्थ्या यत्र लुप्ता शिवशंका
 र्तिकेविदः ॥ ४ ॥ रुद्धान्यपवर्णानामादानं दीपालिका सतां ॥ कोटिं परां यत्र तेऽनु
 दानंदीपालिका सतां ॥ ५ ॥ कुट्टशां शुश्रुवे तेंऽत्यदेशनाशितदर्पका ॥ धन्यैरेवेश वैरा
 ग्यदेशनाशितदर्पका ॥ ६ ॥ त्वन्मुक्त्याऽसीत्तमो हंतुं तरसा दह पावनी ॥ पूः पापा
 पापपद्माऽल्पेतरसादहृपाऽवनी ॥ ७ ॥ त्वत्सेवायां हृषीकेजहस्तिपाऽलस्यहीनता ॥
 कैर्न नाम तदा राज्ञो हस्तिपालस्य हीनता ॥ ८ ॥ दधानाऽघोरगेषूक्तस्वातिरेकाविराज
 तां ॥ क्रुद्धेषु जात त्वन्मोहो स्वातिरेका विराजतां ॥ ९ ॥ त्वन्निर्याणेन करणं ना
 गसंज्ञमरंजयत् ॥ एनांसि जगवन् कं ना नागसंज्ञमरंजयत् ॥ १० ॥ मूर्धागत
 स्येंडियार्थममता विषपानतः ॥ नाथोपचर्यां कुर्यास्त्वं मम ताविषपानतः ॥ ११ ॥
 तावकं या पिबत्युच्चै रमायाननसारसं ॥ दृष्टिर्विंदति सोरस्य रमाया न न सारसं
 ॥ १२ ॥ स्तूयासमन्वहमहं जवतः पृथिव्यां सिद्धार्थनंदनयशोजिमतं समस्याः ॥
 सिद्धार्थनंदनयशोजि मतं समस्याः सर्वश्रियां जिन निजं हृदि रोप्यतां मे ॥ १३ ॥
 इति श्री जिनप्रज्ञसूरिविरचितश्रीवीरस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीआदिजिनादिस्तवनप्रारंभः ॥

प्रणम्यादिजिनं प्राणी मरुदेवांगजायते ॥ हरणे पापरेणूनां मरुदेवांग जायते
 ॥ १ ॥ गर्वमैदवमञ्जावमाननस्यप्रचोरुणः ॥ सौंदर्येणाजितस्वैर माननस्य प्रचोरु
 णः ॥ २ ॥ मोहस्यानापतंस्त्राणं शंजवेश मिता रये ॥ यस्मै विश्वं नमश्चक्रे शं
 जवे शमितारये ॥ ३ ॥ सुदे ऽजिनंदनः सूतो राजसंवरदेहतः ॥ यत्पादाब्जे नृणां
 जावं राजसं वरदे हतः ॥ ४ ॥ दुःस्थानां सुमते दौस्थ्यं साध्वसागदवालनं ॥
 ध्यायंस्त्वां च स नीरोगः साध्वसागद वालनं ॥ ५ ॥ कः पद्मप्रज शक्तीस्ते प्रजावद
 मिता हिताः ॥ संख्यातुमीष्टि चंडार्कप्रजावदमिता हिताः ॥ ६ ॥ मोहराजं सुपार्श्वे
 त्वं नुतमायामलोलुपः ॥ जक्तौ तेऽतः कोस्तु विद्वानुतमायामलोलुपः ॥ ७ ॥
 तव चंडप्रचोत्पन्नमहसे नहमेनतः ॥ न सेवाविरहं सोढुं महसेनहमे नतः ॥ ८ ॥
 मयि बिभ्रत्तनुं चंडनावलकूप्रचोदयां ॥ तन्यास्त्वं सुविधे सर्वनावलकूप्रचो दयां
 ॥ ९ ॥ शीतलासुं श्रियोधाम्ना रविकल्पमनामयाः ॥ त्वां प्रत्यात्मा कृतो नर्तरवि
 कल्पमना मया ॥ १० ॥ त्वन्मते रमते श्रेयन् कमलायतनेत्र या ॥ सा धीप्रिया
 मेऽस्तु कृतं कमलायतनेत्रया ॥ ११ ॥ वासुपूज्य सविज्ञास्त बंधूकारुण्ययोगतः ॥

शरणं त्वक्रमौ विश्वबंधूकारुण्ययोगतः ॥ १२ ॥ श्रेयसः शरणं नञ्च त्वं गह्व
विमलंकृते ॥ त्वदि देहि च नक्त्यादिकृत्वं गह्वविमलंकृते ॥ १३ ॥ यःख्यातस्त्रि
जगत्यर्थ सदानुतनयोऽनिशं ॥ हंत्वर्कवन्मोहमयीं सदानुतनयोनिशं ॥ १४ ॥
त्वत्पादाब्जेऽलिनो हर्षाद् मलं पटतां पदं ॥ शांते मोहं जितं मन्ये दमलंपटतां
पदं ॥ १५ ॥ सुश्रीकुंधुं प्रतिप्रव्हा यमलार्जन चंजनाः ॥ यास्तावींङ्गैरागरोपयम
लार्जनचंजनाः ॥ १६ ॥ सोढुं समर्था नूयस्य नतमामवनिर्बलं ॥ सौरत्वमर्हच्च
क्रीडनत मामव निर्बलं ॥ १७ ॥ शक्तिं नवाब्धेरुद्धर्तुं मतिमल्लीनदेहिनः ॥ पुण्य
धातर्जने नक्तिर्मतिमल्लीन देहि नः ॥ १८ ॥ यस्या विलासास्त्रैलोक्य पद्मानंदनजा
नवः ॥ मा तु सुव्रत सा शक्या पद्मानंदनजा न वः ॥ १९ ॥ यत्र नांद्दिदयी ते वा न
मे रुचिरकोमला ॥ तत्र राजेप्यनीतानां नमेरुचिरकोमला ॥ २० ॥ नेमे नमस्ते
दोषज्ञ रंजनः प्रचविभवे ॥ कर्मासुरवधायोच्चैरंजनप्रचविभवे ॥ २१ ॥ तापाग्रौ
जुहुवे पार्श्वे नवता पंचसायकः ॥ श्रितोऽतस्त्वं जनो मोहनवतापं च सायकः ॥
२२ ॥ नाऽलुच्यः कामसौख्याय लोकनेतरणीयसा ॥ तेन वीर जगत्कर्मा लोकने त
रणीयसे ॥ २३ ॥ तवार्हन् पंचकल्याणी दया लोकामदायिनः ॥ पायास्त्रिजगते दत्तो
दयालो कामदायिनः ॥ २४ ॥ त्रातुं जीववीधाः संविदक्त्वा मानव तामिताः ॥ जिने
ज्ञाः पांतु करुणा दक्त्वा मानवतामिताः ॥ २५ ॥ यदाराथ्यंति गीर्वाणव्रजाऽनयदशा
सनं ॥ तत् प्रज्ञा शरणं नक्त्वा व्रजाऽनयदशासनं ॥ २६ ॥ यस्या नेशजिरा जैन्या सुत
रामघवासना ॥ हंत्वापदः सुसंघस्यासुतरा मघवासना ॥ २७ ॥ लक्ष्म्याकृष्टिकरं जिनेऽ
मनघं नडावलीमंदिरं वंदे तस्य गिरं नतत्रमतमः सूर्ये धियां कारणं ॥ सार्वीयप्रथित
प्रजावमखिलारिष्टौघहानिप्रदं दंनव्याजसृणिं वरेण्यसमयं रंगजुणं बोधिदं ॥ २८ ॥
इति श्रीयमकयुक्त आदिजिनादिस्तवनं संपूर्णम् ॥

॥ अथ श्रीपार्श्वप्रातिहार्यस्तवनप्रारंभः ॥

त्वां विनुत्य महिमश्रियामहं पन्नगांकमठदर्पकोषिणं ॥ स्वां पुंनामि किमपीनर
हितापन्नगां कमठदर्पकोषिणं ॥ १ ॥ कोनुरज्यति देशनौकसि डागशोकतरुणा वि
जासिते ॥ रत्नहेमरुचिनिः हितोद्धसडागशोकतरुणाविजासिते ॥ २ ॥ देहदीधिति
तिरस्कृतो दयत्सौरजाः सुमनसः सदानवाः ॥ देशना जुवि किरंति ते स्फुरत्सौरजाः
सुमनसः सदानवाः ॥ ३ ॥ तादृशः श्रवणतस्तवोत्तमा कारकाय वरदेशनाध्वनेः ॥
प्रस्थितः कइव पाप्मनां निराकारकायवरदेशनाध्वनेः ॥ ४ ॥ नाकिनायकयुगेन सादरं
चामरैर्विषदजाग वीज्यसे ॥ त्वं न कैर्नवसुखायमुक्तये चामरैर्विषदजागवीज्यसे ॥ ५ ॥

वीक्षितुर्नयनयोर्निराकृता शंसनासुरमणीपनावतः ॥ श्रातनोति कृतसिंहविष्टरं शंस
नासुर मणीपनावतः ॥ ६ ॥ इष्टुरपयति कीर्तिशुचिता शांतनावलयमर्थमोहदं ॥
दीप्यमानमनुमौलि तावकं शांतनावलयमर्थमोहदं ॥ ७ ॥ व्योम्नि गर्जि निनदः पु
रस्तवामानवैरिमुदिरो महर्षिनिः ॥ कैर्न डंडनिरवः श्रुतस्तनौ मानवैरिमुदि रोमहर्षि
निः ॥ ८ ॥ शेमुषीषु कुपथानि मौक्तिकन्यास हृद्यरुचितानि चायितुः ॥ त्रीणि ते
जिन शितोष्णवारणं न्यासहृद्यरुचितानिचायितुः ॥ ९ ॥ प्रातिहार्यमहिमालयस्तवः
श्रीजिनप्रज विति स्तुतो मया ॥ पार्श्वकामितफलाय कल्पतां कल्पपादप इवेष
नेमुषां ॥ १० ॥ इति जिनप्रजसूरिकृतश्रीपार्श्वप्रातिहार्यस्तवनं संपूर्णम् ॥

॥ अथ श्रीकल्याणपंचकस्तवनप्रारंभः ॥

निलिंपलोकायित नूतलं श्रिया नयन्मुदं नैरधिकानपि क्लृणं ॥ त्रिलोकलोकस्य
रतेः प्रपंचकं जिनेऽ कल्याणकपंचकं स्तुमः ॥ १ ॥ निवेदितः प्रीतिपरैः पुरंदरैश्चतुर्द
श स्वप्रविनावितोदयः ॥ महानिधानागम चारुरर्हतां तनोतु गर्जावतरोत्सवः शिवं
॥ २ ॥ कुकुम्भुमारीकृतसूतिसंस्क्रियं सुपर्वसंपादितमङ्गनकृणं ॥ सृजंतमुद्योतम
यं जगत्रयं जनुर्महं संस्तुमहे नवद्रुहं ॥ ३ ॥ सुरोपनीतैः परिवत्सरं धनैर्यथाजिला
षं परितोषितार्थिने ॥ जिनाधिपानां निखिलांगिरक्षिणे नमस्तपस्याप्रतिपत्तिपर्वणे
॥ ४ ॥ अमर्त्यनिर्वर्त्तितदेशनाऽवनीकृताद्भुतः कैवलवैजवोद्भवः ॥ अमंदनांदीरवपू
रितांबरः करोतु जैनः शुभजाजनं जनं ॥ ५ ॥ पुरंदरक्रंदितसंच्रमत्रमत्सुरोघमालि
गितमुक्तिवद्व्रजं ॥ जिनस्य निर्वाणदिनं दिगंतरस्फुरत्तमः सत्तमशर्मणेऽस्तु नः ॥ ६
महर्षयो नूतनवद्भविष्यताममुत्र कल्याणकपंचकेऽर्हतां ॥ विना विदेहान् दश कर्मनू
मिषु स्मरन्ति मासर्हतिथीन् सनातनान् ॥ ७ ॥ इत्यादृतत्रिचुवनप्रभुसत्क पंचक
व्याणवज्रकवचं हृदि यो विनर्त्ति ॥ शस्त्राणि ते जिततरायपि मोहराजः सौजाग्य
जाग्ययुजि न प्रनवंति तस्मिन् ॥ ८ ॥ इति श्रीकल्याणपंचकस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ लक्षणप्रयोगमयश्रीवीरस्तवनप्रारंभः ॥

निस्तीर्णविस्तीर्णनवार्षेवं शैरुत्कर्णमाकर्णितवर्णवादं ॥ सुपर्णमंहोहि दमे सु
पर्ण श्रीपर्णवर्णं विनुवामि वीरं ॥ १ ॥ यैर्व्याप्यतां प्राप्यत तावकीनं क्रमांबुजं नाथ
नमस्करोतेः ॥ संसारचक्रमणानिधस्य गणस्य ते वृत्करणं गृणन्ति ॥ २ ॥ तुल्येपि ने
त्रामृतवर्षिजावे कजंकपंकच्युतिसंयुतिन्यां ॥ प्रधानशिष्टं वदनं त्वदीयं मन्यामहे
ऽन्वाचयशिष्टमिडं ॥ ३ ॥ द्विगोरिव त्वत्प्रणतस्य संख्या पूर्वा प्रवृत्तिर्न कुतीर्थिका

नां ॥ विजो बहुव्रीहिसमासवत्वमन्यार्थ एवोपदधासि वृत्तिं ॥ ४ ॥ विजक्तिमुक्तं पुरु
 वैरसंख्यैः समाश्रितं धातुविकारहीनं ॥ अपूर्वमेतत्कटकृत्यनिष्ठाप्रधानमाख्यात
 मिन त्वदीयं ॥ ५ ॥ यस्मिन्न संधिर्न च वर्णलोपो न संस्तुतिर्विग्रहकारकाणां ॥
 नवा विकल्पः कचन प्रयोगेष्वहो नवं व्याकरणं तवेदं ॥ ६ ॥ ध्यात्वा हृदा त्वां फ
 लमेति जव्यो दृष्टापि साह्यान्न कृतीत्वजव्यः ॥ तत्सत्यमेतद्दहिरंगतो यत् स्यादंतरं
 गोत्रविधिर्बलीयान् ॥ ७ ॥ एतावतैव प्रतिजाति विश्वविलक्षणं वीर जवच्चरित्रं ॥
 जालेन युष्मत्पदसंप्रयोगेष्यलंजि लोकस्य यदुत्तमत्वं ॥ ८ ॥ एकत्र धातावुपस
 र्गपंचकप्रयोग इष्टः कविनिर्निरंतरं ॥ त्व-इ-यानधातावुपसर्गविंशतिं सुरः प्रयोक्ता न
 कथं कुलक्षणः ॥ ९ ॥ प्रजो महच्चित्रमिदं कदंबके कुतीर्थिकाणामपि कर्म धारये ॥
 यन्मोहराजप्रधनेषु पुंवद्भावो न कश्चित् परिपोस्फुरीति ॥ १० ॥ शुद्धयोर्वरद नावकर्म
 णोर्दर्शयन् विकरणस्थितिं पदे ॥ निर्विजक्ति समुदाहरन् पदं साधुलक्षणविचक्षणो ज
 वान् ॥ ११ ॥ अनुपधातिनमेव किलागमं प्रणिगदंति जिनेश्वर शाब्दिकाः ॥ असुमतामुपधा
 तकरः स्पृशत् कथमिवागमतां स कृतः परैः ॥ १२ ॥ योपादानं नश्यतः पापपूगस्यासि व्या
 प्यं वंदते वासवानां ॥ आधारः श्रीसंपदां संप्रदानं त्रैलोक्यस्य स्तोत्ररत्नोपदायाः ॥ १३ ॥
 बेडावद्यः करणमुशतां मोहवार्धिं तरीतुं कर्ता जातेर्दिरदरदनहेदशोर्निर्यशोनिः ॥
 जव्यानां यस्त्वमसि सुपथप्रस्थितो हेतुकर्ता तस्मै तुभ्यं जिन मम शिरो नम्रताकघम
 स्तु ॥ १४ ॥ अंतस्थास्तव शासनस्य यशसां कुंदावदातत्विषां गढंते चुवि संप्र
 सारणविधौ मर्त्या न तत्कौतुकं ॥ यत्ते नित्यमनामिनोपि कुगुरौ डर्वृत्तदेवेषु च चा
 र्जते गुणवृद्धिजाजनतया ब्रूमस्तदत्यद्भुतं ॥ १५ ॥ तात त्रातरिदं नपुंसकमपि स्वांत
 मदीयं जवन्माहात्म्यस्तुतिसुंदरीं प्रणयतः पाणौ करोत्वेकदा ॥ तत्संश्लेषसुखानु
 नाववशतः क्वैव्यं विधूय कृणात् तत्रोत्पादयिता ऽथ शाश्वतचिदानंदाब्दहयं नंदनं
 ॥ १६ ॥ इत्थंकारमिजारि जह्णनरः सत्त्वकृणप्रक्रियाचित्रं स्तोत्रमिदं विदंनहृदयो
 जिह्वाग्रजाग्रत्तमं ॥ कुर्वाणः स्मरबाणकुंठनकलानिष्पाततानर्तकी नाट्याचार्य
 जिनप्रनेऽ पदवीसाम्राज्यमासादयेत् ॥ १७ ॥ इति श्रीजिनप्रज विरचितलक्षणप्र
 योगमयश्रीवीरस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीवीतरागस्तवनप्रारंभः ॥

जयति पादा जिननायकस्य दोषापहा ध्वस्ततमोविकाराः ॥ रवेरिवाश्चर्यमतापका
 श्र न कौशिकक्लेशकराः स्वराश्च ॥ १ ॥ वाग्ज्ञानपूजानिरपायरूपाश्चत्वार एतेऽतिशया
 स्तवैव ॥ देवाधिदेवत्वमनिष्ठुवंतश्चतुःकषायकृतये तु नाथ ॥ २ ॥ शुद्धप्रयोगस्तवसं

स्तथेन कृतार्थतामेति कृती कृतीश ॥ न वाच्यतां याति कदापि लोके यथा यथार्थस्तव
 काव्यकर्ता ॥ ३ ॥ त्वमेव चेत्सेतसि जागरूको जंतोरसि श्रीजिनराजमहः ॥ नवेन्न किं
 सखिजगन्महद्वः प्रपात्यते किं नहि मोहमद्वः ॥ ४ ॥ त्वमेव देवस्त्रिविधेन येषां जगत्र
 यीवद्यपदो हि पादैः ॥ धात्री पवित्रीक्रियते किमत्रचित्रं तदीयैस्त्रिजगत्पवित्रैः ॥ ५ ॥
 उपाधियोगान्महतो लघुत्वं लघोरपि प्राज्यगुरुत्वमेव ॥ आदर्शके देव यथा द्विपस्य प्रदी
 पदीप्तौ तु तनून्तः स्यात् ॥ ६ ॥ कश्चिज्जुणानां हि लवोपि लोके यो दृश्यते सोपि विज्ञोः
 प्रभावः ॥ अद्वैतकव्याणनिधेर्जिनेऽप्योविना पद्मविता नवृद्धः ॥ ७ ॥ नातः परं देव
 जडत्वमंतः प्रत्यङ्गलहोपि नवान्नुद्धः ॥ सर्वज्ञताप्यस्ति विज्ञो न चान्या त्वमेव दे
 वो विदितो यदीह ॥ ८ ॥ विदंति सर्वेष्यपरानधीशान् नतान्नतास्ते प्रवदंति सर्वान् ॥
 जगद्गन्नाथ यथास्थितं हि त्वं वेत्सिहि त्वांतु न वेत्ति चित्रं ॥ ९ ॥ बहिःस्थितं
 वेत्ति परस्वरूपं न स्वस्थितं देव तव स्वरूपं ॥ चक्रुर्यथा पश्यति बाह्यरूपं नचात्मरू
 पं तु कदापि लोके ॥ १० ॥ सदात्मविज्ञानविहीनधीर्निर्न ज्ञायते नाथ विज्ञोः
 स्वरूपं ॥ स्वशीर्षपश्चात्प्रविजागसम्यङ्निरीक्षणे कोपि न बाह्यहेतुः ॥ ११ ॥ मध्य
 स्थनावोपि जिन त्वयीह गुणहृतेः स्याज्जुणिनो नितांतं ॥ यथाऽगुणप्रत्यय एषधातोः
 कर्मण्यथो कोऽत्र विचारहेतुः ॥ १२ ॥ त्वन्नकिनावोप्ययथार्थ एव नवत्प्रणीतार्थ
 विपर्ययेण ॥ विधीयते सर्वहितोपसर्गवर्गेण धात्वर्थेऽवान्यथा हि ॥ १३ ॥ दो
 दूयते यः स्वयमेव रागद्वेषादिलुंटाकनटैर्यथेष्टं ॥ संस्तूयते सोपि हि देवबुद्ध्या हहा
 महामोहविजृम्भितं तत् ॥ १४ ॥ अचिंत्यमाहात्म्यनिधिं प्रसन्नं जगद्भरणं जगतोपि
 पूज्यं ॥ त्वमेव देव प्रविवेत्सि हि त्वां प्रकाशतेऽन्येन किमु प्रदीपः ॥ १५ ॥ किम
 स्तिनास्तिति विवेकपद्मा रागादिपद्मकृतिलब्धदहाः ॥ ये श्रीजगन्नाथ जिनप्रजस्ते
 त्वामेव देवं जिनमाश्रयंति ॥ १६ ॥ इति श्रीवीतरागस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीचंद्रप्रजस्वामिस्तवनप्रारंभः ॥

देवैर्यःस्तुष्टुवे तुष्टैः सोमलांबितविग्रहः ॥ दद्याच्चंद्रप्रजःप्रीतिं सोमलांबितविग्रहः
 ॥ १ ॥ येषां पूजाविधिःकर्माजनहृत्कमलालयः ॥ ते जिनाः पांतु वोजव्यजनहृत्
 कमलालयः ॥ २ ॥ कुतीर्थिसार्थेन डुरासदं नोज्ञानिरंजनं ॥ श्रुतं सेवेत मोहाग्नि
 सदंनो ज्ञानिरंजनं ॥ ३ ॥ पातु गीर्वाःकृताविद्योपरमा कमलासना ॥ यत् प्रजो वा ज
 नैर्लेजे परमा कमलासना ॥ ४ ॥ इति श्रीचंद्रप्रजस्वामिस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीऋषभदेवस्तवनप्रारंभः ॥

संस्कृतजापा.

निरवधिरुचिरज्ञानं दोषत्रयविजयिनं सतां ध्येयम् ॥ जगदवबोधनिबंधनमादि
जिनेईं नवीमि मुदा ॥ १ ॥ कस्तवमिति द्विषोलं वदितुं परितो गुणान् गुरुनिजो
पि ॥ चुलुकैः प्रमिमासति वा कश्च जलं वरमनीरनिधेः ॥ २ ॥ तदपि त्वङ्गक्तिचर
प्रतरलितो वञ्चि तावकगुणाणुं ॥ चापलनुन्नो स्फुटमपि लपन् शिशुर्वा निरपवा
दः ॥ ३ ॥ ज्ञानप्रदीपजमिव स्निग्धांजनमुपहितं चरणलङ्घ्या ॥ सद्ग्यानदृगंजि
ताय चिकुरचयस्ते स यो रुरुचे ॥ ४ ॥

प्राकृतजापा.

तमकसिण सप्पखयमो,र मोरउद्धाहुते किलिम्मंति ॥ तुह सासणापिधं जे कुणं
ति विविहे तव किलेसो ॥ ५ ॥ तज्जिय कङ्गाणसिरि, पिदे वकङ्गाणसिरिविलासगि
हं ॥ तुह वंदे देहमहं विलसिरमोहंपि हयमोहं ॥ ६ ॥ युग्मं ॥ तुह मुहरन्नासयला,
रविंदलङ्गी मरट्टफुसणेणं ॥ जं विजितुं हिमरस्सी नियकंती निवहसुहडेहिं ॥ ७ ॥
असइं तमजि नवजरं सुसिरिउं पडू ससंकोसो ॥ डुगं खुर इय घणपरि,दिदंनउ
परनिसेहछा ॥ ८ ॥

मागधी जापा.

तुह शुस्तिदैवजाव, स्तं गदपञ्जे शमयपथमचञ्जे ॥ ते यिण कुंमदलङ्कशव,शि
मिश्रादिस्टी पददि नवे ॥ ९ ॥ तमवय्यवय्यिदमिधं, आचिस्किद शुस्टु मोस्कपुलम
ग्गं ॥ काला चिष्टामि हगे, हलिशनले पिस्किडुं धञ्जे ॥ १० ॥ केलीहलाहगुणहं,
हलिञ्जकशवस्टलायि किलणाह ॥ तुह अपुलनवत्तिलसं, वंदासु हगे शलीलाह
॥ ११ ॥ संयणिदधञ्जकमले, ये पष्कालिदमहंदपंकमले ॥ धिदपलमहिमशजूवे,
ययडु नवं शे शदा कोहे ॥ १२ ॥

पैशाची जापा.

विबुधान राचित्रानत, अनञ्ज सामञ्ज बुञ्ज तिसपञ्जं ॥ रंतून हितपके मे, कतसि
डीकुतुंबिनी पनय ॥ १३ ॥ नत्तिजरातो दूरे चिष्टति यो तुह रमिध्यतेनेन ॥ कसटजरे
चरणसुधा विहितसिनातो न सो जोति ॥ १४ ॥ युम्हातिसेवि तेदे अपुरवसुरपात
वे सतय्येवा॥कीरतिनो येन रतीस कथं वपते सुकतबीजं॥१५॥ नत्थून तुरितरिपुनो
नववं तिष्ठे तुमं मिमलरूपा॥ विलसिर पमतङ्गीजल, परकालितका इवापगता॥१६॥

चूलिका पैशाची.

काठं सिनेहफलिता तुह वतनं सेवते लमा अनखं॥हानून फंकुरकुनं पोमं सक
लंकमपि च विशुं ॥ १७ ॥ चलथलमंटलपटिमा चिकुराली शोफते तवंसयुके ॥ चल
नसिरितितसथेनू चरनायल तच्च नव तुवा ॥ १८ ॥ तुळंसकिलितटे फुल,ति मवख
नालिब्व मंचुकचलाची ॥ गतरुचकपोलतलरुचि,फासुर सोतामिनीतामा ॥ १९ ॥ लि
सफसुमक्कानाविल चनपरिहिन संखनीरवाहखटा ॥ पथसं फुवि सवकला नयनी
ती तंसिया तुमए ॥ २० ॥

शौरसेनी.

कुमद मकय्यनिदाणं ताइथ नवमाणविक्कदे जगवं ॥ चिंदाविदाव नय्ये, व जो
दि यावाणनाथ इमा ॥ २१ ॥ करुय अलं हरिपदविं करुय अलं वा महत्त विस
यसुहे ॥ खलु लहिय अपुरवपदं पणइजणं पाविदूण खलु ॥ २२ ॥ दवाड वि
रागमिदो पय्यत्तं एग उत्तरक्केणं ॥ नवरि तुह नत्तिपथि माजिणरायं फुरडु हि
दयम्मि ॥ २३ ॥ युग्मम् ॥ हीमाणहे नवादो चकिदोहं अम्महे यदिछावो ॥ एं ता
यथ ताथथ मं ससेवगं सामिअ्या तत्तो ॥ २४ ॥

॥ समसंस्कृतम् ॥

हेमसरोरुहजासं कलिमलकमलालिमंथहिमजासं ॥ नवजयधूलिमहाबल ना
नेय नवंतमनिवंदे ॥ २५ ॥ तव चरणोजयजलरुह पालीसेवापरायणादेव ॥ विंदं
ति नरालिगणा वरसिद्धिरमामरंदलयं ॥ २६ ॥ महिमधरं तमसमहिम, विमलं वरधी
सरोरुहेविमलं ॥ समयदयारससुगमं चरणं सेवे तवासुगमं ॥ २७ ॥ तव नामधेय
चिंताबद्धरसा शुवि नरावली धत्ते ॥ संरुद्धारिनरामरंजं, दरमालिंगकेलिरसं ॥ २८ ॥

॥ अपभ्रंशजापा ॥

तत्र रेहइ अलिसामलि बिदुउरावलि शुयपिठि ॥ निङ्गियरिउबलमृणे डग सुहडन
असिलठि ॥ २९ ॥ हडु मिळिह विसहजठि, यावदुडिय जणववहार ॥ पइं कायहि
मुणियहं, सुफरुसप्रिय करणपयार ॥ ३० ॥ तास्व महानवजलहिज, लिनरु निवडइ
दुडुरुत्ति ॥ जास्वन पाखिय तुध प,दुसारुणनावऊडत्ति ॥ ३१ ॥ सुकट्टु कर्हं तिडु ता
सुथ, इ कर्हंत मुसजलउजम्मु ॥ दिविदिवि जीवाञ्चन कर,दि पइं वुत उजिणधम्मु
॥ ३२ ॥ चूवे हि कुत्तित्थियजं, वयणू अवरुप्य रथइं विरुडु ॥ तं नेरसिवपंमिय त, इं जि देवु
प्रमाणेहिं सुरिडु ॥ ३३ ॥ इकासि तेहा नाव वि,णु बुडुपणमिय तुह पाय ॥ चुंजि ऊ

हि ता सुर रहं करिविणु डकविधाय ॥ ३४ ॥ मञ्ज कंहंतिदु जावरि, उ दडवड तण उह
वेकू ॥ सामिय सट्टलतेउ, लु डुनडु चंपइ परचकू ॥ ३५ ॥ जुत्तिवि किरिय नाणहरि, घ
यंमण मनसुदि जुगग्गि ॥ कुकुनपडुवइ सिवनय, रि तुह सासणरहिलग्गि ॥ ३६ ॥ परि
कवि तुह तणु नूडहि, कंचणकांति रवन्न ॥ वियसहि महणयणुत्तम, तामइ नवडह
तिन्न ॥ ३७ ॥

उत्तरपद्यस्याद्यं-हौ संस्कृतं १ समसंस्कृतं २ प्राकृतं ३ द्वितीये पेशाची
चूलिका पेशाचिके ॥ तार्तीयिके मागधीशौरसेन्यौ ॥ तुर्ये अपभ्रंशः ॥

नायालीहयमंदयामयमलं नासं धरंतं परं राकांतिं पवलोतयं अखचयासत्तं क
मालाचितं ॥ धीलं लोअमहं ददावहकलं विनाहमायालदं नाधा नीवृदिरेसि वंदउं
पइ साणंडु सीसुत्तइ ॥ ३८ ॥

॥ कविनामगर्जचक्रं ॥

तं प्राप्तो रुचिशु-योगरजसोन्मीलत्प्रतोषान्वितं शस्तः सौष्ठवजग्रमोहरवनः कं कं
जहस्तह्वविः ॥ रुच्या नास्करतिग्मसिद्धिरमणीसंकृप्तजावः परं रंता ज्ञानरमांशमास्त
रुपमे तन्याः सुविद्यां चिरं ॥ ३९ ॥ जगति विदितवान् यस्त्वत्कमाज्ञास्वरूपं तव शु
चिपदजावं संस्तवादध्यवस्य ॥ रचयति निजकंगालंक्रियां स्तोत्रमेतन्नवति नवकरीणां
सिंहसौजीष्टलक्ष्मीः ॥ ४० ॥ इति श्रीजिनप्रजसूरिविरचितं अष्टनाषात्मकं श्रीरूपन
देवस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीमहावीरस्तवनं ॥

चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं चित्रकृत्तरितं मुदा ॥

प्रतिलोमानुलोमाद्यैः खड्गाद्यैश्चातिचारुनिः ॥ १ ॥

॥ प्रतिलोमानुलोमपाद ॥

वंदे ऽमंददमं देवं यशमाय यमाशयः ॥ नायेनाघघनायेना पाकृता ममता कृपा ३

॥ अनुलोमप्रतिलोम ॥

दासतां तव जागारा नचेयाय मतामस ॥ समतामययाचेनरागानावततां सदा ॥ ३ ॥

॥ अर्द्धप्रतिलोमानुलोम ॥

वरदानवरादित्व त्वदिरावनदारव ॥ याज्यदेव जयान्यास सन्याय नवदेज्यया ॥ ४ ॥

॥ अर्द्धभ्रम ॥

श्रीद वीर विरेजत्वं दमिताह गताशुन ॥ वीताहमारंजितारे रहु मां सदरंगविप

॥ मुरजबंध ॥

गीरतारजतारद्वेषे धीरता स्थिरतारसा ॥ सारतारश्रुताबंध्या सुरता जन तावकी ६

॥ गोमूत्रिका ॥

ये पश्यन्ति तवेहास्यारविंदं नक्तिबंधुराः ॥ न पतन्ति जवे शस्यास्ते विदो जगवन्नराः ॥ ७ ॥

॥ सर्वतोच्च ॥

नमासररसामान मारिताद्वृद्धतारिमा ॥ साता म या यामतासा रक्षयाममयाद्वरं ७

॥ रथपदं ॥

तिर्यङ्नरसुराकीर्णा जासते ननते सजा ॥

त्वन्माहात्म्यात् कृताश्चर्यं याश्रिता ततता श्रिया ॥ ए ॥

॥ द्व्यक्षरपाद ॥

रैगोरांगोरुगीर्गंगा गौरीगुरुरोगरुक् ॥ गोरंगा गाररोगारिरैरिरोरैगुरुं गिरिं ॥ १ ॥

॥ एकाक्षरपाद ॥

जालजालोललीजालं ततताततितातते ॥ ममाममामममुमा ननानेनोननानन ॥ १ ॥

॥ एकाक्षर श्लोक ॥

काकंकि काककंकौकः केकाकोकककेकिक ॥

कककाकुककोकैक ककुःकौकौककांककं ॥ १ ॥

॥ असंयोग ॥

मरुनूमौ तपकृताविव चारुसरोवरं ॥

कुतः सुकृतहीनानां सुलजं तव शासनं ॥ १३ ॥ युग्मं ॥

॥ द्वान्यां खड्गसंदानितकं ॥

सारणिः पुण्यवन्याया न्यायमौक्तिकशुक्तिका ॥ कामधेनुर्नयविदां बंधोह्लासन

जालसा ॥ १४ ॥ सारं स्याद्वादमुद्रायस्त्रिपदी जवतांऽजसा ॥ सा मेऽस्तु हृदि कां

तैका खिलेन रहितेन सा ॥ १५ ॥

॥ मुसलं ॥

श्रीसिद्धार्थकुलव्योमदिवाकर निरंजन ॥

कहृतेकांतवा मतं तीर्थंकर तवाश्रिताः ॥ १६ ॥

॥ त्रिशूलं ॥

शुक्ता या त्वयि नव्याली धन्या धत्तेस्म चेतसा ॥
सामता तामसाकाममकासारंगसागरं ॥ १७ ॥

॥ हलं ॥

त्रिशलाकुक्षिपाथोजराजहंस जगद्दिनो ॥
नोगास्तृणमिव त्यक्तास्त्वयामुक्ति दिदृक्षुया ॥ १८ ॥

॥ धनु ॥

सुरासुर नमस्तुन्यं नमस्यति जिनोत्तम ॥
मनःप्रसादसंदर्जदलिता शुभवासना ॥ १९ ॥

॥ शर ॥

कथं कर्तुं जनो मोहव्यपोहमहहृद्मः ॥
मनसा सादरं यस्त्वां न स्तौति तिमिरापहं ॥ २० ॥

॥ शक्ति ॥

बाव्यो मरुशिरःकंपसंपत्प्रथितविक्रम ॥
मनोजानोकहव्याल मम स्वामी नवानवं ॥ २१ ॥

॥ अष्ट दलकमलं ॥

मानितार्थक्रमामार रमामाकंद माधवः ॥
वधमार्गे ममाकास सकामार्थीः प्रतानि मा ॥ २२ ॥

॥ षोडशदल कमलं ॥

वनप्या न घनस्वान ध्यानमौन कनकन ॥
ज्ञानस्थान जिनश्रीनघनमेनस्वनःस्व नः ॥ २३ ॥

॥ स्तुत्यनामगर्जं बीजपूरं ॥

जय हेमवपु.श्रीक जगन्मोहापहारक ॥
जराहिवीन सिंहांक जन्मनीरधि नाविक ॥ २४ ॥

॥ हरा ॥

तुन्यं नमोस्तुलनयस्थितिकाय नीतिवन्यासुपावक सुरस्तुत वीर नेतः ॥
विद्याल ताविपुलमंडपहेमरूप कल्याणधीकरणदह नतेदमीन ॥ २५ ॥

॥ कविकाव्यनामांकं चक्रं ॥

नग्राकृत्यपथो जिनेश्वरवरो नव्याञ्जमित्रः क्रियादिष्टं तत्त्वविगानदोषरहितैः सूक्तैः
श्रवस्तर्पणः जन्माचिंत्यसुखप्रदः सुरचितारिष्टहयो वः सदा दाता शोचनवादिधीः क
जलदं यामेहणः संविदा ॥ १६ ॥

॥ चामरबंधः ॥

श्रीमद्दाम समग्रविग्रह मया चित्रस्तवेनामुना नूतस्त्वं पुरुहूतपूजित विज्ञो सद्यः
प्रसृद्यैधिमे ॥ ख्यातज्ञातकुलावतंस सकलत्रैलोक्यकजृम्भांतरः स्फारकूरतरज्वरस्मरज
रः संरब्धरक्षारतः ॥ १७ ॥ इति श्रीमहावीरस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीजीरापल्लिपार्श्वस्तवनं ॥

जीरिकापुरपतिं सदैवतं दैवतं परमहं स्तुवे जिनं ॥ यस्य नाम जगतो वशंकरं
शंकरं जपति मंत्रवज्जनः ॥ १ ॥ नाथ तत्तव मुखेंद्रुदर्शनं दर्शनं च नयनामृतं
स्तुवे ॥ येन मेडुरिततापहारिणा हारिणा लसति पुण्यवारिधिः ॥ २ ॥ विश्वविस्तृत
महाप्रजाव ते जावतेज इह मातिनो युगे ॥ उज्जते दिनकरे हि जासुरे जासुरेश्वरपुर
स्य किं नवेत् ॥ ३ ॥ अर्बुदस्य नवता व्यजावि या जावियात्रिकजनेष्वनीतिद ॥
पश्यतोहरनृतापि सारसा सारसाधुनिचिता नवतरां ॥ ४ ॥ ग्राममात्रमपिजीरप
ल्लिका पल्लिकाननसहोदरीव या ॥ त्वत्पदस्थितिबलेन साधुना साधुनायकपुरीवजा
सते ॥ ५ ॥ त्वां नमत्यशिववार्धितारकं तारकंकणसुमैः प्रपूज्य यः ॥ प्राप्य चिन्म
यमनेनसं पदं संपदं स समुपैति शाश्वतीं ॥ ६ ॥ त्वत्पुरः प्रकुरुते प्रजावनां जावनां
जिन निधाय यो हृदि ॥ निश्चितं स जज्ञते न दुर्गती दुर्गतीर्णजवसागर प्रज्ञो ॥ ७ ॥
यो दधाति हृदि तेंऽन्हिपंकजं पंकजं मलमधः करोति सः ॥ तप्तयेपि न जवंति पा
र्श्वतः पार्श्वतस्यतु नवोद्भवत्रमाः ॥ ८ ॥ त्वत्स्मृतेरपि जना निरामया रामया चरमया
निरामया ॥ योगिनूषण नवंति नूषिता नूषिताः किल सुधाशनाश्च ॥ ९ ॥ त्वत्प्रदप्रण
तिलालसादरं सादरं दधति जातुनाध्वनिं ॥ यत्र यांति ननु जानुजानवो जानवोद
य नमस्तु तत्र किं ॥ १० ॥ अंतरंगरिपवोऽकृपापराः पापराशिहर पीडयंति मां ॥
सत्यपि त्वयि विज्ञो कृपालये पालयेश शरणागतं ततः ॥ ११ ॥ त्वन्मयं जगति
यस्य मानसं मानसंयमनतस्य दुर्धरा ॥ तस्करानलपयः करेणवो रेणवो जिन न
वंति तत्कृणात् ॥ १२ ॥ देवशाखिमणिधेनुदेवता देव तावदिह वांछितप्रदाः ॥ या
वदेव तव धामनामजं नाम जंतुमनसि प्रदीव्यति ॥ १३ ॥ ज्ञानिनं जगदिनं निरंजनं

रंजनं त्रिजगतः पुरातनं ॥ त्वां स्मरामि सकलंच निष्कलं निष्कलंकमचलं महाबलं ॥१४॥ इच्छं यः प्रयतः स्तवीति सततं श्रीजीरपल्लीपुरीवासं पार्श्वजिनप्रभुं प्रकटित प्रौढप्रतापोदयं ॥ सोवश्यं सुजगं नविष्णुरधिकं धर्मार्थकामामृतश्रीनिः स्त्रीनिरिव स्वयं गुणगणाश्लिष्टानिराश्लिष्यते ॥१५॥ इति श्रीजीरपल्लीपार्श्वस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीफलवर्द्धिजिनपार्श्वस्तवनं ॥

सयलाहिवाहिजलहर, समूहसंहरणचंडपवमाणं ॥ फलवर्द्धिपासनाहं संशुणि मो फलय इच्छफलं ॥ १ ॥ विदुयासं विदुयासं, विदुयासं पत्तमनिशुणंति तुमं ॥ अम यरया अमयरया, अमयरया पुगश्चमवयणं ॥ २ ॥ समणाणं समणाणं, समणा णं लंधिउं फुरइ सत्ती ॥ विणयाणं विणयाणं, विणयाणंदणनयाहि मुदे ॥ ३ ॥ अ हिरन्ना अहिरन्ना, अहिरन्ना विणियमंति कयपूया ॥ सवाही सवाही, सवाहीणा तुह य नत्ता ॥ ४ ॥ गयवाहा गयवाहा, गयवाहा अरहियापइपसन्ने ॥ परमहिया परमहिया, परमहिया सह न हुंति नरा ॥ ५ ॥ सद्दवणा सद्दवणा, सद्दवणामयरि ऊ हवंति जणा ॥ सुहयगया सुहयगया, सुहयगया तुह पसाएण ॥ ६ ॥ कणयाउं कणयाउं, कणयाउं रक्कसी तुमं नवणं ॥ नद्दवओ नद्दवओ, नद्दवओ रिद्धिसिरिया णं ॥ ७ ॥ नाएणं नाएणं, नाएणं चियति लोहसुहउंसि ॥ नयराई नयराई, नयरा ई सुगुणपोराणं ॥ ८ ॥ फलवर्द्धी फलवर्द्धी, फलवर्द्धी दाइणा तुमे विहिया ॥ सन्न यरी सन्नयरी, सन्नयरीणंतयाइजया ॥ ९ ॥ समणाली समणाली, समणाली णं तहागमे धन्ना ॥ चरणरया चरणरया, चरणरया नाइचत्तसिरी ॥१०॥ निद्वप्पहस्स निद्व, प्पहस्स, निद्वप्पहस्स मोहदले ॥ रयणायर रयणायर, रयणायर गुहिर तुस्स नमो ॥ ११ ॥ इत्थं शुउंसि सिरिपास जगन्निवास सिंगारहारफलवर्द्धिपुरीसिरीए ॥ बुद्धीयराकयजिणप्पहसूरिवाणी थूयच्चमे वियर अंतररोगमुक्कं ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीफलवर्द्धिपार्श्वनाथस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीचंङ्गप्रजस्वामिस्तवनं ॥

॥ संस्कृतं ॥

नमो महसेननरेंद्रतनूज जगज्जनलोचनचृंगसरोज ॥ शरद्भवसोमसमद्युतिकाय दयामय तुन्यमनंतसुखाय ॥ १ ॥ सुखीकृतसादरसेवकलक्ष् विनिर्जितदुर्जपनाव विपक्ष ॥ सुरासुरवृंदनमस्कृत नंद महोदय कल्पमहीरुहकंद ॥ २ ॥

॥ प्राकृतं ॥

जय निरसिय तिहुयणजंतु चंति जय मोहमहीरुहदलनदंति ॥ जयकुंदक

लियसमदंतयंति जयजय चंदप्पह्वंदकंति ॥ ३ ॥ जय पणयपाणिगणकप्परु
स्क जय जगडिय अपयमकसयपरक ॥ जय निम्मलकेवलनाणगेह, जयजयजिणिं
द अप्पडिमदेह ॥ ४ ॥

॥ शौरसेनी ॥

विगदडुहहेड मोहारिकेदूदयं दलिदगुरुडुरिदमथ विह्दिदकुमदस्कयं ॥
नाधतं नमदिजोसदटनदवत्सलंलहदिनिच्चदि गतिं सोददं निम्मलं ॥ ५ ॥

॥ मागधी ॥

असुलसुलविसलनलनाय सेविवपदे नमिल जय जंतुतुदि दिन्नसिवपुलपदे ॥
चलनपुलनिलद संसालिसलसीनुदे, देहि महसामितंसालि सासदपदे ॥ ६ ॥

॥ पैशाचिकं ॥

तलिताखिलतोसतया सतनं मदनानलनीलमनानगुणं ॥
नलिनारुणपाततलानमते जिननो इधतं सशिवं लज्जते ॥ ७ ॥

॥ चूलिका पैशाचिकं ॥

कलनालिकनातुलतप्पहलं चलनीकल चालुयशप्पसलं ॥
ललनाचनकीतकुनंलुचिलं, चिनलावमहंसमलामिचिलं ॥ ८ ॥

॥ अपभ्रंश ॥

सासयसुक्ख निहाणुनाहनदिछो जेहिं तवं पुन्नविहूणउजाणु निफलजम्मु तिहं
नरपसुहं ॥ ९ ॥ निम्मल तुह सुहचंडजे पडुपिक्खुइं पसरिसिउं इयनिरुवमआणंडु ति
ह मुनिसामी विप्फुरइ ॥ १० ॥

॥ ध्रयं समसंस्कृतं ॥

हारिहारहरहासकुंदसुंदरदेहानय केवलकमलाकेलिनिलय मंजुलगुणगणमय ॥
कमलारुणकरचरणचरणधरणधवल बलसिद्धिरमणिसंगमविलासलालसमलम
वदल ॥ ११ ॥ नवनवदवजलवाहविमलमंगलकुलमंदिर वामकामकरिकेलिहरण
हरिवरगुणबंधुर ॥ मंदरगिरीगुरुसारसबलकलिनूरुहकुंजर देहिमहोदयमेव देव म
म केवलिकुंजर ॥ १२ ॥ इति जगदजिनंदन जनहृदि चंदन चंडप्रज जिनचंडवर ॥
षड्नाषानिष्टुत मम मंगलयुतसिद्धिसुखानि विजो वितर ॥ १३ ॥

इति श्रीजिनप्रजसूरिकृतचंडप्रजस्वामिसक्तं षड्नाषास्तवनं संपूर्णम् ॥

॥ अथ श्रीवर्द्धमाननिर्वाणकल्याणकस्तवनप्रारंभः ॥

श्रीसिद्धार्थनरेशवंशकमलाशृंगारचूडामणोर्जव्यानां डुरपोहमोहतिमिरप्रोज्झासने
 ऽहर्मणेः ॥ कुर्वे किंचन कांचनोज्वलरुचेर्निर्वाणकल्याणकस्तोत्रं गोत्रनिदर्चनीयचर
 णांनोजस्य वीरप्रज्ञोः ॥ १ ॥ प्राप्य देव शरदांद्दिसप्ततिं शीतगौ पवनदेवतर्द्धगे ॥
 तामुपायत रसेन कार्तिकाऽमावसीनिशि शिवश्रियं नवान् ॥ २ ॥ हस्तिपालकनृ
 पालपालिता पूर्न पूरयतु मन्मनःशुचा ॥ यत्र दर्शेव चंद्मा नवानस्तमाप नवताप
 हा पुनः ॥ ३ ॥ ऊर्जदर्शनिशि दर्शितर्द्धयस्तत्रपुर्यखिलवर्णजाः प्रजाः ॥ त्वन्महोदयमही
 तथाऽधुनाऽप्युत्सवं विदधतेऽनुवत्सरं ॥ ४ ॥ यैर्ध्वनिस्तव पपे श्रवःपुटैः षोडशप्रहरदे
 शनाविधो ॥ तान्निवेश्य धुरि धन्यताञ्जुषां रेखया न खलु सुप्यतेऽन्यतः ॥ ५ ॥ पुण्यपाप
 फलपाकवर्णनामध्यमध्ययनपंक्तियुक्शतं ॥ व्याकृथाः स्फुटमष्टषट्कृतिव्याकृतीश्च
 परिषद्पुरस्तदा ॥ ६ ॥ जीवति त्वयि जिनैऽनूतिना त्वत्प्रणामविधिजंगनीरुणा ॥ नून
 मेष्यत न देव केवलज्ञानसंपदनुरागजागपि ॥ ७ ॥ यद्विधेयमुपदिश्य गौतमः प्रैषि
 न्क्तिनृदपि त्वयाऽन्यतः ॥ रोगिणः कटुकजायुपानवज्जयायसेऽस्य चक्रे गुणाय तत्
 ॥ ८ ॥ त्वद्विद्वद्ववतरत्सुरावली या न देहमणिनृषणांशुनिः ॥ सा कुहूरजनि र
 स्ततामसा पूर्णिमानिशमुपाहसद्भुवं ॥ ९ ॥ निर्वृते त्वयि विलोक्य विष्टपं ध्वांतपूरपरि
 पूरितोदरं ॥ रोदयंत इव रोदसी प्रतिशुङ्गरेण रुरुडुः पुरंदराः ॥ १० ॥ वन्हिवायुजलदेश्व
 रैः सुरैस्तैलपणिककृतांगसंस्कृते ॥ नूतिमात्रमपि नूतिधाम ते ऽपस्पृशन् बत न तान् र
 जोऽस्पृशत् ॥ ११ ॥ नक्तितो महितुमीशवासवास्तावकीनहनुसंग्रहं व्यधुः ॥ नूनमह्विज
 याय तावकानुग्रहेण हनुमत्वमिह्वः ॥ १२ ॥ कुग्रहा न तव जातु शासनं वीर बाधितुम
 लंनविभवः ॥ एककः स खलु नस्मकग्रहो बाधते नवडुपेहितस्तदा ॥ १३ ॥ जग्मुषि त्व
 यि शिवं नराधिपास्तत्कृणं गृहमणीनबोधयन् ॥ ये बभूवुः कुनयकाननपुषस्त्वत्प्रताप
 शिखिनः कणा इव ॥ १४ ॥ यन्न कश्चन मुनिस्त्वया समं युक्ति मैयरितरैर्जनैरिव ॥
 दुःषमा समयजावलिं गिनां व्यंजितेन गुरुनिर्व्यपेहिता ॥ १५ ॥ प्रस्थिते त्वयि
 शिवाय तत्कृणं संमुसूर्धुरधिष्ट्वि कुंयवः ॥ ह्रुड्जीवबहुलामतः परं सूचयंत इव
 नाविनीं महीं ॥ १६ ॥ यत्र यत्र चरणौ त्वयाऽर्पितौ तत्तदास्पदमगादमापतां ॥ ए
 कया पुनरपापया पुरापापयाऽजनि सुरोक्तिनामतः ॥ १७ ॥ यत्र मुक्तिमगमः शम
 दुमावाप पापतुहिनार्कतापतत् ॥ प्रीतिमीति तरुकुंजजने नाग नागकरणं करो
 तु नः १८ ॥ यः पठत्यशुधीस्तव वीरस्तोत्रमेतदवधानसमेतः ॥ तत्रनावरिपुरा

जि रयश्रीनाजि न प्रभवति प्रबलापि ॥ १९ ॥ इति श्रीवर्धमाननिर्वाणकव्याण
कस्तवनं समाप्तम् ॥

॥ अथ श्रीअरिनाथस्तवनप्रारंभः ॥

जय शरदशकलदशहयवदन जय हतजगदसहनमदमदन ॥ जय नतशमगतश
मनजकदन जयजगवदरपरमपदसदन ॥ १ ॥ गतमलकमलसकलकरचरण
जननमरणजवनयजरहरण ॥ रघय चरणरसनशबलस्वन मनवमसनवमरसरम
वचन ॥ २ ॥ नवरचनरतदशशतनयन नयवनजलदजलजदलनयन ॥ फलद
कलकलयजयकरयजन नमदशमपहरशममनजजन ॥ ३ ॥ अमरफलदपदहर
पदकमल गजकरसरलसबलकरयमल ॥ जनयसनयमतनतजनसकल मतफ
लमपमलकलमलमकल ॥ ४ ॥ नयमयवचनपवनसमवमत परमतजलदपट
लमनसमत ॥ शमदमयमसमरसरमसमय जवपतनजजयमज मम शमय ॥ ५ ॥
धनखकनकशकलधनवरज मदकलकरणकलजजयशरज ॥ शरणदचरणनरकदर
शमन सदयमदयमफलयगजगमन ॥ ६ ॥ नतशतमखतमखलजनमदर ग
मयपरमपदमजयदसदर ॥ नवनवचववनजवदशमगम शकलनगजकलगलदन
वगम ॥ ७ ॥ तमचयमपनयतपमहतपन परसमयजरजहरपदजपन ॥ समज
नदमनकमनगजकरट दलनसबलतमहतमदचरट ॥ ८ ॥ मदनयनगमशरणन
रशरण गतरणसदवतरणवरकरण ॥ परसहचरसमरसजगदवन समवसरण
रमदहमहनवन ॥ ९ ॥ सततमचरचरजगदवगमक मननजनकथनतरतमशम
क ॥ परपदनगरगमनरणरणक मफलदशमसफलपथनणक ॥ १० ॥ रसनर
लसदनलसनमदमन जवनपवनधरनरयतसमर ॥ दलयबहलमलमरवरवशत
मतरतनरशतगतपरवशत ॥ ११ ॥ कपटशकटजलशयसमनवक जनमवगमय
समयरसमवक ॥ गदगजरणफणधरदकदहन धनहरमरकजदरहरमहन ॥ १२ ॥
समतसतमहपरमतकलस गणधरगणधरशमरसकलस ॥ जवदजवदपदलयलस
दवम वनमवनमयसहनमहनवम ॥ १३ ॥ एवं श्रीअरतीर्थराज तव यो दुःक
र्मरोगह्विदा कामः केवलवर्णसंस्तवसुधास्वादं विधत्ते सुधीः ॥ श्रेयो वा न जरामर
त्वपदवीसौख्यानि बाह्यंतरा मित्राली जय सुंदरः स नियतं शिश्रीयते मानवः ॥ १४ ॥
इति केवलाहरमयं श्रीअरनाथस्तवनं संपूर्णं ॥

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

॥ अथ श्रीयशोविजयजी उपाध्यायकृत अध्यात्ममतपरीक्षाप्रारंभः ॥

॥ आर्या वृत्तं ॥ पणमिय पासजिणंदं, वंदिअ सिरिविजयदेवसू
रिंदं ॥ अक्षय्यमयपरिक्कं, जहवोहमिमं करिस्सामि ॥ १ ॥

व्याख्या:- सर्व कल्याणनी सिद्धिने अर्थे, श्रीपार्श्वनाथने प्रणाम करीने, तथा संप्रति विजयमान तपागङ्गाधिराज जे श्रीविजयदेवसूरी तेमनी वंदना करीने, पो ताना बोधने अनुसारे, आ अध्यात्ममतपरीक्षानामनुं प्रकरण हुं करुं बुं.

उपोद्घात:- कोई आशंका करे के, बुद्ध तत्त्वनो जे अंगीकार तेने अध्यात्म कहेबे. तेमां कोई विवाद नथी; त्यारे परीक्षा ते शानी करवी? जे वस्तुमां संदेह पने तेनी परीक्षा कराय बे; निस्संदेह वस्तुनी शी परीक्षा! माटे आ अध्यात्ममत परीक्षानामनुं प्रकरण करवानुं कोई प्रयोजन दीगमां आवतुं नथी. तेने कहेबे ॥१॥

अक्षय्यं णामाई, चउविहं चउविहा य तवंता ॥

तत्त इमे अप्पुत्तिय, णामेणअपिआ णेआ ॥ २ ॥

व्याख्या:- अध्यात्मना चार प्रकार बे. एक नामअध्यात्म, बीजो स्थापनाअध्यात्म, त्रीजो इव्यअध्यात्म अने चोथो जावअध्यात्म. चेतन तथा अचेतन ए बेमांनी कोई पण वस्तुनुं अध्यात्म एवुं नाम राखेलुं होय ते नामअध्यात्म; अध्यात्मवंत यतिना आकारनुं चित्र कहाडयूं होय ते स्थापनाअध्यात्म; अने जेथ की जावअध्यात्म उत्पन्न थाय, जेवां के, प्रतिमादर्शन, सङ्गुरुसेवा, अने अध्यात्मशास्त्रान्यास ए त्रणे जावाध्यात्मना कारण बे, माटे ते इव्याध्यात्म; तथा आत्माना जे बुद्ध परिणामते जाव अध्यात्म कहिये. तेम अध्यात्मीना पण पूर्वोक्त रीते चार प्रकार बे तेओमां इहां जेओना मतनो विचार कर्तव्य बे, ते नामअध्यात्म वंत बे. तेओना मतनी आशंकानुं निवारण करवुं, ते आ ग्रंथनुं प्रयोजन बे. ॥१॥

उ०:- पूर्वोक्त चार प्रकारना अध्यात्ममानो जावअध्यात्म मोक्षनुं कारण बे. माटे तेनुं विशेषेकरी स्वरूप कहेबे:-

जा खलु सहावसिद्धा, किरिआ अप्पाणमेव अहिगिब ॥

जसुइ परमअक्षय्यं, सा दंसण नाण चरणद्धा ॥ ३ ॥

व्या०:- जहांबुधी कषाय तथा इंदियने वश थयोथको संसारनेविषे आत्मा

फरे ठे, तहांशुधी आत्मानेविषे कर्मनो अधिकार ठे; स्वतः आत्मानो अधिकार नथी. केमके, आत्मस्वजावनुं आह्लादन थएलुं ठे. जेम मलड्व्यना योगे सुवर्ण नुं आह्लादन थई जायठे, तेथी तेनो स्वजाव प्रगट थई शकतो नथी. तेम कर्मना योगे आत्मानुं आह्लादन थई जायठे, तेथी तेनो ज्ञान, विज्ञान, तथा अमूर्त्तत्वा दि स्वजाव प्रगट थई शकतो नथी. अने नामकर्म ते आत्मस्वजावने पलटावीने नर, तिर्यंच, नारकी, तथा देवताप्रमुखना पर्यायरूप पोताना स्वजावने प्रगटकरे ठे. जेम तीव्र अग्निमां सुवर्णने नाख्याथी ते मल ज्यारे बली जाय त्यारे सुवर्ण नो शुद्धतादिस्वजाव प्रगट थायठे. तेम शुनपरिणाम पूर्वक तपश्चर्याप्रमुख थ की ज्यारे कर्मनो कृत्य थई जायठे, त्यारे आत्मानो ज्ञानादिरूप स्वजाव प्रगट थायठे. एटले कर्मनो अधिकार टलीने स्वतः आत्मानो अधिकार प्रवर्त्ते ठे, ए अधिकारनी जे क्रिया तेने जावअध्यात्म कहिये. ते आत्म ज्ञानरूप एक वस्तु हो वार्थी बोधरूप ठे माटे ज्ञान कहिये; तेमज रुचिरूप होवार्थी सम्यक्त दर्शन क हिये; तथा प्राणातिपातादिक आश्रवनिरोधरूप होवार्थी चारित्र कहिये. यतः “आ ह्मानमात्मनोवेत्ति, मोहत्यागाद्यआत्मनि॥ तदेव तस्य चारित्रं, तज्ज्ञानं तच्च दर्शनं.”

उ० कोइ आशंका करे के, जावाध्यात्म तथा शुद्धोपयोग ए बे शब्दोनो अर्थ एक ठे. जेम उपाधिरहित स्फटिकनो निर्मल स्वजाव ठे. तेम परड्व्यसंगरहित जीवोनो निर्मल स्वजाव ठे. तेनेज शुद्धोपयोग कहेठे. अने एनेज चारित्र कहेठे. परड्व्यसंगे जीवोनो जे मलिन स्वजाव थायठे, तेने अशुद्धोपयोग कहेठे एना बे जेद ठे:—एक शुद्धोपयोग बीजो अशुद्धोपयोग. देव गुरु तथा धर्मादिक उ पर जे प्रशस्त राग होयठे, तेने शुद्धोपयोग कहेठे. जेम राता फूलना संगथकी स्फटिकनो रातो रंग थायठे, तेम जाणवुं. अने जे अप्रशस्त राग तथा द्वेष होय ठे, तेने अशुद्धोपयोग कहेठे. जेम काला फूलना संगथकी स्फटिकनो कालो रंग थायठे, तेम जाणवुं. ए बन्ने मूल स्वजावने ढांकी लियेठे, तेथी अशुद्धोपयोग कहेठे. एनेज शुद्धोपयोगरूप चारित्रना ठेद कहेठे: एनां आयतन परड्व्य ठे त्यारे श्वेतांबरनेविषे चउद उपकरणरूप परड्व्यनो संग ठता अध्यात्म केम प्रग ट थाय? तेने उत्तर कहे ठे: ॥ ३ ॥

एविना रागद्वोसो, अक्षप्परसेहि किंचि पडिकूलं ॥

परद्वं उवगरणं, किंपुण देहुव धम्मं ॥ ४ ॥

व्या० मात्र रागद्वेषविना बीजूं कोई पण परडव्य ते शुद्धोपयोगरूप अध्यात्मने प्रतिकूल नथी. एम जो अंगीकार नही करशो तो लोकमां सर्वत्र धर्मास्तिका यादिक परडव्य नखा ठे, ते बधां प्रतिकूल कहेवासे. तेम तो संजवे नही; माटे शुद्धोपयोगरूप अध्यात्मने राग द्वेषज प्रतिकूल ठे, एविनाबीजुं कोई परडव्य प्रतिकूल नथी एम जाणवुं. जो एम कहेशो के परिग्रहीत परडव्य अध्यात्मनुं विरोधीज ठे, पण अपरिग्रहीत परडव्य अध्यात्मनुं विरोधी नथी. ल्यारे शरीर रूपडव्य परिग्रहीत ठतां केम अध्यात्म उत्पन्न थायठे? जो एम कहेशो के, शरीर धर्मनुं कारण ठे. तेथी अध्यात्मनो विरोधी नथी. ल्यारे धर्मोपकरण पण धर्मनां साधन होवाथी अध्यात्मना विरोधी थाय नही. ए सामान्यपणे उत्तर कह्युं.

उ० कोई एवी आशंका करे के ज्यांशुधी उपधि होय. त्यां शुधी सर्वथा अध्यात्मनी सिद्धि थाय नही तेनुं मत दूषित करेठे:- ॥ ४ ॥

उपधिसहिञ्चो ए सिद्धइ, सतुसा जह तंडुला न सिञ्चंति ॥

इय वयणं पस्किंतं, दूरे दिष्टंतवेसम्मा ॥ ५ ॥

व्या०:-उपधिसहित जीव सिद्धताने पामे नही. जेम तूससहित चोखो सीजे नही, तेम जाणवुं. जेम चोखाने तूस दोषरूप ठे, तेम उपधि जीवने दोषरूप ठे. एवुं वचन अमरचंद्र नामना दिगंबरनुं जुडंज नाख्युं ठे, माटे ए दृष्टांत समीचीन नथी. केमके, चोखाने तूसरूप दोष ते स्वरूपथकी ठे; अने जीवने उपधिरूप दोष स्वरूपथकी नथी. जीवने उपधिरूप दोष जो स्वरूपथी होय, तो रूपकश्रेणीए चढेला यतिना स्कंधउपर वस्त्र नाखिये तो तेने केवलज्ञान उत्पन्नथवुं न जोये. अने तूससहित वस्तु सीजे नही. ए पण सर्वथा संजवित नथी. केमके, मुग प्रमुख तूससहित सीजतां दीगामां आवेठे. माटे ए पण एकांत नथी, अनेकांत ठे.

उ०:- परवादी जे दोष उपधिनेविषे कहेठे, ते दोष शरीरनेविषे पण संजवे ठे; ते देखडावे ठे:- ॥ ५ ॥

जा उवगरणे मुञ्जा, आरंजो वा असंजमो तस्स ॥

तह परदवम्मि रई, सा किस्स तुहं सररिेवि ॥ ६ ॥

व्या०:- जो एम कहेशो के, उपधि राख्याथी मूर्ठा थायठे. ल्यारे शरीरउपर केम मूर्ठा थती नथी. उपधिनी मूर्ठा तो शरीर मूर्ठानिमित्त ठे. तेथी शरीरने

अधिक मूर्छा संज्ञवे. एतुं समाधान जो आवी रीते करिये के, मूर्छा ना बे जेद ठे:- एक मारुं मारुं एवो ममत्वपरिणाम, अने बीजो पामेली वस्तु उपर अवि योगनो अथ्यवसाय; ए आर्त्तध्याननो जेद ठे. तेओमांती पहेजी जे शरीरविषे ममत्वपरिणामरूप मूर्छा कहीठे, ते तो सम्यक्दृष्टिने पण थाय नही; केमके, ते ज्ञानी ठे. अने ममत्वपरिणाम तो अज्ञाननिमित्त ठे. एथीज सम्यक्दृष्टि विषयादिकनुं सेवन करतो ब्रतां पण तेने परमार्थथी विषयसेवनरहित कह्यो ठे; त्यारे यतिनेविषे ते शुं कहेवुं! अर्थात् यति तो सर्वथा विषयसेवनरहित ठे. अने बीजी आर्त्तध्यानरूप जे मूर्छा ठे ते धर्मध्यानना प्रजावेकरी शरीरविषे था य नही. एज समाधान उपकरणनेविषे पण जाणी लेवुं. जो एम कदेशो के, उपकरण राख्याथी तेना ग्रहण तथा त्यागधी आरंज थायठे., ए वात पण असं नवित ठे. केमके, आरंज तो शरीरना करचरणादिनी क्रिया कख्याथी पण थाय ठे. जो कदेशो के शरीरना करचरणादिकनी क्रिया जयणाएकरी थायठे. तो जय णाएकरी धर्मोपकरण जेतां तथा मूकतां पण आरंज थतुं नथी. जो एम कहे शो के, धर्मोपकरणथकी शुद्धात्मपरिणाम जंगरूप हिंसा थायठे. त्यारे शरीरथ की केम हिंसा थती नथी? ज्यारे मूर्छाविना शरीरथकी हिंसानो संज्ञव थतो न थी, त्यारे मूर्छाविना धर्मोपकरणनो पण संज्ञव केम थज्ञे! जो एम कदेशोके, धर्मोपकरणथकी परडव्यनेविषे रति होवाथी आत्मडव्यमां रति थती नथी. त्यारे शरीरथकी पण डव्यरति केम नथाय? किंतु थवीज जोइये एनो विचार करो.

उ०:- परडव्यरतिने बे विकल्पेकरी दूषित करेठे:- ॥ ६ ॥

तद् परदव्यमि रई, परिणामो रक्कणाणुबंधो वा ॥

इहओ तणु सममुवहिं, पासंतो किं ए लजेसि ॥ ७ ॥

व्या०:- परडव्यरति ते शुं काययोगना परिणामरूप ठे के, संरक्षणानुबंधी रौडध्यानरूप ठे? जो प्रथम काययोग परिणाम कदेशो तो शुनकाययोगे दोष केम लागे? अर्थात् एम तो संज्ञवे नही. अने जो संरक्षणानुबंधी रौडध्यानरूप कदेशो तो ते पण संज्ञवज्ञे नही. केमके, घोरादिकथकी सर्व प्रकारे जे वस्त्रा दिकनुं बचाववुं, तेने संरक्षण कहेठे, ने तेनुं जे निरंतर चिंतन करवुं, तेने अनुबंध कहेठे. एवुं रौडध्याननो जेद जो उपधिथकी थाय तो शरीरथकी पण थवुं जोइये. केमके, सर्प, चोर, तथा कंटकप्रमुख थकी शरीरनी रक्षा करवाना थ

अथवसाय पण धणानेविषे दीगामां आवेढे. एने तो रौडध्यान कहेता नथी! जो एम कदेशो के, यतिने शरीरनेविषे राग नथी होतो, तेम ठतां सर्पादिकथी शरीर नी रहा तो धर्मसाधनने अर्थे करेढे. तेथी तेना अथवसाय अशुन होता नथी. एम पण संजवे नही! केमके, यतिने शरीरनी पठे धर्मोपकरणउपर पण राग हो तो नथी. तेम ठतां तेनीरहा पण धर्मसाधनने अर्थे करेढे. एवी रीते शरीरना जे वांज धर्मोपकरण ठरेढे. तेम ठतां तेथोनी उड्यापना करतां तमने शरम थती नथी!

उ०:- कोई आशंका करे के, उपकरण जे ठे ते ध्यानना विरोधी ठे. केमके, तेथोना प्रतिक्षेखनादि बाह्यव्यापारना योगे अंतर आत्मतत्त्वनेविषे चित्त एकाग्र तारूपध्यानमां विघ्न थायढे. एम कहेनाराने उत्तर दिये ठे. ॥ ३ ॥

जो किर जयणापुवो, वावारो सोण जाण पडिवस्को ॥

सोचेव होइ जाणं, जुगवं मण वयण कायाणं ॥ ८ ॥

व्या०:- आवश्यक पडिलेहणाप्रमुख जे जयणाएकरी व्यापार थायढे ते प ए ध्याननो विरोधी होवोजोये; एने तो कोई विरोधी कहेतो नथी किंतु एतो ए क कालाश्रित मन, वचन, तथा कायासंबंधी ध्यानरूप होयढे. जेमके, शुनयो गे करीमन एकाग्र होयढे, एनेज मन संबंधी ध्यान कहेढे; निरवद्य वचन बोला यढे, अने सावद्य वचननो त्याग थायढे, एनेज वचनसंबंधी ध्यान कहेढे; अने शुनयोगनेविषे यत्नेकरी कायानी दृढता थायढे, एने कायसंबंधी ध्यान क हेढे. जो तमे एम कदेशो के, जगवंते एकसमयनेविषे बे क्रियानो निषेध कह्योढे; तेम ठतां एकसमयाश्रित मन, वचन तथा काया संबंधी ध्यान केम संजवे? ए नो उत्तर आमढे:- जगवंते जे एकसमयनेविषे बे क्रियानो निषेध कह्योढे ते निन्न विषयविषे ठे; एक विषयविषे निषेध नथी कह्यो. जेमके, वांदणाना आवर्त्तननेवि षे त्रण योगनी क्रिया एकज समयनेविषे थायढे. यतः “ निन्नविषये णिसिद्धं, किरि या डुगमेगयाण एगम्मि ; जोग तिगस्स विजंगिय, सुत्ते किरिया जउ जणिया. ”

उ०:- कोई आशंका करे के, ध्यान जे ठे ते योगनो परिणाम नथी. के जेनी प्रवृत्ति बाह्य व्यापार करतां थाय. जो योगना परिणामरूप ध्यान होय, तो लेश्या अने ध्यान एक कहेवाय. एथोमां कांई न्यूनाधिकता होय नही. तेम तो नथी देखातुं. लेश्याथोनुं रूप पण जुडंढे, ने ध्याननुं रूप पण शास्त्रोमां जुडं कहुंढे. वली जो योगपरिणामरूप ध्यान होय तो चौदमे अयोगिकेवल गुण

स्थानके शुक्लध्याननो संजव केम थाय ! ए तो योगनी परिणतिरूप नथी. केम के, ध्यानतो आत्मस्वजाव समवस्थानरूप ठे. अने तेनी उत्पत्ति आवीरीते था यठे:- सुखनी तृष्णाएकरी मोहनीयकर्मने वश थयो थको जीव परड्व्यनेविषे प्रवृत्ति करेठे, ज्यारे मोहनीयकर्मनी न्यूनता थायठे, त्यारे परड्व्यनेविषे प्रवृत्ति थती नथी. एमथयाथी विषयनेविषे वैराग्य थाय ठे. केमके, विषयनेविषे जे राग होय ठे, ते विषय प्राप्तिपूर्वक होयठे. अने रागना अजावे वैराग्य होयठे. वैराग्यथकी मननो रोध थायठे. केमके, मननी प्रवृत्ति विषयविना थती नथी. जेम तृणरहित स्थानकनेविषे पडेली अग्नि पोतानी मेलेज नाशने पामेठे. तेम विषय विना मन पोतानी मेलेज स्थिरताने पामेठे. मननो निरोध थयाथी चंचलता मटी जायठे. अने पठी मन एकाग्र थईने आत्मानेविषे प्रवृत्त थायठे. ए आत्मस्वजाव ने ध्यान कहेठे. यतः “जो खविदमोहकलुसो, विषयविरत्तो मणेण संजित्ता; समवच्छिदो सहावे, सो अप्पाणे दवदिजा दा.” इति प्रवचनसारे. एवुं सह चेतन स्वजावरूप जे ध्यान ते, बाह्य व्यापार करतां, तथा परड्व्य अधिकरण क्रियाठतां केम प्रगट थाय ? एनो निर्णय करेठे. ॥ ८ ॥

जाण तिकरण पयत्तो, ए सहावो तेण जेण सिद्धस्स ॥

इह एठाणविजागो, कह सुक्कशाणजेआणं ॥ ९ ॥

व्या० मन वचन तथा कायारूप त्रिकरण एटले त्रण योगनो प्रयत्न कखाथी ध्याननी सिद्धि थाय ठे; माटे योगपरिणामरूप ध्यान ठे; परंतु उपयोगरूपज ध्यान नथी. अने लेश्या पण योगपरिणामरूप ठे. तेथी योगपरिणामपणे तो ध्यान तथा लेश्या ए बन्ने सरखा ठे; परंतु बन्नेनां लक्षणां जुदां जुदांठे. लेश्या जे ठे ते योगनो चलाचल परिणाम ठे, अने ध्यान जे ठे ते योगनो निश्चल परिणाम ठे. अयोगीने यद्यपि करणव्यापार नथी, तथापि ठता मन वचन तथा काया ना निरोधरूप प्रयत्न करे ठे ते प्रयत्ने करीने जे त्रणे योगनो निरोध थाय ठे, ते नेज ध्यान कहेठे. अने आंही जो आत्मस्वजाव समवस्थानरूप ध्यान लइये तो सिद्धने पण ध्याननुं कर्तृत्व ठरशे. शास्त्रोमां तो सिद्धनेविषे ध्यानप्रवृत्ति सर्व क्रियानो अजाव कह्योठे. जो एम कहिये के, सिद्धने व्यावहारिक ध्यान तो नथी, पण आत्मस्वजावरूप नैश्वयिक ध्यान तो ठे. जो एम होय तो योगनो निरोध कखा विना पूर्वकोन्निपर्यंत केवलीने ध्याननो निषेध केम कखोठे ? आत्मस्वजाव सम

वस्थान तो केवलीने सर्वथकी अधिक ठे. ए कारण माटे अयोगीने तो योगनि रोधरूप ध्यान ठे, अने ठदस्थने करणना दृढव्यापाररूप ध्यानठे. एवी रीते शुज योगेकरी प्रवर्त्तनीय जे ध्यान, तेमां वाद विवाद शानो होय !

उ० कोई आशंका करे के, जो उपकरण होय तो राग पण होय, माटे उपकरण सर्वथा त्याग करवा योग्य ठे, तेम जो न करिये तो उत्सर्गमार्ग केम रहे? एप्रश्नो उत्तर दिये ठे:- ॥ ए ॥

जा खलु सरागचरिआ, साविय उस्सग्गमग्गसंलग्गं ॥

मोत्तुं अववायपयं, अइप्पसंगी परविसेसो ॥ २० ॥

व्या० जे स्थिविरकल्परूप सरागचर्या कहेतां सरागमार्ग ठे. ते पण उत्सर्गमार्गने लागेलोज ठे. अर्थात् अपवाद मार्ग अने उत्सर्ग मार्ग निकट संबंधी ठे. यद्यपि स्थिविरकल्पी पण अपवादनो तो त्याग करेठे, तथापि कोई कारण ने लीधे तेने ग्रहण पण करवुं जोयेठे. अने जिनकल्पी तो कदापि अपवादनुं ग्रहण करेज नही. एवी रीते स्थिविरकल्पी तथा जिनकल्पीना अपवाद तथा उत्सर्गमार्गमां अल्प अंतराय ठे. एटले अपवादमार्ग थकी उत्सर्गमार्गनी कांईक उत्कृष्टता ठे, तेथीज बे जेद थयाठे. अने जिनकल्पनी अपेक्षाए स्थिविर कल्प कह्योठे. तेमज उत्सर्गमार्गनीअपेक्षाए अपवाद मार्ग कह्यो ठे. जो उत्सर्ग मार्ग थकी कांईक न्यूनता वालो अपवाद मार्ग, तथा अपवादमार्गथी कांईक अधिकतावालो उत्सर्ग न कहेशुं तो चौदमां गुणस्थानकना अंतना समयसुधी उत्सर्गमार्गनो संभव थशे नही. केमके सर्वोत्कृष्ट संवर तिहांज ठे. माटे जे ठेकाणे जे मार्ग उत्कृष्ट कह्यो होय ते ठेकाणे तेज उत्सर्गमार्ग ठे. जेमके स्थिविरकल्पनेविषे चौद उपकरणज उत्कृष्ट होवाथी ते उत्सर्ग मार्ग ठे. ॥ २० ॥

उ० मूल गाथावडे पूर्वपद्धी आशंका करे ठे:-

नणु बसंगं साहण, मववाउ अंतरंगमुस्सग्गो ॥ जा पुण सराग चरिया, समुच्चिया एव सिद्धाए ॥२१॥ पडिसेवणो पुणसो, अववा उं फुडो अणायारो ॥ ता बह्वाइ गंथो, एणो उस्सग्गो ए अववाउ ॥२२॥

व्या०:- परडव्यमात्रनी जे निवृत्ति, एटले परडव्यनो कांई पण परिग्रह रह्यो न होय, मात्र आत्मडव्यनोज प्रतिबंध होय, तेज संयमनुं अंतरंग कारण ठे;

એને ઉત્સર્ગમાર્ગ કહેલે. એવી સામગ્રીની પ્રાપ્તિવિના શુદ્ધોપયોગનૂમિકાએ ચઢી શકાતું નથી, ત્યારે તેની સાહ્યતા કરનારી જે ઉપધિ હોય તેનું ધારણ કરવું તેને અપવાદ કહેલે. તે ઉપધિ બંધનો હેતુ નથી, માટે નિષેધ નથી કહી. કેમકે, એ ઉપધિ સંયમરહિત પુરુષના ઉપયોગમાં આવતી નથી. કિંતુ સંયતીનેજ ઉપયોગી છે. અને મૂર્ખાનો હેતુ થતી નથી. યતઃ “ અસ્મિકુહું ઉવહિં, અપહ્નણિકું અસં જદ જણોહિં; મુહાદિજણણરહિદં, ગેહ્લહુસમણોયજદિ વિઅપ્પંતે. ” તે ઉપધિ આ છે:- એક તો યથાજાતલિંગ પુજ્જન, એટલે જેવો માતાના ઉદરમાંથી નીકળ્યો હોય તેવો આકાર ધારણ કરવો, બીજો વચનપુજ્જન, એટલે જેથી શુદ્ધાત્મતત્વનો બોધ થાયલે; તેનું ગ્રહણ કરવું; ત્રીજું ગુર્વાદિક વિનયરૂપ મનના પુજ્જનું ધારણ કરવું; અને ચોથું સૂત્રાધ્યયનના પુજ્જને ધારણ કરવું. યતઃ “ ઉવચરણં જિણમ ગ્ગો, લિંગં જહ જાદરૂપમિદિ જણિદં; ગુરુવચણંપિ અ વિણં, સુત્તણ્ણયણં ચ પ ત્તં ” એવો જે અપવાદમાર્ગ તેને સરાગચર્યા કહેલે. અર્થાત્ શુદ્ધોપયોગની ન્યૂ નતાને લીધે અપવાદમાર્ગ કહેવાય છે. પણ જે વસ્તુ પ્રતિષિદ્ધ એટલે સેવન કરવા યોગ્ય ન હોયને તેનું જે સેવન કરવું તેને અપવાદ કહતા નથી. તેને તો પ્રગટ અ નાચારજ કહેલે. તેમઠતા સંયતીને વસ્ત્રાદિક સેવન કરવાયોગ્ય નથી કેમકે, એ અનાચાર છે. માટે એ સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોયે. વસ્ત્રાદિક પરિગ્રહનું જે ગ્રહણ કરવું તે ઉત્સર્ગ પણ નથી ને અપવાદ પણ નથી; કિંતુ અનાચાર છે, તે કેમ કરવો? એહવું જે કહેલે તેને ઉત્તર આપી તેનો સમાધાન કરેલે:- ॥ ૧ ૧ ॥ ૧ ૧ ॥

ઉવકુણ્ણ જહ સરીરં, સુહુવત્તં તહેવમુવગરણં ॥

જમ્હા તત્તં મુણીણં, સુએ અણેગે ગુણા જ્ઞણિઆ ॥ ૧૩ ॥

વ્યા૦:-જેમ શરીર પરિવ્ય ઠતાં શુદ્ધોપયોગનું સાહ્યકારિલે; તેથી પરિગ્રહ ક હેવાય નહી. તેમઉપકરણ પણ શુદ્ધોપયોગનાં સાહ્યકારી હોવાથી પરિગ્રહ કહેવા ય નહી. કેમકે, એ વાત, સિદ્ધાંતોનેવિષે પણ ધર્મોપકરણના અનેક ગુણ કહ્યાલે તેથી સિદ્ધ થાયલે. જેમકે, રાત્રીયેં ચતુકાલેં કાલ ગ્રહણેતાં વસ્ત્રે કરી યતીને શીત ની પીડાટલે છે. ને જો વસ્ત્ર ન હોય તો શીતની પીડાને લીધે અગ્નિના તાપ પ્રમુખ ની ચિંતના થાય તેથી આર્તધ્યાન ઉત્પન્ન થાયલે. વસ્ત્રેકરી સચિત્ત ઇથિ વી, ધૂંહરી ઓસ, વૃષ્ટિ, તથા હિરમજ પ્રમુખની રક્ષા થાયલે. ને જો વસ્ત્ર ન હોય અને ઉધારું શરીર હોય, તો શરીરની ગરમીની બાફથકી તે જીવોને હુઃસ્વ ઉત્પન્ન થાયલે

संपातिमरजरेणु प्रमार्जवाने अर्थे मुहपती राखवी, लेवादेवा प्रमुखनी क्रियाए पू
र्वे प्रमार्जवाने अर्थे तथा जैनलिंगने अर्थे उंगो राखवो. तथा पुरुष वेदनीयोद
धादिक वर्जने अर्थे चोलपट राखवो. इत्यादिक वस्त्रना गुण कह्याठे. अनानोगे
लीधेजां जे संसक्त गोरसादिक, ते पात्रेकरिने विधिए परठाई शकायठे. पात्रवि
ना हाथमोज लीधा होय तो योग्य ठेकाणे केम परठवी शकाय ? तथा हाथमां
सरस वस्तु लीधाथी तेनो बिंडु जो नीचे पडे, तो तेथकी कीडीओप्रमुख अनेक जं
तुओनी विराधना थाय. गृहस्थ जाजनने अर्थे उपनोगेपण पश्चात्कर्मादिक दोष
उपजे; अने जो पात्र होय तो तेणे करी ग्लान अथवा दुर्बलने पथ्यादिक जाव
वाने अर्थे उपयोगी होवाथी उपकार थायठे. अलब्धिवंत तथा लब्धिवंत अस
मर्थ तथा समर्थ प्राहुणाने वास्तव्य पात्र होय तो अन्नपानादिकने आपणी उप
कार करे. अन्यथा केम करे ? इत्यादिक वस्त्र तथा पात्रनेविषे अनेक गुणजाणी
शरीरनी पठे धर्महेतु होवाथी तेमां परिग्रहपणानी आशंका करवी नही. ॥१३॥

उ:- उपहासयुक्त पूर्वपह्नीनी मूल गाथा वडे आशंका करे ठे:-

जइ उवहिजारगहणं, इठं दुष्माणवङ्कणणिमित्तं ॥

तो सेयं थीगहणं, मेदुणसप्पाणिरौहठं ॥ १४ ॥

व्या०:- शीत तथा तापप्रमुखनी पीडाए करी आर्त्तध्यान उपजे नही; ते सा
रुं तमे एटलो बथो उपधिनो नार वेगो ठो; त्यारे मैथुन संज्ञानिमित्त आर्त्तध्यान
नो त्याग करवासारु एक स्त्रीनो परिग्रह पण शासारुं राखता नथी? ज्यारे जी
र्णादिक वस्त्र राखवाथी मूर्त्ता थती नथी, त्यारे अंगजंग थएली तथा कुरूप स्त्री
राखवाथी मूर्त्ता केम थाय ? ॥ १४ ॥

उ०:- ए आशंकानो उत्तर दियेठे:-

एयं वि दूसगाणं, वयणं मयणंधवयणमिव मोहा ॥

असह समोवहासो, देहाहाराइगहणेवि ॥ १५ ॥

व्या०:- तमारुं बोलवुं चांड (मस्करा) ना जेवुं जासेठे. जेम होलीना दाहा
डांमां कामी पुरुषो गमे तेम बक्या करेठे. अने कामने वश थया थका लाज उप
जावे एवां वचनो बोल्या करे ठे. तेम तमे पण मिथ्यात्वना परवशेकरी अज्ञानने
लीधे मस्करिना वचन बोलो ठो. ते वचनोथी अमने तो कांई थवानुं नथी, पण
तमे पोते तेवा देखाई आवो ठो. केमके, तमे पोते पण नूखनी पीडा टालवासारुं

स्वावाने न मलेतो आर्त्तध्यान थाय तेने टाजवासारुं, तथा शरीरने जीवतुं राख वासारु आहार लेवानुं मानोठो, तेम स्त्रीपरिग्रह शासारु मानता नथी? माटे जेम आहारमां गुण ठे, दोष नथी. तेम धर्मोपकरणमां पण गुण ठे, दोष नथी. ए रूहुं समाधान ठे. ए कारणथी धर्मनां साधनोनेविषे जे राग थाय ठे, ते प्रशस्त जाणीने तेनेपरिग्रहरूप दोष जाणवो नही. ॥ १५ ॥

उ०:- सम्यक्ज्ञान यवासारु राग प्रशस्त ठे अने द्वेष अप्रशस्त ठे ते कहेठे:-

रागस्स व दोसस्सव, उद्विस्स सुहासुहे सुहासुहया ॥
जइ पुण विसयावेस्का, कह होजा तो विजागोसि ॥ १६ ॥

व्या०:- सारा उद्देशेकरी अरिहंतादिकनेविषे जे राग करवो, ते प्रशस्त राग कहेवायठे. यतः “अरिहंते सुयरागो, रागो सारीसु बंजयारीसु; एस पसडो रागो, अक्कस रागाण सादूणं” इति आवश्यके. अशुचने तजवासारु जे द्वेष करवो पडे तेने प्रशस्त द्वेष कहिये. जेम के, मिथ्यात्व, अज्ञान, तथा अविरति प्रमुखउपर जे द्वेष थाय ठे, ते प्रशस्त द्वेष कहेवायठे. केमके, तेओविषे जो द्वेष न थाय तो तेओनो त्याग केम थाय! केवल विषयनी अपेक्षाएज द्वेष था यठे एम न मानवुं. जो मात्र विषयनेअर्थेज द्वेष यतो होय तो तेना प्रशस्त त था अप्रशस्त ए बे विजाग थई शके नही. तेमज उत्तमयतीनेविषे तथा उत्तम धर्मनेविषे पण जे आ लोकादिकने अर्थे राग थायठे ते अप्रशस्त कहेवायठे. कोई कहेजे के, रागना उपर कहेला बे विजाग थई शकेठे केमके, तेना संक्लेश तथा विशुद्ध ए बे अंगठे. तेम द्वेषना ए बे विजाग थई शके नही; केमके, ते नो बीजो विशुद्ध अंग नथी. मात्र संक्लेशरूप होवाथी अप्रशस्त ठे. यतः “परिणामो दो बंधो, परिणामो राग दोस मोह जुदो; अशुचो मोह य दोसो, सुहोव असुहो हवदि रागो.” इति प्रवचनसारे. एम कहेनाराने एम कहेवुं के, तम ने सामायकनेविषे पाप गर्हाना अध्यवसाय केम थायठे? जे वस्तुविषे द्वेष न थाय तेने त्याग करवाना परिणाम थाय नही. तेवा परिणामो तो थायठे ते शुं अप्रशस्त द्वेष कहेवाय? किंतु प्रशस्त द्वेषज कहेवाय, केमके, परने ताप करवो ते क्रोधनो अंश ठे, माटे क्रोधरूप जे द्वेष ते पण रागनी पठे बे प्रकारे होयठे.

उ०:- चार निक्केपाए करी राग तथा द्वेषनुं विवरण करे ठे:- ॥ १६ ॥

णामं उवणा दविए, रागो दोसो अ जाव चउनेया ॥ कम्मं जोग्गं
बद्धं, बसंतमुदीरणोवगयं ॥ १७ ॥ एणो कम्म दवराउं, णायवो
वीस साप उगा य ॥ संजाइ कुसुंजाई, दोसो डुव्वणाईओ ॥ १८ ॥
जं राग दोस कम्मं, समुइन्नं जे तओ अपरिणामा ॥ ते जावराग
दोसा, वोडमिह णय समोअरं ॥ १९ ॥ कोहो माणो दोसो, माया
लोओ अ राग पजाया ॥ संगहणयमयमेयं, दोसो माया अवि
वहारा ॥ २० ॥ उज्जुमु अस्सय कोहो, दोसो सेसेसु णञ्चि ए
गंतो ॥ कोहोचिय लोहोचिय, माणो मायाव सदस्स ॥ २१ ॥

व्या० राग तथा द्वेषनां नाम, स्थापना, इव्य तथा जाव ए चार चार प्रकार
होवाथी बन्नेना चार चार जेद थायठे. जेम के, नामराग, स्थापनाराग, इव्य
राग, तथा जावराग ए चार जेद रागना थायठे. तेमज नामद्वेष, स्थापनाद्वेष,
इव्यद्वेष, तथा जावद्वेष ए चार जेद द्वेषना थायठे. जेनुं राग एवुं नाम होय ते
नामराग कहेवाय. रागवाननुं जे चित्र कहाडेनुं होय ते स्थापनाराग कहेवाय.
इव्यरागना बे प्रकार ठे:—एक कर्मइव्यराग, बीजो नोकर्मइव्यराग, एमांना कर्म
इव्यरागना चार प्रकार ठे:—एक योग बीजो बद्धमान, त्रीजो बद्ध, अने चोथो
उदीरणाप्राप्त. जे मोहनीयकर्मना पुज्जलबंध परिणामने अजिमुख थया होय ते
योगकर्मइव्यराग कहेवाय. जे मोहनीयकर्मना पुज्जलबंध क्रियाना परिणामने
पाम्या होय ते बद्धमान कर्मइव्यराग कहेवाय. जे मोहनीयकर्मना पुज्जल बंध
परिणामनी निष्ठाने पाम्या होय तेबद्धकर्म इव्यराग कहेवाय. अने जे मोहनीय
कर्मना पुज्जल उदयने पाम्या होय ते उदीरणाप्राप्त कर्मइव्यराग कहेवायठे.
तेम नोकर्मइव्यरागना बे प्रकार ठे:—एक विश्रसा, बीजो प्रयोग. जे संथ्याराग प्र
मुख देखायठे ते विश्रसानो कर्मइव्यराग कहेवाय; अने जे वस्त्रादिकनेविषे कु
सुंजादिक राग देखायठे ते प्रयोगनो कर्मइव्यराग कहेवाय. अने जावरागना
षण बे प्रकार ठे:—एक उदयप्राप्त, बीजो परिणाम. मोहनीयकर्मनो उदय
थाय ते उदयप्राप्त जावराग कहेवाय. अने मोहनीयकर्म परिणामने पामे ते
परिणामजावराग कहेवायठे.

जेनुं द्वेष एवुं नाम होय ते नामद्वेष कहेवाय. द्वेषवाननुं जे चित्र कहाडेनुं

હોય તે સ્થાપનાદેષ કહેવાય. ડ્વ્યદેષના બે પ્રકારઠે:-એક કર્મડ્વ્યદેષ; બીજો નોકર્મડ્વ્યદેષ. એમાંના કર્મડ્વ્યદેષના ચાર પ્રકાર ઠે:-એક યોગ, બીજો બદ્ધમાન, ત્રીજો બદ્ધ અને ચોથો ઉદીરણાપ્રાપ્ત. જે મોહનીયકર્મના પુજ્જલ બંધ પરિણામને અન્નિમુખ થયા હોય તે યોગકર્મડ્વ્યદેષ કહેવાય; જે મોહનીયકર્મના પુજ્જલ બંધક્રિયાના પરિણામને પામ્યા હોય તે બદ્ધમાનકર્મડ્વ્યદેષ કહેવાય; જે મોહનીયકર્મના પુજ્જલ બંધપરિણામની નિષ્ઠાને પામ્યા હોય તે બદ્ધકર્મ ડ્વ્યદેષકહેવાય; અને જે મોહનીયકર્મના પુજ્જલ ઉદયને પામ્યા હોય તે ઉદીરણાપ્રાપ્તકર્મડ્વ્યદેષ કહેવાયઠે. તેમ નોકર્મડ્વ્યદેષના બે પ્રકાર ઠે:-એક વિશ્રસા, બીજો પ્રયોગ. જે સંવ્યારાગ પ્રમુખ દેશાય ઠે, તે વિશ્રસાનોકર્મડ્વ્યદેષ કહેવાય; તથા જે વસ્ત્રાદિકનેવિષે કુસુંનાદિક રાગ દેશાયઠે તે પ્રયોગનો કર્મ ડ્વ્યદેષ કહેવાય ઠે. અને જાવદેષના પણ બે પ્રકાર ઠે:-એક ઉદયપ્રાપ્ત, બીજો પરિણામ. મોહનીયકર્મનો જે ઉદય થાય તે ઉદયપ્રાપ્તજાવદેષ કહેવાય; અને મોહનીયકર્મપરિણામને પામે તે પરિણામજાવદેષ કહેવાયઠે.

હવે નયેકરી રાગદેષનુંવિવરણ કરે ઠે:-સંગ્રહ નયની રીતિએ ક્રોધ તથા માન એ બન્ને અપ્રીતિનો પરિણામ હોવાથી દેષ કહેવાયઠે; અને માયા તથા લોજ એ બન્ને પ્રીતિનો પરિણામ હોવાથી રાગ કહેવાયઠે. વ્યવહારનયની રીતિએ માયાની યોજના પરના ઉપઘાતને અર્થે થાયઠે માટે ત્રીજી માયા પણ દેષજ કહેવાય. અને ન્યાયોપાત્ત ડ્વ્યપ્રમુખનેવિષે જે લોજ થાયઠે તે રાગ કહેવાયઠે. પરંતુ અન્યાયોપાર્જિત ડ્વ્યાદિકનેવિષે જે લોજ થાયઠે તે રાગ કહેવાય નહીં કેમ કે, અથી કષાયાદિકની ઉત્પત્તિ થાયઠે. રુજુસૂત્રનયની રીતિએ ક્રોધ જે ઠે તે અપ્રીતિનોજ પરિણામ હોવાથી એકાંત દેષ કહેવાયઠે. બાકીના ત્રણ જે માન, માયા ને લોજ તે એકાંત દેષ કહેવાય નહીં કિંતુ અનેકાંત કહેવાય; કેમ કે, માન જ્યારે સ્વોત્કર્ષ પરિણામરૂપ હોય ઠે ત્યારે રાગ કહેવાયઠે, અને જ્યારે પરનિંદાપરિણામરૂપ હોયઠે ત્યારે દેષ કહેવાયઠે. તેમજ માયા તથા લોજ પણ જ્યારે પૂર્વ પરિણામરૂપ હોય ઠે ત્યારે રાગ કહેવાય ઠે; અને જ્યારે પરહોહ પરિણામરૂપ હોયઠે ત્યારે દેષ કહેવાયઠે. અને શબ્દનયની રીતિએ ક્રોધ તથા લોજ એ બે કષાયરૂપ હોવાથી એમાંના માન તથા માયા અપ્રીતિના પરિણામરૂપે થઈને જ્યારે ક્રોધમાં આવીને મલી જાય ત્યારે તે દેષ કહેવાયઠે; અને પ્રીતિના પરિણામરૂપે થઈને જ્યારે લોજમાં આવી મલી જાય ત્યારે રાગ કહેવાયઠે. ॥૧૧॥

परदबंमि पवित्री, ए मोहजाणिया व मोहजाणावा ॥

जोगकयाहु पवित्री, फलकंखा रागदोसकया ॥ ११ ॥

व्या०:- परद्वयनेविषे जे प्रवृत्ति थाय ठे तेनुं निश्चयथी मोह कारण नथी. केमके, प्रवृत्ति तो मन वचन तथा काय योगथी थायठे, अने फलनी इहा राग द्वेषथी थायठे. माटे फलनी इहाविना यतिजो धर्मोपकरण धारण करे तो तेथी अयोग्य गुं थयुं कहेवाय ? केमके, फलनी इहाविना राग तथा द्वेष यता नथी. ॥ ११ ॥

वडाइणेवगंथो, मुणीण मुडं विणेव गहणाउ ॥ तह

देहपालणघा, जह आहाला तुह वि इठो ॥ १३ ॥

व्या०:- यतिने वस्त्रादिकनो ग्रंथ यतो नथी. केमके, मात्र शरीरनी रक्षा कर वासारु ग्रहण करेठे. तेमां मूर्धा रंचमात्र पण होती नथी. जेम शरीरनी रक्षाने अर्थे यति निरवद्य आहारनुं ग्रहण करेठे पण तेमां मूर्धा होती नथी. तेम धर्मोपकरणोविषे पण जाणी लेवुं. ॥ १३ ॥

जह देहपालणघा, जुताहारो विराहगो ए मुणी ॥

जह जुतवन्नपत्ता, विराहगो एव णिदिठो ॥ १४ ॥

व्या०:- जेम शरीरनुं पालन करवाने अर्थे निरवद्य आहार लेतां यतिने विराधक कह्यो नथी. तेम निरवद्य वस्त्र पात्र राख्याथी पणविराधक न कहेवाय किंतु आराधकज कहेवाय. कोई एम कहे के, शुद्धोपयोग जे ठे ते प्रदीप जेवो ठे, अने नोजन तथा शरीर संचलन जे ठे ते तेजपूरण तथा वाटसंचार जेवो ठे. एतो योग्य ठे पण उपधि अयोग्य ठे. एवुं अमरचंदनुं बोझवुं असमीचीन ठे. केमके, धर्मोपकरण धारण करवां ते प्रदीपने निर्वातस्थले राखवा जेवां ठे. माटे योग्यठे.

अणसण सहावजोगा, जह असणं अणसणं तिजुत

मिणं ॥ जुतं तह वडाई, सहावठं तप्परिणयस्स ॥ १५ ॥

व्या०:- जेम सर्वे नोजननी तृष्णाथकी रहित ठतां अंतरंग आत्मस्वजावनी जावना करतां तेना उपष्टंनने अर्थे आहारनुं जे ग्रहण करवुं ते परमार्थे अनाहार ज कहेवाय. यतः “जस्त अणोसणमप्पा, तं पि तथो तप्पडिहगसमणा; अण निक्कमणे सण, मधतेसमणाअणाहारा.” इति प्रवचनसारे. तेमज सकल परि

ग्रहरहित ठतां आत्मस्वजावनी जावना करतां तेना उपष्टंजने अर्थे वस्त्रादिक रा
खतां पण परमार्थे वस्त्रादिकरहित कहेवाय. ते युक्तज ठे. ॥ १५ ॥

एवंच सचेलानां, कहउ सुत्तं नवे अचेलत्तं ॥ १६ ॥

पजणंतस्स तुहं, को णिअघररस्सको वाउ ॥ १६ ॥

व्या०:- एवीरीते सूत्रमां कहेलुं जे सचेल यतिने अचेलपणुं ते केम संनवे;
एम कहेतां तमने पोतानुं संजालतां कठण अई पडशे. केमके, तमारा शास्त्रमा
ज यतिने आहार करतां अनाहारी कहेवाये. त्यारे मूर्धारहित सचेलने पण अचे
ल कहेतां गुं अघटित आय ! ॥ १६ ॥

जइ चेल जोगमेत्ता, ण जिया चेलय परीसहो सा

हू ॥ जुंजंतो अजिअ खुहा, परीसहो तो तुमंपत्तो ॥ १७ ॥

व्या०:- जो एम कहेशो के वस्त्र वापस्वाथी अचेल परीसह जीताय नही. त्या
रे आहार कखाथी क्रुधापरीसह केम जीताय ! जो एम कहेशो के, तीव्र क्रुधा ला
गी होय तोपण यतीए अनेषणी आहार लेवो नही. किंतु जो शुद्ध आहार मले
तोज आत्माने उपग्रह करवो. एवीरीते क्रुधापरीसह जीतायठे. तेमज शीतादिक
वडे घणी वेदना अती होय तोपण यतिए सदोष वस्त्र लेवुं नही; किंतु निर्दोष
वस्त्र मले तोज आत्माने उपग्रह करवुं, एवीरीते अचेलपरीसह पण जीतायठे.
एम निश्चयथी अचेलपणुं जाणवुं. ॥ १७ ॥

उ० व्यवहारथी अचेलपणुं दर्शावे ठे:-

जह जलमवगाहंतो, नणई चेलरहित सचेलोवि ॥

तहवन्नोजुण कुञ्जिय, चेलोवि अचेलया साहू ॥ १८ ॥

व्या०:- जेम कोई माणस पोतीउं पहेरीने तलावप्रमुखना पाणीमां स्नान क
रवासारु पेशे ते पोतीउं ठतां लोकमां नग्र कहेवाय. तेम यति जीर्णवस्त्रने धार
ण करे ते अचेलज कहेवाय. ॥ १८ ॥

उवयारेण अचेलो, सेसयुणी सवहा जिणंदाय ॥

खंधाउ देव दूसं, चवइ तउ चेव आरस ॥ १९ ॥

व्या०:- तीर्थकर विना बीजा यति उपचारे अचेलो कहेवाय. केमके, तेउ व
स्त्र ठतां पण अवस्त्र गणेठे. जेम कोटी धनवान ठतां तेनो अजिमान न होय

तो ते निर्धन जेवोज होय ठे. एम सचेल साधुविषे पण जाणी लेवुं. सर्वथा अचेल तो ज्यारे स्कंध ऊपरथी देवडुष्य वस्त्र पडे त्यारे तीर्थकर कहेवायठे. ॥१९॥

एएण जइ अचेल्ला, जिणंद जिणकप्पिआइआ सुमु
णी॥ता एसोच्चिय मग्गो, एणोत्ति पराकयं वयणं ॥३०॥

व्या०:- एणेकरी, जिनतीर्थकर तथा जिनकल्पिप्रमुख अचेल्लाठे, तेथी एज मार्ग उत्तमठे; अने स्थिविरकल्पनी मार्ग उत्तम नथी; एम कहेनारातुं निराकरण कखुं. कारणके, जे जिनकल्पीठे ते पण एकांते अचेल्ला नथी. केमके, जे जिनकल्पीने पात्रनी लब्धि होय, हाथ ठिडरहित अथा होय; किंतु वस्त्रनी लब्धि न होय ते ओमांना कोइएकने रजोहरण, मुहपति, तथा एक कल्पक ए त्रण उपधि होय ठे; कोइकने रजोहरण, मुहपति, तथा बे कल्पक मली चार उपधि होयठे; कोइकने रजोहरण, मुहपति, तथा त्रण कल्पक मली पांच उपधि होयठे; जेने वस्त्रनी लब्धि होय, किंतु पात्रनी लब्धि न होय तेने सप्तविध पात्रनिर्योग, रजोहरण, तथा मुहपती मली नव उपधि होयठे; जेने बन्ने लब्धिमांनी एके लब्धि न होय तेओमांना कोइकने सात पात्रा, रजोहरण, मुहपती तथा एक कल्पक मली दश उपधि होयठे; कोइकने सात पात्रा, रजोहरण, मुहपति तथा बे कल्पक मली अग्यार उपधि होयठे, अने कोइकने सात पात्रा, रजोहरण, मुहपति, तथा त्रण कल्पक मली बार उपधि होय. अर्थात् पोतानी शक्तिने अनुसारे उपधि होयठे. अने जेने बन्ने लब्धिओ होय तेने पण रजोहरण तथा मुहपति ए बे उपधि तो निश्चयथी होयठे. एवो नियमठे. ॥ ३० ॥

जिणकम्ममेव य कम्मं, जइ कायवं तउं तुहं इहयं ॥

उवएस सिस्स दिस्सा, गुरुवयणाइहि किं कज्जं ॥ ३१ ॥

व्या०:- जो तमे कदेशो के, जे कार्ये जिनेश्वरे नथी कखुं ते अमारे पण करवुं नथी! त्यारे धर्मोपदेश, शिष्य, दीक्षा, तथा गुरुवचनादिकनुं तमारे कुं उपयोग ठे! जेम जगवंते ज्ञान उपना पठी धर्मोपदेश दीधोठे, किंतु केवलज्ञाननी पूर्वे कोइने उपदेश कखो नथी; तेम तमारे पण केवलज्ञान उत्पन्न थाय त्यारेज उपदेश करवो जोये. तेनी पूर्वे कांई पण धर्मोपदेश प्रमुख करवुं जोईये नही वारु !!! ॥३१॥

णिरतिसयाणं कप्पो, घेराणहिउं ठिउं अ तत्तेव ॥

पणिवज्जउं जिणकप्पं, पंचहि तुलणाइ जुत्तो तो ॥ ३२ ॥

व्या०:- जे साधु लब्धिरहित होय, तेने स्थविरकल्प मार्गज हितकारी ठे. ते समये जिनकल्प त्याग करवा योग्य ठे. ज्यारे आत्मज्ञान थाय त्यारे जिनकल्प आदरवो. परंतु असमर्थ ठतां उत्कृष्ट मार्गनो जे आदर करवो ते केवल आर्त्तध्याननो हेतु थायठे. यतः “अकालौ त्सुक्यस्य तत्त्वतः आर्त्तध्यानरूपत्वात् धर्मविदो” ॥३२॥

वेज्जुवदिष्ठं उंसह, मिव जिणकहियं हिअं तउ मग्गं ॥ सेवं
तो होइ सुही, इहरा विवरीअफलजागी ॥ ३३ ॥

व्या०:- माटे जगवंते कहेला मार्गने जे जजे ते सुखी थाय; अने जगवंते जे म कखुं ठे तेम जे करवा मांमे ते विपरीत फलने लायक थाय. जेम रोगी वैदे कहेली औषधी जो सेवे, तो रोगरहित थाय पण वैदना कख्या प्रमाणे न करे तो अपष्य सेवन करतो ठतां जेम अकाले नाश पामे. तेम ए पण जाणी जेवुं. ॥३३॥

अणगूहितो सत्तिं, जुंजंतोवि जह एणो चयइ मग्गं ॥

अणगूहितो सत्तिं, तह उवगरणं धरंतोवि ॥ ३४ ॥

व्या०:- सकल आत्मशक्तिने फोरवनारो यति संयमादिकने अर्थे, जेम आहार करतो ठतां जिनमार्गनो त्याग करतो नथी; तेम स्वाध्यायादिकने अर्थेपण ते यतिए धर्मोपकरणनो त्याग करवो नही. यतः “ तिहिं ठाणेहिं वत्थंधरेज्जा, तं जहा, हरिवत्तिअं, डुगंठवत्तिअं परीसहवत्तिअं ” इति. लज्जा अथवा डुगंठा मटा डवाने तथा संयमने अर्थे वस्त्र धारण करवां जोये. जो वस्त्र न होय ने नग्र होय तो लज्जाथाय, अने संयम पळे नही; जो वस्त्र न होयतो लोक निंदा करे के, ए धर्म सारो नथी केमके जेमां साधु उघाडा फरेठे. ते टालवाने अर्थे वस्त्र धारण करवा; जो वस्त्र न होय तो टाह तथा तापप्रमुख जागे तेथी चारित्रजंगरूप आर्त्तध्यान उत्पन्न थाय ते मटाडवाने अर्थे वस्त्र धारण करवां. एम कारणीक वस्त्र होवाथी अमे साहसवंत ठतां केम धारण करिये; एम जो कदेशो तो आहार पण कारणीक कखुं ठतां तेपण तमारे करवो न जोये. यतः “ठहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे आहार माहारे माणेइ कमइ तं वेयण वेयावच्चे इरियछाए असंयमछए तह पाण पत्तिआए ठं पुण धम्मचिं ताए ” इत्यादि कारणने लीधे यति आहार करे तेथी आज्ञानुं अतिक्रमण थाय नही. तेना कारण आठे:- ऋधानी वेदनाने मटाडवाने अर्थे, वेयावच्च करवाने अर्थे ईयांशोधवाने अर्थे, संयम पालवाने अर्थे प्राणधारवाने अर्थे, तथा स्वाध्या

यप्रमुख धर्मचिंताने अर्थे साधु आहार करे ठे. पण बल तथा रूपादिकने अर्थे करतो नथी, तेमज वस्त्र पण कारणने लीधे धारण करे ठे तेनो त्याग करवानुं कारण शुं! आहार खेवो अने वस्त्र मूकवा! एम करवाने तमारो शुं अजिप्राय ठे ते जाणतु नथी ॥ ३४ ॥

अविजिय हिरिकुञ्जाणं जइ नूणं संजमेण अहिगारो ॥

ता कह अजिय डुगंठा तस्माणं तड अहिगारो ॥ ३५ ॥

व्या०:- जो एम कहेशो के जेणे लाज तथा डुगंठा प्रमुख जीत्यां न होय ते ने चारित्रनो अधिकार नथी. त्यारे जेणे क्रुधा तथा तृषा जीत्यां न होय तेने चारित्रनो अधिकार केम कहेवाय? ज्यारे क्रुधा तथा तृषा मूलगुणनां घातक नथी त्यारे लज्जा तथा डुगंठा पण मूल गुणघातक केम कहेवाय? माटे अहीं तमारो अजिनिवेशविना बीजू काई कारण दीठामां आबतुं नथी ॥ ३५ ॥

अह हिरि कुञ्जा हिसया हिरि कुञ्ज सहाव जावणो णोचेत् ॥

एहा बुहाहि ताकह तय जाव सहाव संबुद्धी ॥ ३६ ॥

व्या०:- जो कहेशो के, यतिने लज्जा तथा डुगंठा होय तो तेथी विपरित जे अलज्जा तथा अडुगंठारूप आत्मस्वजावनी जावना ते न थाय. त्यारे क्रुधा तथा तृषा ठतां तेथकी विपरित जे अक्रुधा तथा अतृषारूप आत्मस्वजावनी जावना ते यतिने केम थाय! माटे शांत दांत प्रमुख श्रेष्ठ गुणयुक्त जे यति ठे, तेतुं मन शुद्ध होयठे तेनाबलथी आत्मस्वजावजावना टलती नथी. ए समाधान आहार अने उपकरण ए बन्नेनेविषे लागु पडेठे ॥ ३६ ॥

उस्सग्गववायाणं मितीए अहण जोअणं डुढं ॥ ३

स्सग्गववायाणं मितीइ तहेव उवगरणं ॥ ३७ ॥

व्या०:- जो एम कहेशो के, उत्सर्ग तथा अपवाद ए बन्ने मार्गनेविषे सापेक्षताएकरी नोजन करवुं ते अयोग्य कहेवाय नही; त्यारे सापेक्षताएकरी उपकरण धारण करवामां शुं अयोग्यता ठे? ॥ ३७ ॥

ए पप्पुवगरणेणं पच्चस्काणस्स दवठं जंगो ॥ इयकण्ण

णावि विहवा जोवणमिव णिप्फला एअ्या ॥ ३८ ॥

व्या०:- जो एम कहेशो के, उपकरण जे ठे ते जावथी तो मूर्धारहित ठे पण इव्ययकी परिग्रहरूप ठे. तेथी पञ्चखाणनो जंग थायठे. केमके इव्य, हेम्र, काल तथा जाव ए चार प्रकारे जे पञ्चस्काण ठे तेमांनो प्रथम इव्यपञ्चस्काण उपकरण ठतां संजवे नही. एवी जे अध्यात्मनी कल्पना ठे ते विधवायौवननी पठे निष्फल ठे. केमके, इव्यादिक चार प्रकारे सर्व मूर्धानो जे त्याग करवो तेज सिद्धांतोनो परमार्थ ठे. एम जो न मानीए तो शरीर पण इव्यपरिग्रह ठे, तेनो त्याग केम थाय ! अने पञ्चस्काणना जे चार प्रकार कहा ठे ते तो सर्व जाव पञ्चखाणनो विस्तार ठे, एम जाणवु. यतः “ अपरिग्गहिआसुत्ते, तिजाय मुग्गा प रिग्गहोनिमठं; सव्वह्वेसु एसा, कायवा सुत्तसप्पावो,” इति विशेषावश्यके. ॥३७॥

सिद्धंत सिद्धधरणं उवगरणं तं मुणीण सुहकरणं ॥

अह होइ पावहरणं इय अम्हं विंति आयरिया ॥३८॥

व्या०:- एवीरीते सिद्धांतनेविषे उपकरण धारण करवानुं कह्युं ठे, ते जयणाएकरी राख्याथी यतिने सुखकारक थाय ठे, तथा पापनुं हरण करेठे एम उत्तराध्ययन बृहद्वृत्तिप्रमुखनेविषे अमारा पूर्वाचार्ये कह्युं ठे, ते अवश्य मान्य करवुं जोये ॥३८॥

पुढा दिअंबराणं केवलमक्षपिआण उवहासो ॥

अम्हाणं पुण दूहइ दोहू विवहि आरवावारो ॥ ४० ॥

व्या०:- आग्रंथनेविषे दिगंबरीओए जे प्रश्न कहां ठे, तथा अध्यात्मीओए जे हांसीनां वचनो कहांठे, ए बन्नेनो अमारे प्रतिकार करवानो अधिकार ठे. एवीरीते धर्मोपकरण तथा जावअध्यात्म ए बन्नेनुं पोतपोतामां अविरोधपणुं बताव्युं. ॥४०॥

उ०:- अध्यात्मनी प्राप्ति केम थाय ते कहेठे:-

पंध समिठ तिगुत्तो सुविहिय ववहार किरिअ परिक

म्मो ॥ पावइ परमक्षप्यं साहू विजिइंदिअप्पसरो ॥ ४१ ॥

व्या०:- जेपांच समिति तथात्रणगुप्तिए करि सहित होय, आलय, विहार, जाषा, तथा विनयप्रमुख विविधप्रकारे क्रिया पालतो होय, तथा इंदियो नीति होय, ते साधुने उत्कृष्ट अध्यात्मनी प्राप्ति थाय ठे. ॥ ४१ ॥

लुंपइ वसं किरियं जो खलु आहच्च जाव कहणेणं ॥

सोहणइ बोहिवीअं उम्मग्गपरुवणं कानुं ॥ ४२ ॥

व्या०:- कोई एम कहे के, व्यवहाररूप बाह्य क्रियायी अर्थ सिद्ध थाय एवो नियम नथी; केमके, क्रिया कखाविना जरत चक्रवर्तिने काच चुवनमां अनित्य जावना जावतां केवल ज्ञान उत्पन्न थयुं अने बाह्य क्रिया करतां रौड ध्यानना योगे प्रसन्नचंद्रे अद्युन प्रकृति बांधि लीधी. माटे व्यवहार क्रिया करवी नही, किंतु निश्चय क्रियानो अंगीकार करवो. एम कहेनारा उन्मार्गनी प्ररूपणा करिने पोताना बोधबीजनो नाश करेडे. माटे ते वचन मान्य करवां नही. केमके, जरता दिकतुं स्वरूप कदाचित्त जावमां कहेवाय. एटले एवुं कदाचित्तज बनेडे, पण नि यमधी एमज थायडे एवुं कोईनाथी कहेवाय नही. अने व्यवहार पंथमां तो व्यवहारक्रियाविना निश्चय क्रिया संजवेज नही. अने ए कारण माटे एक निश्चय अंगीकार करिने क्रिया मूकी देवी नही किंतु बन्ने अवश्य करवी: ॥ ४२ ॥

सर्वं सहावसज्जं णिहं पणपरकयं च व्यवहारा ॥ ए
गंते मिहंतं उजय एयमयं पुण वयाणं ॥ ४३ ॥

व्या०:- निश्चयनयनी रीति ए सर्व वस्तु स्वजावे उत्पन्न थायडे, विशिष्ट वस्तु परिणामने स्वजाव कहेडे. ज्यारे बीजने अंकुरपणे उत्पन्न थवानो परिणाम था यडे, त्यारे बीजपर्याय टलीने अंकुरपर्याय उत्पन्न थायडे. पण तेने बीजा का रणनी अपेक्षा होती नथी. अर्ही कोई आशंका करे के, जो बीजा कारणनी अपेक्षा न होय तो कोठामां पडेला बीजनो केम अंकुररूपे परिणाम थतो नथी? एनो जवाब:- कोठामां पडेला बीजने अंकुररूप परिणाम थवानां बीजां कारणो जोयेडे, माटे व्यवहारनय पण अंगीकार करवो जोये डे. तेने सामग्री कहेडे, ते सामग्री मख्याविना बीजनो अंकुररूपे परिणाम थाय नही. किंतु सामग्रीना योगे ते परिणाम थाय डे. कोई आशंका करे के जो सामग्रीशीज कार्यनी उत्पत्ति थती होय तो तेने परिणाम एवुं नाम राखवानुं कारण थुं? किंतु सामग्रीथ की कार्यनी उत्पत्ति थायडे, एवो अंगीकार करवो जोइये. एनो जवाब के, सामग्रीथी कार्यनी उत्पत्ति थायडे एम मानिये तो व्यवहारनय सिद्ध थाय पण निश्चयनय उनी जाय. तेथी एकांतपणुं थाय ते मिथ्यात्व कहेवाय. माटे बन्ने नयनुं मत प्रमाणनूत माननुं. जो एकलो निश्चय नय अंगीकार करिये ने व्यवहारनय अंगीकार नही करिये तो सामग्री थकी परिणामविशेषनी उत्पत्ति मना य नही, अने एकज वस्तु कारण तथा अकारण ए बन्ने जावे कहेवाशे. त्यारे

अकारण वस्तुथी परिणामरूप कार्यनी उत्पत्तिनो संभव केम थरो. कार्यनी उत्पत्ति तो कारणथी थायठे पण अकारणथी थाय नहीं, इत्यादिक सूक्ष्म विचार कखा थी बन्ने पद्द अंगीकार करवा योग्य ठे एतुं सहज जणाई आवशे. ॥ ४३ ॥

अप्रंतर ब्रह्माणं बलिजाबलितणंति जइ बुद्धि ॥ नणु कयरं अबलतं वेचित्वा विवेसम्मं ॥ ४४ ॥ णिप्पत्तीव फलं अणिवयजोगो फलेण वा सिद्धं ॥ पढमे समसावग्गी वि ति ए वावार वेसम्मं ॥ ४५ ॥ तति ए दोण विसमया सउह पस्को पुणो असिद्धोत्ति ॥ तेण समावेस्काणं दोस्स विसमयत्ति वबुठिई ॥ ४६ ॥

व्या०:- कोई कहे के, कर्मरूप अंतरंग हेतु जे ठे ते बलवान ठे. अने उद्यमदिरूप बाह्यहेतु जे ठे, तेनिर्बल ठे. एम कहेनारा नयवादीने एम पूठवुं के, कर्मरूप अंतरंग हेतु केवी रीते बलवान ठे ? जो कहेशो के एक जातनो उद्यम करनारा पुरुषोने कर्मनी विचित्रतामे लीधे सुखदुःखनी अधिक न्यूनता दीशेठे, तेथी कर्मरूप अंतर हेतुनुं बल सिद्ध थायठे. तो ते कर्म शायी थया ठे ? एनो विचार कखाथी पूर्व जवना उद्यमथी थयांठे एम ठरशे. एथी उद्यमनी विचित्रतामे लीधेज कर्मनी विचित्रता ठे. ॥४४॥ जो कहेशो के, सुखनां कारण ठतां पण अशातावेदनीयकर्मना उदये जीवने दुःख ऊपजेठे, ए कर्मनुं बलवंतपणु जाणवुं; अहीं दृष्टांत ए के, जेम कोइक मनुष्यने दूधना पानथी पण दुःख थायठे. ए वचनपण समर्थ नथी अहीं पण जवांतरना उद्यमनी अपेक्षा ठे, केमके, दुग्धपानादिके करी पण पित्तादिकना योगे तिकरसादिकनुं उदोधन थयाथी दुःख ऊपजेठे. ॥४५॥ जो कहेशो के, कर्म पोताना जोगने अर्थे बाह्य कारणने लियेठे, ते बल ठे. तो जन्मांतरनो उद्यम जन्मांतरना फलजोगने अर्थे, अंतराले कारण कर्मादिक कारण उत्पन्न करेठे एम पण कहेवाई शकायठे. जो कहेशो के, क्वचित् बाह्यकारणविना कार्यनी उत्पत्ति थायठे; पण अंतरंगकारणविना कोइ कार्यनी उत्पत्ति थायज नहीं; ए बलजाणवुंतो एम पण संजवे नहीं; केमके, साक्षात् अथवा बाह्यकारणथीज कार्यनी उत्पत्ति थायठे, ते विना कार्य थायज नहीं. किंबहुना कालादिक बाह्य कारणविना कोई कार्यनी उत्पत्तिज थती नथी. माटे परमार्थताए बाह्य तथा अंतरंग ए बन्नेकारण सरखांज ठे. ए वस्तुस्थिति कहेतां बे नयने अनुरोधे प्रमाणमार्ग ठे. ॥ ४६ ॥

अ० निश्चयनयनुं मत कहे ठे:-

णिष्ठिय नसकहंचिय संवं एो परकयं हवइ वहुं ॥

परिणामा बंजता एयबंजं दाण हरणाई ॥ ४७ ॥

व्या०:- निश्चयनयथी सर्व वस्तु आत्मपरिणामथी उत्पन्न थायठे ; परंतु परथी परवस्तुनी उत्पत्ति थती नथी. केवल पुण्य पापकर्मना विपाकने अवसरे पाशे आवेला जे अंगना सर्पादिक बाह्य अर्थ ते निमित्त मात्र ठे. तेने व्यवहार बर मूढ जीव कारण करी माने ठे. व्यवहारवादी कहेठे के, ज्यारे परकारणत्व नथी, ल्यारे साधुने दान दीधायथी शुचफल अने परइव्यनुं हरण कखाथी अशुच फल केम थायठे ? निश्चयवादी समाधान करे ठे के, निर्दोष आहार साधुने देतां ते देनराना जे शुच परिणाम होयठे, तेथी शुचफल थायठे, परंतु अन्नादिक पुजलरूप होवाथी, तेथी फल थतुं नथी. केमके, पुजल इव्यथकी पुजल परिणाम थाय ठे ; परंतु आत्मपरिणाम नथी थतो. तेमज परइव्यनुं हरण कखाथी जे अशुच फल थायठे, ते पण आत्माना अशुच परिणामे करी थाय ठे, परंतु इव्यरूप पुजल थकी नथी थतुं. ॥ ४७ ॥

अ०:- निश्चय थकी दान पण आत्मपरिणामरूपठे, पुजल परिणामरूप नथी एम कहेठे:-

दितो वहरंतो वा एय किंचि परस्स देइ अवहरई ॥

देइ सुहं परिणामं हरइ वतं अप्पणोचेव ॥ ४८ ॥

व्या०:- निश्चयथकी तो साधुने निर्दोष आहार देतां तथा परइव्यनुं हरण करतां ते दान देनार तथा इव्य हरण करनारनेविषे कांई देवुं, तथा जेवुं बन्धुज नथी. कोई कोईने दान देतो नथी, तथा कोई कोईनुं इव्य हरण करतो नथी. साधुने आहारादिकनुं दान देतां देनारो पोते पोतानेज परानुग्रह बुद्धिरूप शुचपरिणाम दियेठे; तथा परनुं इव्य हरण करतां ते हरण करनारो जीव घात बुद्धिए करी पोतेज पोताना शुच परिणामनुं हरण करेठे. परंतु परनेविषे कांई देवुं जेवुं संजवे नही. ॥ ४८ ॥

एय धम्माव सुहं वा परस्स देयं एया विहरणिज्जं ॥

कयणासा कयजोग, प्पमुहा दोसा फुप्पाइ हरा ॥ ४९ ॥

व्या०:- जो परआत्मा परने देतो होय तो पोतानो धर्म तथा पोतानुं सुख बीजाने देवाई शक्य ठे; अने जो परनो आत्मा परनुं हरण करतो होय तो

બીજાનો ધર્મ તથા બીજાનું સુખ પોતે લેવાઈ શકાય છે. એ બંને પદ્ધતિમાં કૃતનાશ અને અકૃતનાશ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે, જો પોતાનો ધર્મ તથા પોતાનું સુખ બીજાને લેવાઈ શકાતું હોય તો પોતે કરેલા કૃતનો નાશ થઈ ગયો કહેવાય, અને લેનારને અકૃતનો આગમ થયો કહેવાય. કેમકે, તેને ન કરેલો ધર્મ તથા તેનું ફલ જે સુખ, તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, તથા કરેલો અધર્મ તથા તેના ફલનો નાશ થાય છે, તે કૃતનાશ કહેવાય છે. તેમજ બીજાનો ધર્મ તથા બીજાનું સુખ પોતાથી લેવાઈ શકાતું હોય તો તેણે કરેલા કૃતનો નાશ થઈ ગયો કહેવાય, અને પોતાને અકૃતનો આગમ થયો કહેવાય; કેમકે, પોતાને નહીં કરેલો ધર્મ તથા તેના ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે, તથા કરેલો અધર્મ તથા તેના ફલનો નાશ થાય છે, તે કૃતનાશ કહેવાય છે. ॥ ૪૯ ॥

નક્તાઈ પોગ્ગલાણવિ ણં દાણ દરણાઈ હોઈ જીવસ્સ ॥

જઈ તં સંચિય હુજ્જા તો દિજ્જા વા અવહરિજ્જા ॥ ૫૦ ॥

વ્યા૦:-નક્તપ્રમુખ પુજ્જનું લેવું તથા લેવું જીવનેવિષે થાય નહીં, કેમકે, જે વસ્તુ પોતાની હોય તેનું લેવું તથા લેવું થાય છે; પરંતુ વસ્તુનું લેવું લેવું થતું નથી, ને પરવસ્તુનું લેવું લેવું તો પ્રત્યક્કરિયે ઠેયે તે કેમ બને? જ્યારે પુજ્જન ડ્વય આપણું નથી ત્યારે લેવું લેવું કેમ કરાય છે? ॥ ૫૦ ॥

જોગવસેણુવણીઆ ઇઠાણિઠા ય પોગ્ગલા જેહુ ॥

અસ્માણે જીવાઠં જીવો અસ્મો અતેહિતો ॥ ૫૧ ॥

વ્યા૦:- નામકર્મના પરિણામ જે મન વચન તથા કાયના યોગ છે; તેના વડે પુજ્જનું ગ્રહણ થાય છે; જેમ કે, સુગંધ તથા ડુર્ગંધનું ગ્રહણ કરતાં કાય યોગના વડેકરી પુજ્જનું ગ્રહણ થાય છે; તે આત્મતત્વના જ્ઞાનથી જીવને રાગદ્વેષના કારણ થાય છે; પણ તે આત્માથી અન્ય છે. અને આત્મા તેથી અન્ય છે. કેમકે, પુજ્જન ગ્રહણ ગુણ છે; અને આત્મા ઉપયોગ ગુણ છે. ॥ ૫૧ ॥

તમ્હાસ પરિવિજ્જાગો પોગ્ગલદઘ્મિ ણહિ ણિહયઠં ॥

જોગાજોગવિસેસો વવહારાચેવ સપસસ્તં ॥ ૫૨ ॥

વ્યા૦:- માટે નિશ્ચયનથી એટલો વિશેષ છે કે, જે આપણને જોગ આવે છે, તેમાંનું ન્યાયોપાર્જિત વિક્ત હોય તે આપણું; ને જે પરને જોગ આવે તે પરનું જાણવું. ॥ ૫૨ ॥

पुष्पपयडीण उदये जोगो जोगांतराय विलक्षणं ॥ ज
इ णिअचित्तेणंचिअ, तो जोगो किए किं विणाणं ॥ ५३॥

व्या०:- सातावेदनीयप्रमुख पुष्पप्रकृतीना उदयश्ची जोगांतरायकर्मनो विल
य यथा पढी पण जो जीवने जोग अता होय तो रूपणने पण जोगनी प्राप्ति थ
वी जोइये, तेम तो नथी अतुं; केमके, रूपणने पण जानांतरायकर्मना ह्योप
शमयकी इव्यनी प्राप्ति तो आयठे, परंतु जोगांतराय कर्मना वशथी जोगवी शकतो
नथी. माटे जे आपणने जोगवायोग्य होय ते स्वइव्य कहेवाय, ने बीजुं बंधुं परइ
व्य ठे एम जाणवुं. एवी रीते व्यवहार नयना मते पण एकांत नथी; माटे ए सर्व
पुज्जल इव्यने परकरी जाणवुं जोइये. ॥ ५३ ॥

अ० आ सर्व पुज्जल इव्य परकीय ठे एम जे जाणे नही तेने आत्मस्वजावनी
प्राप्ति न थाय. ते कहे ठे.

जो परदवमि पुणो करेइ मूढो ममत्त संकणो ॥ सो
कहआय सहायं गिद्धो विसएसु उवलहई ॥ ५४ ॥

व्या०:- व्यवहारमूढ जीव परइव्यनी उपर ममत्वसंकल्प करेठे, ते विषय
लोलुप थयो थको आत्मस्वजावने पामतो नथी. केमके, शरीरादिकनेविषे ' हुं मा
तेलो हुं, हुं दूबलो हुं, हुं गोरो हुं तथा हुं कालो हुं ' इत्यादिक अहंकार जीवने
उत्पन्न थायठे; तथा ' मारुं शरीर, मारुं कुटुंब; इत्यादिक ममकार उत्पन्न थायठे;
तेथी विषयोनेविषे दृढप्रवृत्ति थायठे, अने विषयना अन्यासे तेथोनेविषे दृढ जाव
थायठे, एवी परंपराए करी अज्ञाननी वृद्धि थई गयाथी आत्मज्ञान केम थाय !॥५४॥

णाहं होमि परेसिं ए मे परे एण्ठि मक्षमिहकिंची ॥
इय अप्पजावणाए राग होसा विलङ्गति ॥ ५५ ॥

व्या०:- हुं बीजा कोईनो संबंधी नथी, तेम मारो कोई बीजो संबंधी नथी, आ
जगतनेविषे मारुं काई नथी, केमके, परइव्यनुं अस्तित्व निन्न ठे; अने मारा आ
त्मइव्यनुं अस्तित्व निन्न ठे, शरीर कुटुंबादिक कर्मना योगे संयोग लक्षण जावठे;
तेमा मारुं काई लागतुं वलगतुं नथी, केमके, तेथोनो वियोग पण थायठे, जेनो
कोई काले संयोग तथा कोई काले वियोग अतो होय ते पोतानुं इव्य कहेवाय नही
जेनो कोई काले वियोग थाय नही ते पोतानुं इव्य कहेवाय ठे, एवो तो आत्मस्व

जाव ठे, जेनो आत्माथी वियोग थतो नथी; जेम ज्ञान दर्शननादिक स्वजावोनुं कोई कालें आत्माथी वियोग थतो नथी. एवी रीते शास्त्रोक्तमर्यादाए करी आत्मजावना कस्वाथी राग द्वेषनो नाश थाय ठे. ॥ ५५ ॥

तो परिणामाउच्चिय बंधो मोस्को व णिच्चयणयस्स ॥

एंगितिया अणच्चं तिया पुणो बाहिरो जोगो ॥ ५६ ॥

व्या०:-माटे जीवने बंध अथवामोह निश्चयनयथी आत्मपरिणामथीज थाय ठे. अज्ञानरूप परिणामथकी बंध थायठे, अने आत्मज्ञानरूप परिणामथी मोह थायठे. जेम हिमथकी थएली जे शीतनी वेदना ते अग्निना तापथकी निवृत्त थाय ठे, तेम आत्माना अज्ञानथकी थएलो जे कर्मबंध, ते आत्मज्ञानथकी निवृत्त थाय ठे. केमके, एम सिद्धांतोमां पण कह्युं ठे के, तपथकी दुश्चर्य कर्मनो ह्य थायठे ते पण ज्ञानना संयोगथीज फल थायठे. केमके, अज्ञानी कोमाकोडी वर्षेकरी जे कर्मनो ह्य करे, ते कर्मनो ह्य ज्ञानी एक उच्छ्वासमां करेठे. बाह्य योग प्राणाति पातादिक, तथा क्रियानुष्ठानादिक एकांतिक नथी, तेम आत्यंतिक पण नथी. केमके, बाह्य हिंसाविना मनना क्लिष्ट परिणामे करी, तंडुलमड्ड, सातमी नरक पृथ्वी नेविषे उत्पन्न थायठे. अने अप्रमत्त यतिने जयणाए चालतां अनानोगे जीवथा थथी पण ते प्रत्यधिक कर्मनो बंध थतो नथी. तथाविध क्रियानुष्ठानविना पण केवल ज्ञान उत्पन्न थाय ठे. ने अजव्य जीव यतीने लिंगे उत्कृष्ट बाह्य क्रिया पा ले ठे तेना बले ते नवमां ग्रैवेयकसुधी जायठे, तो पण शुद्ध परिणामविना संसारनो पार पामता नथी ॥५६॥

सिद्धी णिच्चयउच्चिय दोहं संजोगउ अवेयत्तं ॥ क

उच्च कउच्च दोह्वि उवउंगो तुल्लवंचेव ॥ ५७ ॥

व्या०:- संसारपार गमन सिद्धलक्षण निश्चय क्रियाथीज थायठे: एमां पण आठली विशेषता ठे के, घणाने व्यवहारथकीज निश्चय आवेठे. अने कोइक जरतादिकने पूर्व चारित्र्यासेकरी तथा जव्यत्वना परिपाकेकरी सहजे पण थायठे. कपणुं कहेतां योग्यपणुं ते निश्चय तथा व्यवहार ए बन्नेना संयोग थकीज थायठे. एविषे सिद्धांतमां चार जांगा कहा ठे. पहेलो जे रूपुं सारुं नही ने ठाप पण सारीनही, तेनी पठे ए जांगो चरकपरित्राजकप्रमुखनेविषे ठे. केमके, ते रूपाना

जेवो शुद्ध परिणाम नथी, तथा ठापना जेवो वेष पण नथी. माटे तेअोना अर्थ नी सिद्धि थती नथी, ने ते वंदन करवायोग्य पण नथी. बीजो रूपुं खोहुं, होय ने ठाप खरी होय ए नांगो, पासत्था, उसन्ना, प्रमुखनेविषे थाय ठे ; प्रमुख शब्देकरी दिगंबरादिक पण लेवा. केमके, तेअोने रूपाना जेवो शुद्ध परिणाम नथी मात्र ठापनी पठे वेष तेवो ठे. पण परिणामविना तेअोना अर्थनी सिद्धि थती नथी. वेष तेवोठे माटे जहांसूधी दोष जाण्या न होय तहांसूधी वंदना करवायोग्यठे, परंतु दोष जाण्या पठी जो वंदना करिये तो माहा दोष लागे. यतः “ जह् वेलं बगलिं गं, जाणं तस्स एमउं धुवं दोसो ; णिदं दसत्तिणाऊ, ए वंदमाणे धुवं दोसो ” इत्या वश्यके. एनो अर्थः— जेम कोइ नांडे यतिनो वेष लीधो होय तेने जाणीने वंदन करतां निश्चयेकरी दोष लागेठे. तिम निर्ई दस जाणी वेष मात्र जोइने वंदना करतां धुव दोष लागे. त्रीजो रूपुं चोखुं होय पण ठाप खरी न होय ए नांगो प्रत्येक बुधने लागु थायठे. केमके, तेअो अन्यजिंगे पण होय तथापि तेअोने रूपानी पठे नावचारि त्रतो ठे, तेथी पोताना आत्मानो अर्थ तो सिद्ध करेठे, परंतु साधुना पथ्यविना वंदन करवा योग्य नथी. चोथो नांगो रूपुं पण चोखुं तथा ठाप पण चोखी होय तेनी पठे सर्व शुद्ध जाणवुं. जे महानुभाव आलय विहारादिक सर्व शुद्ध, यतिनी समाचारी पाले, अने विशुद्ध चारित्रवंत होय, एने रूपानी पठे शुद्ध परिणाम ठे, तेथी आत्मानो अर्थ सिद्ध करेठे, तथा साधुनुं पथ्य ठे, माटे वंदवा योग्य तथा पूजवायोग्य पण ठे. एवीरीते एवा ठेकाणे शुद्ध परिणामरूप निश्चय बलवंत ठे. साधु वेषादिरूप उपचरिता सद्गत व्यवहार ते निर्बलठे. तथाकोईक ठेकाणे व्यवहार अने निश्चय ए बन्नेनो सरखो उपयोग ठे. अहीं ज्ञान अने क्रियानुं उदाहरण लेवुं ज्ञाननयनी रीति ए आम कथुं ठे के, ज्ञानविना क्रियामात्रथी फलनी सिद्धि थती नथी. केमके, मिथ्याज्ञानेकरी सीपनेविषे रूपानी बुद्धि प्रवर्ते ठे. ने तेनी प्राप्ति तो थती नथी माटे मिथ्याज्ञानजन्य जे क्रिया, तेथी फलनी प्राप्ति थती नथी; किंतु सत्यज्ञानजन्यक्रियाथी फलनी प्राप्ति थायठे. परंतु क्रिया तो ज्ञानेकरीनेज थायठे, तेमां मिथ्याज्ञानजन्यक्रिया निष्फल थायठे ने सत्य ज्ञानजन्यक्रिया सफल थायठे, एवीरीते क्रियानुं कारण ज्ञान होवाथी प्रधान ठे. अने ज्ञाननुं कार्य क्रिया होवाथी अप्रधान ठे, ते मज क्रियानयनी अपेक्षाए एम कथुंठेः— ज्ञानजन्यक्रियाए करीने संपादन करेवुं जे फल, ते कोई कारणने लीधे ह्नीण थई जाय तो ते पावुं क्रियाथी प्राप्त थायठे; माटे क्रिया प्रधान ठे. अने ज्ञान अप्रधान ठे. जुवो के, ज्ञानवान ठतां

क्रिया न करे तो ते ज्ञानमात्रयकी फलनी प्राप्ति थती नथी. अहीं दृष्टांतो कहे ठे:— जेम कोई पुरुषने मार्गनुं ज्ञान सारी पठे होय, पण जो चलनक्रिया न करे तो बांठित नगर प्रत्ये पहोची शके नही; जेम कोई पुरुषने नृत्यकलानुं सारुं ज्ञान होय पण जो नृत्य अजिनय क्रिया न करे तो जोनारा लोकनुं मनरंजन करी शके नही; तथा तेने कांई इच्चनी प्राप्ति थाय नहीं तथा जेम कोई पुरुष तरी जाणतो होय एटले जलतरणज्ञानवान होय, पण जो हस्तपादचलनरूपक्रिया न करे तो इहितस्थले न पोहोचतां वझेज बूडी मरे, एवी रीते ज्ञाननय तथा क्रियानय नो परस्पर विवाद ठे; तेने एककोरे मूकीने मात्र सारांशनो विचार जो कखो होय तो परमार्थदृष्टिए फलसिद्धिने विषे बन्ने समान बलवंत ठे. केमके, शैलेशीअवस्थानेविषे केवलज्ञानरूप ज्ञान, तथा संवररूप क्रिया ए बन्ने योगथी मुक्ति थायठे पण ए बन्नेमांनुं कोई एक न होय तो मुक्ति थाय नहीं, ए प्रमाण पकू ठे: ॥ ५७ ॥

अ० निश्चयनयनी अपेक्षाए कहेठे:—

तुल्लतमवेस्काए णियमासमुदाय जोगमहि गिच्च ॥

किरिआ विसस्सए पुण नाणाउ सुए जउ जणिअं ॥५८॥

जम्हा दंसण नाणं संपुन्नफलं न दिति पत्तेअं ॥ चा

रित्तजुआ दितिहु विसस्सए तेण चारित्तं ॥ ५९ ॥

व्या०:— यद्यपि कार्य करवानी अपेक्षाए ज्ञान अने क्रिया ए बन्नेनुं सरखुं बलठे; तथापि ज्ञान करतां क्रियाने आटली विशेषता ठे:— ज्यारे शुद्धक्रिया होयठे त्यारे षष्ठादिगुणस्थानके नियमे शुद्धज्ञान होयठे. पण ज्यारे शुद्धज्ञान होय, त्यारे शुद्धक्रियानो नियम नथी. केमके, चतुर्थगुणस्थानके सम्यक्तना प्रतापे करी शुद्ध ज्ञान तो होयठे, परंतु अविरति होवाने लीधे शुद्धक्रिया होती नथी. एविषे आवश्यक निर्युक्तिमां कहुंठे के, जेमाटे दर्शन तथा ज्ञान ए प्रत्ये के संपूर्ण फल दई शकता नथी, पण ज्यारे चारित्रनेविषे एकठा मलेठे. त्यारे संपूर्ण फल दियेठे. तेमाटे दर्शन तथा ज्ञान करतां चारित्रश्रेष्ठ ठे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

एवं व्यवहारानुं बलवंतो णिहउ जणेयवो ॥ एग

मयं व्यवहारो सवमयं णिहउ वत्ति ॥ ६० ॥

व्या०:— एवी रीते व्यवहारयकी निश्चयनुं बल अधिक कहुं तथा आवीरीते पण निश्चयनी विशेषता ठे:— जे एकनयनुं मत ते व्यवहार, अने सर्वनयनुं मत

ते निश्चय कहिये, यथा नूतपदार्थनुं जे कथन ते निश्चयनय कहेवाय ठे, ने ए चूता र्थनय पण कहेवायठे, निश्चयनयनो विषय जाव जे ठे ते सर्व समान ठे. यतः “सवणया जावमिहंति” इति विशेषावश्यके. ॥ ६० ॥

अ० एवंनिश्चयनयनुंमत सांजलीने सिंहावलोकनन्यायें व्यवहारवादी बोले ठे:-

अहिञ्चा जइ तुह किरिञ्चा अहिञ्चा नाणं वि तस्स हेउत्ति ॥

कारणगुणाणुरूवा कज्जगुणाणोव विवरीञ्चा ॥ ६१ ॥

व्या०:- पूर्व कहेजी रीतिए ज्यारे तुं क्रियाने अधिक माने ठे, त्यारे ज्ञानने पण अधिक माननुं जोयेठे. केमके, ज्ञान क्रियानुं कारण ठे. कारणना गुण जेवाज कार्यना गुण होयठे, तेथी विपरीत होता नथी. जेमाटे ज्ञान क्रियानुं कारण ठे, तेमाटे तेना गुणे करीने क्रियाने कार्य पणानी प्रधानता ठे, तेथी ज्ञान अत्यंत प्रधान ठे, जो कदेशोके, मोक्षरूप कार्य क्रियाथकी थायठे. माटे क्रिया अधिक ठे ; तो तेम पण संजवे नही. केमके, ज्यारे क्रिया ज्ञाननुं कार्य ठे. त्यारे क्रियानुं कार्य जे मोक्ष, तेपण परंपराए ज्ञाननुंज कार्य जाणवुं. यतः “दासेण मे खरो कीउं, दासोवि मे खरोवि मे.” एटले मारा दासे खर वेचातो लीधो, ते दास पण मारो अने खर पण मारो ठे ; एम सिद्धांतोक्तन्यायथी जाणी लेवुं. ॥ ६१ ॥

अह जह सव णयमयं वृणित्तिं इगमयं च व्यवहारो ॥

सोसा सयलादेसा विगलादेसा कहं होउं ॥ ६२ ॥

व्या० पूर्वे कहा प्रमाणे निश्चयनय जे ठे ते सर्व नयनुं मत ठे, जो एम होय तो ते सर्व जांगानुं ग्रहण करनार सकलादेश प्रमाणरूप मानवो जोइशो. त्यारे ते नयरूप विकलादेश केम मानशे ? ॥ ६२ ॥

अ० एवीरीते व्यवहार तथा निश्चय ए बन्नेनय परस्पर वाद करता जोईने मध्यस्थपणे प्रमाणवादी कहेठे:-

मुक्कामुक्कविजागो इत्थामेत्तेण णत्ति एगंतो ॥ जइ

अत्ति तो विनाणे चरणं सारोत्ति तं मुक्कं ॥ ६३ ॥

व्या० व्यवहार तथा निश्चय एबन्ने नयोना मुख्य तथा अमुख्य ए बे विजाग पोतपो तानी इत्थाए थई शकेठे, कोईक गुणने लईने निश्चयनी मुख्यता कहेवायठे, अने कोईक गुणने लईने व्यवहारनी मुख्यता कहेवायठे. परंतु एथीनेविषे एकांतपणुं संज

वे नहीं; किंतु अनेकांतपणुं संजवेठे. केम के, निश्चय तथा व्यवहारना मुख्य तथा अमुख्य विजाग स्वभाविकधर्मरूप नथी; किंतु आपेक्षिक ठे. जेम आमलक बदरनी अपेक्षाए दीर्घ कहेवाय; अने घटादिकनी अपेक्षाए न्हस्व कहेवायठे. तेम ए बन्ने नयो एक बीजानी अपेक्षाए मुख्य तथा अमुख्य कहेवायठे, एम ठतां पण जो व्यवहारनयवादी पोताना मतनुं मुख्यपणुं प्रकाशवानुं मांझी न वाळे तो तेणे वली आ युक्तियेकरीने पोताना मननुं समाधान करी जेवुं जोये के व्यवहारनुं जे मुख्यपणुं ठे ते मात्र कहेवानुं ठे, अने निश्चयनुं मुख्यपणुं तो कार्यनो उपयोगी ठे; केम के, सामायक आदिदर्शने चौद पूर्वपर्यंत ज्ञाननुं सार ते चारित्र कहुं ठे, यतः “सामाश्चर्यां, सुअनाणं जाव विंडुसाराठं; तस्स वि सारो चरण, स्सारो चरणस्स निवाणं” इति आवश्यके. ॥ ६३ ॥

सवणायमयत्तं पुण सवेसिं सम्मत्तजत्तं विसत्तं ॥

एयणिहयस्स तेणं सयल दिसत्त मेगस्स ॥ ६४ ॥

व्या०: निश्चयनयने सर्वनयमय पणुं जे पूर्वे कहुं ते सर्वनय सम्मत अर्थ मानेठे तेमाटे कहुं एम जाण्थाथी एकला निश्चयनयने सर्वनयसमूहरूप प्रमाणात्मक सकल देशपणुं पण दोषनुं करनार थरो नहीं. ॥ ६४ ॥

जेणं सयला देसो अजेय वित्तीइ णिहयाधीणो ॥

तेणेव सोपमाणं ए पमाणं होइ ववहारो ॥ ६५ ॥

व्या०: जिहां एक धर्मनी धाराए सर्व धर्म जे सकलादेशनेविषे प्रतिपादन कराय ठे, तिहां अस्तित्वादिक एक धर्मनी साथे बीजा सकल धर्मोनुं अजेदपणुं जे जाणुं ते निश्चयनयने आयत ठे, एवी अपेक्षाएकरी निश्चयनयने प्रमाण कह्योठे; अने व्यवहारनयने अप्रमाण कह्योठे; परंतु एकांत निश्चयनय प्रमाण कह्यो नथी. ॥ ६५ ॥

जम एवयारोवि चलं कासइ णेगंतिअं हवे तंपि ॥ एग

स्स मुक्कजावे णियमा अवररोवयारोत्ति ॥ ६६ ॥

व्या०: कोई एम कहेठे के निश्चयनय परमार्थग्राहीठे तेमां कोई उपचार न ही होवाथी ते बलवानठे, अने व्यवहार नय परमार्थग्राही नथी, तेमां घणा उपचार होवाथी ते निर्बलठे, एपण एकांत नथी; केमके, बन्नेनय वस्तुग्राही ठे, व्यवहारनय अंशग्राही ठे, तेमां ज्यारे निश्चयनयनी मुख्यता विवक्षिण ल्यारेनिश्च

यनय पण उपचारसहित थायठे, इहां कोई विशेषता नथी, यतः “अर्पितानर्पितसिद्धे तत्वार्थे” शब्देकरी नयनी प्रधानतानी जे विवक्षा करवी ते अर्पित कहिये, अने नयांतरनी अपेक्षाए तेनी अप्रधानतानी जे विवक्षा करवी ते अनर्पित कहिये, एबन्ने प्रकारनी विवक्षाथी जे पदार्थनी सिद्धि थायठे, ते तत्वार्थ सिद्धि कहेवायठे. ॥ ६६ ॥

णिञ्जयणयस्स विसयं जावंचिय जे पमाण माहंसु ॥

तेसिं विणेव हेउं कङ्कप्पतीइ कामेरा ॥ ६७ ॥

व्या०: कोईक आम मानेठे के, निश्चयनयनो विषय जे जाव ठे तेज प्रमाण ठे, तो ते जावनो हेतु इव्य ठे, इव्यविना जावनी उत्पत्ति थाय नही जो इव्यविना जावनी उत्पत्ति अंगीकार करीये तो मर्यादा रहे नही. अने कारणविना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी एवो नियम ठे तेनो जंग थरो! जो एम कदेशो के, इव्य क्रिया संसारमां अनंतवार प्राप्त थएली ठे, माटे ते अप्रधान ठे; तो जाव पण अ प्रशस्त अनंतवार प्राप्त थएलो ठे ते केम प्रधान कहेवाय? जो कदेशो के, शुद्ध जाव अपूर्व ठे, तो शुद्ध इव्य पण अपूर्वज ठे, ते शासारुं नही मानबुं जोये! ॥ ६७ ॥

खाणवसमिगजावे सुद्धो हेऊ सुहस्स खइअस्स ॥ त

प्रावेण कया पुण किरिआ तप्राववुद्धि करी ॥ ६८ ॥

व्या०: ह्यायोपशमिक जावे कीधेली जे क्रिया तेज ह्यायोपशमिक जावनीवृद्धि करनारी ठे; माटे शुद्धजावथी क्रिया अवश्य करवी योग्य ठे; अने तेम न कखाथी जावनी हाणी थई जाय. ॥ ६८ ॥

धिइ सद्धा सुह विविइस विस्सुत्ती तत्त धम्म जोणित्ती ॥

तल्लद्धधम्मजावा वहुई जावतत्तणं ततो ॥ ६९ ॥

एवं पवहुजावो कमेण गुणठाणसिद्धिमारुहिय ॥

पस्कीणघाईकम्मो कयकिच्चो केवली होइ ॥ ७० ॥

व्या०: धृति, श्रद्धा, शुश्रूषा, विविदिषा, तथा विज्ञप्ति ए पांच पदार्थ धर्मेनां कारण ठे, एविषे पतंजलिप्रमुख ग्रंथोमां पण कहेलुं ठे, उद्वेगादिनो त्याग करीने चित्त स्वस्थ करबुं ते धृति कहिये, चित्त स्वस्थ थयाथी मार्गानुसारिणी रुचि उत्पन्न थाय ठे ते श्रद्धा कहिये; मार्गानुसारिणी बुद्धि थयाथी ह्यायोपशम जाव

उत्पन्न थायठे, त्यारे जेम सर्प बाहेर आनो तिडो चाले पण ज्यारे राफडांमां पे सेठे त्यारे पांसरो थई जायठे तेम श्रवणादिकनेविषे बुद्धिनी जे सरला थवी ते शुभ्रू पा कहिये, श्रवणादिक कस्याथी जेम जेम बुद्धि शुद्ध थती जायठे, तेम तेम आत्मतत्वचिंतननी उत्पत्ति थती जायठे ते विविदिषा कहिये, आत्मतत्वचिंतनथ की शुभ्रूपा जे ठे ते श्रवणादिगुणरूप थायठे, तेविना ते आजासमात्र कहेवाय; पण गुण कहेवाय नही, आत्मतत्वचिंतन वडे श्रवणादिक गुण उत्पन्न थयाथी सम्यक्तनी उत्पत्ति थायठे, ते सम्यक्तना पांच लिंग शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, तथा आस्तिक्यता; एवो आत्मानो जे शुभ्र परिणाम तेने परमतनेविषे विज्ञप्ति कहेठे, आत्माना शुभ्रपरिणामथी धर्मनो जाव उत्पन्न थायठे; तेणेकरी जावांतरनी वृद्धि थायठे, एम उत्तरोत्तर, जाववृद्धिकरी अविरति देशविरत्यादिक गुणस्थान श्रेणीचढी घातीकर्मनो कृतकृत्य केवलीथाय एनो सारी रीते विचार करी जुवो एटले सहज जणाईआवेठे ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अ० एवं युक्तिपूर्वक वचन सांजलीने पीडितकर्ण थयो थको परवादी बोळ्यो:-

नणु जय सो कयकिच्चो अडारसदोसविरहित देवो ॥

ता बुहतह्ला जावा जुळइ कम्मा कवलजोजी ॥ ७१ ॥

व्या० देव तो अडारदोषरहित ठे; अने कृतकृत्य ठे; ए सर्व मान्यठे. ने तमे पण जो एमज मानता होतो तेने कवलाहार करनारो केम कहोठो? कवलाहार अंगीकार कस्याथी कुधा तृषा पण अंगीकार करवा जोईशे. केम के, कुधा तृषाविना कवलाहार संजवे नही. जो कुधा तृषाने पण अंगीकार करशो तो परमेश्वरने अडारदोषरहित केम कही शकशो? केम के, कुधा अने तृषा ए बे दोष तो कवलाहारना ग्रहणथी सिद्ध थायठे. त्यारे शुं केवली सोलदोषरहित ठे, जो एम मानशो तो आगमवचननो अपमान थशे. यतः “कुत्पिपासा जरातंक, जन्मांतकजयस्मयाः ॥ न रागद्वेषमोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते.” इति दिगंबरग्रंथांतरगत उपासकाध्ययने कुधा, तृषा, जरा, कृत्य, जन्म, यम, इहलोकादिजय, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, चिंता, अरति, निडा, विस्मय, विषाद, स्वेद, तथा खेद; ए अडार दोष केवलीने नथी एम कह्युठे. तेओमाना कुधा तथा तृषा ए बे दोष ठतां कृतकृत्यता केम संजवे? माटे केवलीने जो कवलाहारी कहो तो बे दोष अंगीकार करो. ॥ ७१ ॥

अ० ए आशंकानो उत्तर कहे ठेः--

तो सक्रावुत्तुं जे बुहतह्लाई जिणस्स किरदोसो ॥ जइ
तं दूसेज गुणं साहावियमप्पणो किं वि ॥ ७१ ॥
दूसइ अवाबाहं इय जइ तुह सम्मठं तयं दोसो ॥
मणुयत्त एं वि दोसो ता सिद्धत्तस्स दूसणठं ॥ ७३ ॥

व्या०: क्रुधा अने तृषा ए बे दोष अडार दोषमां गणीने, कृतकृत्य जे केवली तेनेविषे ते बे दोषनो तें जे अजाव कह्यो; ते वचन ताराज मतानुयायिमां कहेता शोचाप्रद ठे; परंतु पंढितोनी पर्षदामां शोचाने पामे नही; किंतु मूख्यविना ना कहे वाय. केमके, क्रुधा अने तृषा ए बन्ने दोषमां ल्यारे गणी शकाय, के ज्यारे कोई स्वाभाविकआत्माना गुणने दूषण लागतुं होय; तेम तो काई थतुं नथी, केम के, ए जाव वेदनीयकर्मना करेला ठे; ते केवलज्ञानने दूषित करी न शके. के मके, केवलज्ञानने दूषण करनार ज्ञानावरणीय कर्म ठे. तेम केवलदर्शनने दूषित करनारुं दर्शनावरणीय कर्म ठे; तेम सम्यक्तचारित्रने दूषित करी शके नही केमके, सम्यक्तचारित्रने दूषित करनारुं मोहनीयकर्म ठे. तेमज दानादिक पां च लब्धिने पण दूषित करी शके नही; केमके, लब्धिअने दूषित करनारुं अंतरा य कर्म ठे. ए कारण माटे क्रुधा अने तृषा ए बे दोष कहेवाय नही. अहिं को ई आशंका करणे के जेम क्रुधा तथा तृषावमे उद्वस्यने ईयां समिति श्रुतान्यासा दिकनो जंग दीगामां आवेठे; तेम केवलीने पण चारित्रज्ञानमां प्रतिबंधरूप शा सारू न थाय? एनो उत्तर आ ठे: यद्यपि क्रुधा तथा तृषा ए बे बहिरिंद्रिय वृत्तिनी ग्लानि करवाने लीधे एकेंद्रिय ज्ञानादिकना विरोधी थायठे. तथापि अतींद्रिय ज्ञाननो घात करी शकतां नथी, कोई एवी आशंका करे के, जीवनो अ व्याबाध गुण ठे. एटले निराकुलत्वरूप जे जीव, तेने दूषित करनारी क्रुधा तथा तृषा ठे. केमके, ते आकुलता परिणामरूप ठे. जे आकुलतानी क्रुधावमे निवृत्ति थायठे, तेक्रुधानी परिणामक ठे. ने क्रुधा तेनो परिणाम ठे; अने जे आकुल तानी तृषावडे निवृत्ति थायठे, ते तृषानो परिणामक ठे. ने तृषा तेनो परिणाम ठे. तेने एम कहेवुं के, केवलीनो सिद्धत्व गुण ठे, तेने दूषित करनारुं मनुष्यपणुं पण दोषरूप केम न कहेवाय? इत्यादिक विचार करी पोतानी कल्पना मूकीने घातिकर्मना करेला अमार दोष जेवी रीते पूर्वाचार्ये कह्याठे, तेवी रीतेज मानवा

जोइयेते, यतः “अंतराया दानलाज, वीर्यजोगोपजोगगाः ॥ हासोरत्यरती नीति, जु गुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥ कामोमिष्यात्वमज्ञानं, निडा चाविरतिस्तथा ॥ रागोदो षश्च नो दोषा, केषामष्टादशाप्यमी ॥ २ ॥ ” ज्ञानगुणनो घात करनारुं अज्ञान, दर्शनगुणनो घात करनारी निडा, सम्यक्तगुणनो घात करनारुं मिष्यात्व, चारि त्रगुणनो घात करनारां हास्य, रति, अरति, जय शोक, डुगंठा, काम, अविरति, राग, तथा द्वेष; अने दानादि लब्धिरूपवीर्यगुणना घात करनारा दानांतराय, लाजांतराय, जोगांतराय, उपजोगांतराय, तथा वीर्यांतराय; एअडारदोष घाति कर्मना कह्याते, परंतु केवलीने घातीकर्मनो ह्य थई जायते, माटे ते निर्दोष क हेवायते. तेम ठतां ह्यथा अने तृषाने अडारदोषोमां जे गणेते ते युक्तायुक्त वि चार नकरतां केवल स्वमतनुं पोषण करेते; ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

अह जइ जिणस्स खइअं सुखं दुखं विरुल्लए तेणं ॥

तो सामणाजावे विसेसजुत्ता कहं सत्ता ॥ ७४ ॥

व्या०:- कोई आशंका करे के, जेम केवलीने ह्यायिक ज्ञानादिक ठे, तेम ह्या यिक सुख पण ठे, तिहां दुःखनो लेश पण नथी, तो ह्यथा तृषा केमलागेते ? ॥ ७४ ॥

तो वेयणिज्जकम्मं उदयप्पत्तं कहं हवे तस्स ॥ एय

सोपदेसउदत्तं समयम्मि विवाग जणणात्तं ॥ ७५ ॥

व्या०:- उपली आशंकातुं उत्तर दियेते के, केवलीने जो ह्यायिक सुख मान ता होतो सिद्धांतनेविषे केवलीने वेदनीयकर्मनो उदय कह्योते, ते शासारु न मा नवो ! अर्थात् मानवो जोईशे. जेम ज्ञानावरणीयकर्मनो उदय ठतां ह्यायिक ज्ञान थतुं नथी, तेम वेदनीयकर्मनो उदय ठतां ह्यायिक सुख पण थतुं नथी, कोई शंका करेके, केवलीने एवा वेदनीयकर्मनो उदय होयते के, जेना प्रदेश आत्मप्रदेशनी साथे मलेते, ते स्थिति प्रमाणे रहिने ह्यीण थई जायते. परंतु के वलीने तेनो आकुलता थती नथी. एतुं उत्तर एके, थद्यपि एवो प्रदेशोदय अम ने पण मान्य ठे; तो केवलीने ह्यायिक सुख संजवे नही. तेम ठतां अन्युच्चयता थी अमारे कहेवुं जोयेते के, केवलीने वेदनीयकर्मनो प्रदेशोदय ठेज नही. किं तु सिद्धांतोमां विपाकोदय कह्योते. ॥ ७५ ॥

आवस्सयणिज्जती पयडिपसहोदत्तवएसेणं ॥ ए

जइ ता सुहायात्तं असुहपडिवक्कवयणेणं ॥ ७६ ॥

व्या०:- आवश्यक निर्युक्तिनेविषे प्रकृतिनो प्रशस्त उदय कह्यो ठे, तथा दिगं बरना प्रवचनसारनामक ग्रंथमां पण “ पुष्पफला अरिहंता ” इत्यादिक वचनो कह्यांठे, एवी रीते असुखना प्रतिपद् वचनथी केवलीने सुखनो विपाक ठे. ॥७६॥

अ० कोई आशंका करे के, जे कारण माटे सुखविपाक ठे, तेथीज दुःखविपाक नथी ? तेनुं समाधान करेठे. ॥ ७६ ॥

तत्तदसुत्तजणिञ्चा एकारसहा परीसहा य जिणे ॥ तेह

वि बुहतह्लाइ खइअस्स सुहस्स पडिकूलं ॥ ७७ ॥

व्या०:- अमारा श्रीजगवतीसूत्रनेविषे केवलीने अग्यार परीसह कह्याठे. तद्यथा “ एकविहबंधगस्सणं जंते सजोगि जवड केवलिस्स कइ परीसहा पस्सुत्ता ? गोयमा, एकारस परीसहा पस्सुत्ता, एव पुणवेण तिच्चे ” तथा बेहुने “ एकादश जिने ” एवीरीते श्रीतत्त्वार्थसूत्रमां अग्यार परीसह कह्याठे ; एणेकरी केवलीने हुधा तथातृषा प्राप्त अईठतां ह्याधिक सुखनी हानि थती नथी एवं बरेठे अहीं उक्त “ एकादशजिने ” ए सूत्रनो अर्थ केटलाएक पोतानुं मत पोषण करवाना हेतुथी एवं करेठे के “ एकेनाधिकानदश ” एटले एकअधिक दश न थाय ; अर्थात् अग्यार परीसह नही. ए अपव्याख्यान जाणवुं, केमके, एवो समास संजवे नही. वली केटलाएक सर्वार्थसिद्धिप्रमुख “ नसंति ” एवं बाहेरथी वाक्य जियेठे, तेतो जाणे पोतानुं उत्सूत्रजाषणज प्रगट करतो होयनी ! परंतु तेओए आवो विचार करवो जोये के, परीसहनास्वामी चिंताना अधिकारनेविषे प्रसिद्ध ठतां तेनो अनाव केम थरो ! जे धनरहित होय ते धननो स्वामी कहेवाय नही. वली केटलाएक आवीरीते व्याख्यान करेठे के, केवलीने वेदनीयकर्म होवाथी कारण कार्योपचारेकरीने अग्यार परीसह कह्याठे ए व्याख्यान पण नदीमां बूडतां घास नो आश्रय लेवाजेवुं ठे, केमके, स्वामित्वचिंताए उपचार संजवे नही, जो उपचार मानिये तो ठता मोहनीयकर्मना होवाथी उपशांत मोहगुणस्थानकनेविषे पण बावीस परीसह कह्या जोईरो, ए प्रकारे करी सूत्रनां घणां अपव्याख्यानो नो त्याग करीने परमार्थनो विचार करवो जोये. ॥ ७७ ॥

अस्साय वेयणिज्जं बुहतह्लाईण कारणं जाण ॥ पक्क

त्तिसत्तुदय जलियंतरजलणदित्ताणं ॥ ७८ ॥

व्या०:- आहार पर्याप्तिनामकर्म तथा असाता वेदनीयकर्म ए बन्नेना उदय

थी प्रज्वलित थएलो जे जठराग्नि, तेणे करीने जीवने क्रुधा तथा तृषा लागेते, ते बधां कारण केवलीनेविषे ठतां ठे तेने क्रुधा तथा तृषा केम न लागे? तेकहो ॥७॥

अ० वादी आशंका करेते:-

नणु बुह तह्ना तह्ना मोहुदउ पत्तियारिरंसव ॥

जसइ अस्सा तह्ना अस्सहुस्कं तयह्णति ॥ ७॥

व्या०:- क्रुधा तथा तृषा ए मैथुननी इहानी पठे तृष्णारूप होवाथी ते मोहनीयकर्मथकी उत्पन्न थायते. माटे केवलीनेविषे ए संजवे नही. केमके, केवली ए तो मोहनीयकर्मनो प्रथमज नाश कस्योते. एनो उत्तर आवीरीते ठे:- तृष्णा अने दुःखमां घणी जिनता ठे, तृष्णानेज दुःख कहेवाय नही. परंतु संसारिने तृष्णाथकी दुःखनी उत्पत्ति थायते. ॥ ७॥

अ० तृष्णा उत्पन्न थवानो प्रकार कहेते:-

मोहानिणिवेसेणं चउहिं वि उमकोठयाइ हेऊहिं ॥

पगरिस पत्तातह्ना जायइ आहारससत्ति ॥ ८० ॥

व्या०:- मोहनीय कर्म अजिनिवेशे चार कारणथी आहारसंज्ञा उत्पन्न थायते. ते उत्कर्ष पास्याने लीधे तृष्णा कहेवायते. ते चार प्रकार श्रीगणंगमां क ह्याते; यतः “चउहिं गणेहिं आहारससत्ता समुप्यऊइ; उमकोठयाए, बुहावेहणि ऊससणं कम्मस्त उदएणं, मतीए, तदछोवउणेणं,” एनो अर्थ:- चार कारणेकरी आहारसंज्ञा उत्पन्न थायते. कोठेखाली ययाथी, क्रुधावेदनीयकर्मना उदयथी, आहारादिकनी कथानुं श्रवण कस्यथी, तथा वारंवार आहारनो उपयोग कस्यथी आहारसंज्ञा उत्पन्न थायते. अर्थात् ए चार कारण मय्याथी मोहनीय कर्म ना बले आहारसंज्ञा उत्पन्न थायते. अतएव गोमठ सारटीकाप्रमुखनेविषे पण आहारसंज्ञा आहारानिज्ञारूप कहीते. ते तृष्णारूप होवाथी यतिने ए विना अशनपानादिकनेविषे प्रवृत्ति ठे ते कहेते:- ॥ ८० ॥

असणाइम्मि पवित्ती एत्तोच्चिय तं विणा सुसाहूणं ॥ एज

हुत्त विहविहाणो अइआरो हंदि णिदिणे ॥ ८१ ॥

व्या० ए हेतुथीज यतिने पण आहारसंज्ञाविना अशनादिकनेविषे प्रवृत्तिठे. केम के, विधि पालतां यतिने अतिचार कह्या नथी; अने आहारसंज्ञा तो अति

चारमां ठे. माटे जे एम कहेठे के आहारसंज्ञाविना यतीए आहार करवो नही तेने आचारमां पण अतिचार कहा ठे. ॥ ७१ ॥

एयं विणा एचुत्ती मेहुणससं विणा जह अबंनं ॥ ६
य वयणं पि परेसिं एएण पराकयं ऐअं ॥ ७२ ॥

व्या० जेम मैथुनसंज्ञाविना अब्रह्मचर्य न थाय, तेम आहारसंज्ञाविना केव लीने चुक्ति थाय नही. एवा परवादीना वचननुं आवीरीते निराकरण कखुं ठे:- जेम यतिए आहारसंज्ञाविना आहार करवो उचित ठे, तेम केवलीनेविषे पण मानी लेवुं जोईये. ॥ ७२ ॥

एहु साहु चिय पविती ऐवय सुपसब्बाणहेउत्ति ॥ आ
हारोअ अबंनं अस्सह तुह होइ णिहोसं ॥ ७३ ॥

व्या० आहार अवर्जनीय होवाथी उचित ठे, तथा ब्रह्मस्थ यतीने प्रशस्त ध्याननुं कारण ठे. माटे आहारसंज्ञाविना केवलीने आहार लेवो संजवे ठे. अने मैथुन वर्जनीय होवाथी अनुचित ठे; तथा डुर्ध्याननुं कारण ठे. माटे मैथुना दिक अनुचितप्रवृत्ति अप्रशस्त रागद्वेषविना केवलीने थाय नही. एवा अर्थनो विचार करीने तेनुं ग्रहण करवुं जोये. ॥ ७३ ॥

आहारचिंतणुप्रव मेयं आहारससमासक ॥

वुहुइ अट्टक्षाणं इवा लोनेण मूढाणं ॥ ७४ ॥

व्या० आहारना चिंतनथकी जे आहारसंज्ञा उत्पन्न थायठे, तेनेविषे मोहित थयला मूढजीवने जो ते आहाररूपइष्टवस्तुनी प्राप्ति न थाय तो ते वस्तु क्यारे प्राप्त थजे एवा चिंतनरूप आर्त्तध्यान करेठे. परंतु ते अनिलाषा मटती नथी. ७४

ततो माणसडुस्कं लहइ जितु कंदणाइ कुवंतो ॥

लहुं वि इधविसयं रईइ चितेइ अवियोगं ॥ ७५ ॥

व्या० त्यार पठी पूर्वोक्त रीतिए जो तेने आहारादिक इष्टवस्तुनी प्राप्ति न थाय तो ते जीव कुद्वेदनीयना उदयथी प्रज्वलित थएला उदरानलना योगे शरीरडुःख पामेठे. अने पठी क्रंदन रोदनादिक कखाथी अरतिमोहनीयकर्मना उदयने लीधे गाढ चित्तोपतापरूप मानसडुःख पामेठे. कदाच पुण्यप्रकृतिना परिपाके इष्टवस्तुनी प्राप्ति थाय तो पण रतिमोहनीयकर्मना उदयथी ते वस्तु

ना अविद्योगनी इहा कखाकरे, तेणे करी ते वस्तु उपर गाढानुरागेकरी आर्त्त ध्यानना वश थयो थको जीव दुःखज पामे ठे, माटे मोहमूढ जे जीव ठे तेने परमार्थथकी कदी पण सुख नथी. ॥ ८५ ॥

तो मोहणिङ्गखयत तप्रवङ्गुस्काणुबंधि विलएणं ॥

लहई सुहं सबह्ण चएणो पुण बुहं चइतं ॥ ८६ ॥

व्या०:- मोहनीयकर्मना ह्यथी जीवने आहार करवानी रति तथा अरति उत्पन्न थायठे, ने मोहनीयकर्मना उदयथी जीवने मानस दुःख उत्पन्न थायठे. ते दुःख केवलीने मटी जायठे; पण असातावेदनीयकर्मना उदयथी केवलीने जे रुधा तृषा लागेठे; तेनो ते त्याग करी शके नही. ॥ ८६ ॥

घाईव वेयणीअं इय जइ मोहं विणा ण दुक्कयरं ॥

पयडं पडिरूवानं ता अस्मानं विपयडीतं ॥ ८७ ॥

व्या०:- पूर्वपक्षी कहेठे के, वेदनीयकर्म घाती कर्मना जेवुंठे, माटे मोहनीय कर्मविना ते दुःखदायक थाय नही. उक्तंच. “ घादीववेदणीयं; मोहस्सुदएण घाददे जीवं;” इति कर्मकांमे. तेनुं समाधान आमठे:- जो तमारा कह्या प्रमाणे होय तो असातावेदनीयनी पठे केवलीने बीजी प्रकृतिअो पण मोहनीय कर्मवि ना पोताना कार्यनी करनारी होवी जोये. अने तमे वेदनीयकर्मनीसाथे घातीकर्मनी तुअना केवीरीते करोठो? घातीअाना रसना जेवो तेनो रस होयठे एम सरखा पणुं करोठो, के स्वकार्य करवानेविषे घातीअानी अपेक्षापणुं कळपोठो; के अ थवा दोषनुं हेतुपणुं कहोठो, ? जो कहेशोके घातीअाना रसना जेवो रस होवो जोये तो अघातीकर्म प्रकृति घातीना जेवी होवी जोये. केमके, ज्यारे अघातीनी प्रकृति सर्व घातिनी प्रकृतिनी साथे वेईये ल्यारे ते सर्व घातिनीप्रकृतिनो विपाक देखाडे, तथा ज्यारे देश घातिनीनो विपाक देखाडे, अने एकली वेईये ल्यारे मा त्र ते एकलो पोतानोज विपाक देखाडेठे; माटे पक्ष संजवतो नथी. जो कहेशो के, स्वकार्य करवानेविषे घातीअानी अपेक्षा होवी जोयेठे, तो नामकर्म पण पू र्वे मोहनीयकर्मनी अपेक्षा करतुं ठतां जेम केवलीने मोहविना आपणु कार्य करेठे; तेम वेदनीय कर्म पण मोहनीयकर्मनी अपेक्षाविना कार्य करेठे. माटे बीजो पक्ष पण संजवे नही. जो कहेशो के वेदनीयकर्मथी दोष लागेठे, तो ते

पण मनाय नही, केमके, ह्रुधा अने तृषानेविषे दोषपणानुं पूर्वेज खंडन कखुं ठे; एवीरीते स्वबुद्धिएकरी सारी पठे विचार करीने जुवो. ॥ ८७ ॥

अणुकूलं पडिकूलं च वेयणं लस्कणं सुहृद्दहाणं ॥ ए
हु एसो एगंतो अपमत्तजईसु तयजावा ॥ ८८ ॥

व्या०: औदयिक सुख ठतां अनुकूलत्व वेदन थायठे, ते रागरूप ठे अने औदयिक दुःख ठतां प्रतिकूलत्व वेदन थायठे, ते द्वेषरूप ठे; माटे केवलीने औदयिक सुख तथा दुःख ए बन्ने होतां नथी; किंतु द्वायिक सुखज होयठे. एम केटलाएक कहेठे, ते योग्य नथी. केम के, जेम अप्रमत्तयतीने औदयिक सुख तथा दुःख ए बन्ने होयठे. पण राग तथा द्वेष ए बे होता नथी; तेम केवलीने विषे पण जाणी जेवुं. एमां एकांतपणं न मानवुं. ॥ ८८ ॥

अधुवाण सुहृद्दहाणं जोगो जोगेण कम्मबंधो य ॥
एहु एसो एगंतो अपमत्तजईसु तयजावा ॥ ८९ ॥

व्या०: सुख तथा दुःख ए बन्ने पदार्थे शाश्वत नथी, किंतु अशाश्वत ठे. ते ओनो एवो नियम ठे के, अवश्य जोगने दियेठे. कखुंठे के, “नास्तुक्तं क्लीयते कर्म” इत्यादि. अने जोगथकी कर्मबंध थायठे. ए कारण माटे केवलीनेविषे ते संजवे नही. केमके, सुख तथा दुःख ए बन्ने पदार्थो अधुव ठे. एम केटलाएक कहेठे, ते पण योग्य नथी. केमके, सुख तथा दुःख अधुव ठतां अप्रमत्तयतीने होयठे; तो पण तेनाथी कर्मबंध थतो नथी; तेम केवलीविषे पण जाणवुं जोश्ये. अहीं पण एकांत नथी. ॥ ८९ ॥

अन्नाणजं तु दुक्कं नाणावरणस्सएण स्वयमेइ ॥
ततो सुहमकलंकिय केवलनाणा पुहपूयं ॥ ९० ॥

व्या०:-- ज्यारे हरेक पदार्थनो सूक्ष्म अर्थे जाण्यामां आवतो नथी, त्यारे जीवने महादुःख उत्पन्न थायठे. केमके, यथार्थवस्तु जाणवानी इहा प्रमाणे जाण्यामां न आवे तो तेथी जीवने आकूलता थायठे. तेज दुःख जाणवुं. ए दुःख वस्तुनो सूक्ष्म अर्थे न जाण्याथकी थायठे, माटे अज्ञानरूपज ठे. अज्ञान ज्ञानावरणीयकर्मना ह्यथी नाश थाय ठे, ते दुःखनोज नाश जाणवो. केवलीने ज्ञानावरणीयकर्मनो ह्यथे जवाथी दुःखरूप अज्ञाननो जेश पण

रह्यो नथी अने केवल ज्ञाननो उदय थयोढे ते सर्व सुखरूप ठे. ते सुख केवल ज्ञानथकी पृथक्नूत नथी. केमके, केवल ज्ञान जे ठे ते स्वभावना प्रतिघातरहित होवाथी अनाकूलतारूप ठे; त्यां आकूलता ठेज नही, ज्यारे आकूलता नथी त्यारे तज्जन्य जे दुःख ते क्यांथी होय! अने दुःख नथी त्यारे परम सुखज ठे. एवी रीते “जं केवलित्तिनाणं, तं सोस्कं परण संचसोचेव ॥ खेदो तस्स नणीदो, जम्हाघादीखयं जादा ” ए प्रवचनसारनां वचन असंजवित ठे. तोपण आटलो विशेष ठे:-- केवल ज्ञान ह्याधिकसुखप्रक्रिया संजवे नही; केमके, ह्याधिक सुख तो वेदनीयकर्मनाह्यथकीज उत्पन्न थायठे. ॥ ९० ॥

एय सुकं दुस्कं वा देहगयं इंदिनुप्रवं सवं ॥ अ
त्राण मोह कजे पमाणसिद्धेण संकोए ॥ ९१ ॥

व्या० दिगंबर एम कहेठे:--के शरीरगत सुख दुःख सर्वइंडियथकी उत्पन्न थाय ठे केम के, उद्गस्थने जे सुख तथा दुःख उत्पन्न थायठे ते एवी रीतेज थायठे. प्रथम परोक्षज्ञानना कारणथी इंडियोनी उपर मैत्री प्रवर्ते ठे, इंडियोनी मैत्री थकी विषयोनेविषे तृष्णा उत्पन्न थायठे. जेम अग्निथी तापेलो लोहनो गोलो होयठे; तेम विषयोनी तृष्णाएकरी इंडियो तप्त होयठे. ते महाव्याधिस्थानीय ठे. अने तृष्णा टालवाने अर्थे विषयनुं सेवन थायठे; ते व्याधीना औषधस्थानीय ठे. ते यद्यपि व्यवहार दृष्टिए तो सुख कहेवायठे, तथापि परमार्थताए दुःखरूप ठे. उक्तंच. “पप्पाइठे विसए, फासेहि समास देस हावेण; परिणममाणोअप्पा, सयमेव सुह एयवदिरेहोत्ति.” इति प्रवचनसारे. ए कारण माटे देहगत सुख ऐंडियक ठे. तेमज दुःखपण ऐंडियक ठे. एवा ऐंडियक विषयोनां द्वेषथी दुःख ज पजेठे. माटे देहगत सुख तथा दुःख केवलीनेविषे नथी. तेथीज केवली अतींइय थया ठे. उक्तंच. “सोस्कंवा पुण दुस्कं, केवलनाणस्स नत्ति देहगयं; जम्हा अदिंदिअत्तं, जावं तम्हा दुत्तणेयंति.” इति प्रवचनसारे. एनुं समाधान करेठे:--देहगत सर्व सुख तथा दुःख इंडियाधीन नथी केम के, इंडियोनी पराधीनताथी जे अज्ञान तथा मोहथकी सुख तथा दुःख उत्पन्न थायठे, तेथोनेज इंडियोनी अपेक्षाठे, परंतु अप्रमत्तयतीने जे मानस सुख थायठे, तथा सातादिककर्मना उदयथी कुधादिक दोष उत्पन्न थायठे, तेमां इंडियोनी अपेक्षानो नियम नथी, जो एम न मानिये ने इंडियाधीनज सुख तथा दुःख मानिये तो रतिमोहनीयकर्म तथा अरति

मोहनीयकर्मणुं नामांतरज वेदनीयकर्मना उदयथी असाता वेदनीय कर्म थाय ठे एम उरशे. त्यारे वेदनीयकर्म जुडु कहेवाशे नही. जो वेदनीयकर्म मोहनीयसाथे मानीये तो सातज कर्म उरशे. आठ कर्मनो संजव थशे नही. एम करतां सर्व जैन प्रकृतिनो उहेद थशे. वली देहगत सुख जो केवलीने न मानीये तो तीर्थकरनाम कर्मनो विपाक केम संजवे! जो एम कहिये के तीर्थकरनामकर्म जीव विपाकी ठे, माटे तेथी जीवगत सुखतो ऊपजेठे. परंतु देहगत क्रुधादिक दुःख संजवे नही. तो जेम सुखने पण देहनी अपेक्षा ठे, तेम दुःखने पण देहनी अपेक्षा ठे, माटे देहगत मानवा योग्यठे, इत्यादिक सूक्ष्मविचार करी मध्यस्थबुद्धिये न्याय करो. ॥९१॥

एतोच्चिअ बहु दुःख, स्कएण तेसिं बुहाइवेयणियं ॥

णिंबुरस लवुव पए अप्पंति जणंति समय विऊ ॥ ९२ ॥

व्या० केवलीने अज्ञानादि जघन्य घणां दुःख मटीगयां ठे, मात्र एक क्रुधावेदनीय रह्युं ठे, ते पण घातीकर्मनी साथे मलेला जेवो पोतानो विपाक देखाडे ठे केम के, केवलीने पुण्यप्रकृतिनो विपाक प्रबल ठे. यतः “अस्सायमाइआओ, जाविअ असुहा हवंति पयडीउ; णिंबुरस णिंबुवपणु ए हुंति ता असुह यात स्स.” ए आवश्यकगाथामां तीर्थकरने असाता प्रकृति दुःखदायिनी थती नथी. जेम दूधना घडामां निंबना रसनो बिंडु नारख्याथी कटुता थाय नही, एम श्रीजइ बाहु स्वामीए कह्युं ठे, जेम तेने प्रबल पुण्यपराजव करेठे, परंतु तेथी क्रुधादिक ऊपजे नही एम न जाणवुं, एवो जाव जणायठे. पढी विशेषार्थ तो बहुश्रुत जाणे. ॥९३॥

एय तं कवलाजोग्गं वेयणियं अगणिमंदयाजावा ॥

एय दग्धरज्जुकप्पं वेअणिअं हंदि सुअसिद्धं ॥ ९३ ॥

व्या०:- केवलीनुं वेदनीयकर्म कवलाहार योग्य थाय नही एम न कहेवुं. केमके, केवलीने अग्निमंदपणुं नथी. आहारपर्याप्तनामकर्मनो उदय अने वेदनीयकर्मनो उदय होवाने लीधे उदराग्नि प्रज्वलित थायठे. ए बन्ने कारणो होवाथी केवलीने वेदनीय कर्म कवलाहारयोग्य थायठे. जो कोई कहेशे के, वेदनीय कर्म दोरडीना जेवुं ठे, तेथी केवलीने व्याबाध करीशके नही. तेने आवो ज बाब देवो के, ए वचन प्रघोषनुं ठे, शास्त्रनुं नथी. केमके, श्रीसुयगडांगनी टीकामां आम कह्युं ठे के, “यद्यपि दग्धरज्जुस्थानकत्वमुच्यते वेदनीयस्य तदप्यना

गमिकमयुक्तिसंगतं वागमेह्यत्यंतोदयः सातस्य केवलिन्यनिधीयते. युक्तिरपि धा-
 तिकर्मह्याद्ज्ञानादयस्तस्या अनूवन् वेदनीयोद्भवायाः क्रुधः किमायातं येनासौ न न
 वति न तपोह्यायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणो विरोधो नापिनावानावयो
 रिव परस्परपरिहारेण लक्षणकचिद्विरोधोस्तीति सातासातयोश्चांतमुद्दूर्तपरि-
 वर्तमानतया यथा सातोदय एवमसातोदयोपीति अनंतवीर्यत्वं सत्यपि शरीरब-
 लापचयक्रुवेदनीयोद्भवा पीडा च नवत्येव नचाहारग्रहणे किंचित्क्रीयते. के-
 वल महोपुरुषिकामात्रमेवेति पंचाशीतिर्जर ऽस्त्रप्रायाः शेषासयोगिनि. ”
 एवं जे गुणस्थानकक्रमारोहमां कलुंठे, ते तो थोडी स्थितिनी अपेक्षाए जा
 एबुं ; पण रसनी अपेक्षाए न जाएबुं. केमके, सत्तानी प्रकृति तो एवी
 कहीठे, पण उदयनी प्रकृति एवी कही नथी. उलटो तीर्थकरनामप्रमुखनो प्र-
 बल उदयज कह्योठे. एम जाणीने “अतएव दग्धरङ्गकल्पेन नवोपग्राहिकल्पेना
 पि सता केवलिनोपि न मुक्तिमासादयेयुः ” ए आवश्यकबृहद्वृत्तिनुं वचन ठे, ते
 जोईने पण व्यामोह करवो नही. तेटला माटेज इहां पण स्थितिनी अपेक्षाएज
 केवलीने कर्म दोरडीना जेवां कह्यांठे. “अतएव नवोपग्राहित्वाल्पग्राहित्वविशेषणं”
 कह्यांठे. एवं अमने प्रतिनासेठे. वली विशेष गीतार्थनेविषे जेम पूर्वापरविरोध न
 थाय, तेम विचारबुं. केटला एक प्रमेयकमलमार्त्तमना अनिप्रायने अनुसरीने
 आवीरीते कहेठे के, अपूर्वकरणगुणताणाए पापप्रकृतिनो रस कखोठे, मा-
 टे केवलीने तथाविध सातोदय थाय नही. मोहसापेक्षप्रकृति थाय. तेनो मोह
 ना घातथी अवर्य घात थायठे. अन्यथा पराघातनामकर्मना उदयथी केवली
 परहननादिक केम न करे ! ए बोलबुं पण डुराग्रहनुं जाएबुं, केमके, जेम रसनो
 घात थायठे, तेम स्थितिनो पण घात थायठे. माटे जो रस ओठो थतो होय तो
 स्थिति पण ओठी थवी जोये. जेम बद्धमानकर्मनी स्थिति घटी जायठे तेम ब-
 द्धमान कर्मनो रस पण घटी जायठे, एज समाधानठे. तथा पराघातनामकर्म
 नुं फल केवलीने थायजठे, अने परहनन तो मोहविना थाय नही. केटलाएक
 एम कहेठे के वेदनीय कर्म केवलीनेविषे हतवीर्य ठे, माटे तेनेविषे क्रुधादिक परी
 सह ठायारूप ठे. एम जे केवलीनेविषे कहेठे तेणे श्वेतांबरनी प्रक्रिया जाणी नथी, ए-
 म जाएबुं. केटलाएक कहेठे के, केवलीनेविषे उदीरणाविना प्रचुर पुञ्ज आवता
 नथी, माटे असातावेदनीयोदय वली दोरडीना जेवोज ठे. एबोलबुं पण अविचार
 रूप ठे. केमके, एवीरीते तो सातावेदनीयोदय पण मंद होवो जोये. इत्यादिक

मतनो विचार करतां वास्तविक अर्थ सहज देखाई आवशे. माटे सूक्ष्म दृष्टिवडे ते अर्थनुं शोधन करो. ॥ ९३ ॥

एय केवलनाणाई बुहाईपडिबंधगं जिणंदस्स ॥

दाहस्सिव मंताई इय जुत्तं तंतजुत्तीए ॥ ९४ ॥

व्या०:- जेमं दाहना प्रतिबंधक मंत्रादिक ठे, तेम कृधादिकनुं प्रतिबंधक के बलज्ञान ठे. ए वचन पण शास्त्रानुसार नथी. केमके, जेम हाथनेविषे मंत्रेलो अग्नि राख्यो ठतां हाथ बलतो नथी एवं प्रत्यक् दीठामां आवेठे, तेथीज मंत्रादि क जे ठे ते दाहना प्रतिबंधक ठे, एवी कल्पना करायठे, तेम जो केवलीनेविषे वे दनीयादिक कर्मोदयरूप कारण ठतां कृधादिक उजय उत्पन्न थतां नथी एम जो सम्मतशास्त्रमां कहुं होय तो एवी कल्पना थई शके; तेविना बोलवुं व्यर्थ ठे; माटे शास्त्रनी युक्तिए जिमपूर्वे कहुं ठे तेम आदरवुं योग्य ठे. ॥ ९४ ॥

खिळ्ळइ बलं बुहाए एय तं जुज्जइ अणंतविरिआणं ॥

इय जुत्तुं पिण सुत्तुं बलविरियाणं जण जेण ॥ ९५ ॥

व्या०:- केवलीने जो नूख लागती होय तो बलनी हाणी थाय. ते तो तेने विषे संजवे नही. केमके, वीर्यांतरायकर्मना कृयने लीधे केवली अनंतवीर्यवंत ठे. ए वचन पण अयोग्य ठे. केमके, बल अने वीर्यमां जेद ठे. शरीरनो जे पराक्रम ते बल कहेवायठे, अने अंतरंग जे शक्तिविशेष ते वीर्य कहेवायठे. तेम ठतां कृधाएकरी शरीरनुं बल घटेठे, एविषे अमे ना कहेता नथी ए योगप्रत्यय ठे; योग जे ठे ते शरीरनामकर्मपरिणतिविशेषरूप ठे. अने नामकर्म तो जगवंतनेविषे हीण थयुं नथी. ॥ ९५ ॥ अ० पूर्वपक्षी आशंका करेठे:-

बंधो परपरिणामा सो पुण नाणा ए वीयमोहाणं ॥ जो

गकया पिदु किरिया तो तेसिं होइ णिवीआ ॥ ९६ ॥

व्या०:- ग्रहण तथा मोचनादिक परपरिणामथी जीवने कर्मबंध थायठे. ते परिणाम वीतरागने ज्ञानना प्रतापे थाय नही. उक्तंच “ गेह्ळदि एव ए मुंचदि, ए परं परिणमदि केवली जगवं; पेह्ळदि समंतदोसो, जाणदि सवं निरवसेसं ” इ ति प्रवचनसारे. केवलीने तो योगनी क्रिया पण नथी, त्यारे नोजननी शी कथा अर्थात् केवलीनेविषे नोजन पण संजवे नही जो नोजनक्रिया केवलीनेविषे मा

निये तो तेथी योगक्रिया सिद्ध थज्ञे. ते तो केवलीनेविषे संजवे नही. जुवो के, स्थाननिषद्या, विहार, तथा धर्मोपदेशादिकक्रिया पण केवलीने थती नथी, त्यारे नोजनक्रिया ते केम थाय ! जो कदेशो के, स्थाननिषद्या, विहार, तथा धर्मोपदेशादिकक्रिया केवलीने प्रत्यक्ष विद्यमान ठतां ना केम कहेवाय ? तो ते क्रिया यद्यपि ठे, तथापि प्रयत्नपूर्वक नथी. केमके, प्रयत्न रागद्वेष विना थतुं न थी. तेतो केवलीनेविषे नथी, माटे ए क्रिया स्वजावसिद्ध ठे. जेम आकाशनेविषे वादला समयविज्ञेपे स्वजावेज संचार करेठे, रहेठे, गर्जना करेठे, तथा वर्षा करेठे. तेम केवलीने पण स्थाननिषद्या, विहार तथा धर्मोपदेशादिक स्वजावेज थायठे. उक्तंच “गणपितेज्ज विहारो, धम्मवदेसो अणियदिणा तेसिं ; अरिहंताणं का ले, मायाचारोव इत्थीणं” इति प्रवचनसारे. अतएव केवलीने जे औदधिकी क्रिया ठे, तेनेविषे मोह नही होवाने लोधे परडव्य परिणामना विरहथी द्वायिकीज जाणवी. यतः “पुष्पफला अरिहंता, तेसिं किरिया पुणोहि औदधिगी ; मोहादिहे विरहिया, तम्हा साखाइ गतिमदत्ति ” ॥ ९६ ॥

अ० एवी पूर्वपक्षीनी आशंकानुं उत्तर आपेठे:-

जोगं विणावि किरिआ उवळइ कहं ए तस्सोवि ॥

तुल्लं किरिवेचित्तं तह तुल्लं मबुद्धिपुवत्तं ॥ ९७ ॥

व्या०:- केवलीनेविषे स्थाननिषद्यादिक्रिया जो स्वजावेज थती होय तो प्रयत्न निरर्थक थाय. एम तो कांइ दीठामां आवतुं नथी. प्रयत्न सार्थकज होयठे. केमके, प्रयत्नविना चेष्टा थतीज नथी. माटे केवलीनेविषे प्रयत्ननो संजव थायठे, मात्र स्वाभाविकतानोज उपयोग करवो नही. जो कदेशो के, केवलीनेविषे प्रयत्न जय्य चेष्टा नथी किंतु तेथी विलक्षण ठे. अर्थात् केवलीनी चेष्टा प्रयत्नविनाज थायठे. तो जेम चेष्टा विलक्षण ठे, तेमज प्रयत्न पण शासारू विलक्षण न मानि ये ? अने जेम विलक्षण चेष्टा मोहविना थायठे, तेम विलक्षण प्रयत्न पण मोह विना थतुं जोये. जो कदेशो के, केवलीनी चेष्टा मनःपूर्वक नथी, तो ते प्रमाणे प्रयत्न पण मनःपूर्वक नथी एम शासारू न मानो एवीरीते सर्व ठेकाणे सरखुं स माधान जाणी लेवुं. ॥ ९७ ॥

एवं सहाववाणी कह जुत्ता जेणि तेसि वयजोगो ॥

हेऊ दव सुअस्सा वतुंअणं कम्मखवणाय ॥ ९८ ॥

व्या०:-पूर्वे कहेला हेतुए करीज दिगंबरो कहेते के, केवलीने राग नथी होतो तेथी तेनेविषे वचनव्यापार संजवे नही. तेम ठतां जे वचनव्यापार थायते ते स्वनावेज मस्तकमांथी ध्वनि नीकले ठे एम जाणवो, पण अहूररूप वाणी संजवे नही. ए शंका पण अयुक्त ठे. केमके, केवलीने केवलस्थनी पूर्वे जेवीरीते वचन योग हतो, तेमज केवलज्ञान थया पढी पण जाणवो. अने केवलीने रागविना पण क्रियानुं सामर्थ्य ठतां अहूररूप वाणी केम न संजवे ? कोई आशंका करेके, केवली कृतकृत्य ठे. त्यारे ते उपदेश शासारू करेते ? तेनुं समाधान ए के तीर्थेक रनामकर्मनो विपाक एवीरीतेज जोगवायते. तेथीज केवली उपदेश करेते. ए केवलीनो स्वनावज ठे. जो कहेसो के, केवली पदेकरी एकांते कृतकृत्यठे ? तो तेम पण न समजवुं. यतः एोगंतेण कयडो ; जेणे दिन्नं जिणंदणामंसे, तदवंज फलं तस्स य खवणो वाउं अमवेजउ ; इति विशेषावश्यके. जो कहेसो के, परोप कारनी इहाविना उपदेश देवो संजवे नही, अने इहा तेज राग कहेवायते. अने रागतो वीतरागनेविषे संजवे नही. एवो व्यामोह पण न करवो. केमके एवो इहा ते कृपा कहेवाय ठे ; पण तेने राग न समजवुं. ॥ ९८ ॥

एय वयणपयत्तेणं खेअस्सोदीरणं जिणंदस्स ॥ ९८ ॥

रा सुहस्स पावइ तं एय वा अस्सपयणीणं ॥ ९९ ॥

व्या०:- जो कहेसो के, वचन बोलवाना प्रयत्नेकरी जीवने खेद थयानी उ दीरणा थायते. तो ते संजवे नही. केमके, मनुष्यना आउखामां साताअसाता वे दनीयकर्मनी उदीरणा प्रमादपरवशेकरीनेज होयते ; प्रमादविना बीजां कारणो ठतां उदीरणा थाय नही. जो एम नकहिये अने बीजां कारणोथी उदीरणा थाय ठे एम कहिये ; तो काययोगनेविषे सातावेदनीयनी उदीरणा, पण तेने केम थाय ? केमके, उदीरणानुं तो आबुं लक्षण कहुंते:- जे स्थितिना दलिक, उदयावलिका थी बाहेर वत्तेते, तेने कषायसहित योगनामना वीर्येकरी आकर्षण करीने ते उदयावलिकानेविषे जे प्रक्षेपन करवुं, ते उदीरणा कहेवायते. ॥ ९९ ॥

एय तं विरिअविरहियं जायइ अपवत्तणच्च करणंति ॥

केवलसहावपस्कं सुगयस्स मयमणुमयं जाण ॥ १०० ॥

व्या०:- जो कहेसो के ते उदीरणा वीर्यविना थायते, तो ते संजवे नही. के मके, उदीरणा जेते ते अपवर्त्तनानी परीकरण विशेषते. एटले स्थानांतर कराववा

नुं कारण ठे; अने कारण जेठे ते प्रयत्नरूप ठे, एम नमानतां जो केवल स्वभाव वाद मानिये तो बोद्धनुं मत अनुमत थाय, माटे प्रयत्न पण अंगीकार करवुंजोये.

खेन एण्डरिज्जइ केवलजोगेहि तो विणु पमायं ॥ उल्लु
दयहेउपन्नवो दीसइ पुण सो वि तत्तुल्लो ॥ १०१ ॥

व्या०:- केवली योग प्रमादविना खेद उदीरतो नथी, परंतु उदयना हेतु ते हां उदीरणासरखा दीगामां आवेठे, तेथी खेद जेठे ते उदीरितना जेवो जणायठे पण परमार्थताए ते उदीरणा कहेवाय नही ॥ १०१ ॥

चुत्तीइ सुहपत्ती तं पुण जोगाउदीरियं हुज्जा ॥ एसा
परजुत्तिलया एएण पकंपिआ एआ ॥ १०२ ॥

व्या०:- चुक्ति कहेतां जे कवलाहारठे. तेणेकरी केवलीने जे सुख उत्पन्न था यठे; ते योगथी उदीखुं, अने केवलीने तो योगनी उदीरणा संजवे नही. केमके, तेने वेदनीयनी उदीरणा होती नथी माटे केवलीने कवलाहार संजवे नही. ए वी जे परयुक्तिरूप वेली ते आवीरीते कपाई गईठे. के प्रमादविना उदीरणा था यज नही. एम निश्चये जाणवुं ॥ १०२ ॥

एय डुप्पणिहाणं पिहु, केवलजोगाण होइ चुत्तीए ॥
तं रागद्वेषकयं, ते पुण तेसिं विलीणत्ति ॥ १०३ ॥
इय सत्तमाइ फासग, कोडिन्नाइण कवलजोईए ॥ एवय
डुप्पणिहाणं, सुप्पणिहाणस्स माहप्पा ॥ १०४ ॥

व्या०:- आहारेकरी केवलीना योगने डुःप्रणिधान थाय नही. केमके, योगडुःप्रणिधान ते रागद्वेषवडे थायठे. ते रागद्वेष तो केवलीनेविषे नथी. अतएव सत्तमादि गुणगणे चडेला जे कोडिन्नादिमहर्षि, तेअने आहार करतां पण डुःप्रणिधान योग नथी थतो. विधिएकरि आहार करतां तेअने आत्मलीनताना माहात्म्यथी प्रमाद थतो नथी. किंतु अप्रमादज रहेठे. सातमा गुणगणानेविषे नवा व्यापारनो आरंज थतो नथी. पण पूर्वे आरंजेला व्यापारनी निष्ठा होयठे. जेम देवताना आउखाना बांधनो आरंज थतो नथी. पण ठे गुणगणे बांधवा मांडयो जे देवतानो आउखो, ते बांधता थका पण सातमे गुणगणे अवायठे. माटे नवा आरं

जना अनिप्रायेज “इत्येतस्मिन् गुणस्थानानि संख्यावश्यानि षट्” एवं गुणस्थान क्रमारोहनेविषे कस्युंते. ते संजवित्ते. ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

हेऊ पमत्तयाए आहारकहव एव आहारो ॥ होऊ
जइ एइआरो असहती एव तेणावि ॥ १०५ ॥

व्या०:- आहारनी कथा करतां साधु प्रमत्त थायते. त्यारे आहार करतां के म प्रमत्त न थाय ? एवं प्रजावे कहेते ते अयुक्त जाणवुं. केमके, आहारकथा प्रमादतुं कारण नथी. तेम ठतां जो बन्ने सरखा कहिये तो जेम आहारकथा करतां अतिचार थायते. तेम आहार करतांपण यतीने अतिचार थवो जोये ॥ १०५ ॥

णिद्दाविण एण हेउ चुती सहयारमेत्त ओतीए ॥ जेण
सुए णिद्दिठा पयडी सा दंसणावरणी ॥ १०६ ॥

व्या०:- जो केवली आहार करतो होय तो तेने निडा होवी जोइये. एम जे कहेते ते पण अप्रमाण जाणवुं. केमके, निडानुं कारण आहार नथी. आहार तो मात्र निडानो सहचारी ते. सिद्धांतोनेविषे निडाने दर्शनावरणीयकर्म नी प्रकृति कहीते. केमके, आहार करतां पण केवलीने दर्शनावरणीयकर्मनो अजाव ते. माटे केवलीने निडा होती नथी. ॥ १०६ ॥

एय तरस्स थोवयाए जेण अणुस्सा तउ तउ डुठो ॥
णिद्वडुडयाजं णिद्दाई पसंगतं तरस्स ॥ १०७ ॥

व्या०:- शास्त्रोमां कस्युं ते के थोडो आहार करवो, माटे आहार डुष्ट ते, ए म कहेवुं पण अयोग्य ते; केमके, धणो आहार कस्यथी दर्शनावरणीयकर्म ना विपाकनो उदय थायते. एटला माटे धणो आहार करवो डुष्ट कह्योते. पण स्वजावे आहार डुष्ट नथी. ॥ १०७ ॥

आहारो ए पमातं जन्नइ अववाइनुत्तिकाऊणं ॥
अववाया बोलीणा वीयजयाणं जिणाण जतं ॥ १०८ ॥

व्या०:- आहार अपवादमार्गने प्रतिबंध करनारो होवार्थी प्रमादरूप ते, ए म नकहेवुं. केमके, वीतजय तीर्थकरने कोई अपवाद नथी. अपवाद तो जे उत्सर्गमार्ग करी शके नही, अने चारित्रना त्यागथी बीहे, तेने ते. जिनने तो ते नहोय. ए केवल पोतानी कल्पना नथी, केमके, धर्मबिडुनेविषे निरपेक्षयतिधर्मना अधिकारे अपवादत्यागसूत्र कस्युंते, ए गीतार्थे यथा सूत्र विचारवो ॥ १०८ ॥

पतं ममत्तहेऊ जुत्तं वोत्तुं पुणो ण देदुव्व ॥ इहराणी
ममजावो जिणाण क्ह पाणिपत्ताणं ॥ १०९ ॥

व्या०:- आहार करनारने पात्र राखवां जोश्ये, ते पात्रतो ममत्वनुं कारण ठे. एम कहेवुं नही. केमके, पात्र तो शरीरनी पठे धर्मसाधन ठे. जो एम न मानिये ने ममत्वनुं कारण मानिये तो तीर्थंकरप्रमुख जे पाणिपात्री ठे तेअनेविषे नि ममत्वपणुं केम संजवे? जो कदेशो के, बाह्य पात्र ममत्वनुं कारण ठे, तो ते प ण असमीचीन ठे. केमके, जेटलुं पुज्जल डव्य ठे ते सर्व आत्माथी बाह्य ठे, मा टे गुं ते ममत्वनुं कारण थाय? ॥ १०९ ॥

जाणं तवोवघानं आहारेणंति ते मई मिद्धा ॥

जाणं सेलेसीए तवो अ णिविसस्स तेसिंति ॥ ११० ॥

व्या०:- जो कदेशो के, आहारेकरी केवलीना ध्यान तथा तपनो व्याघात थाय, माटे आहार लेवो अयोग्य ठे. तो एवुं जे तारी मतिमां जासे ठे ते पण मिथ्या ठे. केमके, ध्यान तो शैलेशीयें ठे. पण पूर्वे उत्कर्षताथी देशेउणी पू र्वकोडी सुधी नथी. अने विशेषेकरी केवलीने कोई तप पण नथी. गणंग नेविषे केवलीने जे अणुत्तर तप कहुंठे, ते पण शैलेश्यावस्थानाव ध्यानरूप क हुं ठे. अने सोमिलना प्रश्नना अधिकारे श्रीजगवतीमां “किं जंते जत्ता सोमि ला, जंमे तव णियम संयम सज्ञाय सज्ञाणवस्सयमाईसु जोएसु जयणा” एवुं कहुं ठे तेहां पण तपनुं फल ठे. तेमाटे उपचारें तप कहुं ठे. ॥ ११० ॥

उरालियदेहस्स य ढिई अबुद्धीय णो विणाहारं ॥

तेणं पिअ केवलिणो कवलाहारित्तणं जुत्तं ॥ १११ ॥

व्या०:- औदारिकशरीरनी स्थिति, तथा तेनी वृद्धि आहारविना थती नथी माटे केवलीने कवलाहार युक्त ठे. ॥ १११ ॥

परमोरालिअदेहो केवलिणं नणु हवेज्ज मोहस्वए ॥

रुहिराडधाउरहितं तेअमठ अप्रपडलुवो ॥ ११२ ॥

व्या०:-पूर्वपट्टी शंका करेठे के, मोहनीयकर्मना क्यथी केवलीने परमौदा रिक शरीर थायठे. ते रुधिरादिक सप्तधातुरहित परम पवित्र होयठे. जोडल

ना पडलनी पठे केवल तेजमय होयठे. एवा शरीरने कवलाहारनीअपेक्षा नथी॥ ११२
अ० उपली आशंकातुं समाधान करेठे:-

संघयणणामपगइउ केवलिदेहस्स धाउरहियत्ते ॥

पोग्गलविवागिणी कह अतारिसे पोग्गले होऊ ॥ ११३ ॥

व्या०:- केवलीनुं शरीर जो सप्तधातुरहित कहिये तो तेने वज्ररुषननाराच संघयण नामकर्म प्रकृतिनो उदय केम थाय. केमके, ते प्रकृति तो पुज्जल विपाकनी ठे. ते अस्थि पुज्जलने विषेज विपाक देखाठे ठे. जो दृढ संस्थानमात्र पुज्जलनेविषे ते विपाकने देखाडती होय तो देवताने पण वज्ररुषननाराच संघयण कहेवुं जोये. ११३

मोहविलएण नाणं णामुदयाचेव तस्स पारम्मं ॥

तो वस्साइविसेसो तं होऊण धाउरहियत्तं ॥ ११४ ॥

व्या०:- मोहनीयकर्मना विलयथी केवलीने केवल ज्ञान उपजे ठे. पण शरीरनेविषे कांई विशेषपणुं थतुं नथी. शरीरनामकर्मना उदयथीज शरीरनेविषे विशेषता थायठे. माटे केवलीना शरीरनेविषे पुण्यप्रकृतिना माहात्म्यथी वर्णगति सारसत्वादिकनी विशेषता युक्तज ठे. परंतु धातुरहितपणुं थाय नही. अतएव शास्त्रोनेविषे कहुंठे के, “संघयणरूव संछा, ए वन्नगइ सारसत्त ऊसासा; ए मा इणुत्तराइं, हवंति णामोदया तस्स.” एम ठतां जे केवलीना शरीरनेविषे अस्थ्यादि पुज्जल पलटीने अन्यविषेज पुज्जल उत्पन्न थायठे. एवी कल्पना करवी ते दृष्टिविपरीत होवाथी अयोग्य ठे. केमके, पुण्यप्रकृतिनो उदय थयाथी तथा विध लब्धिवडे शरीरवर्णादिकविशेष दृढ होयठे. एम जाणवुं. ॥ ११४ ॥

ओरालिपत्तणेणं तह परमोरालिअंवि केवलिणो ॥

कवलाहारविस्कं ठिइं च वुद्धिं च पाउणइं ॥ ११५ ॥

व्या०:- तीर्थकरनुं शरीर जो परमौदारिक होय तो पण तेने कवलाहार सा पेकूज स्थिति तथा वृद्धिनो अनुभव थाय. केमके सामान्यपणे औदारिकशरीर नेविषे एवो नियम ग्रह्योठे के, आहारविना शरीरनी स्थिति होयज नही. ॥ ११५

एय मइनाणपसती, कवलाहारेण होइ केवलिणो ॥

पुप्फाईअं विसयं, अस्स हथाणाइ गिल्लिजा ॥ ११६ ॥

व्या:- जो केवली आहार करे तो तेना आस्वादथी रसनानुं मतिज्ञान थाय

नही; जो एम मानिये तो समवरणनूमिकानेविषे गूठणप्रमाण फूल पाथरेलां होवाथी, तेना परिमलथी घ्राणेंडियनुं मतिज्ञान केम न थाय? आस्वाद विना तृप्ति थाय नही, एम पण न कहेवुं. केमके, रतिरूप तृप्ति थती न होय तो ते अमारे पण इष्ट ठे. परंतु कुधानाशरूप तृप्ति तो आहारविना थायज नही. ॥ ११६ ॥

इरिआ वहिआ किरिआ, कवलाहारेण जइ एण केवलिणो ॥

गमणाइणा विनहवे, सा किं तुह पाण पिहियत्ति ॥ ११७ ॥

व्या० जो कहेशो के, केवलीने कवलाहार करतां इरिआवहिकी क्रिया लागेठे. तो गमनागमनादिक क्रियाए करी केवलीने इरिआवहिआ क्रिया केम न लागे? माटे जेम केवलीने गमनादिक क्रिया ठे, तेम जोजन क्रिया पण जाणवी, एवुं प्रथमज कहुं ठे. ॥ ११७ ॥

एय परुवयारहाणी तेण सया जोग्गसमयणियएण ॥

एय वाहिसमुप्पती हिअमिअआहारगहणानं ॥ ११८ ॥

व्या०:- केवली जो कवलाहार करे तो धर्मोपदेशमां अंतराय पडे, तेथी परो प्रकारनी हानि थाय, एम कहेवु न जोश्ये. केमके, ते तृतीयप्रहरनेविषे मुहूर्त्त मात्र नियतसमयेज आहार करेठे. तेथी बाकीनो सर्व काल उपदेशने अर्थे रहे ठे. जो कहेशो के, केवली आहार करेतो शूलादिक व्याधि उत्पन्न थवानो संज व थाय, तो ए कल्पना पण व्यर्थे ठे. केमके, ते सारी रीते जाणीने अजिष्वं गपरिणामरहित हित मिताहारज करे ठे माटे तेनेविषे शूलादिकनो संजव थाय नही. अने एथी तेनेविषे रागनी कल्पना पण थाय नही. ॥ ११८ ॥

ए पुरीसाइ डुगंठिय मेसिं णिह्णु मोहवीआणं ॥

अइसय नय परेसिं विवित्तदेसेविहाणाय ॥ ११९ ॥

व्या०:- जो कहेशो के, केवली आहार करे तो तेथी वडिनीत प्रमुख करवुं जो श्ये, तेतो डुगंठानुं कारण ठे; एम पण कहेवुं नही. केमके, डुगंठानुं मूल मोहनी य कर्म ठे. तेनुं तो प्रथमज उन्मूलन करेवुं ठे. अने तीर्थकरनो एवो अतिशय ठे के, तेनां आहार तथा निहारनी विधिने कोई देखी शके नही. ए कारण माटे बीजाने पण डुगंठा उत्पन्न थाय नही. वली सामान्य केवली एकांते निहार करेठे तेथी पण बीजा कोईने डुगंठा उत्पन्न थाय नही. पूर्वपही कहेठे के, तीर्थ करने पूर्वे पण निहार होय नही तो पठी ते केम संजवे? यतः “ तिष्ठय

रा तप्यिरो, हलधर चक्रीय वासुदेवाय ; मणुआण नोगनूमी, आहारो एण्डि एणी हारो. " ए तो कोई अपूर्व मतठे. केमके, शास्त्रोनेविषे एवो कोई अतिशय क ह्यो नथी ; तेम एवी उदराग्नि पण नथी के जेथी निहारनो अजाव थाय. तेम ठतां जो ए वातसाची मानिये तो नस्मकव्याधिनी पठे ते दोषरूप थरो. खल रसीकृत आहार मात्र जो नस्म थाय तो पूर्वे केम न थाय ? माटे ते केवल आप रुचिमात्र ठे ॥ ११९ ॥

जो पुण नुत्तिअजावो केवलिणो अइसउत्ति जंपेई ॥

सो वायामित्तेणं साहेऊ सुह खउं पुप्फं ॥ १२० ॥

व्या०:- जो कहेशो के, केवलीने जे चुकिनो अजाव ठे. ते अतिशय जाण वो. तो एम कहाथी तमे पोते पोताना वचने अठतीवस्तुने ठती करो ठो त्या रे आकाशना पुष्प पण ठे एम कहेशो तो कोण ना कहेंनारो ठे ! पण ए वच नो सप्रमाण न कहेंवाय. ॥ १२० ॥

एवं कवलाहारो जुतीइ समन्वितं जिणवराणं ॥

पुवायरिएहि जहा तहेव लेसेण उवइओ ॥ १२१ ॥

व्या०:- एम जे प्रकारे पूर्वाचार्य केवलीने विषे कवलाहारनी समर्थना करी ठे ते प्रकारेज आ ठेकाणे अमे लेशमात्र कह्युंठे. ॥ १२१ ॥

तेणं केवलनाणी कयकिच्चो चैव कवलजोईणं ॥

नाणाईण गुणाणं पन्निघायाजावउं सिद्धो ॥ १२२ ॥

व्या०:- माटे केवली कवलाहार करता ठतां पण कृतकृत्यज ठे. केमके, ज्ञान दर्शन चारित्र तथा वीर्यगुणनो स्वजावपरावृत्ति एटले पाबल हटवारूप प्रतिघात नथी. ज्ञानादिक गुण संपूर्ण सिद्धज होयठे. माटे ते सर्वथा कृतकृत्य तो सिद्धज ठे. एम कहेंवुं जोइये. तथापि ज्ञानादिगुणचतुष्टयनी विशुद्धताने लीधे केवलीने देश कृतकृत्य कहेंतां पण कांई विरोध आवे नही. ॥ १२२ ॥

नाणस्स विमुद्धीए अप्पा एगंतउं ए संसुद्धो ॥

जम्हा नाणं अप्पा अप्पा नाणं तअप्पं वा ॥ १२३ ॥

व्या०:- जो कहेशो के, आत्मा ज्ञानरूप ठे. तेथी ज्ञाननी एकांत शुद्धताने लीधे आत्मा पण एकांत शुद्ध थाय ठे. एम न कहेंवुं. केमके, ज्ञान ते आत्म

रूपज होयठे. केमके, आत्माविना ज्ञानतुं रहेतुं नथी. अने आत्मा जे ठे ते ज्ञानस्वरूप पण होयठे. ने तदन्यस्वरूप पण होयठे; ए हेतुथी केवली ज्ञानादिगुणने स्वजावेकरी शुद्ध पण ठे. अने अव्यावाधादिगुणना स्वजावे अ शुद्ध पण ठे. एम जाणवुं. ॥ १२३ ॥

एवं परमप्यतं नाणाद्दुवारगं मूणेअव्वं ॥

सव्वह परमप्यतं सिद्धाणं चेव संसिद्धं ॥ १२४ ॥

व्या०:- एवी रीते केवलीने परमात्मापणुं ज्ञानादिकगुणेकरी वेशथीज जाण वुं; सर्वथा परमात्मा ते सिद्धज कहेवाय. माटे आठ दोषना विरहथी आठ गुण तेनेज प्रगट थायठे. आत्मा त्रण प्रकारनो होयठे. एक बाह्यात्मा, बीजो अंतरात्मा, अने त्रीजो परमात्मा, आत्मबुद्धियकी जे कायादिकतुं ग्रहण थायठे, ते बाह्यात्मा कहिये. शरीरादिकनो अधिष्ठायक जे चेतन ते अंतरात्मा कहिये; अने जे सर्व उपाधिरहित शुद्ध आनंदमय होय ते परमात्मा कहिये. यतः “आत्मधिया समुपात्तकायादिः कीर्त्यते अत्र बहिरात्मा कायादेशमधिष्ठायको नवत्यंतरात्मा तु चिद्रूपानंदमयो निःशेषोपाधिवर्जितः शुद्धः अप्रत्यक्षोऽनंतगुणः परमात्माकीर्तितस्तदङ्गैरिति योगशास्त्रे. “ केटलाएक एम कहेठे के, जे मिथ्यात्वादि परिणामवान होय ते बाह्यात्मा कहिये; जे सम्यक्तादि परिणामवान होय ते अंतरात्मा कहिये; अने जे केवल ज्ञाननिधान होय ते परमात्मा कहिये. मिथ्यात्वादि त्रण गुणठाणा सुधी बाह्यात्मा कहेवायठे; अविरतिसम्यग्दृष्टिनामना चोथा गुणठाणाथी लईने ह्रीणमोहनामना बारमा गुणठाणासुधी अंतरात्मा कहेवायठे; माटे मिथ्यादृष्टिने पण निश्चयथी सम्यग्दर्शन तथा केवल ज्ञान ठे. ते शक्तिएकरी अंतरात्मता तथा परमात्मताने पामेठे. केमके, अविरतिसम्यग्दृष्ट्यादिकने पण निश्चयथी केवल ज्ञान ठे. अने बाह्यात्मा ते नूतपूर्वनये करी कहेवायठे. केमके. तेने मिथ्यादर्शन पर्याय पूर्वे थयाठे. जेम मधुथी नरेला घटमांथी मधु कहाडी लीधा पठी पण मधुघट कहेवायठे. ते न्याय अहिं पण जाणवो. व्यक्तं परमात्माते बाह्यात्मा तथा अंतरात्मा पूर्वनूतनयथी कहेवायठे. केमके, तेने मिथ्यादर्शन तथा सम्यग्दृष्ट्यादि ए बन्ने पर्याय पूर्वे थयाठे. ॥ १२४ ॥

तस्स य सहावसिद्धा, किरिअ्या गुण करण जोग अहिगिब्व ॥

कम्मगुणी आविहवे, जुंजणकरणं तु अहिगिब्व ॥ १२५ ॥

व्या०:- ते केवलीने गुणकरण आश्री स्वजावसिद्ध क्रिया होयते. तेने केवली ज्ञानादि गुणपर्याय उपजतां आत्माश्री अन्यकर्मादिकारणनी अपेक्षा नथी कालस्वजावादिके तेना कारणपणे सर्व आत्मांतरनूत ठे. मनोवाक्कायरूप युंजना कारण आश्रीने केवलीने कर्मोपनीतक्रिया पण थायते. माटे ते अंशेकरी केवल स्वजावसिद्ध क्रियाज नथी. ॥ १२५ ॥

अह सो सेलेसीए, जाणानलदडूसयलकम्ममलो ॥

कणगंव सबह चिय, लद्धसहावो हवइ सिद्धो ॥ १२६ ॥

व्या०:- हवे केवली जे ठे ते, शैलेसीअवस्थानेविषे शुक्लध्यानरूप अग्निएकरी सर्वकर्मरूपमलने दग्ध करीने अग्निएकरी निर्मल किधेलां सुवर्णनी पठे सर्वथा लब्धस्वजाव अर्शने सिद्धत्वपर्यायनो नजनार थायते. ॥ १२६ ॥

तस्स वर नाण दंसण, वर सुह सम्मत्त चरण निच्चठिई ॥

अवगाहणा अणंता, मुत्ताणं यई अविस्सिं च ॥ १२७ ॥

व्या०:- ज्ञानावरणीयादिक आठकर्मथी जीवने अज्ञानादिक दोष होयते ते नाश पाम्यापठी सिद्धने आ आठ गुण प्राप्त थायते:- पहिलो ज्ञानावरणीयकर्मना ह्यथी अनंत केवलज्ञान उत्पन्न थायते; बीजो दर्शनावरणीयकर्मना ह्यथी अनंत केवलदर्शन उत्पन्न थायते; त्रीजो वेदनीयकर्मना ह्यथी ह्याधिक सम्यक्त उत्पन्न थायते; चौथो चारित्रमोहनीयकर्मना ह्यथी ह्याधिक चारित्र उत्पन्न थायते; पांचमो आयुःकर्मना ह्यथी अह्य स्थिति उत्पन्न थायते; षष्ठो नामकर्म तथा गोत्रकर्म ए बन्नेनो ह्य अयथी एक सिद्धावगाहक स्थाननेविषे हीरशर्करानी पठे अनंत सिद्धावगाहना उत्पन्न थायते; अहीं मोहनीयकर्मना ह्यथी बे गुण उत्पन्न थायते एम कहुं, तथा नाम अने गोत्र ए बे कर्मना ह्यथी एकज गुण उत्पन्न थायते एम कहुं; ए ठेकाणे स्वपरिनाषाज शरण ठे. ॥ १२७ ॥

थिरयावग्गहणाठं, पत्तेअं नामगोत्तकम्मखए ॥

चरणंविअ मोहखए, इअ अठ गुणत्ति विति परे ॥ १२८ ॥

व्या०:- केटलाएक मोहनीयकर्मना ह्यथी एकज चारित्रगुणमानेठे, तथा नामकर्मना ह्यथी आत्मप्रदेशस्थिरतारूप गुण कहेठे; तेमज गोत्रकर्मना

ह्यथी अवगाहना गुण मानेते. ॥ १२७ ॥ अ० जे आचार्य सिद्धने चारित्र गुण नथी मानता, ते सूत्रनुं अवलंबन करीने पूर्व पढ़ करेते:-

नणु सिद्धांते सिद्धो, एणो चारिती अ एणो अचारिती ॥

जणितं ववहारणया, णिहउ होई चारिती ॥ १२८ ॥

व्या०:- “ सिद्धे एणो चारिती एणो अचारिती ” ए सूत्रनेविषे सिद्धने चारित्री नो अचारित्री कह्योते, एवं वचन तो चारित्र न होय तो संजवे, जेम नव्यत्व न ही होवथी नव्यत्वने ठेकाणे अनव्यत्व कहेवायते, तेम ठतां सिद्धना गुणोमां चारित्रनी गणना केम कीधीते ? ॥ १२९ ॥ अ० कोईएक ए सूत्रनुं समाधान करेते:-

नणु इह देसणिसेहे, एणो सहो तेण तस्स देसस्स ॥

अणु णिसेहो किरिया, रूवस्स ए सत्तिरूवस्स ॥ १३० ॥

व्या०:- “ एणो चारित्री एणो अचारित्री ” ए वाक्यमांना “ नो ” शब्दथी वेश नो निषेध थायते. एटजे चारित्र बे प्रकारनुं होय ते, एक क्रियारूप ने बीजो परिणामरूप ते. तेओमानां क्रियारूपचारित्रनो सिद्धनेविषे निषेध ते ; परंतु शक्तिरूप चारित्रनो निषेध नथी ; एम जाणवुं. ॥ १३० ॥ अ० केवलीनेविषे क्रियारूप चारित्र ते, परंतु शक्तिरूप चारित्र नथी एम कहेवुं नही ते कहेते:-

जइ किरियारूवं चिअ, चारित्तं एव णायपरिणामो ॥

तो किरियारूवं चिअ, सम्मतं णायपरिणामो ॥ १३१ ॥

व्या०:- जे प्रेहोत्प्रेहादिक्रियाते, ते चारित्र कहिये ; अने तडुपयोगरूप चारित्र ते जावचारित्र कहिये, जावचारित्र ज्ञानरूपज ते. त्यारे निशंकताद्याचाररूप जे क्रिया ; तेज सम्यक्त कहिये, अने श्रद्धानपरिणाम ते ज्ञान कहिये, एम निर्णय करतां ज्ञान तथा दर्शननो जेद थाय नही, ज्यारे आत्मगुणरूप सम्यक्त ते त्यारे चारित्र पण आत्मगुणरूप केम न कहिये ! अतएव मरुदेवादिकने बाह्याचारविना पण चारित्र संजवेते. ॥ १३१ ॥ अ० “ इह जविए जंते, चरित्ते परजविए चरित्ते, तडुनयजविए चरित्ते गोयमा, इह जविए चरित्ते; एणो परजविए चरित्ते एणो तडुनयजविए चरित्ते ” एवां जगवती सूत्रनां वचनोए करी चारित्र जवाननुगामी कह्युंते. माटे मोहनेविषे चारित्र संजवे नही, एम जे कहेते, तेनुं समाधान आवीरीते ते:-

जं पुण तं इह नविञ्चं, तं किरियारूपमेव णेयवं ॥

अहवा नवो ण मुक्को, णो तम्मि नवे इञ्चं अहवा ॥ १३७ ॥

व्याः- जे चारित्र इह नविक कयुंठे, ते क्रियारूप जाणवुं ; अने बीजुं जे मोहनीयकर्मना ह्यथी उत्पन्न थायठे ते चारित्र मोहनेविषे होयठे, तेनी अमे पण ना कहेता नथी, अथवा मोहना नवमां विवहा करी नथी माटे इह नविक चारित्र कयुंठे, अथवा मोहनेविषे चारित्र तो ठे, परंतु कर्मनिर्जरारूप प्रयोजन तिहां नथी, तेथीज इह नविक कयुंठे ॥ १३७ ॥

णय मोक्कसुहे लद्धे, तयणुष्ठाणस्स हंदि वेफल्लं ॥

तक्कारणस्स इहरा, नाणस्स वि होइ वेफल्लं ॥ १३८ ॥

व्या० चारित्रनुं फल मोहू ठे, ते पाम्या पठी चारित्र रहेतुं नथी. एम कहेवुं नही. अन्यथा ज्ञाननुं फल विरति ठे, ते पाम्या पठी चारित्र रहेतुं नथी; एम कहेवुं नही; अन्यथा ज्ञाननुं फल विरति ठे, ते पाम्या पठी ज्ञानपण संजवे नही. ज्यारे सिद्धने ज्ञाननुं फल निश्चयथी लोकालोकप्रकाशरूप ठे; त्यारे चारित्रनुं फल पण निश्चयथी शुद्धात्मस्वभावानुभवलक्षण शासारू न होय. ॥ १३८ ॥

एव पइष्साजंगो, अहियावहि पूरणंमि चरणस्स ॥

सावा किरियारूवे, सुञ्चरणे जं करेमिति ॥ १३९ ॥

व्या० सिद्धने जो चारित्र मानिये तो यावज्जीवतानी प्रतिज्ञानो जंग थडो. एम पण न कहेवुं. केमके, ओठा काले प्रतिज्ञानो जंग थाय ठे; पण अधिक काले प्रतिज्ञानो जंग न थाय. अथवा ते प्रतिज्ञा क्रियारूपचारित्रनीयज जाणवी. केमके, “ करेमि जंते ” एसूत्र श्रुतकरणार्थ कयुंठे. ते श्रुतकरण पुंजनाकरण रूप चारित्रज अवलंबीने प्रवर्त्ते ठे. गुणरूप चारित्र ते आत्मस्वरूप ठे. मोहवि रहथी तेनो आविर्भाव मात्र थायठे. ॥ १३९ ॥

अह चरण मनुष्ठाणं, तं ण सरीरं विणत्ति जइ बुद्धी ॥

तेण विणा नाणाई, ता तस्स हेऊञ्चं पत्तं ॥ १४० ॥

व्या० जो चारित्र अनुष्ठानरूपठे, ते शरीरविना सिद्धनेविषे संजवे नही. एम जो कहिये तो शरीरविना ज्ञानादिक पण सिद्धनेविषे केम संजवे ! पूर्वावस्थामां शरीरथी उत्पन्न थएला ज्ञानादिकना नाशना कारणविना सिद्धने ध्रुव कहियेठे. ॥ १४० ॥

किरिया फलतदयिगी, खड्ग्रं चरणं वि दोहू मह जेठ॥
सातेण बल्लचरणं, बल्लंतरियं तु परिणामा ॥ १३६ ॥

व्या० बीजूं क्रिया ठे ते शरीरनामकर्मना उदयथी ठे; शरीरविना क्रिया था य नही. शरीरवमे चारित्ररूप क्रिया थायठे ते बाह्यचारित्र कहेवायठे. एवा बाह्यचारित्ररूप शुद्ध जैनसमाचारीरूप क्रियानुं सेवन करीने अजव्य जीव पण न वमां ग्रैवयकसुधी जायठे, एवो बाह्य चारित्रनो महिमाठे. अने केवलीने तो ह्या यिक चारित्र कह्युंठे. माटे ते बाह्यचारित्र कहेवाय नही; किंतु ते शुद्ध आत्मपरिणामरूप होवाथी ए अंतरंग चारित्रज कहेवाय ॥ १३६ ॥

आया खलु सामाइय, आया सामाइअस्स अठोत्ति ॥
तेणेव इमं सुत्तं, नासइ तं आयपरिणामं ॥ १३७ ॥

व्या० “ आया सामाईए आया सामाइअस्स अठे ” ए सूत्र पण चारित्रने आत्मपरिणामरूपज कहेठे. परंतु बाह्यक्रियारूप नथी कहेता ॥ १३७ ॥

एय खड्ग्रं विचरित्तं, जोगिणरोहेण तं विलयमेई ॥
असह विहलं पत्तो, विरहो चारित्तमोहस्स ॥ १३८ ॥

व्या० केवलीने जे ह्यायिक चारित्र उत्पन्न थायठे, ते ज्यारे योगनो निरोध करी ने मोहनेविषे गमन करेठे, तेना प्रथमसमयमां नाश थायठे. एम कहेवुं नही. केमके, ह्यायिकनावनो नाश थतोज नथी. जो एम न मानिये अने ह्यायिकनावनो नाश मानिये तो चारित्रमोहनीयकर्मनो नाश कहेवाशे नही. तेम ठतां बलेकरी नाश अंगीकार करशुं तो पण ते निरर्थक थशे. केमके, चारित्रमोहनीयकर्मना नाशथी ह्यायिक नावतो उत्पन्न थथोनही त्यारे ए नाशपणुं शुं काम तुं? जेम ज्ञानावरणीयकर्मना नाशतुं फल केवल ज्ञान ठे; तेम चारित्रमोहनीयकर्मना नाशतुं फल थथाख्यात चारित्र ठे. ते जो सिद्धनेविषे न होय, तो मोहनीयनो नाश निष्फल कहेवाशे ॥ १३८ ॥

तेणं सुधुवन्गे, चरणं नाणानु दंसणं वन्नं ॥

कारणकज्जविजागा, संतंतमिय किं न सिद्धेसु ॥ १३९ ॥

व्या० ते कारण माटे शुद्धोपयोगरूप चारित्र यद्यपि उपयोगरूपताज्ञानथी अन्यथा ठे, तथापि तेअोमां कारणकार्यनावचेद ठे. ज्ञान चारित्रनुं कारण

ठे, तेम चारित्र ज्ञाननुं कारण ठे; जेम सम्यक्त तथा ज्ञानना विषयोमां जेद न थी, अर्थात् बन्नेनो एकज विषय ठे, तथापि तत्त्वरोचकरूप ते ज्ञान कहेवायठे, तथा तत्त्वरुचिरूप ते सम्यक्त कहेवायठे. एवो बन्नेनो जेद ठे. तेम ज्ञान अने चारित्रनो पण जेद जाणवो. तेमज ज्ञानावरणीयादिक कर्मोनो जेद पण संजवे ठे. एवी रीते ज्ञानथी अन्य चारित्र उपयोगरूपने ज्ञानथी अनन्य अनेकांतस्वरूप सिद्धनेविषे केम न थाय. ॥ १३९ ॥ अ० ए प्रमाणे सिद्धनेविषे चारित्रनी समर्थना करी, ते उपर सिद्धांतपह्ने अवलंबीने पूर्वपह्नी समाधान करेठे.

एठ समाहाणविही, जो मूलगुणेषु दुज्ज थिरजावे ॥

सो परिणामा किरिआ, जुंजणकरणं पडिहंतो ॥ १४० ॥

व्या० मूलगुणनेविषे जे स्थिर जावरूप ठे, तेज चारित्र क्रियारूप कहेवुं. के मके, ते मनोवाक्काययोगरूप जुंजनाकरणनी अपेक्षा करेठे. कोई पूठे के, एम कह्याथी वीर्यरूप चारित्र थाय. ते संजवे नही. जेम ज्ञानाचारादिकथी ज्ञानादिक अन्य ठे, तेम चारित्राचारथी चारित्र पण अन्यज संजवे. तेने एम कहेवुं के, जो एम कहिये तो वीर्याचारथी वीर्य पण कां अन्य न कहिये! जो कहेसो के, योगरूप चारित्र होय तो ते उपशमिक जावे केम थाय! केमके' योग ते नामकर्मना उदयिकजावे वर्त्तेठे. उपशमिक जाव तो मोहविना अन्य कर्मनो थायज नही. एम पण न कहेवुं, केमके, योगपरिणामविशेष पण चारित्रमोहनीयकर्मना उपशमादिकनी नियमेंकरी अपेक्षा करेठे ते उपशमादिक जावेज कहिये, केमके, प्रधाननी अपेक्षाए व्यवहार होयठे. अतएव इंडियपर्यासि उदय जघन्य पण इंडियप्रधाननी अपेक्षाए शास्त्रमां ह्यायोपशामिक कहेवायठे. ॥ १४०

असह वक्रजडाणं, चंभाणं चंमरुदपज्जइणं ॥

वेणसिया चारित्तं, सुधुवउगोत्ति काऊणं ॥ १४१ ॥

व्या० जो योगस्थैर्यरूप चारित्र न कहिये, अने शुद्धोपयोगरूप चारित्र कहिये, तो वक्र जमने चारित्र केम संजवे? केमके, तेने तथाविध माया ते अशुद्धोपयोगरूप ठे. अने ते तो शुद्धोपयोगनो जेद ठे, तथा क्रोधमोहनीयकर्मना परवशे जे चंमरुडाचार्यादिक सहजे कोपनशील ठे, तेने पण चारित्र केम संजवे? केमके, तेने पण अशुद्धोपयोग ठे. मूलगुणनेविषे योगस्थैर्य ते तेने पण संजवे. जेम वज्र अग्निएकरी कल्ल थाय, तो पण वज्रपणुं मूके नही. जे

म यथाविध कषायथी अस्थिरता पण कषायपरिणति प्रमादरूप तेने थयो, तो पण योगस्थैर्यनो घात थाय नही. जो योगक्रियारूप चारित्र कहिये तो ते मरुदे वादिकने केम संजवे? एवो संदेह पण न करवो. केमके, मरुदेवादिकने पण संसारनिवृत्तिरूप मनोयोगपरिणतियुक्त ठे. उक्तंच. “जगवद्दर्शनानंद, योगस्थै र्यमुपेयुषी, केवलज्ञानमम्लान, माससाद तथैव सा.” इति योगशास्त्र वृत्तौ ॥१४१॥

चरणं जइ उवठंगो, जिणाण ता हुंति तिन्नि उवठंगो ॥

दोसु अ अंतप्रावे, तं तिअस्स पकप्पणा मोहा ॥१४२॥

व्या० जो शुद्धोपयोगरूप चारित्र कहिये, तो केवलीने आ त्रण उपयोग हो वा जोइये. ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, तथा चारित्रोपयोग. इम सामान्यथी प ण तेर उपयोग थवा जोइये. अने शास्त्रोनेविषे तो बार उपयोग कहाळे. ज्ञा न तथा दर्शनमांज चारित्र जेलिये तो त्रीजुं कयुं चारित्र कहीजुं. जे कहिये ते प्रयासमात्र थाय. जो साकारोपयोग चारित्र जेलिए तो साकारोपयोगना आठ जेद पण संजवे. उपयोगरूप चारित्र मान्याथी इत्यादिक अनेक दूषण थाय. ॥१४२॥

उ० जो वीर्यरूप चारित्र कहिये तो पण शैलेशी अवस्थानेविषे ते केम संजवे! केमके, ते समयनेविषे प्रवृत्तिरूप वीर्य नथी. एम जे कहेळे, तेनुं समाधान करेळे.

सैलेसीए जत्तो, णिवित्तिरूवो सचेव थिरजावो ॥

एय सो सिद्धाणं पिय, जं तेसिं वीरिअं एण्ठि ॥ १४३ ॥

व्या० शैलेशीअवस्थानेविषे यद्यपि रूप यत्न नथी, तथापि योगनिरोधथी नि वृत्तिरूप यत्न ठेज, तेज परम स्थिरजावरूप चारित्र ठे, ते स्थिरजाव सिद्धने नथी, केमके तेनो वीर्य नथी, माटे चारित्रने दानादिक पांच लब्धिए ह्याधिक जा व सादिसांत कहाळे, तथा सूत्रमां पण सिद्ध अवीर्य कहाळे. ॥ १४३ ॥

उ० जो चारित्र क्रियारूप कहिये, तो अक्रिया मोहकारण कही केम संजवे? यतः “साणं जंते अकिरिआ किं फजा; गोयमा, सिद्धगमणपङ्कवसाणफजा पन्नत्ता” एहवुं जे कहेळे, तेनुं समाधान करेळे:-

अंते अ अंतकिरिआ, सैलेसी अकिरियत्ति एगठा ॥

नाणकिरिआहि मोस्को, एत्तो चिअ जुजए एवं ॥१४४॥

व्या० अंतक्रिया, शैलेशी तथा अक्रिया ए सर्व शब्द एकार्थक कहाळे. अंत क्रिया एटले सकलकर्मध्वंसरूप ठेनुं प्रयोजन; जेथी कोई अन्य क्रिया बाकी रहे

नही ते; शैलेश एटले मेरुपर्वत, तेनी पठे जे निश्चल अवस्था ते शैलेशी कहेवाय; अने जे अवस्थानेविषे प्रवृत्तिरूपक्रिया न होय ते अक्रिया कहेवायठे. अतएव “ज्ञानक्रियाच्यां मोक्षः” ए वचन युक्त ठे. केमके, सर्व संवररूपक्रिया अक्रिया रूपज ठे. ॥ १४४ ॥ उ० कोइ आशंका करेठे.

नणु जोग निरोहेणं, चारित्तं सासयं परं होऊ ॥

अस्मह तेण ए मोस्को, उप्रव काले असंतेणं ॥ १४५ ॥

व्या० परमार्थताथी चारित्रनो प्रतिपह्नी यद्यपि चारित्रमोहनीयकर्म ठे, तथा पि जेम चोरनी साथे रहेनारो अचोर पण कर्मांकित थायठे, तेम मोहना सहचारथी योग पण चारित्रना विरोधी ठे. माटे योगना निरोधेकरी परम यथाख्यातचारित्र शैलेशीने चरमसमये ऊपजे ते शाश्वतचारित्र सिद्धने पण होयठे. जो ते चारित्र ते समयनेविषे उत्पन्न थईने आगल मोक्ष थवाना समये नाश पामतुं होय तो ते उत्पन्न थवानुं प्रयोजन शुं? तथा जो कार्यना समये कारण न होय तो कार्यनी उत्पत्तिपण केम थाय? ॥ १४५ ॥

केई विति मुणीणं, सहावसमवच्छिई हवे चरणं ॥

तं लब्धसहावाणं, सिद्धाणं सासयं जुत्तं ॥ १४६ ॥

व्या० केटलाएक कहेठे के, पूर्वोक्त दोषने लीधे शुद्धोपयोगरूप चारित्र थाय नही. स्वजावसमवस्थानरूप चारित्र होयठे. ते आत्मस्वजाव अविरत्यादि दशा ए आह्लादन करी लीधु ठे. ज्यारे चारित्रमोहनीयकर्मनो विलय थायठे, त्यारे ते आत्मस्वजाव प्रगटेठे. ते लब्धस्वजाव सिद्धने शाश्वतरूप चारित्र युक्त ठे. ॥ १४६ ॥

उ० ए कहेजा परमतनुं समाधान करेठे:-

चरणरिउणो ए जोगा, अहसमाएण सवसंवरणं ॥

सिद्धे तम्मि सहावे, समवघाणंति सिद्धंतो ॥ १४७ ॥

व्या० जो एम कहिये के, योगचारित्रना विरोधी ठे, तेथी योगनो निरोध कखा थकी परम चारित्र ऊपजे ठे. ए कहेवुं योग्य नथी. केमके जो सहचारथी योग चारित्रना विरोधी थाय; तो दर्शनना पण विरोधी थवा जोये तेम तो न कहेवा य. ज्यारे शैलेशीअवस्थानेविषे सर्व संवर कहेवाय ठे, त्यारे तेज समयनेविषे सकल कर्मनिर्जरा कारण चारित्र ठे, एवा अनिप्राये स्वजावसमवस्थानरूप चारित्र पणसिद्धने कहेवुं जोये. के जो योगपरिणामथीनिन्नस्वजाववान चारित्र सिद्धहोय. ॥ १४७ ॥

उज्जुसुएण मएणं, सैलेसीचरमसमय जाविति ॥

अंतसमत्तं चियं जहो, हेऊ हेऊस्स कज्जम्मि ॥ १४८ ॥

व्या० एम जे कहुंठे के, सैलेसीना ठेला समयनेविषे चारित्र उषजेठे, ते उज्जुसुएणमते कहुणपर्याय जंगुरठे. तथा कारणनो अंत्यसमयज कार्यनो हेतु ठे. ए अनिप्रायेकरी मोहना क्यथीज सादिसांत क्वायिकनावरूप बीजुं चारित्र उषजे ठे. ॥ १४८ ॥

एय चरणमोहबंधो, सिद्धाणं अ चरणाण संताणं ॥

अविरय पच्चइत्तं सो अइप्पसंगो हवे इहरा ॥ १४९ ॥

व्या० सिद्धने चारित्र नही होय तो तेने चारित्रमोहनीयकर्मनो बंध थवो जोये; माटे एम न केहेवुं केमके विरति अने अविरति ए बे स्वतंत्र परिणाम ठे. ॥ १४९ ॥

जंच जिअलस्कणं ते उवइत्तं तच्च लस्कणं लिंगं ॥

तेण विणा सो जुज्जइ धूमेण विणा दुआ सुव ॥ १५० ॥

व्या० “नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा; वीरिअं उवत्तंगो य, एयं जीअस्स लस्कणं” एवीरीते श्रीउत्तराध्ययनसूत्रनी गाथाएकरी जीवतुं लकण चारित्र कहुंठे. माटे ते सिद्धने पण होवुं जोये. एम कहेवुं नही. केमके चारित्र जे ठे ते उपयोगनी पठे यावत् इव्यजावि लकण नथी. आंही लकणशब्दनो अर्थ लिंग जाणवो. जेम धूम अग्निनो लिंग ठे. तेम चारित्र जीवतो लिंग कहुंठे. जेम धूमविना अग्नि तप्त लोहनेविषे होयठे, तेम चारित्रविना जीवपण होयठे, एमां कांई विरोध नथी, अतएव अंतरंग लकण कहीने बाह्य लकण कहेवाने अर्थे उपर कहेली गाथा उत्तराध्ययनबृहदृत्तिनेविषे अवतरण करेली ठे. ॥ १५० ॥

एय णिण्णयस्स नाणे अजेयवित्ती कहं चरणविरहे ॥

संतं चिअ पन्निवज्जइ फलेण जं सोय संतं वि ॥ १५१ ॥

व्या० जो सिद्धनेविषे चारित्र न होय तो ज्ञानमां चारित्रनी अजेद वृत्ति केम संजवे? केमके, सकलादेशे ठतांज सर्व धर्म एक धर्मवाचक शब्दे बोले एवी आशंका पण न करवी, केमके, ते समयमां चारित्र नथी तो पण चारित्रनुं फल ठे. माटे चारित्र ठे एम मनायठे, ए नयना मते चारित्रना फलविना ठतें चारित्र पण अठतुं माने. ॥ १५१ ॥

एवि आयाचरणं चिअ आया सामाइयंति वयणेणं ॥
दवियाया नयणाए चरणाया सवथोकुत्ति ॥ १५२ ॥

व्या० “आया समाईए, आया सामाईअस्स अठे” ए सूत्रनेविषे आत्मपर्यायरूपे जे चारित्र्ये, ते इव्यार्थिक नयना आदेशे आत्मरूप कहुंठे, माटे ते चारित्र्य यावत् इव्यजावी आत्मस्वभावरूप न जाणवुं केमके, इव्यात्मा, ते नजनाए चारित्र्यात्मा कहुंठे, तथाहि “ जस्स दविआया तस्स चरिताया नयणाएत्ति ” एवी रीते जगवतीसूत्रमां कहुंठे, तथा आत्माना जे आठ जेद कहुया ठे, तेओमां चारित्र्यात्माने सर्वस्तोक कहुंठे, माटे आत्मा तेज चारित्र्य एम न कहेवुं ॥ १५२ ॥

एतो च्चिय सिद्धाणं, खइअम्मि नाणदंसणगाहसं ॥

सम्मत्तजाइगहणं, बहूण दोसा ए संकंती ॥१५३ ॥

व्या० वली सिद्धनेविषे चारित्र्य नथी, ते माटेज सिद्धने क्हाइकजावमां ज्ञान तथा दर्शन ए बेज कहुयांठे. जो कोई कहेसे के, सम्यक्तसमान चारित्र्ये. तेषी सम्यक्तना ग्रहणथी चारित्र्यनुं पण ग्रहण थायठे. एम कहेवुं नही. केमके, शुद्धोपयोगरूप चारित्र्यनो पूर्वज निषेध कहुंठे. अने योगस्थैर्यरूप तेहनीज व्यवस्थापना करीठे ॥ १५३ ॥

अम्हं णाज्जिणिवेसा, सिद्धाणं अ चरणस्स पस्कम्मि ॥

तह वि ज्जणिमो रतीरइ, जं जिणमयमन्न हाकावं ॥१५४ ॥

व्या० सिद्धने चारित्र्य नथी, ए पद्धमां यद्यपि अमने अज्जिनिवेश नथी, तथापि आटलुं व्यवस्थापन आटलासारू करिये ठैये के, श्रीवीतरागनां वचन अन्वया न थाय ॥ १५४ ॥ अ० एवी रीते सिद्धने चारित्र्य नथी, एवी समर्थना करी, त्यारे सिद्धना गुणोमां चारित्र्यनी गणना केम करीठे? एवा पूर्वपद्धनुं समाधान करेठे:-

जइवि जइमो सिद्धंतो, इठं केसिंवि तहवि सूरीणं ॥

सिद्धाणं चारित्तं, तेसिमए तं मए मिहिअं ॥ १५५ ॥

व्या० यद्यपि सिद्धने चारित्र्य नथी; एवो सिद्धांत ठे, तथापि केटलाएक आचार्यो चारित्र्य मानेठे, यतः “ अन्येतु दानादिलब्धिपंचकं चारित्र्यं च सिद्धस्यापीडंति, तदाचरणस्य तत्राप्यजावात्, आचरणानावेपि च तदऽसत्त्वे ह्रीणमोहादि ष्वपि तद सत्त्वं प्रसंगात् ॥ ततस्तन्मते नचारित्र्यजावनां सिद्धावस्थायामपि सद्भावेनापर्यवसि तत्त्वादकस्मिन् द्वितीयजंग एव क्हायिको जावो न शेषेषु त्रिष्वपि ” इति विशेषावश्यक

टीकायां ” ए आचार्यना मतेकरी अमे सिद्धना गुणोमां चारित्रनी गणना करीने. ए मत जे ठे ते पूर्वमतथी विरुद्ध ठे माटे अप्रमाणजठे. एम कहेवुं नही. केमके, अविद्विन्नपरंपराए आवेजां जे ए बे मत, ते अनतिशय पुरुषथकी निवारण थाय नही. जो कहेशो के, एक एकनी युक्तिनी समर्थना करतां प्रत्येकमां दोष आवशो, एवो विचार पण न करवो. केमके, जिनवचनकपर अरुचि थयाविना सम्यक्तनो चंश थतो नथी. ॥ १५५ ॥

तेसिं सवा किरिआ, सहावसिद्धा पणठ कम्माणं ॥

बहंपि कारगाणं, एगठेजं समावेसो ॥ १५६ ॥

व्या० ते सिद्धने सर्वे क्रिया स्वजावसिद्ध ठे, एक पण विजाव क्रियानथी. के मके, कर्मरहित सिद्धने ठ कारक एक अर्थे विश्रान्ति पामेठे. ते कहेठे:- कथंचित ज्ञानथी अन्यथा अत्माज्ञप्तिक्रिया स्वतंत्रपणे करेठे. माटे आत्मा जे ठे तेज कर्ता ठे, ए पहेवुं कर्तानामा कारक ज्ञप्तिक्रिया स्वतंत्र आत्मानेविषे प्राप्यमाण ठे, मा टे तेज आत्मरूप कर्म ठे; ए बीजुं कर्मनामा कारक जेणे करीने ज्ञानस्वजावथी तथा ज्ञप्तिस्वजावे आत्मा क्रिया करे ठे, तेज आत्मरूप करण होवाथी आत्माज कर्ता ठे एम जाणवुं. ए बीजुं करणनामा कारक जे स्वानुफलवेचने अर्थे आत्मा ज्ञप्तिक्रिया करेठे, तेज आत्मरूप संप्रदान ठे; ए चोथुं संप्रदाननामा कारक जे पूर्वज्ञेयाकारने विश्लेषे उत्तरज्ञेयाकारमिश्रित ज्ञानस्वजाव आत्मा नजेठे, तेज आत्मस्वजावरूप अपादान ठे. ए पांचमुं अपादाननामा कारक तथा जे ज्ञानरूपगुणनुं नाजन जे आत्मानामे इव्य तेज आधार ठे एम जाणवुं; ए ठहुं आधारनामा कारक कहुं ए ज्ञान आश्री ठ कारक कह्या, एमज सर्व बीजा धर्मो आश्री जाणी जेवुं. ॥ ५५६ ॥

ते पुण पनरस जेआ, तिढातिढाय सिद्धनेएणं ॥

तड इथीणं सिद्धिं, ए खमइ खवणो अजिणिवेसी ॥ १५७ ॥

व्या० ते सिद्धना पंदर जेद कह्याठे, यतः तीर्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, तीर्थकर सिद्ध, अतीर्थकरसिद्ध, स्वयंबुद्धिसिद्ध, प्रत्येकबुद्धिसिद्ध, बुद्धबोधितसिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंगसिद्ध, नपुंसकलिंगसिद्ध, स्वलिंगसिद्ध, अन्यलिंगसिद्ध, गृहलिंगसिद्ध, एकसिद्ध, तथा अनेकसिद्ध. हवे एनो अर्थे करेठे तीर्थ एटले जे चतुर्विध संघ, अथवा प्रथम गणधर उत्पन्न थया पठी जे सिद्ध थया ते तीर्थसिद्ध; तीर्थनी उत्प

ति यथा पहेला अथवा तीर्थनो विभेद यथा पढी जे सिद्ध यथा ते अतीर्थसिद्ध, तीर्थकरपदवी जोगवीने जे सिद्ध यथा ते तीर्थकरसिद्ध; सामान्य केवली ठतां जे सिद्ध यथा ते अतीर्थकरसिद्ध, बाह्य कारण दीताविना जे पोतेज जातिस्मरणा दिकथी प्रतिबोध पामीने सिद्ध यथा ते स्वयंबुद्धिसिद्ध; प्रत्येक बाह्य कारण वृषनादि देखी प्रतिबोध पामीने जे सिद्ध यथाते ते प्रत्येकबुद्धिसिद्ध, बुद्धजे गुर्वादिकथकी बोध पामीने सिद्ध यथा ते बुद्धबोधितसिद्ध, स्त्रीलिंगना त्रण प्रकार ठे. वेद, शरीरनिवृत्ति, तथा पथ्य, ए त्रणमां अत्रे शरीरनिवृत्तिनो अधि कार लेवो. वेद तथा पथ्यनो अधिकार नथी. केमके, ए बे प्रकार मोहना अंग नथी माटे शरीरेकरी वर्तमान ठतां जे सिद्ध यथा ते स्त्रीलिंगसिद्ध; पुरुष शरीरे करी वर्तमान ठतां जे सिद्ध यथा ते पुरुषलिंगसिद्ध; नपुंसकलिंगे करी वर्तमान ठतां जे सिद्ध यथा ते नपुंसकलिंगसिद्ध; रजोहरणादिकस्वलिंगनेविषे व्यवस्थित ठतां जे सिद्ध यथा ते स्वलिंगसिद्ध; परिव्राजकादिक चार अन्यलिंगनेविषे जे सिद्ध यथा ते परलिंगसिद्ध; गृहस्थलिंगनेविषे वर्तमान ठतां जे सिद्ध यथा ते गृहस्थलिंगसिद्ध; जे एकला सिद्ध यथा ते एकसिद्ध; अने जे अनेकनी साथे सिद्ध थाय ते अनेकसिद्ध कहेवायठे. ए पंदर जेदमांना स्त्रीलिंगसिद्धने अग्निनिवेशने वश यथा थका दिगंबरीओ मानता नथी. ॥ १५७ ॥

तस्मिन्मयथीसिद्धा, जे पुर्विं चैव स्त्रीणथीवेत्था ॥

एवं पुरिस एणुंसा, थी पक्काएण एणो सिद्धी ॥१५८ ॥

चरणविरहेण हीण, तणेण पाव पयडीण बाहुल्ला ॥

मणपगरिसविरहाठ, संघयणाजावठ चैव ॥ १५९ ॥

व्या० ते दिगंबरीओनुं आहुं मत ठे के, स्त्रीलिंगसिद्ध तो कहिये के जो पूर्वे स्त्रीवेदनो क्य करी अने पढी बने वेदनो क्य करी सिद्ध यतां होय; तेमज न पुंसकसिद्ध पण तो मानिये के जो प्रथम नपुंसकवेदनो तथा पढी बने वेदनो क्य करी सिद्ध यतां होय; शरीरे करितो पुरुषज सिद्ध थायठे; परंतु स्त्रीना पयाये करी सिद्धताने पमातुं नथी. केमके स्त्रीने चारित्र होतुं नथी. चारित्र जे ठे ते शुद्धोपयोगरूप आचेलक्यमूलगुणमयठे; अने स्त्रीतो अचेलक थायज नही. तथा पुरुष थकी स्त्रीहीन होवाथी पण तेने सिद्धतानो संभव नथी. नपुंसकत्व तथा स्त्रीत्व महापापे करीने अर्जायठे, एम पापप्रकृतिनी बाहुव्यताने लीधे पण स्त्रीने

મુક્તિ થાય નહીં. તથા જેમ સ્ત્રીને સાતમી નરક પૃથ્વીએ જવાયોગ્ય તીવ્ર અશુભ મનપરિણામ થતા નથી; તેમ મુક્તિ પામવાયોગ્ય તીવ્ર શુભમનપરિણામ પણ સ્ત્રીને થતા નથી. માટે સ્ત્રી સિદ્ધ થાયજ નહીં. અને સાતમી નરકપૃથ્વીએ સ્ત્રીથી જવાતું નથી, માટે તેને વજ્રરૂપનનારાચ સંઘયણ નહીં હોવાથી પણ સ્ત્રીને મુક્તિનો સંજવ નથી. ॥ ૧૫૮ ॥ ૧૫૯ ॥

एवी दिगंबरीओनी युक्तिने ग्रंथकर्त्ता दूषण दियेठे:-

तमिन्ना वेयखत्र, सररीरणिवत्ति णियमणियउत्ति ॥

चरणविरहाइआ पुण, सवे तुह होइआो सिद्धा ॥ १६० ॥

व्या० दिगंबरीओ स्त्रीसिद्धादिकना प्रसिद्ध अर्थने सूकीने जे अन्य अर्थ करेठे ते संजवित नथी. केमके, जेने स्त्रीवेदादिकनो पूर्वेज क्य ठे, एवा नपुंसकादिक शरीरेकरी वर्त्ततां श्रेणी करे तेनेविषे ठे, माटे “ वीसणपुंसगवेया ” इत्यादिक स्वशास्त्रवचन समर्थवाने अर्थे ए कल्पना केवल कदाग्रहरूप जणायठे; जो एम कहिये के, उदीर्णा वेदनोज पूर्वे क्य करवो तो तेनेविषे પણ शास्त्रोक्त व्यवस्था संजवे नही. शास्त्रोमां तो एम कह्युंठे के, जो पुरुष श्रेणिनो आरंज करे तो तेणे पूर्वे नपुंसकवेदनो क्य करवो, पढी स्त्रीवेदनो, पढी हास्यादिक ठ प्रकृतिनो, अने पढी पुरुषवेदना त्रण खंम करी तेमांना बे खंमनो एकवार क्य करवो, अने त्रीजो खंम संज्वलन क्रोध मान स्वपाववो. जो स्त्रीए रूपकश्रेणिनो आरंज करवो होय तो तेणे पूर्वे नपुंसक वेदनो क्य करवो, पढी पुरुष वेदनो, पढी हास्यादिक ठ प्रकृतिनो अने ठेवट स्त्रीवेदनो क्य करवो जोये. अने जो नपुंसके रूपक श्रेणीनो आरंज करवो होय तो तेणे पूर्वे स्त्रीवेदनो क्य करवो, पढी पुरुषवेदनो, पढी हास्यादिक ठ प्रकृतिनो, अने सरसेवटे नपुंसकवेदनो क्य करवो जोये इत्यादिक रीति जाणी लेवी. ॥ १६० ॥

अ० स्त्रीलिंगे सिद्ध थवातुं नथी, तेमां चारित्रविरहादिक जे हेतु कहाठे, ते असिद्धठे, एम कहेठे:-

एगंति यमिन्नीणं, दुवत्तं संजमो चिया लज्जा ॥

तासिं चरित्तविरहे, चाउवसो कहं संघो ॥ १६१ ॥

व्या० स्ત્રીને ચારિત્ર ન હોય તેમાં કારણ શું છે? સ્ત્રીનેવિષે જે દુઃશીલાદિક દોષ હોયઠે તે એકાંત નથી; કેમકે, પરમશીલવાન જે સુશીલસાદિક શ્રાવિકાઉ થઈ ઠે તે

उनी जगवंते पोते प्रशंसा करीठे. वला स्त्री जेम केटलाएक पुरुष डुष्टठे तेम पण महारंज महापरिग्रही देखायठे, माटे स्त्रीतुं डुष्टत्व काई एकांते नथी. जो कदेशो के, स्त्रीने लज्जा मटती नथी, माटे चारित्र थाय नही; एम पण न कहेवुं; केमके, नग्नताज चारित्रांग नथी, विधिए करीने धर्मोपकरणोतुं धारण करतां चारित्रनो जंग थतो नथी. जो कदेशो के, स्त्रीतुं शरीर हिंसायतन ठे, माटे तेने हिंसा नथी; एक हेवुं पण असन्यपणानुं ठे. केमके, अशक्यपरिहारस्थलनेविषे हिंसा थाय नही. प्रमा दना योगे हिंसा थाय ठे, प्रमादनुं जे व्यपरोपण तेज हिंसा कहिये. वली जो स्त्रीने चारित्र न मानिये तो चार प्रकारनो संघ केम संजवे? जो वेषधारिणी श्रा विकाज साध्वी कहिये तो चारित्र जाण्याविना जे वेषधारण करवुं ए तो मोटी विटंबना कहेवाय! जो कदेशो के, चारित्रलेश स्त्रीने थाय ठे, तो तेमां अमे प ए ना कहेता नथी, पण जो कदेशो के, स्त्रीने चारित्र मोहनुं कारण थाय नही तो ते कदाग्रह मात्र जाणवुं. केमके, अथ्यवसायविशेषेकरी पुरुषनी पठे स्त्रीने पण चारित्रनो उत्कर्ष होयठे; एमां काई विरोधता नथी. ॥ १६१ ॥

हीणतं पुण माणं, लब्धिनश्चिं बलं च अहिगिच्च ॥

णो पडिकूलमसिद्धं, तिरियणसारम्मि संतम्मि ॥ १६२ ॥

व्या० स्त्रीने जे पुरुषथी हीनपणुं कहुंठे, ते जो विशिष्ट पूर्वज्ञाननी अपेक्षा ए कहिये तो ते प्रतिकूल नथी, किंतु अनुकूलज ठे. केमके, तथाविध ज्ञानविना पण गुरुपरतंत्रताए माषतुषादिक चारित्रना पालणार थयाठे. जो लब्धिनी अपे ह्नाए कहिये तो पण प्रतिकूल नथी, किंतु अनुकूलज ठे, केमके, तथाविध लब्धि विना पण मानुष्यादिक कृतकृत्य थयाठे; जो रुद्धिनी अपेक्षाए कहिये तो पण प्रतिकूल नथी किंतु अनुकूलज ठे. अन्यथा तीर्थकरादिकनी अपेक्षाए अमहर्दिक गणधरादिक ठे, तेने मुक्तिनो संजव केम थाय? स्त्री पुरुषने अवंद्य ठे, माटे ते चारित्र रुद्धिए करी हीन होवी जोये, एवी आशंका पण न करवी, अन्यथा शि ष्यादिक आचार्यादिकने अवंद्य ठे, तेपण चारित्ररुद्धिए करी हीन होवा जोये, जो बलनी अपेक्षा कहिये तो तेपण प्रतिकूल नथी, किंतु अनुकूलज ठे, केमके, स्त्री करतां निर्बल जे पंगुप्रमुख ते पण अथ्यवसायविशेषे मुक्ति पामेठे, जो कदेशो के, हीनबलने विशिष्टादिरूप चारित्र केम थाय! एमपण न कहेवुं, केमके, चारि त्र ते यथाशक्ति आचरणारूप ठे; माटे ते स्त्रीने पण संजवे ठे, उक्तंच “ वादिवि

कुर्वणत्वादिलब्धिविरहे श्रुते कनीयसि च जिनकल्पमनःपर्ययविरहेपि न सिद्ध
विरहोस्ती ” एणेकरी अनुपस्थाप्यपाराचिंतक प्रायचित्तना अनुपदेशथी स्त्रीने प
ए हीनपणुंठे, ए असंबद्ध जाणवुं, केमके, योग्यतानी अपेक्षाए शास्त्रनेविषे वि
चित्रतपनो उपदेश ठे. उक्तंच “ संवरनिर्जरारूपो बहुप्रकारस्तपोविधिशास्त्रे
योगचिकित्साविधिरिव कंस्यापि कथंचिदुपकारीति ” ॥ १६२ ॥

पावाणं पयडीणं श्रीणिवत्तीइ बंधजणणीणं ॥

सम्मत्तेणेव पए णो तासिं पावबहुलत्तं ॥ १६३ ॥

व्या० स्त्रीने जे पापनी बाहुल्यता कहीठे, ते वचन पण मिथ्याठे, केमके, जे
वारे स्त्रीपणुं बांध्युं ठे, तेवारे यद्यपि बहुल पापप्रकृति मिथ्यात्वादिरूप ते ठे,
तथापि ते प्रकृति जेवारे तथाजव्यत्वने परिपाके सम्यक्त गुण पामीने ह्य करेठे
तेवारे स्त्रीने पापनी बाहुल्यता नथी. जहांसुधी स्त्रीशरीर होय, तहांसुधी जो तेनां
बंधकारण मिथ्यात्वादिक रहे तो स्त्रीए सम्यक्त पण न पाम्युं जाये. जो कदेशो
के, पुरुषथी तीव्र काम पण अध्यवसाय ठे, माटे नपुंसकनी पठे स्त्री मुक्ति पामे
नही, एम पण न कहेवुं. केमके, तीव्र काम पण अध्यवसाय विशेष पामे ठे ;
माटे ते मुक्तिनेविषे विघ्नकारक नही होवाथी ए हेतु अप्रयोजक जाणवो अन्यथा
स्त्री मुक्ति पामे. केमके, ते नपुंसकथी हीनकामठे, माटे तेने पुरुषनी पठे जाण
वी. ए हेतु पण अत्रे लागु थायठे. ॥ १६३ ॥

एय तासिं मए विरिञ्चं असुहं च सुहं विणेव उक्किट्टं ॥

तारिसणियमाप्तावा तेण हउं चरमहेऊवि ॥ १६४ ॥

व्या० जो कदेशोके, जेम सातमी नरक पृथ्वीए जवायोग्य स्त्रीने अशुंज म
नोवीर्य नथी, माटे तेने मुक्तिनेविषे जवानो पण तथाविध मनोवीर्य थाय नही.
एम कहेवुं नही. केमके, एवो नियम नथी, के, जेटलो अधोगति जवानो अध्यव
साय थाय तेटलो ज ऊर्ध्वगति जवानो अध्यवसाय थाय. केमके, जुजपरी सर्प
बीजी पृथ्वीसुधी उत्कर्षथी अधोगतिए जायठे, पक्षी त्रीजी पृथ्वीसुधी जायठे.
चतुष्पद चोथी पृथ्वीसुधी जायठे. उरग पांचमी पृथ्वीसुधी जायठे. स्त्री ठठी
नरक पृथ्वीसुधी जायठे; पुरुष अने महु सातमी नरक पृथ्वीसुधी जायठे,
ए स्त्री तथा पुरुषविना बीजा पूर्वोक्त सर्वे प्राणीओ उत्कर्षथी सहश्रार
आठमां देवलोकसुधी उर्ध्वगमन करेठे. एवी रीते यद्यपि स्त्री सातमी नरक

पृथ्वीसुधी जती नथी, तथापि तेने मोहसुखनी प्राप्ति थायठे एमां कोई विरोध नथी. केटलाएक कहेठे के, अधोगतिने परमोत्कर्ष होयठे, ते एकांतताथी संजवे नही. केमके, जेवी कारणनी उत्कर्षता होय, तेवीज कार्यनी उत्कर्षता कहेवा यठे; एवो नियमठे परंतु एथी अन्य कोइ नियम नथी. स्त्रीनेविषे जो युद्धादिक महारंजरूप कारणनो संजव होय, तो सातमी नरक पृथ्वीसुधी जवाय; तेवुं कोई कारण नही होवाने जीधे स्त्रीयकी त्यांसुधी जवातुं नथी, किंतु ठवीसुधीज जवायठे; अने पुरुष तथा मत्स्यनेविषे तेवां कारण होवाथी तेओथी सातमी नर क पृथ्वीसुधी जवायठे. एवी रीते अधोगतिनेविषे जबासारू पुरुष अने स्त्रीना कारणोनी विलक्षणता होवाथी सरखुं गमन थतुं नथी, परंतु ऊर्ध्वगतिनेविषे जबासारू बन्नेनां कारणो सरखां होवाथी सरखुं गमन थवानो अवश्य संजव ठे. जेम पुरुषनेविषे शीलादिक गुणरूप ऊर्ध्वगमननां कारण होयठे तेम स्त्रीनेविषे पण होयठे. ए हेतुथीज स्त्रीने वज्ररुषजनाराचसंघयणनो संजव ठे. एम न मानवामां कोई युक्ति नथी. ए प्रकारे स्त्रीना निर्वाणना निरोधनेविषे दिगंबरिओ ना हेतुनो निषेध कथ्यो; हवे स्त्रीनो निर्वाण थवामां अनुमान कहेठे:—हरेक वस्तुना अनुमानमां पद्द, साध्य, हेतु तथा दृष्टांत ए चार प्रकार होयठे. एटले ए चार पदार्थोए करी सिद्ध थएली वस्तुने अनुमित कहेठे; अने एचार पदार्थोए करी सिद्ध थवा योग्य वस्तुने अनुमेय कहेठे. जेम के, अग्नियुक्त पर्वत सिद्ध कर वो होय, ते अनुमेय कहेवायठे; अने एज पद्द कहेवायठे. अनुमान करती वखते “पर्वतमपह्नीकृत्य, वन्दिमत्वंसाध्यते, धूमत्वात् इतिहेतुः, पाकगृहवत्, यत्रयत्रधूमः तत्रतत्र वन्दिः” पर्वतनो पद्द करीने तेने अग्नियुक्त सिद्ध करेठे; एमां हेतु पर्वतउपर नीकलतुं धूमाडुं ठे, जेम रसोई करवाना गृहमां अग्नि होवा थी धूमाडुं नीकलेठे, केमके, ज्यां ज्यां धूमाडुं होय त्यां त्यां अग्नि होयठे, ए दृष्टांत ठे. तेम “कांचित्स्त्रीव्यक्तिं पद्दकृत्य, मोह्नाविकलकारणता साध्यते, दीह्नाधिकारत्वात्, पुरुषवत्, येये दीह्नाधिकारिणः ते ते मोह्नाविकलकारिणः” कोईए क स्त्रीनी व्यक्तीने पद्दय करीने तेने मोह्ना अविकलकारणवंत सिद्ध करेठे; एमां दीह्नानो अधिकार हेतु ठे; अने पुरुषजातिनी पठे ए दृष्टांत ठे, केमके जे जे दीह्नानो अधिकारी होय ते ते मोह्ना अविकलकारणवंत होयठे: ॥ १६४ ॥

कीबस्स कप्पिअस्स व इत्थिए कप्पिआइ सिद्धी वि ॥ ए
विणा विसिठ चरिअं तासिं तु विसिठकम्मखत्तं ॥ १६५ ॥
पावं तह इत्थित्तं एय पुष्पफलाण केवलीण हवे ॥ परमा
सुइच्चूआणं एय परमोरात्थित्तं देहो ॥ १६६ ॥

व्या० कोई आशंका करे के, जेम जातिनपुंसकने मुक्ति थाय नहीं, तेम स्त्रीने पण मुक्ति थती नथी. एम ठतां जो कहेशो के, जेम कृत्रिमनपुंसकने मुक्ति थायठे तेम विद्याप्रयोगादिकेकरी युक्त स्त्रीने मुक्ति थायठे; तो तेम पण न संजवे; के मके, स्त्रीने विशिष्टक्रियानुष्ठान होतुं नथी; विशिष्टक्रियानुष्ठानविना विशिष्टकर्म नो क्हय थाय नहीं. अने विशिष्ट कर्मनो क्हय थयाविना मुक्ति थती नथी. तथा स्त्रीपणुं जे ठे ते पापप्रकृतिरूप नदीनुं ऊरणुं ठे; ते पुण्यरूप सुरतरुना केवलज्ञानरूपफलने सेवन करनारा केवलीनेविषे केम संजवे! अर्थात् पापप्रकृतिरूपस्त्रीने केवल ज्ञान संजवे नहीं. तथा स्त्री परम अशुचि ठे, तेने परमोदारिक शरीर पण संजवे नहीं. केवलीनुं शरीर तो परमोदारिक होयठे. तेवुं तो स्त्रीनुं शरीर कहेवाय नहीं, माटे स्त्रीने केवल ज्ञान केम संजवे? ॥ १६५ ॥ १६६ ॥

अ० ए आशंकाने युक्तिवडे दूषित करेठे:-

एय मयुत्तं जम्हा विचित्तजावा विचित्तकम्मखत्तं ॥ ए
य इत्थित्तं प्रावं जिणाण पाए एण ङ्घित्ति ॥ १६७ ॥

व्या० स्त्रीने क्रियाविशिष्टविना विशिष्ट निर्जरा न थाय, एम जे वादिए क्हयुं ते अयुक्त ठे. केमके, जावविशेषे फलविशेषठे. क्रियाविशेषविना जावविशेष न थाय; एमां एकांतता नथी. केमके, जो शक्तिनो निग्रह करीने क्रिया करिये तो ज जावनी हानि थायठे, अन्यथा जावनी हानि थती नथी. तथास्त्री पणुं पापरूप ठे, एमां पण एकांतता नथी, केमके, सम्यक्तना बलथी मिथ्यात्वादिक पाप नो क्हय थायठे. एम पूर्वकही आव्या ठैये: घणुंकरीने तीर्थकरनेविषे स्त्रीपणुं नथी होतुं, एटले बहुधा स्त्री तीर्थकर थती दीठामां आवती नथी तेथी स्त्रीपणुं पापरूप ठे एम जो कहिये तो विप्रत्वादिक पण तेवांज कहेवा जोये केमके, बहुधा तीर्थकरनेविषे विप्रत्वादिकनो पण अजाव होयठे; अर्थात् घणुंकरीने कृत्रियादिक तीर्थकर थएला दीठामां आवेठे. तेथी शुं विप्रादिकने मोहनो संजव न

थी. अने परमौदारिक शरीरनो तो पूर्वेज निषेध कखोढे, माटे ते होय के न होय तेनी शास्त्राहू चर्चा करवी ! ॥ १६७ ॥

इय इढीणं सिद्धी सिद्धा सिद्धंतमूलजुत्तीहिं ॥ ईअं
असद्वहंता चिकणकम्मा मुणेअवा ॥ १६८ ॥

व्या० एवी रीते सिद्धंतमूलजुक्तिउए करीने स्त्रीने मुक्ति थायढे एवुं सिद्ध कखुं तेम ठतां जे हतेकरीने ए अर्थनी सद्वहणा करता नथी, ते चिकणा कर्मवाजा जाणवा. एवा प्रकारे स्त्रीनेविषे मुक्तिनी व्यवस्थापन कखार्थी सिद्धना पंदर चेदनी व्यवस्था थई तेथी सप्रसंग सर्व सिद्धनुं स्वरूप कखुं. सिद्धस्वरूपना वर्णनथी परम नावाध्यात्मनुं निरूपण थयुं अने नावाध्यात्मना निरूपणथी ग्रंथार्थ पूर्ण थयो. १६८

अ० हवे ग्रंथार्थनुं परम रहस्य कहेढे:-

इयं परमरहस्यं एसो अक्षय्यकणकसवट्टो ॥ एसा
य परा आणा संयमजोगेसु जो जत्तो ॥ १६९ ॥

व्या० संयमयोगनो जे उद्यम करवो, तेज सर्व शास्त्रना नयविस्तार जाणवानुं फल ठे; अने एज परम रहस्यनूत ठे. यतः “सवेसिं पिण थाणं, बहुविहवत्तव यंणि सामित्ता; तं सवणयविसुद्धं, जं चरणगुणठिउं साहू.” इत्यावश्यकदौ. तथा आश्रवो नवहेतुःस्यात् संवरो मोहकारणं; इतीयमार्हती मुष्टि, रदनस्याप्रपंचनम्; एनो अर्थः- प्राणातिपातादिक जे आश्रव ठे, ते संसारनुं कारणढे. प्राणातिपातादिकथकी विरमवारूप जे संवर ते मोहनुं कारण ठे; ए परमार्थने विस्तारेकरी जाणवासाहूज सर्व शास्त्र ठे. माटे जेणे ए अर्थ जाण्यो ठे ते परमार्थताथी सर्व शास्त्रज्ञ ठे एम जाणवुं. अतएव उपशम विवेक संवर ए पदनो अर्थ जाणीने चि जातीपुत्रे निजअर्थ साथ्यो. तथा संयमयोगनो जे उद्यम करवो तेज अध्यात्मरूप सोनानी कसोटी ठे; जेम कसोटीए करी सोनानी परीक्षा थायढे, तेम क्रियानुष्ठाने करी अध्यात्मनी परीक्षा थायढे. ते अध्यात्मेकरी जे विशुद्धि थायढे, ते बाह्यकारणनुं आलस्य करे नही. यतः “संयमयोगेसु सथा, जे पुण संत विरिआ विसी यंति; कहते विसुद्धचरणा, बाहिरकरणालसा हुंति.” इत्यावश्यके. तथा एज श्री वीतरागनी परमआज्ञा ठे के, संयमयोगनेविषे यत्न करवो. जेणे ए यत्न कखो, तेणे चैत्य कुल गणादिक सर्वनुं कार्य कखुं, एम जाणवुं. यतः “चेइअ कुल गण संघे, आयरिआणं च पवयणसुए अ; सवेसु वि तेण कयं, तव संयममुक्कम्मंतो

अ० कोईक कहेरो के, ज्यां सुधी जीवने नव्यत्वनो संदेह होय त्यांसुधी चारि
त्रनेविषे ते केम प्रवृत्ते ? केमके, अनव्य अनेक क्रियाकरे तेथी तेने कष्टमात्र थाय
परंतु परमार्थथी तेने कोई फलनी प्राप्ति थती नथी, एनुं समाधान करेढे:-

आसन्नसिद्धिआणं जीवाणं लस्कणं इमं चेव ॥

तेण ए पवित्तिरोहो नवाजवत्तसंकाए ॥ १७० ॥

व्या० जे जीव थोडा नवे मुक्ति पामनार होय तेनुं एज लक्षणेके के, ते विष
यनेविषे वैराग्य धारण करीने धर्ममां प्रवृत्ते. यतः “आसन्नकालजवसि, द्विअस्स
जीवस्स लस्कणं इणमो ; विसयसुहेसु ए रज्जइ, सब्बामेण उज्ज, मई.” इत्युपदेशमा
लायां. माटे चारित्रनेविषे प्रवृत्ति थाय, त्यारे जीवे पोताने आसन्नसिद्धकपणुं जा
एयंकहेवाय, पढी ते नव्यानव्यत्वनी शंकाएकरी शुनप्रवृत्तिनो बाधक केम थाय ?
किंतु साधकज थाय. अने हुं नव्यहुं के अनव्यहुं ? एवी जेने शंका उत्पन्न थायढे,
ते जीव निश्चये करीने नव्यज जाएवो. यतः “अनव्यस्यहि नव्य नव्यत्वशंकाया
अजावादित्याचारांगटीकायां.” ए आशंका तो उलटी चारित्रप्रवृत्तिनो अंग ठे ;
माटे तेथी कांइ बाधा थती नथी. ॥ १७० ॥

अ० केटलाएक परवादी एम कहेढे के, मोहोपायनेविषे प्रवृत्ति वैराग्यथीज
थायढे, ते वैराग्य अचुक्तनोगनेविषे संजवेढे ; माटे जोगजोगव्या पढी तेनो त्याग
करीने जो योगमां प्रवृत्ति करिये तो ते सुखथी थई शकेढे ; एम कहेनाराने शिद्धा
ने अर्थे कहेढे:-

जो पुण जोए जोतुं इहोइ ततो अ संयमं काठं ॥ ज

लणम्मि पज्जलित्ता इहइ पढा सणिच्चाठं ॥ १७१ ॥

व्या० जे पुरुष जोग जागवीने पढी संयम पालवानी इहा करेढे, ते इहा प्र
थम अग्निमां पद्मी बलीने पढी शीतलता पामवानी पठे ठे. केमके, जोग जोग
व्याथी तेनी इहा मटती नथी ; किंतु अधिक थायढे. यतः “नजातु कामः का
माना, मुपजोगेन शाम्यति ; हविषा क्लवत्तमे व, पुनरेव प्रवर्द्धते. ” जे सुख जी
व जोगवेढे, ते सुख यद्यपि अनंतवार जोगवाई गया ठे ; तथापि मोहनीयक
र्मना दोषने लीधे एम जासेढे के, में ए सुख पूर्वे कोई समयनेविषे जोगव्यां नथी
यतः “पत्ता य कामजोगा, कालमणंतं इहं स उवजोगो ; अपुवं पिव मन्नई, त
हविय जीवो मणे सुकं” इत्युपदेशमालायां. ॥ १७१ ॥

अ० बली नोगनेविषे प्रवृत्ति करतां एवो संदेह रहेवे के रखेने नोगनो नाश थई जाय; ते योग्य ठे, केमके, नोग स्थिर नथी, किंतु अस्थिर ठे. अथवा नो ग नोगवतां आयुष्यनो अंत आवी जाय तो पण नोग नोगवाता नथी. एवा नोग नोगववानेविषे प्रवृत्ति यतां अविरति जीवने प्रतिहृणे कर्मबंध थायठे. ए मां रंचमात्र संशय नथी. माटे जे विवेकी पुरुष ठे ते स्वप्ननेविषे पण नोगनेविषे प्रवृत्तिनी अनिलाषा करता नथी. इवो उपदेश करेठे. ॥ १७१ ॥

कोवा जिअवीसासो विङ्गुलया चंचलम्मि आउम्मि ॥

सज्जो णिरुज्जमो जइ जराजिज्जूठं कहं होही ॥ १७२ ॥

व्या० हे जीव, तने जीवितव्यनो शो विश्वास ठे? केमके, जेम विजलीनी ल ता इटले जात्कार कृणजंगुर ठे, एटले कृणमा देखाय ठे ने कृणमां नाश थई जायठे, तेम जीवितव्य इककृणमां प्रत्यह देखातो ठतां कोई रोगादिकना उद यथी बीजी कृणमां नाश थतां वार लागती नथी. माटे ज्यांसुधी शरीर निरोगी ठे त्यांसुधी जो तूं धर्मकार्य करीश तो करी शकीश. ॥ १७२ ॥

अ० कोई कहेशे के, जो जीव रोगेकरीने ग्रसेलो होय, अथवा कायबलेकरी हीण थएलो होय, ते चारित्र मार्गनेविषे केम प्रवृत्ति करी शके, तेने उत्तर दियेठे

देहबलं जइ ण दहू तहवि मणोधिइबलेण जइअवं ॥

तिसिठं पत्ताजावे करेण किं णो जलं पिबई ॥ १७३ ॥

व्या० जो रोगादिके करी शरीर निर्बल थई गयुं होय तो मनबुद्ध्यादिकना ब ले करीने योग धारण करवो. जेम पुरुषने ज्यारे तृषा लागेठे त्यारे तेनीपासे जो पा णी पीवानुं पात्र न होय तो हाथेकरी पाणी पीएठे; पण तरस्यो रहेतो नथी. तेम तथाविध कालबल न ठतां पण जेने मोहनी अनिलाषा होय तेणे मनोब लेकरी योगमार्गनेविषे प्रवृत्ति करवी. ॥ १७३ ॥

अ० जे पुरुष बलना समयनी शोचनाएकरी बजरहितसमयमां नविष्यका ल उपर नरोसो राखी आलस करीने बेशी रहे ते अति दुःख पामेठे; एम कहेठे.

बलकालसोअणाए अलसा चिंठति जे अकयपुत्रा ॥

ते पञ्चिता वि लहु सोइंति सुहं अपावंता ॥ १७४ ॥

जह णाम कोइ पुरिसो ण धनह्णा णिइणो वि उज्जमई ॥

मोहाइ यण्णए सो पुण सोएइ अप्पाणं ॥ १७५ ॥

व्या० जे पुरुष एवी शोचना करे के, हमणा मारामां बल नथी, माटे आगल धर्माचरण करीश. अथवा हमणा मारो अवसर नथी, माटे आगल जतां धर्माचरण करीश. एम जाणीने आलस करी बेशी रहे ते अकृतपुण्य थका आगल घणी प्रार्थना कख्याथी पण पुण्यविना सुखने पामे नही, त्यारे घणो शोच करेठे. जेम कोइ निर्धन पुरुष प्रथम आलस करीने धन अर्जवानो उद्यमन करे ने पढी ठाली इहा करीने धनविना दुःखने पामेठे त्यारे पोताना आत्मानेविषे घणोज शोच करेठे. माटे प्राप्त थएलो धर्म मूकीने आगल धर्मप्रार्थना करीये तो ठाली प्रार्थना कहेवाय. यतः “लद्धिद्धिअं च बोहिं, अकिरंतो एगयंगपञ्चित्तो; आणंदाइं बोहिं, लप्पसि कयरेण मुद्धेण.” ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ अ० कोई कहेजे के, पापनी निंदाथीज पाप टलेठे, त्यारे विशेष अनुष्ठान करवानुं कारण शुं? एविषे कहेठे:-

जो पावं गरहंतो तं चेव णिसेवए पुणो पावं ॥ तस्स

गरहा वि मिहा अतहकारो हि मिहत्तं ॥ १७६ ॥

व्या० जे पाप करी मिहामि डुकडं दर्शने फरी पाप करे तेनी पापनिंदा मिथ्या ठे. केमके, जेवुं बोलिए तेवुं जो पालिए नही तो तेज मिथ्यात्व ठे. यतः “जो जह वायण कुणई, मिहदिठी तउदुको अन्नो; वट्टेइ अमिहत्तं, परस्स संकं जणे माणे.” इत्युपदेशमालायां. हवे मिहामि डुकडं ए शब्दो अर्थ कहेठे:-मि कहेतां कायाथी तथा जावथी मृडु अइ, हा कहेता असंयमरूप दोषनुं अहादन करीने, मि कहेता चारित्रनी मर्यादामां रह्यो थको, ड कहेतां डुकृत कार्यनो करनार जे आत्मा तेने हुं निंडुं, क कहेता में जे पाप कख्यांठे, तेनुं डं कहेतां उपशम पामी ने उल्लंघन करुं. एवो अर्थ जाणीने मिहामि डुकडं दीधा पढी फरी पाप न करुं, ते पापनी साची निंदा कहेवायठे. तेम न करता पढी जे पाप करवुं तेथी तो उलटुं माया मृषावादादि पाप लागेठे. यतः “जं डुकडंति मिहा । तं चेव णिसेवए पुणो पावं, पञ्चस्कमुसावाइ, मायानिवडी पसंगोअ” इति ॥ १७६ ॥

अ० ए कारण माटे चारित्र लईने जो ते सारा जावथी पालिए तोज तेथी महाफलनी प्राप्ति थायठे, अन्यथा आजीविकाने अर्थ चारित्र लीधा करतां गृह स्थधर्मज सारो ठे एम कहेठे.

चुअधम्माठं मुणियो सुदुअरं किर सुसावगत्त पि ॥ प

डिअं पि फलं सेयं तरुपडणानं एअंपि ॥ १७७ ॥

व्या० वेषधारी चारित्ररहित जे सु श्रावक ठे, ते अरिहंतनी पूजा करे, सुसा धुनी सेवा करे, दृढाचारीपणुं पाले, इत्यादिक धर्माचरण करेठे, अने जे चारित्र वेष धारी होय ते गृही धर्म तथा यतिधर्म ए बन्नेथी चष्ट थायठे. उक्तंच “उक्तीव णिकायदया, विवक्किउणेव दिक्किउ ए गिही; जइधम्माउं चुक्को, चुक्कइ गिहदाण धम्माउं; इत्युपदेशमालायां. वेषधारी चारित्रियाने मूलगुणविना तपथी पण ते वुं फल अतुं नथी. उक्तंच “महव्वय अणुच्चयाइ, उ डेउं जो तवं चरइआणं, सो अन्नाणी मूढो, नावावुड्डो मुणेअवो.” माटे केवल वेषधारी करतां गृही धर्म सारो ठे. दृष्टांतः— फलनी अजिलाषाथी वृक्ष उपर चढी, फल मेलव्यावि ना पडी न जतां ते फल मेलवाई शकाय तो सारुं, पण जो फलनी प्राप्ति न थ तां नीचे पडी जवाय तो उजटुं शरीरने लागे तेथी दुःखनी प्राप्ति थाय. तेना क रतां वृक्षनी नीचे बेसीनेज पडेवुं फल ग्रहण करिये ते सारुं ॥ १७७ ॥

संयमयोगे अप्पु, विअस्स संचत्तबल्लजोगस्स ॥ ए प
रेण किंचि कळं आयसहावेण चिअस्स ॥ १७८ ॥

व्या० संयमना योगे जे आनंद थायठे ते केवल आत्मस्वप्नावनेविषेज अव स्थित ठे. तेने परवुं शुं काम ठे ! माटे जेने चारित्त परिणम्युं होय, तेणे सर्व प रप्रतिबंध मूकीने आत्मइव्यमात्रना प्रतिबंधे प्रवर्तवुं ॥ १७८ ॥ अ० एक आत्म इव्यमात्रनेविषे प्रवर्त्याथी बीजाने उपदेश केम देवाणे, एविषे कहेठे.

संविग्गो गीयन्तो बोहेउ परंपराइ करुणाए ॥ अन्नो
पुण तुसणीउ पुवं बोहेउ अप्पाणं ॥ १७९ ॥

व्या० जे महानुजावी संवेगी गीतार्थ होयठे, ते पोते तो कृतकृत्य होयठे, प रंतु बीजानी उपर परम करुणाए करीने तेने प्रतिबोध करे तो तेथीते महाफलदाई ठे. परंतु जे एवो न होय तेणे बीजाने उपदेश करवानुं मांकीवालीने प्रथम पोताना आत्मानेज बोध करवो जोयेठे. जे पोते प्रतिबोध पाम्या विना बीजाने प्रतिबोध करेठे ते केवल नाटकीअानी पठे नाटक करी देखाऊनारोठे एम जाणवुं. ॥ १७९ ॥

अ० एवी रीते ज्यारे परप्रतिबंध सारो नथी, किंतु एकाकीपणुंज सारुं ठे, माटे गह्व पण प्रतिबंधरूपज ठे, एम जे जाणेठे तेनो संदेह मटाडवाने अर्थे कहेठे
दवेण जो अप्पेगो गठे सो जावउ हवे एगो ॥ एगागी
गीउच्चिय कयाइ दवेअ जावेअ ॥ १८० ॥

व्या० गह्रमां ठतां इव्यथी जे अनेकता थायठे, तेज नावथी एकता थायठे. अ न्यथा गुर्वाज्ञादिक अंकुशविना चित्तरूप हस्ति संसाररूप वनमां फरतां एकत्व नाव नारूप वेलीतुं उन्मूलन करी नाखे. अतएव जगवंते “एकस्स अञ्जि धम्मो” इत्या दिक प्रबंधे करी एकाकी विहारनो निषेध कखोठे. श्रीदशवैकालिक सूत्रनेविषे प ए आम कखुंठे “नया लजिज्ञा निउणं सयायं गुणाहि अं वा गुणउं समंवा; इक्कोवि पावाइ विवज्जयंतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो. आ गायामां आम कखुंठे के, ज्यारे पोतायकी अधिक गुणवालो अथवा समान गुणवालो मले नही, त्यारे एकाकी विहार करवो, ते गीतार्थे आश्री जाणवुं. केमके, ते पापने वर्जीने कामनेविषे असंग करेठे माटे तेने एम कखुंठे. अने अगीतार्थे तो गीतार्थेनी निश्राविना पाप वर्जी शके नही. तेम कामासंगपण बाली शके नही. अतएव “गीयञ्जो अ विहारो, बीउं गीयञ्ज मीसिउं जणिउं ॥ इत्तो तइय वि हारो, नाणुंन्राउं जिणवरेहिं” ए गायामां खुजीरीते अगीतार्थेने एकाकी वि हारनो निषेध कखोठे. माटे गह्रमां रही, गुरुकुलवास सेवी, शुजादिकनो अन्या स करी, अने साधुसंग ठतां पण अंतरंग निर्लेप रहीने जो अध्यात्मनावना जाविये तो परमानंदनी प्राप्ति थायठे. ॥ १८० ॥

किं बहुणा इह जह जह रागदोसा जहुं विलज्जंति ॥ त

ह तह पयट्ठिअवं एसा आणा जिणंदाणं ॥ १८१ ॥

व्या० घणु शुं कहिये, जेजे प्रकारे रागदोष विलय थाय तेवी रीते प्रवर्तवुं. ए ज श्रीवीतरागदेवनी आज्ञा ठे. ॥ १८१ ॥

अश्लप्पमयपरिक्का एसा जुत्तीहिं पूरिया जुत्ता ॥ सोहिं

तु पसायपरा तं गीयञ्जा विसेस विऊ ॥ १८२ ॥

व्या० आ अध्यात्ममतपरीक्षा युक्तिएकरी पूरी कीधी, तद्रूप जे आ ग्रंथ ठे, तेनुं विशेषज्ञ जेगीतार्थे ठे ते मजउपर रूपा करीने शोधन करी ए विज्ञापनाठे. १८२

शार्दूलविक्रीडितं वृत्तं ॥ यस्यासन् गुरवोऽत्र जीतवीजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाज्ञया चार्जते सनयानयादि विजयप्राज्ञाश्च विद्याप्रदाः ॥ क्लृप्त्वा यस्यच सद्य पद्म विज यो जातः सुधीः सोदरः सोयं तत्त्वमिदं यशोविजयइत्याख्याचूदाख्यातवान् ॥ १ ॥

इति पंमित यशोविजयजी उपाध्यायकृत श्री अ

ध्यात्ममतपरीक्षाग्रंथो बालावबोधसहितः समाप्तः